



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16—फरवरी 22, 2008 (माघ 27, 1929)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2008 (MAGHA 27, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110 069, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. ए-19011/1/2003-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के
दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 के का.ज्ञा.सं. 21/1/2003-स्था. अधि. (एम.
एम-1) के उनके कालपूर्व प्रत्यावर्तन के अनुरोध को स्वीकार करने के
परिणामस्वरूप श्री ए. के. दाश (भा. डा. से. : 84) जो संयुक्त सचिव, सं.
लो.से.आ. (निदेशक स्तर) के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और
वर्तमान में 8.1.2007 से टी ई आर आई स्कूल ऑफ एड्वान्स्ड स्टडीज, नई
दिल्ली से लोक नीति एवं धारणीय विकास (2007—2009) में द्वितीय
स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहे हैं, को तारीख 14.1.2008 के पूर्वा. से आयोग
कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है। उन्हें अपने मूल विभाग, अर्थात्
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग, नई दिल्ली में ड्यूटी
के लिए रिपोर्ट करने के लिए निदेश दिया जाता है।

एस. बी. सरोहा
उप सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110 069, दिनांक 4 जनवरी 2008

सं. ए-19011/3/2005-प्रशा.-I--मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति
सचिवालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 जनवरी, 2008 के
आदेश सं. 7/1/2008-ई.ओ.(एस.एम.-I) के अनुसरण में, संघ लोक
सेवा आयोग, श्री सुरेन्द्र पाल गोड़, भा.प्र.से. (उ.प्र. : 74) को 2 जनवरी,
2008 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक, भारत सरकार के सचिव के रैंक
तथा वेतन में, आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त करता है।

डा. ए. एस. खान
संयुक्त सचिव (प्रशा.)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. डीपी/पर्स.1/2008/0029/3/41/2005--भारत के राष्ट्रपति ने निदेशक,
के.अ. ब्यूरो के रूप में श्री विजय शंकर, भा.पु. सेवा (उत्तर प्रदेश : 1969)
को 31.7.2008 अर्थात् सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की तारीख तक बने रहने
का अनुमोदन कर दिया है।

राजेंद्र मिश्रा
उप-निदेशक (प्रशासन)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. 01/6/004-प्रशासन/2789--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2007 के आदेश संख्या 4/4/2007-सी.एस.-I द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में श्री आर. सी. अरोड़ा को तदर्थ आधार पर नियुक्ति तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में तैनाती किए जाने पर, आयोग में एतद्द्वारा उप सचिव के पद पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 07.01.2008 (अपराह) से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

सतविंदर सिंह

अवर सचिव (प्रशासन)

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयोग

दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 11/1/07-प्रशासन/2843--सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एतद्द्वारा आयोग में निजी सहायक श्री पी. बालासुब्रामनियन को निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में दिनांक 25.1.2008 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

सतविंदर सिंह

अवर सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 22 जनवरी 2008

सं. ओ-दो-3751/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. वीरेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्साधिकारी (इरला-7244), ग्रुप केन्द्र, सी.एच. गांधीनगर के.रि.पु. बल को संबंधित सी.एच., गांधीनगर की नफरी से दिनांक 4.12.2007 (पूर्वाह) से निकाला जाता है। तदनुसार इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 4.12.2007 (पूर्वाह) से निकाला जाता है। तदनुसार इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 4.12.2007 (पूर्वाह) से हटाया गया है।

रणजीत सिंह

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 25 जनवरी 2008

सं. ई-16015(2)/2/2007/कार्मिक.-I/15--राष्ट्रपति, के.औसुब के निम्नलिखित उप कमांडेंट को 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में कमांडेंट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	मनोहर लाल चौहान	मुम्बई एयरपोर्ट	12.12.2007 (अपराह)

1	2	3	4
2.	श्रीमति वी. खामो	निशा हैदराबाद (यून मिशन कोसोवो)	14.12.2007
3.	प्रफुल्ल कुमार नन्दा	पश्चिमी खण्ड मुख्यालय, मुम्बई	24.12.2007
4.	प्रकाश कुमार	एच.ई.पी. उड़ी	26.12.2007 (अपराह)
5.	बलबीर सिंह	डीईई मुख्यालय, हैदराबाद	24.12.2007 (अपराह)
6.	श्रीमति हर्षीत कौर	आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली	14.12.2007
7.	एस नेदुनचेलियन	समूह मुख्यालय, अहमदाबाद	31.12.2007
8.	के आर विश्वनाथन	ऑयल दुलियाँजान	14.12.2007
9.	जय प्रकाश पाण्डेय	समूह मुख्यालय, हैदराबाद	14.01.2008
10.	अर्जुन सिंह	सीसीएल, राँची	04.01.2008 (अपराह)
11.	दिग्विजय कुमार सिंह	द्वितीय आरक्षित वाहिनी, दिल्ली	31.12.2007
12.	पी रमन	वीएसएससी, थुम्बा	28.12.2007 (अपराह)
13.	हरीश चन्द्र लाम्बा	एचटीपीपी, कासिमपुर	24.12.2007

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

सं. ई-16015/एन.एस.जी./05/कार्मिक-2/पी.एफ./220--राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard) में पांच साल के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर ग्रुप कमांडर (जी.डी.) [Group Commander (GD)] के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप, श्रीमति शिखा गुप्ता ने दिनांक 31.12.2007 (अपराह) से वरिष्ठ कमांडेंट, के.औसुब इकाई, जी.बी.एस., नई दिल्ली का पदभार छोड़ दिया है तथा दिनांक 01.01.2008 (पूर्वाह) से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard) नई दिल्ली में ग्रुप कमांडर (जी.डी.) [Group Commander (GD)] के पद का पदभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

सं. ई-28017/1/नोटि/2008/कार्मिक-2/226--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48-ए के अधीन सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति के फलस्वरूप, श्री सी.पी. कुण्डू ने दिनांक 10.1.2008 (पूर्वाह) से सहायक कमांडेंट (फायर), के.औसुब मुख्यालय, नई दिल्ली के पद का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. ई-38015(7)/वीकेति/2007/कार्मिक-1/20--राष्ट्रपति, के.औसुब इकाई आई.जी. मिन्ट हैदराबाद के उप कमाण्डेंट, श्री विवेक कुमार तिवारी का त्याग-पत्र दिनांक 14 जनवरी 2008 (अपराह) से स्वीकार करते हैं।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

सं. ई-32015(4)/2/एसीजीडी/2006/कार्मिक-1/24--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा-1994 के अनुसार श्री अनिल कुमार (समूह क) को दिनांक 01.01.2007 से केओसुब में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त करते हैं, उनकी यह नियुक्ति श्री सत्य प्रकाश एवं अन्य द्वारा सीएसई परीक्षा 94 व 96 के आधार पर उन्हें केओसुब आर्बिट्रिट किए जाने के विरुद्ध दायर की गई सिविल अपील संख्या 2003 की 7004 सहित 2003 की 5505-5507 तथा अवमानना याचिका (सी) संख्या 2007 की 13 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7.9.2007 के निर्णय आदेश के अनुपालन में की गई है। अधिकारी की तैनाती दिनांक 01.10.2007 से केओसुब द्वितीय आरक्षित वाहिनी, महिपालपुर, दिल्ली में की गई है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

वित्त मंत्रालय

बैंक नोट मुद्रणालय

(भारत प्रतिभूति तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

देवास, दिनांक 29 जनवरी 2008

सं. बीएनपी/सी/44/98-I--श्री के. के. पंडित को अधिसूचना दिनांक 31.10.2007 के द्वारा दी गई तदर्थ पदोन्नति की अवधि उन्हीं शर्तों पर दिनांक 26.01.2008 से 25.10.2008 तक बढ़ाई जाती है।

डी. व्ही. गोंडाले
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 29 जनवरी 2008

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-261--महानिदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के श्री राजन गुप्ता, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को दिनांक 21.1.2008 (पूर्व.) से लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर रुपए 7,500-250-12,000 के वेतनमान में आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय
उप-निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700 001, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. डब्ल्यू.एम.-I/क्यू.-55(जी)/खंड-II/2796-2799--महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I जो अभी हुगली रीवर ब्रिज कमिश्नर कोलकाता के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में उनके कनिष्ठ जैसा ठीक नीचे दर्शाया गया है के वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से प्रोफॉर्मा पदोन्नति मंजूर की जाती है।

व्यक्ति का नाम जिसे प्रोफॉर्मा पदोन्नति मंजूर की गई है	ठीक निचले कनिष्ठ का नाम
श्री अमल कान्ती साहा	श्री दिव्येन्दु दासगुप्त

“ठीक निचला नियम” के तहत पदोन्नति की मंजूरी के पहले की सभी शर्तें इस मामले में पूर्ण हैं और ऐसी घोषित की गई है कि श्री अमल कान्ती साहा द्वारा धारण किए गए पद जो कि अभी प्रतिनियुक्ति पर हैं वह साधारण सेवा के लाइन से बाहर हैं।

पदोन्नति होने पर, उनका वेतन एफ.आर.22 I (ए)(i) के तहत निर्धारित किया जाएगा जिसके लिए वे अपना विकल्प इस कार्यालय आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीना के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं।

ह./- अपठनीय
उप महालेखाकार (लेखा एवं वी.एल.सी.)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, केन्द्रीय, कोलकाता

कोलकाता-1, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. गोपनीय/सी/538/2008/316(18)--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता निम्न लेखापरीक्षा अधिकारियों को वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थायी और स्थानापन्न के रूप में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में 01.01.2008 (पूर्वाह) या उस तिथि से जिस तिथि को वे वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	नाम	अनुभाग/स्कंध
	श्री/श्रीमती	
1.	सुजय घटक	ओ ए डी
2.	सुनिर्मल भौमिक	आई टी आर ए
3.	सुदीप दत्ता	आई टी आर ए
4.	पांचू गोपाल घोष	हकदारी/पेंशन

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा सं. 1.10.89 स्था (वेतन-I) दिनांक 30.8.89 यथा समय संशोधित के अंतर्गत एफ आर 22(I)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनकी पारस्परिक वरीयता प्रशासन द्वारा बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह./- अपठनीय
उपा निदेशक/प्रशासन

सं. गोपनीय/सी/470-II/2008/317(19)--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता निम्न सहा. लेखापरीक्षा अधिकारियों को लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थायी और स्थानापन्न रूप में रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में 01.01.2008 (पूर्वाह) या उस तिथि से जिस

तिथि को वे लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	अनुभाग
श्री/श्रीमती		
1.	सुनल कुमार जतुआ	आई टी आर ए
2.	अमिताभ चौधुरी	आर ए ओ/के ओ पी टी
3.	स्वाती दत्ता	आई टी आर ए
4.	काजल चक्रवर्ती	आई टी आर ए
5.	पेरला सतीश कुमार	सी ई आर ए
6.	दिब्येन्दु सामंत	ओ ए डी
7.	पिजुश कांति भट्टाचार्या	सी ई आर ए
8.	कमलेश खांता	आई टी आर ए

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने समूह अधिकारी को कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

उनका भविष्य में शाखा कार्यालय ए एन आई/पोर्ट ब्लेयर में स्थानान्तरण किया जाएगा। पदस्थापन आदेश एवं नियत तिथि बाद में आएगी।

वे, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा. सं. 1.10.89 स्था (वेतन-1) दिनांक 30.8.89 यथा समय संशोधित के अंतर्गत एफ आर 22(1)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनकी पारस्परिक वरीयता बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह./- अपठनीय
उप-निदेशक/प्रशासन

प्रमुख महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय, उड़ीसा
भुवनेश्वर, दिनांक 24 जनवरी 2008

सं. प्रशा.1(लेप)-17-2/(व. लेपअ)/भाग-VI/2204 ज्ञापन सं. प्रशा.1 (लेप)/17-2(व.लेपअ)/भाग-IV/1974—दिनांक 31.12.2007 द्वारा सूचित का. आ.ग.1006, दिनांक 31.12.2007 के अनुपालन में निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- पर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1	2	3
1.	गोलक बिहारी पंडा	01.01.2008 (पूर्वाह)
2.	श्रीचरण रथ	01.01.2008 (पूर्वाह)
3.	राम चंद्र सामंता	01.01.2008 (पूर्वाह)
4.	के सोमासेखर राव	01.01.2008 (पूर्वाह)
5.	भी जगन्नाथ स्वामी	01.01.2008 (पूर्वाह)
6.	अच्चयुत्तानंद लेंका	01.01.2008 (पूर्वाह)

1	2	3
7.	नुसिंघ चरन राऊत	01.01.2008 (पूर्वाह)
8.	प्रफुल चंद्र कर	01.01.2008 (पूर्वाह)
9.	कमल कृष्ण मिश्रा	01.01.2008 (पूर्वाह)
10.	निरझरेंदु घोष	01.01.2008 (पूर्वाह)
11.	गौर मोहन महांति	01.01.2008 (पूर्वाह)
12.	नारायण बेहेरा-II	01.01.2008 (पूर्वाह)
13.	घनश्याम पाणिग्रहि	01.01.2008 (पूर्वाह)
14.	जलधर सेठी	01.01.2008 (पूर्वाह)
15.	प्रसन्ना कुमार पट्टनायक	01.01.2008 (पूर्वाह)
16.	लोकनाथ बेहेरा-II	01.01.2008 (पूर्वाह)

त्रिलोचन आचार्य
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

दिनांक 25 जनवरी 2008

सं. प्रशा.1(लेप)-3-1-1/भाग-VI/2211 ज्ञापन सं. प्रशा.1 (लेप)/3-1-1/भाग-VI/1976—दिनांक 31.12.2007 द्वारा सूचित का.आ.ग. 1007, दिनांक 31.12.2007 के अनुपालन में निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/- पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1	2	3
1.	प्रियदर्शन कानूनगो	01.01.2008 (पूर्वाह)
2.	प्रभात कुमार दास	01.01.2008 (पूर्वाह)
3.	श्रीमती स्वाति पाणिग्रहि	01.01.2008 (पूर्वाह)
4.	सुदाम चरन पंडा	01.01.2008 (पूर्वाह)
5.	करुणाकर महाराणा	01.01.2008 (पूर्वाह)
6.	जशोबंत साहु	01.01.2008 (पूर्वाह)
7.	रंकनाथ मलिक	01.01.2008 (पूर्वाह)
8.	बिंभुति भूसन राय	01.01.2008 (पूर्वाह)
9.	रबीनारायन महापात्र	01.01.2008 (पूर्वाह)
10.	रमाकांत साहु	01.01.2008 (पूर्वाह)

त्रिलोचन आचार्य
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 25 जनवरी 2008

सं. प्रशासन-I-गोप-4-स.ले.अ./1114--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उड़ीसा निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (लेखा) को उनके सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक लेखा अधिकारी पद (ग्रुप-ख-राजपत्रित) 7,450-225-11,500/- रुपए के वेतनमान पर सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

1.	श्री अशोक कुमार पाणिग्राही	दिनांक 1.1.2008 (पूर्वाह)
2.	श्री रमाकान्त नायक	दिनांक 1.1.2008 (पूर्वाह)
3.	श्री पिताम्बर साहु	दिनांक 1.1.2008 (पूर्वाह)
4.	श्री मोहन चरण बेदान्त	दिनांक 1.1.2008 (पूर्वाह)
5.	श्री पिताम्बर रथ	दिनांक 1.1.2008 (पूर्वाह)

सहायक लेखा अधिकारी वर्ग में की गई पदोन्नति उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामलों के अंतिम निर्णय तथा उनके वरिष्ठों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पर आधारित है।

दिनांक 1.1.2008 के का.आ.ग. 556 की अन्य सर्तवली यथावत बनी रहेगी।

शरत चन्द्र साहु

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 25 जनवरी 2008

सं. का.स्था(रोकड़)/पेन/10-2/2007-2008--प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल, तिरुवनन्तपुरम के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

क्र. सं.	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख	अभ्युक्तियाँ
1.	श्री बी. वल्लभदास व.ले.प. अधिकारी	31.12.2007	अधिवार्षिकी

पी. उणिक्कृष्णन

उप महालेखाकार (प्रशासन)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171 004, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 5/1/2007-सी.पी.आई.--दिसम्बर, 2007 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 134 (एक सौ चौतीस) अंक के स्तर पर स्थिर रहा।

आर. के. गुप्ता
संयुक्त निदेशक

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. ए 19011/466/2008.स्था. ए.पी.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री आर. जेड. मेहर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एम.ई.) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में से दि. 11.1.2008 (पूर्वाह) से सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

कृते महानियंत्रक

सं. ए 19011/467/2008.स्था. ए.पी.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एन. सुब्रमण्यम, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एम.ई.) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में से दि. 18.1.2008 (पूर्वाह) से सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

कृते महानियंत्रक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248 001, दिनांक 28 जनवरी 2008

सं. सी-31/913-एच (ए)--निम्नलिखित हिन्दी अनुवादक (वरिष्ठ) को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक निदेशक (राजभाषा) (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नति किया जाता है :--

नाम	पदोन्नति की तिथि
कु. इरा रानी	10.01.2008
	आर. एस. तैवर ब्रिगेडियर भारत के महासर्वेक्षक

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

फिल्म प्रभाग

मुम्बई-400 026, दिनांक 23 जनवरी 2008

सं. ए-32014/8/2006-स्थापना-I--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी, श्री ए. आर. शेख, अधीक्षक, फिल्म प्रभाग, मुम्बई, को पदोन्नति के आधार पर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग 'ख' राजपत्रित के पद पर रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में उसी कार्यालय में दिनांक 14 जनवरी, 2008 (पूर्वाह) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

टी. टी. फर्नांडिस

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

कृते मुख्य निर्माता

सं. ए-32014/8/2006-स्थापना-I--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी, श्रीमती भानुमती व्ही. नार्वेकर, अधीक्षक, फिल्म प्रभाग, मुम्बई, को पदोन्नति के आधार पर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग 'ख' राजपत्रित के पद पर रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में उसी कार्यालय में दिनांक 14 जनवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

टी. टी. फर्नांडिस
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कृते मुख्य निर्माता

दिनांक 24 जनवरी 2008

सं. ए-32014/1/2007-स्थापना-I--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी, श्री के. वेणुगोपाल, शाखा प्रबन्धक, फिल्म प्रभाग, तिरुवनंतपुरम, को पदोन्नति के आधार पर, वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, वर्ग 'ख' राजपत्रित के पद पर रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में उसी कार्यालय में दिनांक 15 जनवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

टी. टी. फर्नांडिस
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कृते मुख्य निर्माता

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400 085, दिनांक 24 जनवरी 2008

सं. पीडी/2(3)/2007-भर्ती-IV/775--राष्ट्रपति, डा. पावसकर अलोक सुरेश को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'सी' के पद पर रु. 8,000-275-13,500+एन.पी.ए. के वेतनमान में 24 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. जी. मार्कंडेय
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400 001, दिनांक 10 जनवरी 2008

सं. 21/3(2)/2007-सीसीएस/01--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री आर. पसुपती, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000-13,500), विकिरण प्रौद्योगिकी आयसोटोप बोर्ड, मुम्बई को दिनांक 17.12.2007 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक सामान्य सेवा संगठन, भापअकेन्द्र, तारापुर में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000-15,200) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

मुम्बई-400 001, दिनांक 16 जनवरी 2008

सं. 6(2300)/2000/प्रशा./84--राष्ट्रपति, श्री व्ही. पी. राजा, आईएएस (एम एच : 74), अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को दिनांक 2 जनवरी

2008 के अपराह्न से उनके वर्तमान पद में भारत सरकार के सचिव के वेतन में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी
अवर सचिव

क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400 094, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/292--निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, ने श्रीमती एम एस भांगे, क्रय सहायक (वेतनमान रुपए 5,000-150-8,000), केंद्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुम्बई को सहायक क्रय अधिकारी के पद पर रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 27 दिसम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश होने तक उसी एकक में नियुक्त किया है।

एस. कृष्णन
प्रशासन अधिकारी-III

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुम्बई-400 705, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. ब्रिट/9/18/28--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में श्री देवराज ग्लोरिमेटिल्डा महेश को दिनांक 1 सितम्बर 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी' के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500 062, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. नाईस/प्रशा./पें/का. कू. 1762/1749--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री अजय कुमार सिन्हा, वैज्ञानिक अधिकारी/ई' (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500) ने दिनांक 31.12.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का. कू. 0709/1750--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री पी. सत्यनारायणा रेड्डी, वैज्ञानिक अधिकारी/एफ' (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300) ने दिनांक 30.11.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का. कू. 0222/1751--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री पी. सी. शिवदासन, वैज्ञानिक अधिकारी/एफ' (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300) ने दिनांक 30.11.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पें/का. कू. 0514/1752--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री एस. राम मूर्ति, वैज्ञानिक अधिकारी/एफ' (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300) ने दिनांक 31.12.2007 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. एस. मूर्ति
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय
हैदराबाद-500 016, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. पखनि-4/2/2007-भर्ती/09--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर को दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में उनके सामने वर्णित ग्रेड में (उसी के नीचे दर्शाए वेतनमान में) स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड/वेतनमान	धारित स्थाई पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	विनय कुमार झा	वैज्ञा. अधि.-सी	वैज्ञा. अधि.-डी रु. 10,000-325-15,200	ग्रुप-सी (तकनी.)	2.11.2007

डॉ. अंजन चाकी
निदेशक

निर्माण महानिदेशालय
कार्यालय मुख्य वास्तुक (नई दिल्ली क्षेत्र)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 27/310/1988-मु.वा.(न.दि.क्षे.)/स्थापना/189-196--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप श्रीमती गायत्री देवी शर्मा, तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दिनांक 31.01.2008 के अपराह्न से भारत सरकार की सेवाओं से सेवानिवृत्त होती है।

विजय प्रकाश राव
मुख्य वास्तुक (नई दिल्ली क्षेत्र) के सम्पर्क अधिकारी

सं. 27/275/1988-मु.वा.(न.दि.क्षे.)/स्थापना/197-207--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप श्रीमती सुरिन्दर कौर पानेसर, तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,

दिनांक 31.01.2008 के अपराह्न से भारत सरकार की सेवाओं से सेवानिवृत्त होती है।

विजय प्रकाश राव
मुख्य वास्तुक (नई दिल्ली क्षेत्र) के सम्पर्क अधिकारी

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 21 जनवरी 2008

सं. ए-32013/9/2006-ई-II--राष्ट्रपति, महोदय, श्री राजेन्द्र प्रसाद, उड़नयोग्यता अधिकारी को 28.12.2007 (पूर्वाह्न) से एवं अगले आदेशों तक नियमित आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में वरिष्ठ उड़नयोग्यता अधिकारी के ग्रेड में महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

मीना शर्मा
उपनिदेशक प्रशासन

सं. ए-39012/2/2007-ई-II--राष्ट्रपति महोदय, नागर विमानन विभाग के श्री एस. पोन्नुराई, वरिष्ठ उड़नयोग्यता अधिकारी के सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिनांक 26.10.2007 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें दिनांक 26.10.2007 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

मीना शर्मा
उपनिदेशक प्रशासन

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

अहमदाबाद-380 013, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560(5) के अंतर्गत निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

सं. आरओसी/गुज-जेटीए/एमडी/सुओमोटो/560/07/789--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560(5) के तहत सुओमोटो एक्शन के संबंध में एतद्द्वारा यह नोटिस दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं, एवं निम्न कम्पनियां विधटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनियों की रजिस्टर्ड सं.	कम्पनियों का नाम
1	2	3
1.	04-12156	मैसर्स आर्डन फार्माकेम प्राईवेट लिमिटेड
2.	04-12070	मैसर्स एन्जल पोलीसेक प्राईवेट लिमिटेड
3.	04-12238	मैसर्स पारस जिमखाना प्राईवेट लिमिटेड
4.	04-12073	मैसर्स गिरीराज पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
5.	04-12214	मैसर्स मनीफोल्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
6.	04-18441	मैसर्स स्वागत मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	04-13363	मैसर्स फाईव फ्रेन्ड्स लीजिंग एण्ड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
8.	04-13366	मैसर्स धरमपुर प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	04-13368	मैसर्स सिग्मा टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	04-13369	मैसर्स सोनल जिमखाना प्राईवेट लिमिटेड
11.	04-13325	मैसर्स स्वस्तिक जेम्स कटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	04-33178	मैसर्स पुरषोत्तम सीड्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	04-15241	मैसर्स वडाला फैशन प्राईवेट लिमिटेड

14	04-15824	अमरदीप जीमखाना प्रा. लि.
15	04-15580	तुर्काना केमिकल्स प्रा. लि.
16	04-15628	मारुतिकृपा कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
17	04-12008	शीतल कोम्प्लेक्सीस प्रा. लि.
18	04-12036	दोस्ताना जीमखाना प्रा. लि.
19	04-12061	अंकलेश्वर पोलीप्रोडक्टस प्रा. लि.
20	04-12075	सर्जक मर्कन्टाइल एण्ड फायनेस प्रा. लि.
21	04-12085	इन्टरलीक डेटा सिस्टम्स प्रा. लि.
22	04-12022	सपोर्ट सर्वीसीस प्रा. लि.
23	04-12019	पावन जीमखाना प्रा. लि.
24	04-12942	श्रीजी दाल एण्ड बेसन मिल्स प्रा. लि.
25	04-12164	मोदी बंसल एण्ड सेठ एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
26	04-12163	हमानिका एग्रो प्रोडक्टस प्रा. लि.
27	04-12159	किनोटैक्स इंजिनियर्स प्रा. लि.
28	04-12187	मोना मार्केटींग प्रा. लि.
29	04-12157	पटेल शूज प्रा. लि.
30	04-12131	जेएनटी कन्स्ट्रक्शन एण्ड फायनेस प्रा. लि.
31	04-25112	नोवीस लीडिंग एण्ड फायनेस प्रा. लि.
32	04-25117	रुची स्पायसीस एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
33	04-25101	राजा ट्रेडिंग एण्ड व्हीकल फायनेस प्रा. लि.
34	04-25262	मीडवेस्ट सिक्युरिटीज प्रा. लि.
35	04-25288	बोम्बे टेक्स-इंजी-मशीनरी प्रा. लि.
36	04-25345	श्री रियल्टी प्रा. लि.
37	04-25347	वर्ल वेल्थुएबल्स ट्रेडिंग प्रा. लि.
38	04-25006	जीसान फीनस्टोक सर्वीसीज प्रा. लि.
39	04-25024	वन्डर केम प्रा. लि.
40	04-25302	गुड फोरेस्ट प्लान्टेशन प्रा. लि.
41	04-25413	मधुदेव एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
42	04-25411	गुरुकृपा गेस सर्वीसीज प्रा. लि.
43	04-36109	भूमि प्रिन्टींग एण्ड पेकेजिंग प्रा. लि.

44	04-36210	भावनगर पावर प्रा. लि.
45	04-36219	आसरपोटा कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
46	04-36248	मेसकोट इन्फोसीज प्रा. लि.
47	04-36240	एस्ट्रोन सोफ्टवेयर एण्ड सर्वे प्रा. लि.
48	04-36156	मीत मोटर्स प्रा. लि.
49	04-36167	भोमियाजी एन्टरप्राइस प्रा. लि.
50	04-36170	महिमा पेट्रीफीड प्रा. लि.
51	04-36172	मा अेक्युव्यु एसेस मार्केटींग प्रा. लि.
52	04-36231	एकोर्ड टेलीकोम प्रा. लि.
53	04-36223	गणेश प्रोटीन्स प्रा. लि.
54	04-36221	डायनामीक मर्केन्टाइल सर्वीसीज प्रा. लि.
55	04-36088	ब्लीस इन्फोटेक प्रा. लि.
56	04-36077	देवीयानी प्रोसेसर्स प्रा. लि.
57	04-36079	पुशान एग्रो प्रा. लि.
58	04-36802	वेन्च्युरा फिल्मस प्रा. लि.
59	04-36817	जयदयाल गेसीस प्रा. लि.
60	04-36639	लिक इन्डिया इन्फोटेक सर्वीसीज प्रा. लि.
61	04-36672	एल्चीमार्स आईसीएम फार्मा प्रा. लि.
62	04-36677	पूजा बायो क्लीनीकल रीसर्च (इन्डिया) प्रा. लि.
63	04-36706	जीवनधारा मार्केटींग सर्वीसीज प्रा. लि.
64	04-36767	एम. ए. एम. एजन्सीज प्रा. लि.
65	04-36709	प्रोमान्स एकेडेमी एण्ड मल्टीमिडीया एज्युकेशन प्रा. लि.
66	04-36976	इन्टरफेस इन्डिया प्रा. लि.
67	04-36986	एराईझ मार्केटींग प्रा. लि.
68	04-37040	एसवीएस स्टील्स प्रा. लि.
69	04-37089	अर्थ इन्फोनेट प्रा. लि.
70	04-36854	आयुर-आल्या संस्थान प्रा. लि.
71	04-36872	मजारा ट्रेडिंग प्रा. लि.
72	04-36890	नोवा ब्रेवरीज प्रा. लि.

73	04-36892	वांसदा डेवलोपर्स प्रा. लि.
74	04-36834	एडनेट एडवर्टाईजिंग प्रा. लि.
75	04-36844	फेनील प्लास्ट एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
76	04-36848	हीना एक्स्ट्रुशन्स प्रा. लि.
77	04-11200	नवरत्न डायमण्ड व्यापार प्रा. लि.
78	04-11213	इलेक्ट्रो सर्क्रीट्स प्रा. लि.
79	04-11193	युनिवर्सल दीप वेली पम्पस प्रा. लि.
80	04-11238	कक्कड डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
81	04-11245	बिन्दु ग्राफिक कन्सल्टन्स प्रा. लि.
82	04-11257	पोपट जेसा कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
83	04-11290	आशिष स्पनटैक्स प्रा. लि.
84	04-36235	एस्ट्रोन इन्फोसीस प्रा. लि.
85	04-35677	संस्कृति प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
86	04-35656	श्वेता अेक्झीबीटर्स प्रा. लि.
87	04-35731	विकास टेक्स प्रिन्ट इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
88	04-35696	पूनम पोल्ट्रीफार्म प्रा. लि.
89	04-35408	टचवुड कन्सप्ट मार्केटींग प्रा. लि.
90	04-32957	पावन डाइंग एण्ड प्रिन्टींग प्रा. लि.
91	04-32740	वृंदावन रेस्टोरन्ट प्रा. लि.
92	04-35964	न्युट्रोन रेमीडीज़ प्रा. लि.
93	04-34779	श्री मारुतिनंदन प्लास्टक्स प्रा. लि.
94	04-34788	जयको कोटन इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
95	04-35840	एसक्वायर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
96	04-35780	जेनीसीस इन्फोटेक प्रा. लि.
97	04-35758	एकोर्ड मेरीटाईम एजन्सीज प्रा. लि.
98	04-35754	श्री गंध्याक्षा एग्रो फुड्स प्रा. लि.
99	04-33711	आरती पोलीप्लास्ट प्रा. लि.
100	04-33870	आर.बी. दवे इलेक्ट्रीकल्स एण्ड इंजीनीयरिंग प्रा. लि.
101	04-34127	त्रिशूल कन्सल्टन्सी सर्वीसीज प्रा. लि.

102	04-34025	महाशक्ति टेक्सटाईल्स मिल्स प्रा. लि.
103	04-34035	राज रीयल डीस्काउन्ट कार्ड सर्वीसीज प्रा. लि.
104	04-33382	शांति इन्टरमिडीयेट्स प्रा. लि.
105	04-33332	पार्थ वायोटेक प्रा. लि.
106	04-34538	प्लाय अप मार्केटिंग प्रा. लि.
107	04-32410	श्री राधाकृष्ण लीडिंग एण्ड फायनेस प्रा. लि.
108	04-33595	निर्मल ओईल मिल्स प्रा. लि.
109	04-33556	पर्ल ट्युब्स प्रा. लि.
110	04-33605	नोबल सोफ्टवेयर प्रा. लि.
111	04-36032	अजनबी केमिकल एण्ड फार्मा प्रा. लि.
112	04-35889	ताज गार्मेन्ट्स प्रा. लि.
113	04-35874	मिलन सोप्स प्रा. लि.
114	04-35991	मरीन केमिकल्स प्रा. लि.
115	04-35998	लक्ष्मी जेम्स प्रा. लि.
116	04-35994	श्री महर्षि कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
117	04-35864	भाग्योदय टूर्स एन ट्रावेल्स प्रा. लि.
118	04-36428	सुपर फास्ट एक्सप्रेस (कुरियर्स) प्रा. लि.
119	04-36055	पान आयुर्वेदिक प्रा. लि.
120	04-36020	फ्लेमींगो कुरियर सर्वीसीज प्रा. लि.
121	04-36034	नमो अरिहंत अेक्झीम प्रा. लि.
122	04-24787	राधिका डवल्लोपर्स प्रा. लि.
123	04-26609	एकता एक्वीटी प्रा. लि.
124	04-26632	वक्र फुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
125	04-26586	ट्रायो ओडियो पेलेस प्रा. लि.
126	04-26190	इम्प्लस सिक्युरिटीज एण्ड फायनेस प्रा. लि.
127	04-26127	नीसु फीनलीझ प्रा. लि.
128	04-26062	केरवेल फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
129	04-24527	राठोर फायनेस एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लि.
130	04-24509	बालाजी ट्रान्सट्रेड प्रा. लि.

131	04-24845	निरवी शीपींग एण्ड एलाइड सर्वीसीज प्रा. लि.
132	04-24867	कन्साई गुजरात केमिकल्स प्रा. लि.
133	04-24806	शुभम मिल्स एण्ड फुडस प्रा. लि.
134	04-24740	सहयोग ओक्सिजन प्रा. लि.
135	04-36049	सिल्वर कोईन प्रोपर्टीज प्रा. लि.
136	04-36017	नील होटेल्स प्रा. लि.
137	04-33615	केयुर कन्वर्टर्स प्रा. लि.
138	04-34084	डायमंड कन्झ्युम युटीलीटी सर्वीसीज प्रा. लि.
139	04-33447	राहुल ओवरसीज प्रा. लि.
140	04-33311	गुरुकृपा मार्केटींग प्रा. लि.
141	04-34054	सियेरा शिपींग प्रा. लि.
142	04-33888	अरोरा इन्फर्मेशन टेकनोलोजी प्रा. लि.
143	04-33834	वडोदरा गार्डलाईन इन्फोनेट सर्वीसीज प्रा. लि.
144	04-24014	श्री सदगुरु स्टील्स प्रा. लि.
145	04-24058	एकता डाइंग एण्ड प्रिन्टींग मिल्स प्रा. लि.
146	04-23910	बी टेक्स टाईल्स प्रा. लि.
147	04-25725	भाटिया ट्रावेल्स प्रा. लि.
148	04-25869	सदगुरु टी प्रा. लि.
149	04-25910	जेनीथ टावर प्रा. लि.
150	04-25942	प्रेमिला फार्मस प्रा. लि.
151	04-17735	तपकेश्वर जीमखाना प्रा. लि.
152	04-17912	शीतल फोर्जींग प्रा. लि.
153	04-17916	एक्स्टोल वोच फेक्टरी प्रा. लि.
154	04-17945	डायमन्ड बल्ब प्रा. लि.
155	04-17955	सत्या मशीन टुल्स प्रा. लि.
156	04-17884	विदीमा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
157	04-18281	एस्ट्रेलीनइक्वीपमेन्टस प्रा. लि.
158	04-18257	आशिष सिन्टेक्स प्रा. लि.
159	04-18057	गोपा पेइन्टस एण्ड एलाइड प्रोडक्टस प्रा. लि.

160	04-18131	रीवा बिल्डर्स प्रा. लि.
161	04-18078	एक्युरेट कोपर एलोइड प्रा. लि.
162	04-17869	रघुवीर प्लास्टीक्स प्रा. लि.
163	04-17780	बरोडा फीटिंग्स प्रा. लि.
164	04-17816	रीयल एन्ड प्योर ट्रेडलीक्स प्रा. लि.
165	04-17821	गुलाबदास प्रिन्टर्स प्रा. लि.
166	04-17831	केप्टेइन केमिकल्स प्रा. लि.
167	04-17841	रेइनबो प्रिन्टर्स प्रा. लि.
168	04-24216	मौलाना एकवा कल्चर प्रा. लि.
169	04-24362	आल्पीन एलपीजी बोटलींग प्रा. लि.
170	04-27053	कोर्ड्स केपिटल प्रा. लि.
171	04-25690	नमस्कार बिल्डर्स प्रा. लि.
172	04-16358	खोडियार पाईप्स एन्ड फीटिंग्स प्रा. लि.
173	04-16342	नानकी ट्रान्सपोर्ट्स प्रा. लि.
174	04-14647	एमेडाबाद स्पीनर्स प्रा. लि.
175	04-14346	माणेकचोक जीमखाना प्रा. लि.
176	04-14329	महावीर डवल्लोपर्स प्रा. लि.
177	04-13873	एक्वेलोन सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
178	04-23710	एनडीस मार्केटींग प्रा. लि.
179	04-13670	अमर ग्रेनाईट्स प्रा. लि.
180	04-14165	मनजीस टेक्सटाईल्स प्रा. लि.
181	04-12766	देवराज डवल्लोपर्स प्रा. लि.
182	04-12520	न्यु कर्णावती इंजीनीयरिंग प्रा. लि.
183	04-12312	पद्मावती पेपर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
184	04-13534	इन्द्रेश्वर प्रोसेसर्स प्रा. लि.
185	04-11519	मधु टीन कन्टेनर्स प्रा. लि.
186	04-11527	गुजरात कुरियर सर्विस प्रा. लि.
187	04-11292	पेरागोन डाइज एन्ड इन्टरमीडीएट्स प्रा. लि.
188	04-11371	स्पीका एयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

189	04-11386	श्रीनाथ प्लास्टीक्स प्रा. लि.
190	04-11305	वाघेला एम्पोलीस प्रा. लि.
191	04-11297	अहर्निश टेक्स्युराइझिंग प्रा. लि.
192	04-11335	आइडल बेल्टस प्रा. लि.
193	04-11825	प्लस प्रोडक्टस प्रा. लि.
194	04-11823	आविष्कार इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
195	04-11600	हर्बल बिल्डर्स प्रा. लि.
196	04-11599	स्वास्था ड्रग्स प्रा. लि.
197	04-11623	नर्मदा इन्सेकटीसाइडस प्रा. लि.
198	04-11684	न्यु आवकार (महेसाणा) जीमखाना प्रा. लि.
199	04-11691	वालिया पोलीटेक्स प्रा. लि.
200	04-11703	अंकलेश्वर इन्टरमीडीएटस प्रा. लि.
201	04-11702	गुजरात फायनान्सीयल मेनेजमेन्ट कम्पनी प्रा. लि.
202	04-11906	सनी जीमखाना प्रा. लि.
203	04-11936	इन्टरकीलन मिनरल्स प्रा. लि.
204	04-11945	श्री कार्बोनिक एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
205	04-11922	पल्लव इन्जियर्स प्रा. लि.
206	04-11925	आकार जिप्सम प्रोडक्टस प्रा. लि.
207	04-11947	न्यु केरियर्स (इन्डिया) प्रा. लि.
208	04-10731	भवानी वुडस प्रा. लि.
209	04-10004	पथिक होटेलस प्रा. लि.
210	04-11550	अमी सिन्थेटीक्स एण्ड लुब्रिकान्स प्रा. लि.
211	04-11487	एसटी प्लास्ट (इन्डिया) प्रा. लि.
212	04-11503	तेजस टेक्स्युराइझिंग प्रा. लि.
213	04-11338	सवेरा सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
214	04-11419	गुजरात प्लासमीक इंजिनियरींग प्रा. लि.
215	04-11443	मार्क सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
216	04-11482	बेनर कन्स्ट्रक्शन कन्सल्टन्टस प्रा. लि.
217	04-11765	क्रिष्णा फर्नीचर प्रा. लि.

218	04-11781	पार्थ मर्केन्टाइल एण्ड फायनेस प्रा. लि.
219	04-11828	युनिटी प्रोपर्टीज प्रा. लि.
220	04-11710	रवि केबल्स प्रा. लि.
221	04-11716	आर.के. ओर्गेनाइझर्स एण्ड डवलपर्स प्रा. लि.
222	04-11728	सौराष्ट्रे फुटवेयर प्रा. लि.
223	04-11763	पार्श्वनाथ केमिकल्स प्रा. लि.
224	04-11090	पद्मावती ग्लास प्रोसेसर्स प्रा. लि.
225	04-11077	अनंता एस्टेट्स प्रा. लि.
226	04-11054	सौराष्ट्र सुप्राईसीस प्रा. लि.
227	04-11073	अंकुर प्रोपर्टीज प्रा. लि.
228	04-11072	आसोपालव एपार्टमेन्टस प्रा. लि.
229	04-11071	अभिलाषा एपार्टमेन्टस प्रा. लि.
230	04-11066	राल-टेक स्टील्स प्रा. लि.
231	04-11151	स्पेश्यालीटी वेल्डिंग प्रा. लि.
232	04-11158	पद्मावत्स बिल्डर्स प्रा. लि.
233	04-11165	सत्यम गृहनिर्माण प्रा. लि.
234	04-13176	चिरंजीवी सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
235	04-14345	साईकृपा होटल्स प्रा. लि.
236	04-11137	शोफीरे केमिकल्स प्रा. लि.
237	04-11136	तेजसील(इन्डिया) प्रा. लि.
238	04-11135	ध्रुव प्लास्टीक्स प्रा. लि.
239	04-11102	सुरत ओटोकम्पनी प्रा. लि.
240	04-11119	मंजीरी बोरवेल प्रा. लि.
241	04-11117	सरला होटेल प्रा. लि.
242	04-12504	सेफायर इन्जेक्टस प्रा. लि.
243	04-12700	ऋषि होटेल प्रा. लि.
244	04-22383	एलाइट एल्युमिन्स (इन्डिया) प्रा. लि.
245	04-22435	केमिट्रोन (इन्डिया) प्रा. लि.
246	04-22451	मधु प्रोसेसर्स प्रा. लि.

247	04-11767	श्रीपति कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
248	04-11764	सीयाराम फर्नीचर प्रा. लि.
249	04-11655	गुजरात ओक्स-केमिकल्स प्रा. लि.
250	04-11558	सनराईज टवीस्टींग्स प्रा. लि.
251	04-11563	देव दीप टेक्सटाइल्स प्रा. लि.
252	04-11570	गीतान फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
253	04-20386	सिल्वर ओर्नामेन्ट्स प्रा. लि.
254	04-11981	जेकशन सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
255	04-11898	अभिलाषा मर्केन्टाइल एण्ड फायनेंस प्रा. लि.
256	04-11888	आरबोर केमिकल्स प्रा. लि.
257	04-11881	सीयाराम इलेक्ट्रॉनिक्स (गुजरात) प्रा. लि.
258	04-11846	मोना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
259	04-11862	हरियाणा गुजरात रोड केरियर्स प्रा. लि.
260	04-20956	दत्तात्रेय फाइन केमिकल्स प्रा. लि.
261	04-20617	नेक कल्टीवेट प्रा. लि.
262	04-20653	वेरटेक्स लेबोरेटरीज़ प्रा. लि.
263	04-20399	शांति फायबर्स प्रा. लि.
264	04-20754	सेल्युलोज़ एस्टेट बिल्डर्स प्रा. लि.
265	04-20751	क्रिष्णा टाइल्स प्रा. लि.
266	04-20792	रेक्स डायकेम प्रा. लि.
267	04-20881	लीना इलेक्ट्रीकल्स एण्ड इंजिनियरींग प्रा. लि.
268	04-20891	समवीत केमिकल्स प्रा. लि.
269	04-20944	रोनी प्लास्टीक्स प्रा. लि.
270	04-20957	शत्रुजीत कोम्प्यूटर्स प्रा. लि.
271	04-20408	वीडील ट्रेड प्रा. लि.
272	04-20952	पार्कीन इन्टरमिडियेट्स प्रा. लि.
273	04-20992	मधुरम कास्टींग्स प्रा. लि.
274	04-20984	मानसी डायमण्ड्स प्रा. लि.
275	04-20975	दिव्या ट्रान्स शीपिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.

276	04-20420	सनसाइन गार्मेन्ट्स प्रा. लि.
277	04-20453	सूर्या फीनकेप प्रा. लि.
278	04-20461	सफामा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
279	04-20520	सहजानंद फेब्रीक्स प्रा. लि.
280	04-20511	लेनरकेन टुरीझम डिस्काउन्ट कार्ड प्रा. लि.
281	04-20223	राज एन राज सी फुड्स प्रा. लि.
282	04-20468	सरस्वती फर्नीशिंग वेल्वेट प्रा. लि.
283	04-20380	चंदानी सोशियल क्लब प्रा. लि.
284	04-21349	पोशा केमिकल्स प्रा. लि.
285	04-21566	होटेल सगुन प्लाजा प्रा. लि.
286	04-21775	हिमानी ओईल फिल्ड सर्वीसीज प्रा. लि.
287	04-21968	सवानी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
288	04-21993	विष्णु सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
289	04-21040	कस्तुर ओर्गेनिकल्स प्रा. लि.
290	04-21503	ग्रीन चैनल केपिटल सर्वीसीज प्रा. लि.
291	04-23663	आंबावाडी एपार्टमेन्ट्स प्रा. लि.
292	04-23958	राज अमृत पेट्रोकेमिकल्स प्रा. लि.
293	04-23999	आश कोन्क्रेट ओफ इन्डिया प्रा. लि.
294	04-23185	न्यु जनरेशन एनवेलोप्स प्रा. लि.
295	04-23005	प्रमाणिक टेक्स्टाइल्स प्रा. लि.
296	04-23068	नटराज स्टोक होल्डींग एण्ड फायनेस प्रा. लि.
297	04-23074	गिरीराज ओईल मिल्स प्रा. लि.
298	04-23166	एनालीटीक वर्क ग्रुप प्रा. लि.
299	04-23165	रत्नराज फायनेस प्रा. लि.
300	04-23158	पाटीदार फीनस्टोक प्रा. लि.
301	04-23133	पारीजात इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
302	04-23707	क्रिष्णमूर्ति इन्वेस्टर्स प्रा. लि.
303	04-23753	एसोसीएटेड फीनवेस्ट प्रा. लि.
304	04-23834	यशराज फायनेस प्रा. लि.

305	04-23822	श्वेत ओक्सिजन प्रा. लि.
306	04-23902	अेबिस टेकनोलोजीस प्रा. लि.
307	04-23778	सीफारक्वेस्ट प्रा. लि.
308	04-23408	अस्ताज एक्सपोर्ट एण्ड फायनेस प्रा. लि.
309	04-23406	हुगी फीशरीज (इन्डिया) प्रा. लि.
310	04-23507	निसर्ग फायनेस एण्ड एक्सपोर्ट प्रा. लि.
311	04-23611	वरुण फायबर्स प्रा. लि.
312	04-23617	ओस्ट्रीक फार्मा प्रा. लि.
313	04-23201	महाकाली क्रिएटीव प्रा. लि.
314	04-23183	वंश स्टील प्रा. लि.
315	04-23172	पार्क फेशनीक्यु प्रा. लि.
316	04-23255	पोजा इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
317	04-22231	धारेश्वर ग्रेनाइट्स मार्बल्स एण्ड टाइल्स प्रा. लि.
318	04-22281	मेवाड प्रोटीन्स प्रा. लि.
319	04-22233	वासुकी कोटन प्रोसेस प्रा. लि.
320	04-22320	श्री केजय ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
321	04-22249	डायनामिक कोट्स प्रा. लि.
322	04-22154	दिग्विजय एक्वाकल्चर प्रा. लि.
323	04-22171	कावेरी शीपिंग प्रा. लि.
324	04-22852	सुधा बिजनेस मेनेजमेन्ट सर्वीसीस प्रा. लि.
325	04-22899	सुमीरा मार्केट प्रा. लि.
326	04-22963	एड माईक्रो मार्केटींग प्रा. लि.
327	04-22843	तेज मार्केटींग एण्ड फीनस्टोक प्रा. लि.
328	04-22013	मानव फायनेस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
329	04-12281	विद्युत जीमखाना प्रा. लि.
330	04-12562	सिद्धि पोटरीज प्रा. लि.
331	04-12540	शास्त्री पोलीएस्टर प्रा. लि.
332	04-12351	माइक्रोफाइन केमिकल्स प्रा. लि.
333	04-12288	यशकिर्ती रेसीडेन्सीज प्रा. लि.

334	04-18287	अल्मस केम प्रा. लि.
335	04-18330	रवि जीमखाना प्रा. लि.
336	04-18340	हवा केमिकल्स प्रा. लि.
337	04-18351	अमूल्य फायनेस प्रा. लि.
338	04-18422	वतन डायकेम प्रा. लि.
339	04-18474	मिनहल मरीन प्रा. लि.
340	04-10769	सुपरलाम पोलीमर्स प्रा. लि.
341	04-10669	रोशनी जीमखाना प्रा. लि.
342	04-10589	सरखेज जीमखाना प्रा. लि.
343	04-08132	ब्राइट पोलीव्यू प्रा. लि.
344	04-08120	प्रजेश स्मेल्टिंग प्रा. लि.
345	04--8105	जवेरी डायकास्ट प्रा. लि.
346	04-08049	अर्चना केमिकल्स प्रा. लि.
347	04-07967	परवीरसन्स इंजिनियरींग प्रा. लि.
348	04-08321	पी.डी. केमिकल इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
349	04-08248	हेपी सर्कल जीमखाना प्रा. लि.
350	04-10523	श्री साईं टवीस्टर्स प्रा. लि.
351	04-10851	परसीस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
352	04-10908	रोयल पेन्युमेटीक्स (इन्डिया) प्रा. लि.
353	04-10569	सुपर कोट इन्कस एण्ड रेसीन्स प्रा. लि.
354	04-08501	एस. एच. फास्टनर्स प्रा. लि.
355	04-08472	दीपरेखा कलात्मक सारी केन्द्र प्रा. लि.
356	04-08466	लीयो पेकेजींग प्रा. लि.
357	04-08330	सचिन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
358	04-18453	बाला माइनींग मशीन्स प्रा. लि.
359	04-18363	अनेकान्त डायकेम प्रा. लि.
360	04-18466	शाकुंतल स्पोर्ट्स एण्ड रिक्रिएशन क्लब प्रा. लि.
361	04-21692	होट आईस फेशनस प्रा. लि.
362	04-21937	रोझमाउन्ट साइडिंग प्रा. लि.

363	04-21966	सवानी सिल्क मिल्स प्रा. लि.
364	04-21886	होटेल आहवा इन प्रा. लि.
365	04-21825	शिव रीरोलींग मिल्स प्रा. लि.
366	04-21798	एलाइड सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
367	04-21820	विभा बेल्टींग प्रा. लि.
368	04-21092	पारिजात इम्पैक्स प्रा. लि.
369	04-21323	कोम्प्युटेक सोल्युशन्स प्रा. लि.
370	04-21621	हाइवे रोडलाइन्स प्रा. लि.
371	04-21707	पूजा इक्झीम प्रा. लि.
372	04-21716	सुश्री ग्रेनाइट एण्ड मार्बल्स प्रा. लि.
373	04-21744	प्लाजमा टेक मेटालीजींग सर्वीसीस प्रा. लि.
374	04-21156	चंद्रलोक जीमखाना प्रा. लि.
375	04-21348	सावली ओवरसीज केबल्स प्रा. लि.
376	04-21043	गुजरात मार्केटींग सेल्स प्रा. लि.
377	04-21653	बोनटोन केमिकल्स प्रा. लि.
378	04-20400	श्रीकांत होटेल्स प्रा. लि.
379	04-20819	रत्नमणि सेल एक्स्ट्रुशन प्रा. लि.
380	04-20898	कजानी एक्जीम प्रा. लि.
381	04-22387	गुजरात मिन-चीन कोलीन प्रा. लि.
382	04-22579	फोनेक्स फीनस्टोक प्रा. लि.
383	04-22739	रणमुक्तेश्वर जीमखाना प्रा. लि.
384	04-22716	बी.एन.महेता सिक्युरीटीज प्रा. लि.
385	04-14074	गेलोर्ड जीमखाना प्रा. लि.
386	04-30312	रावल इम्पैक्स प्रा. लि.
387	04-30328	मीता सिक्युरीटीज प्रा. लि.
388	04-30761	नीलम कोर्पेक्स प्रा. लि.
389	04-30644	भाग्योदय मेन्युफेक्चरींग कम्पनी प्रा. लि.
390	04-30840	इलवादुर्ग डवलोपर्स प्रा. लि.
391	04-30742	हेमानी एग्रीकेर लि.

392	04-30843	मनुश्री कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
393	04-30688	चिराग लाइनर्स प्रा. लि.
394	04-30675	गणेश डायकेम प्रा. लि.
395	04-30692	विनर्स विन्डर प्रा. लि.
396	04-30273	प्रारब्ध एग्रोथ प्रा. लि.
397	04-30288	रीमा टेक्स प्रा. लि.
398	04-30305	ब्रज फायनान्सीयल सर्वीसीज प्रा. लि.
399	04-22225	एस्टीम सिक्युरीटीज प्रा. लि.
400	04-22241	अंतरिक्ष लुब्स प्रा. लि.
401	04-22204	तहा फेशन्स प्रा. लि.
402	04-21150	वेलटेक्स टेक्स्युराइजींग प्रा. लि.
403	04-21965	सवानी जेम्स प्रा. लि.
404	04-22817	सुव्रत मशीनरी कम्पनी प्रा. लि.
405	04-22643	हम्बोल्ट डीकेन्टर्स इन्डिया प्रा. लि.
406	04-23031	नवीन बारोट इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
407	04-22976	जीवरक्ष एक्सपोर्ट प्रा. लि.
408	04-22996	वेप्रे प्रिन्टर्स प्रा. लि.
409	04-21277	जीस्टोन बिल्डींग मटीरीयल्स (इन्डिया) प्रा. लि.
410	04-21241	फोटो फ्लेक्स फुडस प्रा. लि.
411	04-21215	नोवेल कोमोडीटीस प्रा. लि.
412	04-21944	मल्टी फायनेस प्रा. लि.
413	04-21899	सवानी टेक्स्युराइजींग प्रा. लि.
414	04-21172	राज वेवनीट प्रा. लि.
415	04-21133	कनकधारा डायमन्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
416	04-21116	निर्माण कोन्ट्राक्टर्स एण्ड इंजिनियर्स प्रा. लि.
417	04-22842	शर्मिला कोम्प्लेक्स सर्वीसीस प्रा. लि.
418	04-22780	मोनार्क शेल्फीनमान प्रा. लि.
419	04-20744	अलंकार डाइंग मिल्स प्रा. लि.
420	04-20644	एयर स्टार प्रा. लि.

421	04-20506	पल्लवी जीमखाना प्रा. लि.
422	04-20385	नोवा हर्बल्स प्रा. लि.
423	04-20407	मानस मनी मेनेजमेन्ट प्रा. लि.
424	04-20470	रीसु एक्सपोर्ट प्रा. लि.
425	04-12514	घवारकाधीश प्लास्टीक्स प्रा. लि.
426	04-12522	मयुर बोर्ड मिल्स प्रा. लि.
427	04-12681	एक्सेलन्स इम्पैक्स प्रा. लि.
428	04-12912	समोनाथ डायमण्ड्स प्रा. लि.
429	04-12774	रमण एण्ड मुकेश कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
430	04-12988	आरमीरा इलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.
431	04-12944	अपना जीमखाना प्रा. लि.
432	04-12789	गोंडल एस्टेट डवलपमेन्ट एण्ड फायनेस प्रा. लि.
433	04-12713	त्रिलोक जीमखाना प्रा. लि.
434	04-12752	काठियावाड हाउसींग एण्ड फायनेस कम्पनी प्रा. लि.
435	04-12703	रुबी टुल्स प्रा. लि.
436	04-12048	झील बायोसिन् प्रा. लि.
437	04-12819	श्री जगदंबा मार्बल्स प्रा. लि.
438	04-07812	सेमसन प्लायवुण प्रा. लि.
439	04-07845	इन्डक्टो फाउन्ड्री (इन्डिया) प्रा. लि.
440	04-07776	किरण मिनरल्स एण्ड स्टोन्स प्रा. लि.
441	04-09483	गुजरात विनोल रेजीन प्रा. लि.
442	04-09349	अमर हाउसींग प्रा. लि.
443	04-09347	प्राईम प्लास्टीक्स (गुजरात) प्रा. लि.
444	04-09262	रोल्स सोशीयस ग्रुप प्रा. लि.
445	04-09276	एटलोन टेक्सटाइल्स मिल्स प्रा. लि.
446	04-09284	हितिक्षा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
447	04-09287	कर्णावती जीमखाना प्रा. लि.
448	04-09288	चेइम जीमखाना प्रा. लि.
449	04-09295	विक्रम टूर्स एण्ड ट्रावेल्स प्रा. लि.

450	04-09438	वामी उद्योग प्रा. लि.
451	04-09429	वेब्स मशीन टुल्स प्रा. लि.
452	04-09400	कच्छ क्लेस एण्ड सिरामिक्स प्रा. लि.
453	04-09406	राजमोती सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
454	04-09411	मीना कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
455	04-15105	रीना लीजींग एण्ड फीनस्टोक प्रा. लि.
456	04-15071	श्री गोपी स्पोर्ट्स क्लब प्रा. लि.
457	04-30745	मार्शल फीनस्टोक प्रा. लि.
458	04-30712	कदर्द हेल्थकेयर प्रा. लि.
459	04-30038	एक्टिव बायर्स कम्पनी प्रा. लि.
460	04-30245	जानम एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
461	04-31517	अनुप मार्बल्स प्रा. लि.
462	04-31556	मधुमालिनी एस्टेट डेवलपर्स प्रा. लि.
463	04-31578	व्हाइट क्लाउड हाउसींग फायनेस प्रा. लि.
464	04-31628	प्योरीमेटल एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
465	04-31644	नवज्योत फीनवेस्ट प्रा. लि.
466	04-31675	दिप्ती ओवरसीज प्रा. लि.
467	04-31105	बेलग्रावीया शीपब्रेकींग प्रा. लि.
468	04-31104	बेलग्रावीया डवलपर्स प्रा. लि.
469	04-31222	अर्थ बिल्डकोन प्रा. लि.
470	04-31219	राजमणि पोलीकेम प्रा. लि.
471	04-31235	माउन्ट पेकर्स प्रा. लि.
472	04-30257	जलाराम न्युजप्रिन्ट एण्ड पेपर प्रा. लि.
473	04-30510	प्रिमीयम सिमेन्टस प्रा. लि.
474	04-30620	रथ ट्रावेलनेट प्रा. लि.
475	04-30829	समीनात बिल्डर्स प्रा. लि.
476	04-25711	मेघ बिल्डर्स प्रा. लि.
477	04-26019	टीनकुजी रिसोर्ट्स प्रा. लि.
478	04-25946	नीता फार्मस प्रा. लि.

479	04-25947	रश्मिन फार्म्स प्रा. लि.
480	04-25945	सुंदरगोपालम फार्म्स प्रा. लि.
481	04-25951	सानिध्य फार्म्स प्रा. लि.
482	04-25997	राजरत्न डायलोपर्स प्रा. लि.
483	04-24931	कोम्प्यूटेक सर्वीसीज प्रा. लि.
484	04-25786	वीशु केमिकल्स प्रा. लि.
485	04-25232	श्री विनायक डायमण्डस प्रा. लि.
486	04-24901	एडवान्स ओईलफिल्ड सर्वीसीस प्रा. लि.
487	04-25937	न्यु इन्डिया फोर्ज इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
488	04-25944	निषकल फार्म्स प्रा. लि.
489	04-25909	जेरथ पार्क प्रा. लि.
490	04-25912	विश्वास फिनस्टोक प्रा. लि.
491	04-25929	हाई-टेक्नो वेसल्स प्रा. लि.
492	04-26532	अक्षर होस्पिटल्स प्रा. लि.
493	04-26540	हिरल फीनस्टोक सर्वीसीज प्रा. लि.
494	04-26806	जोजोबा प्लान्टेशनस प्रा. लि.
495	04-26809	हंसद्रुप फायनान्सींग प्रा. लि.
496	04-29985	ओरबीट मनीषा रीयालीटी प्रा. लि.
497	04-29973	अलान्शु कोर्पोरेट सर्वीसीज प्रा. लि.
498	04-29959	ममता फेशनस (इन्डिया) लि.
499	04-29975	मारीया क्रेडीट केपिटल प्रा. लि.
500	04-29976	परिधान फीनवेस्ट प्रा. लि.
501	04-29320	रानी ट्रावेल्स प्रा. लि.
502	04-29425	चकलायील पोली बोर्ड प्रा. लि.
503	04-29472	एम्पायर गारमेन्टस प्रा. लि.
504	04-28026	विनायक रोलींग प्रा. लि.
505	04-27999	नीफकोन एस्टेट डवल्लोपर्स प्रा. लि.
506	04-27948	गकलक्ष प्रिन्ट पेकेजींग प्रा. लि.
507	04-27860	वृंदा केमिकल्स प्रा. लि.

508	04-27256	गुजरात गोट फार्मींग एण्ड प्लान्टेशन प्रा. लि.
509	04-27205	आकाश एग्रीटेक प्रा. लि.
510	04-27666	एल्ट्राप्योर आईस-क्यूब्स प्रा. लि.
511	04-27537	शुभम मार्केटींग प्रा. लि.
512	04-28953	अमप्रेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योरीटी सिस्टम्स प्रा. लि.
513	04-28934	श्री विनय इम्पैक्स प्रा. लि.
514	04-27767	मक्षी फीनवेस्ट प्रा. लि.
515	04-27744	हारवी फायनान्स प्रा. लि.
516	04-16881	रीलीफ सोशीयल क्लब प्रा. लि.
517	04-16719	धुनील केमिकल्स प्रा. लि.
518	04-16770	जतीन टेक्सटाईल ट्रेडिंग प्रा. लि.
519	04-16758	काका जीमखाना प्रा. लि.
520	04-16728	पूनम फुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
521	04-16716	जल केमिकल्स प्रा. लि.
522	04-16745	श्री मोटेक्ष फिशरीज प्रा. लि.
523	04-19123	फ्लेर फायनान्सीयल सर्वीसीज प्रा. लि.
524	04-19151	शिवम कोम्बीन्स प्रा. लि.
525	04-19171	युरोमेक्स (इन्डिया) प्रा. लि.
526	04-19243	नीलकमल एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
527	04-19241	तारा एग्रोली प्रा. लि.
528	04-19240	गुजरात इन्टीग्रेड सर्कीट्स प्रा. लि.
529	04-16341	ब्लोलाइट टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
530	04-16535	सुरत एलोइज प्रा. लि.
531	04-16346	श्री पोदार टेक्सफेब प्रा. लि.
532	04-16349	मेट्रो सोशीयल क्लब प्रा. लि.
533	04-16344	नानकी केमिकल्स एण्ड माईन्स प्रा. लि.
534	04-34545	जगत साल्ट प्रा. लि.
535	04-34542	सिल्वर साल्ट प्रा. लि.
536	04-05413	हबक क्लब प्रा. लि.

537	04-05446	जीवणलाल चौधरी इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
538	04-05065	ग्रेटर रुरल डेवलपमेन्ट हाउसींग कम्पनी प्रा. लि.
539	04-05472	एस के कोन्स प्रा. लि.
540	04-05304	राणीप जीमखाना प्रा. लि.
541	04-04986	ए के गेसीस प्रा. लि.
542	04-05226	मार्शल एण्ड मार्शल ओटो इलेक्ट्रोनीक प्रा. लि.
543	04-05266	प्रोस्पेक्टा स्लीव्स मेन्युफेकचरींग कम्पनी
544	04-05295	प्लम सोप्स (कंडला) प्रा. लि.
545	04-05245	सीमा इलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.
546	04-05298	लक्ष्मी खांडसरी सुगर इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
547	04-05193	विश्वकर्मा मिनरल्स प्रा. लि.
548	04-05199	कपडवंज जीमखाना प्रा. लि.
549	04-05146	पंचाल एण्ड मिस्त्री इंजिनियरींग वर्क्स प्रा. लि.
550	04-05022	सुमित्रा सिमेन्ट प्रा. लि.
551	04-17369	बरोलीया डवलपर्स प्रा. लि.
552	04-17376	सुपर फेशन रिफेक्टरीज प्रा. लि.
553	04-17497	खोडल टेक्स्टाइल्स प्रा. लि.
554	04-17542	गेयल इन्वेस्टमेन्टस प्रा. लि.
555	04-17736	मच्छु जीमखाना प्रा. लि.
556	04-17552	ग्रीनफिल्ड फार्मा प्रा. लि.
557	04-29105	संघवी फिनवेस्ट प्रा. लि.
558	04-28831	रीतु डायस्टफ प्रा. लि.
559	04-28840	स्वीटी ओटो फायनान्स प्रा. लि.
560	04-28887	रचना स्थापत्य एण्ड प्रोपर्टीज प्रा. लि.
561	04-28901	सायोना ओडीयो वज्जियुअल को. प्रा. लि.
562	04-28930	नवलखा फीनस्टोक प्रा. लि.
563	04-28955	एक्सपर्ट कार्गो प्रा. लि.
564	04-28957	स्पान ट्रेडलींक प्रा. लि.
565	04-29197	गुजरात सर्कीट ब्रेकर्स प्रा. लि.

566	04-29123	वाघेश एनर्जी इक्वीपमेन्टस प्रा. लि.
567	04-28289	रंदल टेक्षटाईस प्रा. लि.
568	04-28320	सीमोनी डोमेस्टीक एप्लायन्सीस प्रा. लि.
569	04-28330	तुलसीदेवा फायनान्स प्रा. लि.
570	04-28334	अंबिका प्लास्टोवेव प्रा. लि.
571	04-28778	वरनी प्लान्टेशन प्रा. लि.
572	04-28795	विशाल प्रिन्टेड सर्कीट बोर्ड प्रा. लि.
573	04-28805	कमलाबेन अंबालाल जनरल होस्पिटल प्रा. लि.
574	04-36593	लोकप्रेम पब्लिकेशन प्रा. लि.
575	04-36604	तानाव्युल राईस मिल्स प्रा. लि.
576	04-36603	नेमत राईस मिल्स प्रा. लि.
577	04-28786	कारोलिया ट्रेडलींक प्रा. लि.
578	04-36610	रविसन पेक आर्ट प्रा. लि.
579	04-36565	सतनाम एनर्जी सिस्टम्स प्रा. लि.
580	04-36557	हरिया बेवरीज प्रा. लि.
581	04-36556	पार्थ केर प्योरीफीकेशनस प्रा. लि.
582	04-36521	पिगोली ओवरसीज प्रा. लि.
583	04-36555	रुटस टेकनोलोजी प्रा. लि.
584	04-36529	अभिजीत दुर्स प्रा. लि.
585	04-36504	श्रीनाथ इनोटेक प्रा. लि.
586	04-36492	सीताराम मार्केटींग प्रा. लि.
587	04-36475	श्री बाणगंगा रोलर फ्लोर एण्ड पल्स मिल्स प्रा. लि.
588	04-36432	श्री सांइ सिद्धि सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
589	04-36404	शर्मिला सिल्क मिल्स प्रा. लि.
590	04-36280	ध्वनिल सॉफ्टवेयर प्रा. लि.
591	04-36283	मुन सिल्क मिल्स प्रा. लि.
592	04-36265	सोनु प्लास्ट प्रा. लि.
593	04-36257	श्री राज राजेश्वरी कोम्प्यूटर एज्युकेशन प्रा. लि.
594	04-36249	जीग्मा इन्फोसिस्टम्स प्रा. लि.

595	04-36318	सदभावना बिल्डर्स प्रा. लि.
596	04-30867	झेड होटल प्रा. लि.
597	04-30851	निरज फीनवेस्ट प्रा. लि.
598	04-31584	राजवी फीनलीज प्रा. लि.
599	04-31506	सर्वोदय फीनकेप प्रा. लि.
600	04-19071	आनंद अेकजीम प्रा. लि.
601	04-18910	श्री मिडीया सिरामीक मटीरीयल्स प्रा. लि.
602	04-19002	प्रज्योत फायनान्स प्रा. लि.
603	04-19266	सांई फोस्फेट प्रा. लि.
604	04-19112	गुजरात ब्रुफीन लेब प्रा. लि.
605	04-19283	मीरां जीमखाना प्रा. लि.
606	04-19314	कमल जीमखाना प्रा. लि.
607	04-19343	इमेज इंजिनियरींग प्रा. लि.
608	04-19367	आल्प्स फायनान्सीयल सर्वीसीस प्रा. लि.
609	04-19412	शारदा होम्य प्रा. लि.
610	04-19404	रामेश्वर फ्लेवर एण्ड फ्रेगरन्स प्रा. लि.
611	04-18950	एमीको इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
612	04-18938	राजमान मल्टीफ्लेक्स प्रा. लि.
613	04-18829	इमेज अेडहेसीव्ज प्रा. लि.
614	04-18985	झरना फीनस्टोक प्रा. लि.
615	04-18977	अकोप इलेक्ट्रोप्रोडक्ट्स प्रा. लि.
616	04-18974	शीतल लेमिनेट्स प्रा. लि.
617	04-18853	पावन क्लब प्रा. लि.
618	04-18843	जवेरी रबर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
619	04-18811	सायन्टीफीक कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
620	04-18813	कोमवा रीयल एस्टेट को प्रा. लि.
621	04-18814	विनिमा डीस्ट्रीब्युटर्स प्रा. लि.
622	04-18816	आरासुरी पोलीमर्स प्रा. लि.
623	04-26863	स्पर्श सिक्युरीटीज प्रा. लि.

624	04-28187	लाइफ इन्टरलीक सर्वीसीज प्रा. लि.
625	04-16613	श्री जयक्रिश्ना टेक्ष्युराइजर्स प्रा. लि.
626	04-16981	राजेश्वरी होटेल्स प्रा. लि.
627	04-24587	पर्श पेकेजींग प्रा. लि.
628	04-24576	नोस्ट्रेडेम फीनस्टोक प्रा. लि.
629	04-24424	श्रीराम मारुति सहयोग लीजींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
630	04-17582	मासट्रान्सफर सिरामिक्स प्रा. लि.
631	04-27011	बिलेश्वर ओइल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
632	04-28072	नीकी शेयर कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
633	04-28054	महालक्ष्मी इन्टरलीक फीस्कल सर्वीसीस प्रा. लि.
634	04-28140	महेश रीयल ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
635	04-28603	गजानन सिरामिक्स प्रा. लि.
636	04-26635	सर्जक होटेल्स प्रा. लि.
637	04-26999	बोल्डस मेन्युफेक्चरर्स प्रा. लि.
638	04-26721	ब्रन्ज टेकनो इनिजियर्स प्रा. लि.
639	04-26703	नितिन एण्ड निलेश एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
640	04-26982	रत्नदीप फायनान्स प्रा. लि.
641	04-26927	योगी डवल्लोपर्स प्रा. लि.
642	04-25614	मालीराम इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
643	04-24660	जीफकोन फायनान्सीयल सर्वीसीस प्रा. लि.
644	04-18746	गुरुशरण सोल्ट एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
645	04-18719	एरेरमेक्स पेकेजींग एण्ड प्लास्टीक्स प्रा. लि.
646	04-34562	पार्थ एग्री इक्वीपमेन्ट प्रा. लि.
647	04-31606	आशिष अनिल डीस्ट्रीब्युटर्स प्रा. लि.
648	04-31725	एटलान्टा ड्रग्स प्रा. लि.
649	04-31686	राजमंदिर रोयल्टी प्रा. लि.
650	04-31611	एमीक एग्रो प्रा. लि.
651	04-31289	आलाप स्टुडियो प्रा. लि.
652	04-31331	बैसन हाटल्स प्रा. लि.

653	04-31326	मल्टीवर्थ ट्रेडलीक प्रा. लि.
654	04-05040	सौराष्ट्र कलर फोटोग्राफीक लेबोरेटरी प्रा. लि.
655	04-31897	वैशाखी फायनान्सीयल्स प्रा. लि.
656	04-31075	रथ टुर्स एण्ड ट्रावेल्स प्रा. लि.
657	04-31033	डीजीटल मुवीज प्रा. लि.
658	04-30993	ओलम्पिक एक्सट्रुजन्स प्रा. लि.
659	04-30947	टाइनी ट्रेडर्स प्रा. लि.
660	04-31993	रिद्धि आनंद फीनस्टोक प्रा. लि.
661	04-31992	टीयारा इम्पेक्स प्रा. लि.
662	04-08359	वंज्य पोलीपेक्स प्रा. लि.
663	04-08244	अजय डीपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रा. लि.
664	04-08239	पूनम टूर्स प्रा. लि.
665	04-08231	पी. आर. कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
666	04-08224	वेगो पोलीमर्स प्रा. लि.
667	04-08130	इको डवलपमेन्ट एण्ड मेनेजमेन्ट रीसर्च सेन्टर प्रा. लि.
668	04-08151	भक्ति लेमीनेशन इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
669	04-08084	रींगरोड जीमखाना प्रा. लि.
670	04-08081	हरनी फुड प्रा. लि.
671	04-07315	हार्दिक केमिकल्स फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
672	04-07394	सेक्वीन फार्मा प्रा. लि.
673	04-07380	बलराम टेक्सकेम इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
674	04-07367	अेवन क्लोकेम प्रा. लि.
675	04-07366	अेवन रंग रसायन प्रा. लि.
676	04-07439	माइक्रो मेडीसीस (इन्डिया) प्रा. लि.
677	04-07441	अशोक अवाद मेकर्स प्रा. लि.
678	04-07428	गुजरात हेलर्स लेबोरेटरीस प्रा. लि.
679	04-07546	हंस टेक्सटाइल मशीनरीज मेन्यु. कम्पनी प्रा. लि.
680	04-07557	नगरी जीमखाना प्रा. लि.
681	04-07501	राजीव गेसीस प्रा. लि.

682	04-07567	झीब्रा मीनरल्स प्रा. लि.
683	04-28288	आंगी होल्डिंग्स प्रा. लि.
684	04-28089	सचाइ मेटल्स प्रा. लि.
685	04-28886	नवसर्जन बिल्डर्स प्रा. लि.
686	04-28253	अमरप्रकाश केपिटल एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
687	04-32731	दिग्विजय फीनस्टोक प्रा. लि.
688	04-32638	टाइम प्लस फीनवेस्ट प्रा. लि.
689	04-34557	भूमि साल्ट प्रा. लि.
690	04-34533	सिग्नेट मार्केटिंग सर्वीसीज प्रा. लि.
691	04-34505	साधुस्वान मिडीया सर्वीसीज प्रा. लि.
692	04-34494	बिरहा कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
693	04-32815	सतनाम फोर्मुलेशन प्रा. लि.
694	04-32736	प्रसोना अेनालेटीक्स लेबोरेटरीज प्रा. लि.
695	04-32680	आशीर्वाद डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
696	04-32788	इकरा ट्रावेल्स प्रा. लि.
697	04-32526	अरुण डायस्टफ प्रा. लि.
698	04-32516	हेत मेनेजमेन्ट कन्सल्टन्सी सर्वीसीस प्रा. लि.
699	04-32579	प्रशांत पेइन्ट्स प्रा. लि.
700	04-32915	सिंघल पोलियेस्टर प्रा. लि.
701	04-32901	मिली जीमखाना प्रा. लि.
702	04-32855	नेस्ट ट्रान्समीशन प्रा. लि.
703	04-33179	युराज पोलिसेक प्रा. लि.
704	04-26654	निशीता फीनान्सीयल एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लि.
705	04-26665	आरकेन पोल्युशन कन्ट्रोल्स प्रा. लि.
706	04-32392	जयदीप हायजीन प्रा. लि.
707	04-32336	यश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
708	04-32693	सर्वोदय केटल फीड प्रा. लि.
709	04-38218	मेक एप्ले इन्फोटेक प्रा. लि.
710	04-39469	परेमाऊन्ट कोपर रोलिंग मिल्स प्रा. लि.

711	04-39499	सायनाप्से इन्फोटेक प्रा. लि.
712	04-39448	तरुस टेक्नोलोजीस्ट प्रा. लि.
713	04-39674	अहमदाबाद कलर लेब प्रा. लि.
714	04-39628	एम्बी इम्पैक्स प्रा. लि.
715	04-39625	मेघावी एन्टरप्राइसीस प्रा. लि.
716	04-39618	सुमती ई-एज्युकेशनस प्रा. लि.
717	04-39591	स्वदेशी विजय कन्ज्युमर सर्वीसीज प्रा. लि.
718	04-39574	शिवशक्ति सर्जिकल कम्पनी प्रा. लि.
719	04-39549	मेक्सिमा कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
720	04-39452	सविता गोविंद रिसोर्ट एण्ड मोटल्स प्रा. लि.
721	04-39400	श्री गोगा विज्ञान प्रा. लि.
722	04-39531	इलीस एलोइज प्रा. लि.
723	04-39403	स्कायलाइन गेस टेक्नोलोजीस्ट प्रा. लि.
724	04-39528	इनकेटल टेली सोल्युशन्स प्रा. लि.
725	04-39526	लीला एवीएशन प्रा. लि.
726	04-39521	लोकमान्य एज्युकेशन एकेडेमी प्रा. लि.
727	04-39410	मातृकृपा होटल्स प्रा. लि.
728	04-39645	इ-टेलीजन्स टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
729	04-39649	क्लर्टी सॉफ्टवेयर प्रा. लि.
730	04-39786	ए-मेक सिस्टम्स प्रा. लि.
731	04-39744	नेट विजार्ड सॉफ्ट-टच प्रा. लि.
732	04-39690	दिल्ली यूनानी प्रा. लि.
733	04-39853	डोल्फीन इन्फोसॉफ्ट प्रा. लि.
734	04-39804	शांतिनिकेतन डवलपर्स प्रा. लि.
735	04-39940	मेमुना मशरूमस प्रा. लि.
736	04-39911	विस्ता नेटवर्क प्रा. लि.
737	04-39964	जी एण्ड एम रेइनफोर्स प्लास्टीक प्रा. लि.
738	04-37667	वलसाड वुडन प्रा. लि.
739	04-37676	हेरीटेज वरसोडा रिसोर्टस प्रा. लि.

740	04-37721	विरेन्द्र कार्गो प्रा. लि.
741	04-37747	हेरीस कन्ट्रोलस प्रा. लि.
742	04-37770	आदित्यानन्द डवल्लोपर्स प्रा. लि.
743	04-37771	बानेश्वरी टायर्स प्रा. लि.
744	04-36439	स्वामी-श्रीजी हेवी अर्थमुवींग स्पेर्स प्रा. लि.
745	04-36420	रेवापुरी कम्प्यूटर एज्युकेशन प्रा. लि.
746	04-36459	जेकोन केमिकल्स प्रा. लि.
747	04-36730	जैमिनी एज-प्रिन्ट प्रा. लि.
748	04-20130	लाल सनफेब प्रा. लि.
749	04-20134	विनोद शिल्प डवल्लोपर्स प्रा. लि.
750	04-20075	अमी सील प्रा. लि.
751	04-20873	आनंद इक्वीपमेन्टस प्रा. लि.
752	04-20678	जीनोय ग्रेनाइट्स एण्ड मार्बल्स प्रा. लि.
753	04-20781	सुरत पोलीमेक्स आवरसीज प्रा. लि.
754	04-20763	गोस्वामी गारमेन्टस प्रा. लि.
755	04-20482	रीलायेबल पेट्रोकेम प्रा. लि.
756	04-15045	पाटकोन्स पेपर टयुब्स एण्ड कोन्स प्रा. लि.
757	04-15037	अपले ब्रास कम्पनी प्रा. लि.
758	04-15039	पार्थ कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
759	04-13651	जीवन्य रिसोर्ट्स प्रा. लि.
760	04-13033	गुजरात पोलीबेग्स प्रा. लि.
761	04-13221	गुडिया सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
762	04-13206	सोमाणी ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.
763	04-13087	ओम पोली फायबर्स प्रा. लि.
764	04-13080	अस्तित्व पेपरकोन प्रा. लि.
765	04-14246	मल्टि एस्टेट डवल्लोपमेन्ट प्रा. लि.
766	04-14168	जरीया टेक्सटाइल्स प्रा. लि.
767	04-14115	गोपाल किष्णा जीमखाना प्रा. लि.
768	04-07843	शर्मिली रीफ़ींग टाइल्स इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.

769	04-15128	श्री सौंदर्य डाइज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
770	04-16942	कोमेट हाइड्रोकार्बन प्रा. लि.
771	04-17071	सीटीजन बेरींग्स प्रा. लि.
772	04-17976	श्री निवास ओर्गेनिक्स प्रा. लि.
773	04-17454	मेघना फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
774	04-17411	जगेक्स इन्टरमिडिया प्रा. लि.
775	04-17431	मिडास केम इनोवेशन्स प्रा. लि.
776	04-17400	शारदा नीट्रो सेल्युलोस (वापी) प्रा. लि.
777	04-17098	सतकोम प्रा. लि.
778	04-17748	हिमाली केमिकल्स प्रा. लि.
779	04-17994	देबेला फेब्रीक्स प्रा. लि.
780	04-17126	नकाशा सोशीयल क्लस प्रा. लि.
781	04-17111	पारेख केपिटल सिक्वोरीटीज प्रा. लि.
782	04-17175	इन्डो गल्फ फर्नीचर्स प्रा. लि.
783	04-16931	हीनार एण्ड अग्रवाल सर्वोसीज प्रा. लि.
784	04-16196	सुरत फीनलीज प्रा. लि.
785	04-16409	ओमनी इन्टर लिन्क प्रा. लि.
786	04-18173	मेघा चीप कन्सल्टन्ट्स प्रा. लि.
787	04-18071	धवन होटेल्स प्रा. लि.
788	04-18084	फाइन हाऊसींग आर्ट प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
789	04-18123	सरीगाम सिमेन्ट प्रा. लि.
790	04-18115	हिम सारी कन्सल्टन्ट प्रा. लि.
791	04-18107	ओम फेशन्स प्रा. लि.
792	04-18213	हेतल इंजिनियरींग कम्पनी प्रा. लि.
793	04-18276	बनास प्रिंसीपीटेड केल्शियम कार्बोनेट प्रा. लि.
794	04-18269	मिरान्त एक्जीम प्रा. लि.
795	04-18248	सयाना पोलि ग्राफिक्स प्रा. लि.
796	04-14755	मेताधुर पोलिमर्स प्रा. लि.
797	04-14780	उम्भरात इन्टरकेम प्रा. लि.

798	04-15153	गोर्ड फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
799	04-21177	अम्बाजी जीमखाना प्रा. लि.
800	04-20773	स्टार रेफ्रीजरेशन प्रा. लि.
801	04-20563	श्री महावीर बोलीसिन्ध प्रा. लि.
802	04-18343	हेपी सोशीयल क्लब प्रा. लि.
803	04-18003	राजकृपा पाइप्स एण्ड ट्यूब्स प्रा. लि.
804	04-10822	अरिहंत सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
805	04-10821	धरणीधर टेक्स्टाइल्स प्रा. लि.
806	04-10813	विनस इन्टरमिडियेट्स प्रा. लि.
807	04-10739	जोडीयाक केबल्स प्रा. लि.
808	04-10745	गुडेज एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटींग प्रा. लि.
809	04-10730	न्यू इरा फेब्रीकेटर्स प्रा. लि.
810	04-10754	पुरुषोत्तमदास प्रोपर्टीज प्रा. लि.
811	04-10746	पुर्वींग मार्केटींग प्रा. लि.
812	04-10765	अनुभाई एस्टेट्स प्रा. लि.
813	04-10719	फलो-तक पम्पस प्रा. लि.
814	04-10718	एस्कोन इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
815	04-10694	अजय मार्केटींग प्रा. लि.
816	04-12909	हजीरा ऐन्सीलरी एरिया डवलपर्स प्रा. लि.
817	04-12898	एन्जेलीस फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
818	04-12900	प्रेसीस कोन्ट्राक्ट्स एण्ड कोम्पोनन्ट्स प्रा. लि.
819	04-12895	जीराम प्लास्टीक्स प्रा. लि.
820	04-09160	बोन्डवेल ऐब्रेसीव्ज प्रा. लि.
821	04-09158	श्री रामानंद ऐलोयज एण्ड स्टील्स प्रा. लि.
822	04-09125	भगवती फार्म प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
823	04-09124	भगवती बिल्डींगमटीरीयल्स प्रा. लि.
824	04-09119	पनामा मार्केटींग प्रा. लि.
825	04-09200	न्यु पेक पेलिमर्स प्रा. लि.
826	04-09234	आर. के. पोली प्लास्टिक्स प्रा. लि.

827	04-09219	वफत इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
828	04-08994	अजन्ता जीमखाना प्रा. लि.
829	04-08985	वेनीस टोग्नेड ग्लास प्रा. लि.
830	04-09030	श्रीनाथ प्लास्टिक्स प्रा. लि.
831	04-09056	सेट्रोन लीजींग प्रा. लि.
832	04-09086	धर्मनाथ बोल्टस एण्ड नट्स प्रा. लि.
833	04-09089	पंचमहाल्स इलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.
834	04-09095	रेइनीफोकार्फड अग्रेपोप्लेक्स प्रा. लि.
835	04-21302	एसेन्ट मार्केटींग एण्ड वेन्च्युर प्रा. लि.
836	04-21622	आइडीयल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
837	04-21919	चाणक्य अग्रे प्रा. लि.
838	04-21476	थामेस स्टील्स प्रा. लि.
839	04-10303	लब्धि जीमखाना प्रा. लि.
840	04-10287	परिवर्तन पब्लिकेशन प्रा. लि.
841	04-10254	ब्लयुस्टार स्टील प्रा. लि.
842	04-10251	मेटानील केमिकल्स प्रा. लि.
843	04-10245	युरो सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
844	04-10225	इम्पीरीयल जीमखाना प्रा. लि.
845	04-10470	श्री टेक्सटाइल मशीनरी मेन्यु. कम्पनी प्रा. लि.
846	04-16984	सिद्धार्थ टेक्ष्युराइजींग प्रा. लि.
847	04-16022	राजकोट फायनान्स एण्ड लीजींग प्रा. लि.
848	04-16035	रामगोपाल टेक्ष्युराइजींग प्रा. लि.
849	04-10417	रोशन जीमखाना प्रा. लि.
850	04-10315	ब्राइट आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी प्रा. लि.
851	04-10323	घवन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
852	04-10463	अरिहंत कन्टेइनर्स एण्ड पेकेजींग प्रा. लि.
853	04-10386	बोन्सल फायनान्स एण्ड लीजींग कम्पनी प्रा. लि.
854	04-10356	भरुच सीटी क्लब प्रा. लि.
855	04-10454	नव दुर्गा जीमखाना प्रा. लि.

856	04-10439	ग्लोबल पावन सी-फुड्स प्रा. लि.
857	04-10824	आदिनाथ पोलीमर्स प्रा. लि.
858	04-10823	आंगी पोलीटैक्स प्रा. लि.
859	04-10671	माखणचोर फुड्स प्रा. लि.
860	04-10611	भाग्यश्री कोटन प्रा. लि.
861	04-10623	श्री योगेश्वर सिन्थेटीक्स (गुजरात) प्रा. लि.
862	04-10655	भुटोरिया सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
863	04-10542	क्रोनेट फार्मा प्रा. लि.
864	04-10652	मीका मार्केटींग प्रा. लि.
865	04-10495	चैतन्य फीनस्टोक एण्ड लीजींग प्रा. लि.
866	04-10482	भेरानी इलेक्ट्रॉनीक्स प्रा. लि.
867	04-15902	राजोट विवेक इंजिनियरींग प्रा. लि.
868	04-15894	अतुल टाइल्स एण्ड मार्बल्स प्रा. लि.
869	04-15934	रोकी जीमखाना प्रा. लि.
870	04-15960	रुस्तन पम्प प्रा. लि.
871	04-15826	दीलीप प्लास्टीक्स प्रा. लि.
872	04-15993	अर्जुन पोलीपेक प्रा. लि.
873	04-14482	बालाजी फेब्रीक्स प्रा. लि.
874	04-14446	ग्रीन डोट लेमीनेट्स प्रा. लि.
875	04-14447	सहयोग एप्लायन्सीस लीजींग प्रा. लि.
876	04-15248	ग्लान्ज इम्पैक्स प्रा. लि.
877	04-14503	सिम्पेक्स जीमखाना प्रा. लि.
878	04-14510	ऋषिकेश इंजिनियर्स प्रा. लि.
879	04-14551	ऐन्जल लीज फायनान्स प्रा. लि.
880	04-14439	लाभम एपार्टमेन्ट प्रा. लि.
881	04-14631	शशांक इलेक्ट्रॉनीक्स प्रा. लि.
882	04-13104	कल्टी यार्न प्रा. लि.
883	04-13889	अमीपात कान्स प्रा. लि.
884	04-14001	कुमार क्रोप हेल्थ प्रा. लि.

885	04-14371	शिवम कोन्ट्राक्टर्स प्रा. लि.
886	04-14378	मेधा कोम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
887	04-15592	जागृति जीमखाना प्रा. लि.
888	04-15589	ग्लोव्हाइट सिरामिक्स प्रा. लि.
889	04-15568	रोहिणी क्लब्स प्रा. लि.
890	04-15559	पृथ्वी वीवींग मिल्स प्रा. लि.
891	04-15553	बोस्का लेधर मेन्युफेकचरींग प्रा. लि.
892	04-15548	गुप्ता नोन फेरोयुस मेटल्स प्रा. लि.
893	04-15719	जवेरी सेविंग्स एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
894	04-15716	जय अम्बे आईस प्रा. लि.
895	04-15715	दिव्या प्रेसवोटेक प्रा. लि.
896	04-15738	भीमानी सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
897	04-15739	विराज होटल्स प्रा. लि.
898	04-15783	कालिन्दी केट कन्सल्टन्सट प्रा. लि.
899	04-16495	महेता वुड प्रा. लि.
900	04-16058	शालीग्राम मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
901	04-16091	मुन्ना ओक्सिजन प्रा. लि.
902	04-12701	विहार कन्सट्रक्शन प्रा. लि.
903	04-12246	गुणातीत ग्रेनाइट एण्ड मार्बल्स प्रा. लि.
904	04-12245	देवपरी होटल प्रा. लि.
905	04-17572	जयराज सेल्स प्रा. लि.
906	04-17566	ग्रीन फिल्ड कोस्मेटिक्स प्रा. लि.
907	04-21584	स्वस्तिक प्रो-सेल्स प्रा. लि.
908	04-21541	हीना फेब्रीक्स प्रा. लि.
909	04-21282	स्टार इन्टर ट्रेड प्रा. लि.
910	04-21097	वितराग सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
911	04-20919	मिहीर पेकेजींग प्रा. लि.
912	04-35395	एन्थोरीयम एग्रो वेल्थ प्रा. लि.
913	04-23291	अेमिटि पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

914	04-23293	राजफीना सर्वीसीज प्रा. लि.
915	04-23139	गुजरात पेट्रोल फ्युअल्स प्रा. लि.
916	04-23148	शाबीना ट्रावेल्स प्रा. लि.
917	04-23279	आनंद एग्रो एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
918	04-23981	शैली फीनस्टोक प्रा. लि.
919	04-23235	अमी फुड्स प्रा. लि.
920	04-23247	सुरज फीस्कल प्रा. लि.
921	04-23572	उदीता इन्टर ट्रेड प्रा. लि.
922	04-23567	सोसीया शीप ब्रेकर्स प्रा. लि.
923	04-23134	पारिजात सिक्वोरीटीज प्रा. लि.
924	04-23052	अदिति ओफसेट प्रा. लि.
925	04-23420	श्वेता सिल्क मिल्स प्रा. लि.
926	04-23912	एनोडाइन फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
927	04-13817	वापी जीमखाना प्रा. लि.
928	04-13928	भरुच लीजींग कम्पनी प्रा. लि.
929	04-13918	अमीर-गरीब जीमखाना प्रा. लि.
930	04-13881	सुगुना ओइल्स प्रा. लि.
931	04-13496	आर. आर. माणेकलाल ओर्गेनाइजर प्रा. लि.
932	04-13796	सूर्या फ्रूट्स एण्ड स्पीक्स प्रोसेसींग प्रा. लि.
933	04-13749	सूरत बिल्डर्स प्रा. लि.
934	04-14037	निरव जीमखाना प्रा. लि.
935	04-13935	ओत्तरी म्युजीक प्रा. लि.
936	04-14024	सोमाणी मार्बल एण्ड ग्रेनाइट्स प्रा. लि.
937	04-13997	सरदार वल्लभभाई इंजिनियर्स प्रा. लि.
938	04-14634	व्यास फीनस्टोक प्रा. लि.
939	04-14675	सिग्मा इक्वीपमेन्ट प्रा. लि.
940	04-15007	सिग्मा फास्टनर्स प्रा. लि.
941	04-15005	दास इन्टरमिडिएट्स प्रा. लि.
942	04-20557	नारायणी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.

943	04-21064	पवन पावर सिस्टम्स प्रा. लि.
944	04-20664	अन्फा टेक्ष मशीन्स प्रा. लि.
945	04-22246	क्रिष्णा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
946	04-22546	राधा फेशन्स (इन्डिया) प्रा. लि.
947	04-22563	गुड-वे मार्केटींग प्रा. लि.
948	04-22564	एल्पाकोन इक्वीपमेन्ट्स प्रा. लि.
949	04-27686	मरुधर फेशन्स प्रा. लि.
950	04-27730	अनमोल ओइल्स प्रा. लि.
951	04-26024	क्रियेटीव इम्पोर्ट्स प्रा. लि.
952	04-27670	विमला सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
953	04-27581	कौस्तुभ मार्केटींग प्रा. लि.
954	04-27554	श्री आदित्य ओइल्स प्रा. लि.
955	04-27523	गेसको लीज एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
956	04-26954	विक्रमसिंह हरीशचंद्र झाला सोल्ट वर्क्स प्रा. लि.
957	04-26610	कुशल डाइंग एण्ड प्रिन्टींग मिल्स प्रा. लि.
958	04-10049	सप्रजय इलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.
959	04-15434	ब्लीस डायेकम (इन्डिया) प्रा. लि.
960	04-15441	रालेक्स पीगडाइ केम प्रा. लि.
961	04-15515	हर्षवदन एस्टेट डवल्लोपर प्रा. लि.
962	04-15509	एमीटी सिन्क प्लास्ट प्रा. लि.
963	04-15666	पार्थ डवल्लोपर्स प्रा. लि.
964	04-15610	सोमर कोम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
965	04-15342	सृहद टेक्ष्युराइजिंग प्रा. लि.
966	04-15343	इन्टरवेस्ट बोइलर्स प्रा. लि.
967	04-15316	नवपद फायनान्सीयल सर्वीसीज प्रा. लि.
968	04-15307	हेतल ओइल प्रा. लि.
969	04-15288	निस्सम ट्रान्समीशन प्रा. लि.
970	04-15237	विनीत वेलवेट मिल्स प्रा. लि.
971	04-14255	स्टेलीयोन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.

972	04-13149	लासी टेक्स्टाईल्स प्रा. लि.
973	04-14251	इताहियात मेटल कास्ट प्रा. लि.
974	04-13862	एलाइव कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
975	04-15266	भगवती शीट मेटल प्रोडक्ट्स बरोडा प्रा. लि.
976	04-14196	कधम पेट्रोकेमिकल्स प्रा. लि.
977	04-14199	सयाजी फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
978	04-15058	नचिकेत फीनस्टोक कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
979	04-29978	आवास क्रेडीट केपीटल प्रा. लि.
980	04-10174	सांइबाबा प्रोपर्टीज प्रा. लि.
981	04-10158	ताप्ती सिमेन्ट एजन्सीज प्रा. लि.
982	04-10134	शकुन हाइटेक इलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.
983	04-10086	सिद्धार्थ स्टोन प्रा. लि.
984	04-27540	कनैया मार्केटींग प्रा. लि.
985	04-27745	हरिओम मार्केटींग प्रा. लि.
986	04-27536	कोम्फोर्ट मार्केटींग प्रा. लि.
987	04-10164	भांद्रा इंजिनियरींग कोन्ट्राक्ट कम्पनी प्रा. लि.
988	04-18328	सुपर प्रिन्टेक मशीनरी (इ) प्रा. लि.
989	04-18322	बंसीधर टेक्षुराइजर्स प्रा. लि.
990	04-25952	सुन्दरम फार्मस प्रा. लि.
991	04-12501	आनंद पोलीटेक् प्रा. लि.
992	04-35151	रीवरडेल फार्मा प्रा. लि.
993	04-35137	धेतरवाल ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.
994	04-35131	नीकी पोलीकेम प्रा. लि.
995	04-35073	तक्षशिला रेसीडन्सी प्रा. लि.
996	04-35068	देवसन सिल्स मिल्स प्रा. लि.
997	04-35022	दिव्यभोम मिनरल्स प्रा. लि.
998	04-35020	ज्युपीटर फ्लामेन्टस प्रा. लि.
999	04-30291	सेक्तवीर फायनान्स प्रा. लि.
1000	04-30564	जिनेश्वर लीजींग एण्ड फायनान्स कम्पनी प्रा. लि.

1001	04-30630	लोरेल कोम्सेटीक्स (इन्डिया) प्रा. लि.
1002	04-30841	राजपूताना फीनस्टोक प्रा. लि.
1003	04-30842	ममता फेब्रीक्स प्रा. लि.
1004	04-35126	स्पीडबोन्ड एक्सप्रेस कुरियर सर्वीसीस प्रा. लि.
1005	04-35182	प्रियंका फेशनस प्रा. लि.
1006	04-35176	नेप्च्युन सायबर वर्ल्ड प्रा. लि.
1007	04-35174	सांवरिया सिल्वर प्रा. लि.
1008	04-35405	श्यामसुंदर फायनान्स प्रा. लि.
1009	04-35400	देवर्ष मार्केटींग सर्वीसीज प्रा. लि.
1010	04-35393	कोरोला एगोटेक प्रा. लि.
1011	04-35389	हरिहर कोम्युनिकेशनस प्रा. लि.
1012	04-35380	गीतांजली एज्युकेशन प्रा. लि.
1013	04-35362	एडमायर ओवरसीज प्रा. लि.
1014	04-35358	चित्रकुट कोटन प्रा. लि.
1015	04-35334	रुद्र ट्रेडलींक प्रा. लि.
1016	04-35318	युनिटोर शीप्स सर्वीसीस प्रा. लि.
1017	04-35296	विजय पब्लिकेशन प्रा. लि.
1018	04-35216	तापी कन्ज्युमर स्टोर्स प्रा. लि.
1019	04-35190	पुनियम मोटर केयर सर्वीसीज प्रा. लि.
1020	04-35189	आंचल मार्केटींग सर्वीसीज प्रा. लि.
1021	04-35186	आशापुरा पोर्ट एण्ड मरीन प्रा. लि.
1022	04-35467	प्रियांक नेटवर्क प्रा. लि.
1023	04-35464	स्पेन्टा एक्सप्लोरर प्रा. लि.
1024	04-35462	जेनीथ मोटेल्स प्रा. लि.
1025	04-35447	त्रिपल एस वी बायोटेक इन्डिया प्रा. लि.
1026	04-35452	जीनियस केरियर टर्नींग प्वाइंट प्रा. लि.
1027	04-35483	हळवल सोल्ट ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.
1028	04-35490	धांगध्रा सोल्ट वर्क्स प्रा. लि.
1029	04-35491	परमार सोल्ट प्रा. लि.

1030	04-35976	पार हेल्थ केयर प्रा. लि.
1031	04-12695	खैबर हेतचियर्स प्रा. लि.
1032	04-12607	माणेकलाल टेक्षटाइल प्रोसेसर्स प्रा. लि.
1033	04-12579	श्रीजी हाऊसींग एण्ड फायनान्स कम्पनी प्रा. लि.
1034	04-12404	परिश्रम इन्वेस्टमेन्ट फायनान्सीयल लीगल एण्ड टेक कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
1035	04-12418	वीर कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1036	04-12432	जनता सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1037	04-12491	गोल्ड हिल ग्रेनाइट प्रा. लि.
1038	04-12446	सुरेन्दर बेयरींग्स कम्पनी प्रा. लि.
1039	04-12443	कपाली फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
1040	04-12290	ग्रीनलाईन ट्रावेल्स प्रा. लि.
1041	04-12396	कबीर एल्युमिनियम एक्स्ट्रुजन प्रा. लि.
1042	04-13927	जानु इम्पैक्स प्रा. लि.
1043	04-13926	भावटेक्स (इन्डिया) प्रा. लि.
1044	04-13906	नरेश हाऊसींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
1045	04-13937	चिराग ओइल मिल प्रा. लि.
1046	04-13871	मनोरथ केरियर्स प्रा. लि.
1047	04-13876	काका सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1048	04-13700	रीपल फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
1049	04-13773	धारा फोर्जींग्स प्रा. लि.
1050	04-13234	डीलक्ष फेब्रीक्स प्रा. लि.
1051	04-13236	न्युटेक मेटल पावडर्स प्रा. लि.
1052	04-13387	मेरा सपना कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1053	04-13461	अंबाजी टेक्षफेब प्रा. लि.
1054	04-13434	उत्तम जीमखाना प्रा. लि.
1055	04-13746	आस्प्रा केमिकल्स प्रा. लि.
1056	04-13739	अक्षान ग्रेम्स प्रा. लि.
1057	04-13673	लेजर फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
1058	04-12383	अनुभव सिन्थेटीक्स प्रा. लि.

1059	04-12371	मृदंग होटेल्स प्रा. लि.
1060	04-12344	वेजलपुर स्पोर्ट्स क्लब प्रा. लि.
1061	04-12340	पनोली टेक्स (इन्डिया) प्रा. लि.
1062	04-12336	हाजेल क्राफ्ट इन्टरनेशनल प्रा. लि.
1063	04-14693	श्री सर्जीकोन प्रा. लि.
1064	04-14945	अंजली सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1065	04-14308	एक्सेलन्ट इन्टरलीक सर्वीसीज प्रा. लि.
1066	04-14691	लोटस स्पीनर्स प्रा. लि.
1067	04-14680	गजानंद पोलीमर्स प्रा. लि.
1068	04-14722	आल्प्स एयरकोन प्रा. लि.
1069	04-14465	अद्वैत बिल्डर्स प्रा. लि.
1070	04-14161	फ्लेमींगो टेक्स्टाइल्स प्रा. लि.
1071	04-15176	डनहिल प्लास्टीक्स प्रा. लि.
1072	04-15121	खरडिया टेक्स्टाइल प्रा. लि.
1073	04-15164	धारेश्वर ग्रे पेपर बोर्ड मिल प्रा. लि.
1074	04-15157	तुलसी डाइंग एण्ड प्रिन्टींग मिल्स प्रा. लि.
1075	04-15171	महेता पोलीमर्स प्रा. लि.
1076	04-15160	गरुडेश्वर पेकेजींग प्रा. लि.
1077	04-15188	इन्द्रिय पेपर बोर्ड प्रा. लि.
1078	04-14370	प्राईम सिलीकोनवेली प्रा. लि.
1079	04-14354	विनसन्स टेक्ष्युराइजर्स प्रा. लि.
1080	04-14331	वेलकम डाइंग एण्ड प्रिन्टींग मिल्स प्रा. लि.
1081	04-14899	रघुवीर पेपर मिल्स प्रा. लि.
1082	04-14896	गोल्डन मेइज प्रा. लि.
1083	04-14863	दरबार जीमखाना प्रा. लि.
1084	04-14822	सामदार पम्पस प्रा. लि.
1085	04-14807	पवित्र नेचरल मेडीसीन्स प्रा. लि.
1086	04-14713	ओआसीस एलीवेटर्स प्रा. लि.
1087	04-14962	पारस टच्युब सेल्स प्रा. लि.

1088	04-14580	युनिक फ्लेक्सिबल प्रिन्ट प्रा. लि.
1089	04-13546	योगीता फायनान्स प्रा. लि.
1090	04-13487	सदगुरु स्टील प्रा. लि.
1091	04-13601	पार्थ पोलीयस्टर प्रा. लि.
1092	04-13586	कटक एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1093	04-13414	बोनी ब्रिक्स कम्पनी (इन्डिया) लि.
1094	04-13400	महालक्ष्मी नामक्कल ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.
1095	04-13523	मासम केमिकल्स प्रा. लि.
1096	04-13594	विन्डसन वर्ल्ड ट्रेड्स एण्ड ट्रावेल्स प्रा. लि.
1097	04-16627	रोक्षी प्लास्ट प्रा. लि.
1098	04-16135	दिनेश सिनफेब प्रा. लि.
1099	04-16078	सत्यम जेम्स प्रा. लि.
1100	04-16077	महेश फेब्रीक्स प्रा. लि.
1101	04-16148	गणपति डोमेस्टीक एप्लायन्सीस प्रा. लि.
1102	04-15944	शांतिनिकेतन होटल्स प्रा. लि.
1103	04-15804	कृति डायकेम प्रा. लि.
1104	04-15784	गायत्री फोर्जींग्स प्रा. लि.
1105	04-15825	विश्वास फेब्रीक्स प्रा. लि.
1106	04-16068	पिंका फायनान्स प्रा. लि.
1107	04-15006	थारोडवाला कन्स्ट्रक्श प्रा. लि.
1108	04-15842	कर्मा एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1109	04-15995	मिन्ट हाऊस फायनान्स प्रा. लि.
1110	04-15692	मेसी फर्गुशन इंजिनियरींग एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
1111	04-15648	लिब्रा सुपर स्टोर्स प्रा. लि.
1112	04-15649	पटेल सिक्योरीटी सर्वीसीज प्रा. लि.
1113	04-15650	चेचानी फुड्स प्रा. लि.
1114	04-35342	नवकार कार्बन्स प्रा. लि.
1115	04-35542	कपिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
1116	04-35563	प्रिमियम रिस्क सर्वीसीस प्रा. लि.

1117	04-35569	वर्धमान मिनरल्स प्रा. लि.
1118	04-35599	नीशु डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
1119	04-35593	श्री सुरत फ्रेश फ्रुट्स कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1120	04-35592	श्री सौराष्ट्र फ्रुट्स एण्ड वेजीटेबल्स स्टोरेज प्रा. लि.
1121	04-35503	डायल अ हेल्प ओटो क्लब प्रा. लि.
1122	04-35674	रोयल ओर्गनाइजर्स प्रा. लि.
1123	04-35634	शरण मार्केटींग एण्ड सर्वीसीज प्रा. लि.
1124	04-35632	श्री गुरुकृपा सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1125	04-35623	शिवगंगा फुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1126	04-35622	निधि शनरुम्स प्रा. लि.
1127	04-35613	अक्षत एक्जीम प्रा. लि.
1128	04-35614	एधेम ट्रेडलींक प्रा. लि.
1129	04-35617	गुडवील इलास्टोमर्स प्रा. लि.
1130	04-20426	राजरत्न टेक्ष्युराइजर्स प्रा. लि.
1131	04-20332	गगलानी यार्न्स प्रा. लि.
1132	04-20479	गेलेक्सी सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1133	04-23388	इशान लाईम प्रा. लि.
1134	04-23599	शुक्ला फायनान्स प्रा. लि.
1135	04-23562	श्रीराम कलर-टेक कम्पनी प्रा. लि.
1136	04-23560	बटरपलाय सनफेब प्रा. लि.
1137	04-23828	जवेर होटल्स प्रा. लि.
1138	04-23755	गिरधारा डेयरी एण्ड फुड प्रा. लि.
1139	04-23751	डेल्टा फीनस्टोक प्रा. लि.
1140	04-23629	विकसेर फेब नीट प्रा. लि.
1141	04-32624	कपुरीअश इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1142	04-24207	चेरी फार्मालिक्स प्रा. लि.
1143	04-24206	वसुंधरा फीनवेस्ट प्रा. लि.
1144	04-24198	मीरकल रेमेडीस प्रा. लि.

1145	04-35514	शगुन फिनस्टोक प्रा. लि.
1146	04-09566	एयरको इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
1147	04-09567	सोहम डायमन्ड प्रा. लि.
1148	04-09554	मारुति प्यालवूड्स प्रा. लि.
1149	04-32624	फरीयस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
1150	04-09519	ओम जीमखाना प्रा. लि.
1151	04-09518	पटेल ओटो फायनान्स एण्ड इनवेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
1152	04-09577	हिमानी केमिकल्स प्रा. लि.
1153	04-34343	प्रतिक एयर टेक्स फेब यार्न प्रा. लि.
1154	04-34344	उत्कल एल्युमिनियम एण्ड कन्डक्टर प्रा. लि.
1155	04-34371	योगी स्टेशनर्स प्रा. लि.
1156	04-34384	जयेन्द्र जीमखाना प्रा. लि.
1157	04-34388	सनाबील डवलोपर्स प्रा. लि.
1158	04-34465	सिद्धिविनायक होस्पिटल प्रा. लि.
1159	04-34985	पेरेडाइझ कार्ड होल्डर प्रा. लि.
1160	04-34961	डोमाडिया सेल्स एण्ड मेनेजमेन्ट प्रा. लि.
1161	04-06533	विजय कन्टेनर्स प्रा. लि.
1162	04-14732	फ्रन्टलाईन फोटो टेकनीक प्रा. लि.
1163	04-14740	पार्थ फीनलीझ कम्पनी प्रा. लि.
1164	04-14754	ध इगल्स ओफ भारत एयरवेझ प्रा. लि.
1165	04-14806	पांचा कोम्प्युटर्स प्रा. लि.
1166	04-14803	राजकुमार होटल प्रा. लि.
1167	04-14800	कडकोटस स्पीनर्स प्रा. लि.
1168	04-14799	साकार आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1169	04-14782	सैद्र टेक्च्युराइजर्स प्रा. लि.
1170	04-16222	सलोनी डवलोपर्स प्रा. लि.
1171	04-16179	ताज टेक्स्टाइल्स प्रा. लि.
1172	04-16184	था फुड्स प्रा. लि.
1173	04-16197	कीम फ्लेक्सीबेल्टस प्रा. लि.

1174	04-16160	आदिनाथ वेव प्रा. लि.
1175	04-16697	निरव ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
1176	04-16162	वीर वर्धमान फेब प्रा. लि.
1177	04-16153	टाइगर जीमखाना प्रा. लि.
1178	04-16276	विजयंत जीमखाना प्रा. लि.
1179	04-16250	चिनार वुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1180	04-16217	रेक्रीडन कोलोरीस प्रा. लि.
1181	04-16221	पकुशी टेक्स्टाइल्स प्रा. लि.
1182	04-14768	सची टेक्स्टाइल प्रा. लि.
1183	04-27184	सात्विक इन्टेक प्रा. लि.
1184	04-27653	शुभ योग लीजींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
1185	04-02714	स्क्रैप प्रोसेसिंग एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1186	04-02700	एस एण्ड जे श्रोफ्स एण्ड फायनान्सीसर्ज प्रा. लि.
1187	04-02691	जलाराम सेविंग्स प्रा. लि.
1188	04-02642	उर्मिला सेविंग प्रा. लि.
1189	04-01628	गुजरात कार्बोनिक गेस इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1190	04-01767	हरिकृपा केमिकल्स वर्क्स प्रा. लि.
1191	04-06490	प्रो प्लास्ट (इन्डिया) प्रा. लि.
1192	04-06427	शाह लीजींग एण्ड एस्टेट्स प्रा. लि.
1193	04-06433	अलकापुरी जीमखाना प्रा. लि.
1194	04-06407	सोली जीमखाना प्रा. लि.
1195	04-06328	सुविधा ट्रावेल्स प्रा. लि.
1196	04-06105	लगडी केमिकल्स प्रा. लि.
1197	04-07221	सेइकोन सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1198	04-07216	शाह कोम्प्यूटर सर्वीसीस प्रा. लि.
1199	04-07212	प्रविण प्रकाश बिल्डर्स प्रा. लि.
1200	04-00930	क्रिशन मोडल्स एण्ड विज्युअल एड्स प्रा. लि.
1201	04-02983	महेता एण्ड शाह सुगर इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1202	04-02951	विसेल मिकेलेक प्रा. लि.

1203	04-03490	स्टार डेल्टा इलेक्ट्रिकल्स गुजरात प्रा. लि.
1204	04-03380	जोशी सिमेन्ट्स एण्ड टेक्स्टाइल इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1205	04-03120	रीलीफ जीमखाना प्रा. लि.
1206	04-03155	मल्टिकेप्स प्रा. लि.
1207	04-03028	मेडीनो इन्स्ट्रुमेन्ट प्रा. लि.
1208	04-03213	कोआ स्कीम ओर्गेनीक केमिकल्स प्रा. लि.
1209	04-25800	ग्रोमर वुडस प्रा. लि.
1210	04-25698	गालाव फायनान्सीयल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
1211	04-25735	कुवाडा ग्रेनाइट मार्बल प्रा. लि.
1212	04-25613	मृदुला इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
1213	04-25615	रतनलाल इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
1214	04-25424	अर्शन ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
1215	04-25346	सिद्धि कोट-यार्न प्रा. लि.
1216	04-25179	कोठारी गेसीस प्रा. लि.
1217	04-25148	सेइलोन सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1218	04-25258	रेप-रेब अर्थ मुवर्स प्रा. लि.
1219	04-25423	श्रीसेल फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्टस प्रा. लि.
1220	04-25437	रुचीशा पेट्रेकेमिकल्स प्रा. लि.
1221	04-25684	अच्युता कन्सल्टन्स प्रा. लि.
1222	04-25646	श्रीनाथजी मेट इक्वीप प्रा. लि.
1223	04-25959	सागरधारा फार्मस प्रा. लि.
1224	04-26143	स्वर्णदीप कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
1225	04-26144	सुमो फीनकेप प्रा. लि.
1226	04-26162	फारा एस्टेट प्रा. लि.
1227	04-26085	पंचमणि सिक्वोरीटीस प्रा. लि.
1228	04-26112	बलतुर ओवरसीज प्रा. लि.
1229	04-26398	नवज्योत कुरियर सर्वीसीज प्रा. लि.
1230	04-26357	पानवेल रिसोर्टस प्रा. लि.
1231	04-26456	कल्पतरु सोल्ट वर्क्स प्रा. लि.

1232	04-26425	अरिहंत स्वीच गियर्स प्रा. लि.
1233	04-26453	साईलीला सिक्योरीटीज प्रा. लि.
1234	04-26333	स्पेस शेयर ब्रोकर्स सर्वोसीज प्रा. लि.
1235	04-26265	के. एल. एयरवेज प्रा. लि.
1236	04-26271	कारानी फुड्स प्रा. लि.
1237	04-26276	लक्ष्मज्योति लीजींग प्रा. लि.
1238	04-26233	श्री यमुना बिल्डर्स प्रा. लि.
1239	04-26236	रघुवीर ओक्सिजन प्रा. लि.
1240	04-33956	सिपेन लेब्स प्रा. लि.
1241	04-33795	सेतु सिनर्जीस प्रा. लि.
1242	04-33899	आर्य सिक्योरीटी सर्वोसीज प्रा. लि.
1243	04-33881	सिंधु एक्जीम प्रा. लि.
1244	04-33791	गौरव ट्रेक्टर्स प्रा. लि.
1245	04-33774	दिव्य शिल्प मेनेजमेन्ट एण्ड कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
1246	04-33886	अंजनीसूता एग्रो फुड प्रा. लि.
1247	04-33783	ट्राय डेटा इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1248	04-33944	उंझा एग्रोफुड प्रा. लि.
1249	04-33916	आदिनाथ स्वीच गियर्स प्रा. लि.
1250	04-33938	हिमवती एग्रो प्रा. लि.
1251	04-33924	आकाश रियालीटीस प्रा. लि.
1252	04-33932	क्रिसन्ट कार केयर प्रा. लि.
1253	04-33922	ब्रिहान फास्टनर्स प्रा. लि.
1254	04-33958	सनव्यू कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1255	04-30560	पूर्वी कन्टेइनर्स प्रा. लि.
1256	04-30251	पार्थ फायनान्सीलय सर्वोसीज प्रा. लि.
1257	04-30232	गडिया लीजींग कम्पनी प्रा. लि.
1258	04-24713	स्प्रीन्ट फार्मासीडस प्रा. लि.
1259	04-24016	राजसहयोग मार्केटींग प्रा. लि.
1260	04-29863	मोरखीया एण्ड महेता एक्जीम प्रा. लि.

1261	04-24102	जयसन स्टील्स एण्ड एलोइस प्रा. लि.
1262	04-24185	शीला प्रिन्टस प्रा. लि.
1263	04-24180	पावागढी एक्सपोर्टस प्रा. लि.
1264	04-24366	विराट हाउसींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
1265	04-34416	ओटोभाण ओटोक्राफ्ट प्रा. लि.
1266	04-24361	वेकफील्ड फायनान्सीयल सर्वीसीस प्रा. लि.
1267	04-24139	हाईटाइम सिक्योरीटी एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
1268	04-34395	क्रिसन्ट एडवर्टाईजिंग प्रा. लि.
1269	04-34389	सुदर्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
1270	04-34272	अग्रसेन होटेलस प्रा. लि.
1271	04-34302	ओलम्पिया मार्केटींग प्रा. लि.
1272	04-24311	हीना सिल्क मिल्स प्रा. लि.
1273	04-34250	शुभम पेट्रो प्रा. लि.
1274	04-34312	करावली क्लब्स एण्ड रिसोर्टस प्रा. लि.
1275	04-34001	सुरोल स्टील प्रा. लि.
1276	04-24796	तनुज टेक्स्टाइल्स प्रा. लि.
1277	04-24790	अबजी स्टील्स प्रा. लि.
1278	04-34031	शुभम क्लिनर्स प्रा. लि.
1279	04-34185	प्रेशीयर्स शीपिंग प्रा. लि.
1280	04-34230	उत्तरांचल टुरीजम प्रा. लि.
1281	04-34218	अर्पण मार्केन्टाइल सर्वीसीस प्रा. लि.
1282	04-24025	शिल्प रीयल एस्टेट प्रा. लि.
1283	04-24167	ब्रह्मा एयरोकेम प्रा. लि.
1284	04-34179	सप्तेश्वर होलीडे रिसोर्टस प्रा. लि.
1285	04-34166	नागमणि कन्ज्युमर मार्केटींग प्रा. लि.
1286	04-34168	शुभमंगल एक्सपोर्ट प्रा. लि.
1287	04-34130	प्राजल इलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.
1288	04-34125	सरस्वती सागर फीनवेस्ट प्रा. लि.
1289	04-34441	माइक्रोस्टार सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रा. लि.

1290	04-34601	ब्रिज-भूमि फीनलीज प्रा. लि.
1291	04-34617	सनराइज वेकेशन क्लब प्रा. लि.
1292	04-34544	स्वीटी सोल्ट प्रा. लि.
1293	04-34658	महालक्ष्मी बोझ हाइटेक ड्रीलींग प्रा. लि.
1294	04-34456	जय श्रीजी कृशर प्रा. लि.
1295	04-34657	परंताप फार्मा प्रा. लि.
1296	04-34645	सूर्या एपरल प्रा. लि.
1297	04-34633	एडवान्स रेमीडीज प्रा. लि.
1298	04-34930	राशी सोल्वन्टस प्रा. लि.
1299	04-34921	सुरत मोटर फीनस्टोक प्रा. लि.
1300	04-34872	शिकागो टेकनीकल रिसोर्सीस (इन्डिया) प्रा. लि.
1301	04-34880	सुरज ग्राइन्डींग प्रा. लि.
1302	04-34849	सुरज सीटी एन्टरटेन्मेन्ट कोम्पेक्स प्रा. लि.
1303	04-34117	पारेख पोलीझीपर बेग्स प्रा. लि.
1304	04-34073	दवे कार ट्रावेल्स प्रा. लि.
1305	04-05764	विनस फास्टनर्स प्रा. लि.
1306	04-05801	त्रिवेणी इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1307	04-06432	ग्लायको फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
1308	04-05229	किष्ना फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
1309	04-05474	बरोडा टेकनोकेम प्रा. लि.
1310	04-04787	आइबीआइ अग्रो केमिकल्स प्रा. लि.
1311	04-04844	रीटा कार्बोनेट प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1312	04-04984	गाला सिमेन्ट प्रा. लि.
1313	04-05144	अरिहंत पाइप्स प्रा. लि.
1314	04-04162	इन्डियन डीजीटल इलेक्ट्रोनीक्स एसोसीएट्स प्रा. लि.
1315	04-04251	आंबलियासण पेपर मिल्स प्रा. लि.
1316	04-05440	कलोल ट्रेड एण्ड एजन्सीस प्रा. लि.
1317	04-04578	जेवीके कोटन एण्ड सिल्क मिल्स प्रा. लि.
1318	04-04384	श्री जीपीआर केम-फा प्रा. लि.

1319	04-34566	प्रिन्स सोल्ट प्रा. लि.
1320	04-27481	श्रेयसोना फीनलीज प्रा. लि.
1321	04-27460	नमन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1322	04-27443	कविलार ओक्सिजन प्रा. लि.
1323	04-05073	टी आर महेता सिन्थो फार्मा प्रा. लि.
1324	04-03348	द्वारीका फायनान्स प्रा. लि.
1325	04-03460	हरिलाल भीखाभाई प्रा. लि.
1326	04-03286	अवतार याचेस प्रा. लि.
1327	04-02179	गुजरात फेब्रीकेशन एण्ड इक्वीपमेन्ट कम्पनी प्रा. लि.
1328	04-04133	मीराम्बीका फेब्रीकेटर्स प्रा. लि.
1329	04-04062	भारत एग्रो इम्पलीमेन्ट्स प्रा. लि.
1330	04-03984	गांधीनगर जीमखाना प्रा. लि.
1331	04-03858	सज्जन इन्ट्रेड प्रा. लि.
1332	04-09127	स्पार्क जीमखाना प्रा. लि.
1333	04-09244	विजय कास्टील प्रा. लि.
1334	04-09367	स्कायबर्ड अल्ट्रा मरीन एण्ड पीगमेन्ट्स प्रा. लि.
1335	04-09370	अलाइड अर्थमुवर्स लि.
1336	04-09395	बोयस फार्मा प्रा. लि.
1337	04-09108	शिवम सुन्दरम प्लास्टीक इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1338	04-09057	विजु सिन्टेक्स प्रा. लि.
1339	04-09059	नामु सिन्टेक्स प्रा. लि.
1340	04-09006	संदीप ओक्सिजन प्रा. लि.
1341	04-08974	सिंगल टेलीवीजन प्रा. लि.
1342	04-07426	सहयोग ओर्गेनाइजर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
1343	04-07135	जगदीश कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1344	04-06798	एवरशाईन इंजिनियरींग प्रा. लि.
1345	04-03734	बीआर अर्थ प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1346	04-27287	केबीएम एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1347	04-10077	मेहुल फार्मा प्रा. लि.

1348	04-10670	शिवम इक्वीपमेन्टस प्रा. लि.
1349	04-09910	इन्डियन स्नेक्स एण्ड केरियल्स कम्पनी प्रा. लि.
1350	04-10242	गोकुल प्लास्टीक्स प्रा. लि.
1351	04-10274	कंडला इन्वेस्टमेन्टस प्रा. लि.
1352	04-10265	सज्जन सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1353	04-10272	जनरल कन्ट्रोलस प्रा. लि.
1354	04-10112	बेनीस सी फुड्स एण्ड बाय प्रोडक्टस प्रा. लि.
1355	04-08566	मोरबी जीमखाना प्रा. लि.
1356	04-08798	सत्कार जीमखाना प्रा. लि.
1357	04-08998	सावीलीने सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1358	04-10517	राजमणि ओर्गेनो केमिकल्स प्रा. लि.
1359	04-09531	मेहेर कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1360	04-10393	सी. के. ठाकोर एण्ड सन्स (मिनरल्स) प्रा. लि.
1361	04-10512	श्री अंबिका फास्टनर्स प्रा. लि.
1362	04-10516	एस. डी. एस. शीपिंग (गुजरात) प्रा. लि.
1363	04-09891	एक्वा सर्वीसीस प्रा. लि.
1364	04-09806	अश्वीन स्टील कन्टेइनर्स प्रा. लि.
1365	04-09800	ल्युक्रेटीव मेटल कोट प्रा. लि.
1366	04-09598	एरो प्रिन्टींग प्रा. लि.
1367	04-10040	गुजरात एवीरो प्रोजेक्टस प्रा. लि.
1368	04-10008	रंजित सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1369	04-09977	दाठावाला इन्वेस्टमेन्टस एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
1370	04-00253	मंगलदास गीरधरदास पारेख प्रा. लि.
1371	54-139	यामानेको स्पेश्यलीटी केमिकल्स प्रा. लि.
1372	54-158	सेल्वासा फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
1373	04-24145	रविराज सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1374	04-07516	प्रभात जीमखाना प्रा. लि.
1375	04-07701	खाराघोडा मेग्नेरा वर्क्स प्रा. लि.
1376	04-07708	अजय पेट्रोलियम्स प्रा. लि.

1377	04-28530	स्वीसकेम हेल्थकेयर प्रा. लि.
1378	04-28563	हरिधाम फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
1379	04-27150	स्वस्तिक फीनलीज प्रा. लि.
1380	04-27111	आइसबर्ग झुन फीस्कल सर्वीसीस प्रा. लि.
1381	04-27059	प्रमुख ओक्सिटेक प्रा. लि.
1382	04-27196	श्री इम्पेक्स (इन्डिया) प्रा. लि.
1383	04-27160	महाली मार्बल प्रा. लि.
1384	04-27507	राज इंजिनियरींग प्रा. लि.
1385	04-27269	पालमोन फीशर्स प्रा. लि.
1386	04-27212	गुरुआशिष शीप ब्रेकिंग प्रा. लि.
1387	04-27435	लहेर गार्मेन्ट्स प्रा. लि.
1388	04-27628	पुष्करावत फीनलीज प्रा. लि.
1389	04-28545	गोविंद सोफटेक प्रा. लि.
1390	04-28639	बबलू कार्गो मुवर्स प्रा. लि.
1391	04-28394	अनिकेत मोटेल्स प्रा. लि.
1392	04-28361	जेनकोक्स केम प्रा. लि.
1393	04-28294	मंगलमूर्ति फीनकेप प्रा. लि.
1394	04-27771	शुभलक्ष्मी प्लास्टीक्स प्रा. लि.
1395	04-29761	पटेल आर्ट ज्वेलर्स प्रा. लि.
1396	04-29763	युथेनीक लेब्स प्रा. लि.
1397	04-29712	निखिल सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1398	04-29723	यश टेकनो क्राफ्ट्स प्रा. लि.
1399	04-29724	पूजन इंजिनियरींग कम्पनी प्रा. लि.
1400	04-29733	किरन टेम्पो प्रा. लि.
1401	04-29664	श्री सिद्धनाथ फायनान्स प्रा. लि.
1402	04-29464	अपना टेलीवीजन एण्ड कोम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
1403	04-29697	श्री तुलसी एल्युमिल्स प्रा. लि.
1404	04-29807	कमान्डर स्टोन्स प्रा. लि.
1405	04-29949	एटलान्टीक पोल्ट्री फार्म प्रा. लि.

1406	04-29942	शहेनाझ पोल्ट्री एण्ड फुडस प्रा. लि.
1407	04-09621	किरात सिरामिक्स प्रा. लि.
1408	04-09679	डेयजी टोइस प्रा. लि.
1409	04-09673	सिराज सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
1410	04-09989	श्रीजी साईजर्स प्रा. लि.
1411	04-07103	अंबिका एयरोनान्द्रे रोलिंग मिल्स (गुजरात) प्रा. लि.
1412	04-07705	सोलारेक्ष फोटोवोल्टेक्ष प्रा. लि.
1413	04-06728	सुरज डाइज एण्ड इन्टरमीडीएट प्रा. लि.
1414	04-06716	अमर जीमखाना प्रा. लि.
1415	04-06712	एरीयेना इलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.
1416	04-07604	संतोष जीमखाना प्रा. लि.
1417	04-07092	प्रताप फर्टीकेम प्रा. लि.
1418	04-07171	मोरेन्धा मार्केटींग प्रा. लि.
1419	04-07118	गुजरात मोटेल्स लि.
1420	04-07115	आराधना जीमखाना प्रा. लि.
1421	04-07233	अजी लेधर क्लोथ मेन्युफेक्चरींग प्रा. लि.
1422	04-07240	सपना डाइंग एण्ड प्रिन्टींग प्रा. लि.
1423	04-09975	श्री व्यंकटेश रोटर्स प्रा. लि.
1424	04-09974	जयराज हाऊसींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
1425	04-09945	प्लेसेन्टीया इलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.
1426	04-09865	वैभव प्रकाशन प्रा. लि.
1427	04-09872	श्रीनिधि कोरुगेटेड स्टील प्रा. लि.
1428	04-09893	सेवन स्टार्स जीमवाना प्रा. लि.
1429	04-09847	मोडर्न रेजीकास्ट प्रा. लि.
1430	04-09842	होनीसेल प्रोडक्ट्स (इन्डिया) प्रा. लि.
1431	04-09841	आरवायबी पिगमेन्ट्स प्रा. लि.
1432	04-09796	बनास ट्रेडर्स प्रा. लि.
1433	04-09779	स्टार बोटलींग प्रा. लि.
1434	04-09807	के. पी. एण्ड कम्पनी (ड्रम्स) प्रा. लि.

1435	04-09737	रुबी लेबोरेटरीज प्रा. लि.
1436	04-09766	वस्तु संस्कार प्रा. लि.
1437	04-06052	जय फेब्रीकेम इंजिनियर्स प्रा. लि.
1438	04-05630	एच. रामचंद सिमेन्ट प्रा. लि.
1439	04-06274	ऐआरसी लेबोरेटरीज प्रा. लि.
1440	04-05637	रोयल फेरो एलोइज प्रा. लि.
1441	04-05694	आदर्श एलोइज प्रा. लि.
1442	04-05547	संत जलाराम प्रिन्टींग मिल्स प्रा. लि.
1443	04-05781	पत्सन फोर्जींग प्रा. लि.
1444	04-05511	मोनोलीथ कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1445	04-05828	मधुवन बिल्डर्स प्रा. लि.
1446	04-05835	शेल्टीस डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1447	04-10865	जयभवानी जीमखाना प्रा. लि.
1448	04-07599	फ्रान्स एयर (एजन्सी) प्रा. लि.
1449	04-07583	नेम मेटल एण्ड एलोइस प्रा. लि.
1450	04-07570	कुमार ओईल इन्डस्ट्रीज
1451	04-07572	गुजरात कृषि केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स प्रा. लि.
1452	04-07574	जयहिन्द एग्रीको (गुजरात) प्रा. लि.
1453	04-07634	बालाजी मेटल प्रि ट्रीटमेन्ट केमिकल्स प्रा. लि.
1454	04-07661	युनाइटेड बोटलर्स प्रा. लि.
1455	04-07736	जय अंबे जीमखाना प्रा. लि.
1456	04-07734	राजीव डीसन्ट जीमखाना प्रा. लि.
1457	04-07743	शिव शक्ति पोली स्नेक्स प्रा. लि.
1458	04-07764	युनिवर्सल लेधर इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1459	04-10871	शेलजा प्लास्टो प्रा. लि.
1460	04-10875	नीट पेपर ट्युब्स प्रा. लि.
1461	04-10879	इन्टरेक्ट सिस्टम्स प्रा. लि.
1462	04-10889	ब्रेक थ्रु कोम्प्यूटर्स प्रा. लि.
1463	04-10896	ओरबीट इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्रा. लि.

1464	04-10904	धारा वेवर्स प्रा. लि.
1465	04-10976	युनिटेक कनेक्टर्स इन्डिया प्रा. लि.
1466	04-07068	कच्छ प्रकाशन प्रा. लि.
1467	04-07063	ब्ल्यू स्काय एलोइज प्रा. लि.
1468	04-07046	इच्छाकर लेबोरेटरीज प्रा. लि.
1469	04-07043	धर्मलोक भूमि विकास प्रा. लि.
1470	04-07022	श्री जनकल्याण हाथसर फेक्टरी प्रा. लि.
1471	04-07031	श्रीराम मीनकेम इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1472	04-07905	सौराष्ट्र जीमखाना प्रा. लि.
1473	04-07970	आकार फर्नीचर एण्ड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1474	04-07963	चिचरा सिन्थेटीक्स मिल्स प्रा. लि.
1475	04-08037	मेघा जीमखाना प्रा. लि.
1476	04-10962	गुजरात प्रोटेक्शन्स प्रा. लि.
1477	04-11046	जिनेन्द्र मार्केटिंग प्रा. लि.
1478	04-11010	रोजन्सी केरियर्स प्रा. लि.
1479	04-11029	नवसारी कोमर्शियल लीजींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
1480	04-11021	सेटेलाइट फार्मींग्स प्रा. लि.
1481	04-11017	पटेल बोरवेल प्रा. लि.
1482	04-10829	श्री लक्ष्मीनारायण एण्ड डवलपर्स एण्ड ओर्गेनाइजर्स प्रा. लि.
1483	04-10917	किस्टोफर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1484	04-10958	प्रगति व्यापार प्रा. लि.
1485	04-06795	फोटोफास्ट (राजकोट) प्रा. लि.
1486	04-06883	हसमुख सी.पटेल मेनेजमेन्ट एम्प्लोइज वेलफेर फाउन्डेशन प्रा. लि.
1487	04-06903	शार्टज केमिकल इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1488	04-06534	एसएनपी प्रोडक्ट्स (अल्युम) प्रा. लि.
1489	04-06603	प्रकाश रुरल इन्डस्ट्रीयल एस्टेट प्रा. लि.
1490	04-06656	सौराष्ट्र बिटचुमीन कम्पनी प्रा. लि.
1491	04-28205	ज्युपीटर एनर्जी एण्ड क्राफ्ट कन्सल्टन्ट्स प्रा. लि.
1492	04-27791	ट्रावेल मास्टर ब्यूरो प्रा. लि.

1493	04-27805	सायोना स्टील प्रा. लि.
1494	04-27768	नीलाशा फीनवेस्ट प्रा. लि.
1495	04-27110	ट्रान्सग्रान्ड कोन्योन फीस्कल प्रा. लि.
1496	04-32430	एग्रोहा इन्डस्ट्रीयल गेसीज प्रा. लि.
1497	04-32506	क्वीक ट्रेडलिंक्स प्रा. लि.
1498	04-32749	रविना डाइंग एण्ड प्रिन्टींग प्रा. लि.
1499	04-32404	ओरबीट वर्ल्ड वाइड प्रा. लि.
1500	04-32417	ट्रायडेन्ट इंजिनियरींग एण्ड मेनेजमेन्ट कन्सल्टन्टस प्रा. लि.
1501	04-32445	मिलन कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1502	04-32436	पारस स्ट्रीप्स प्रा. लि.
1503	04-32357	श्रेया मोटर्स प्रा. लि.
1504	04-32381	गुजरात विनर एण्ड प्लायवुड प्रा. लि.
1505	04-32335	मौर्य पेट्रोलियम सर्वीसीस प्रा. लि.
1506	04-32499	मधुरम सिल्क मिल्स प्रा. लि.
1507	04-32462	रीनोवेटीव सेलर्स प्रा. लि.
1508	04-32479	बंसीधर जीनींग प्रेसींग एण्ड ओईल प्रा. लि.
1509	04-32284	निरज रेफोइल्स प्रा. लि.
1510	04-32130	स्वामी फीनलीज प्रा. लि.
1511	04-31659	सीटी लाईफ इन प्रा. लि.
1512	04-31414	मातंगी इनस्पात प्रा. लि.
1513	04-31739	रोनक इम्पेक्स प्रा. लि.
1514	04-31744	शिवानी सेल्स प्रा. लि.
1515	04-31867	बाहुबलि बिल्डकोन प्रा. लि.
1516	04-31903	लीवरेज फीनान्सीएल सर्वीसीज प्रा. लि.
1517	04-31924	सागर रोड केरियर प्रा. लि.
1518	04-31151	गज्जर मोटर्स (गुजरात) प्रा. लि.
1519	04-31209	ऋषिकेश कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
1520	04-31278	बरोडा बेवरेजीस कम्पनी प्रा. लि.
1521	04-31287	बीपीन मोटेल्स प्रा. लि.

1522	04-30939	उषा ज्योत फुड प्रोडक्टस प्रा. लि.
1523	04-30964	धवन डेयरीज एण्ड फार्मस लि.
1524	04-31071	प्रारम्भ डवलोर एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1525	04-31095	शील-राज केमिकल्स प्रा. लि.
1526	04-31094	शील-राज ओर्गेनिक्स प्रा. लि.
1527	04-32024	आकार बिल्डकोन प्रा. लि.
1528	04-32028	हरसिद्धि ग्रेडिंग प्रा. लि.
1529	04-32258	जयश्री ऋषभदेव एस्टेट प्रा. लि.
1530	04-32314	सालाका एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1531	04-32463	साकेर एज ग्राफीक्स प्रा. लि.
1532	04-32470	जोयमत मेटल्स प्रा. लि.
1533	04-32485	सैलीनी केम-इम्पेक्स प्रा. लि.
1534	04-31781	चेम्पियन ट्रेडलींक सर्वीसीस प्रा. लि.
1535	04-33104	केवल कन्स्ट्रक्शन कन्सल्टन्सी प्रोजेक्टस प्रा. लि.
1536	04-33110	शुकन कोर्टींग पेइन्टस प्रा. लि.
1537	04-33124	दातार लीजींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
1538	04-32774	पूजा किरण केमिकल्स प्रा. लि.
1539	04-33138	सलमा मरीन प्रा. लि.
1540	04-32903	एसान्के रोडलाइन्स प्रा. लि.
1541	04-33039	नरोत्तमदास कानजीभाई राठोड शीप ब्रेकिंग प्रा. लि.
1542	04-33260	श्री राजेश्वरी स्टील प्रा. लि.
1543	04-33317	मानसी बेवरेजीस प्रा. लि.
1544	04-33326	गौरांग लाइवस्टोक ट्रेडिंग प्रा. लि.
1545	04-33431	गुंजन फीनस्टोक प्रा. लि.
1546	04-33456	सुशा फाइन केमिकल्स (एक्सपोर्ट) प्रा. लि.
1547	04-33627	गोपानी लीजींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
1548	04-32661	जयकिरण बेरींग प्रा. लि.
1549	04-33185	देवर्ष पोलीप्लास्ट प्रा. लि.
1550	04-32528	घडियाली इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.

1551	04-34529	एम.वी. कोम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
1552	04-30684	श्री सतगुरु प्रिन्टस प्रा. लि.
1553	04-30671	अर्बुदा सीडस प्रा. लि.
1554	04-30653	अनमोल एम्युजमेन्ट पार्क प्रा. लि.
1555	04-30553	एबीसी रबर प्रोडक्टस प्रा. लि.
1556	04-30569	संघवी इन्टरमिडीएटस प्रा. लि.
1557	04-30618	मुरलीधर केस्टर एक्सपोर्टस प्रा. लि.
1558	04-30718	कोसंबा होटेलस प्रा. लि.
1559	04-30802	जील होम अप्लायन्सीस प्रा. लि.
1560	04-30822	फाइन पम्प प्रा. लि.
1561	04-34500	फेयरडील हेल्थ क्लब प्रा. लि.
1562	04-34462	नोसीसल फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
1563	04-34448	चेतन स्पीनर्स प्रा. लि.
1564	04-34417	रन्ना सोफ्ट एक्सपोर्टस प्रा. लि.
1565	04-34427	युनिक ओवरसीज कलेक्शन प्रा. लि.
1566	04-34379	लिमोरन एग्रो फुड्स प्रा. लि.
1567	04-34334	निम्बल एंगल मिडीया मार्केटींग एण्ड एन्टरटेनमेन्ट प्रा. लि.
1568	04-34277	उमिया डायकेम प्रा. लि.
1569	04-34287	मोटो केमिकल्स प्रा. लि.
1570	04-34313	डायनामीक ओफसेट प्रा. लि.
1571	04-34322	दीशा प्रोपर्टीज प्रा. लि.
1572	04-30414	मानसी बिल्डकोन प्रा. लि.
1573	04-30415	मानसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
1574	04-30436	हरिओम एग्रोनोमिक्स प्रा. लि.
1575	04-30483	जागमन एन्टरप्राइसीस प्रा. लि.
1576	04-30500	स्पान स्वाप ट्रेडिंग प्रा. लि.
1577	04-30395	गेलेक्षी इन्टरमीडीयेटस प्रा. लि.
1578	04-30411	मानसी रीयल एस्टेट प्रा. लि.
1579	04-30412	मानसी रीयालीटीज प्रा. लि.

1580	04-30413	मानसी कोम्प्लेक्ष प्रा. लि.
1581	04-30167	वृद्धि फीनकेप प्रा. लि.
1582	04-30324	सनसाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
1583	04-30004	कोहिनूर वेक्स प्रा. लि.
1584	04-30019	सोहम फीनस्टोक प्रा. लि.
1585	04-30030	अवनि प्रोपर्टीज प्रा. लि.
1586	04-30115	अन्नपूर्णा पोलीपेक प्रा. लि.
1587	04-30160	इकोकेम प्रोडक्टस प्रा. लि.
1588	04-03540	लाईफ-एड्ड फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
1589	04-03506	रोहित रीफ्रेक्टरीज प्रा. लि.
1590	04-03497	आशिष फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
1591	04-03496	श्री डी एस टेक्स्टाइल प्रा. लि.
1592	04-03855	हासमो इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1593	04-03861	पूजा केरियर्स प्रा. लि.
1594	04-03727	श्री गायत्री पेपर मिल्स प्रा. लि.
1595	04-03927	संजय डायस्टफ एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
1596	04-03675	एल. एन. टेक्स्टाइल्स प्रा. लि.
1597	04-03656	विजापुर जीमखाना प्रा. लि.
1598	04-03697	आशियाना होटेल प्रा. लि.
1599	04-04157	स्करु कोरुगेटींग पेपर इन्डीट्रीज प्रा. लि.
1600	04-04175	क्लायमेक्स केमिकल इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1601	04-04094	मोडीयल ट्रेडर्स प्रा. लि.
1602	04-04050	पी. एस. इन्वेस्टमेंट्स एप्रिसीएशन कन्सल्टन्ट्स प्रा. लि.
1603	04-04030	एयर लीफ्ट इंजिनियर्स प्रा. लि.
1604	04-04032	आदर्श कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1605	04-04034	विकास डाय कास्टिंग्स प्रा. लि.
1606	04-04027	सौराष्ट्र रोलर मेटल्स प्रा. लि.
1607	04-04124	पेरमाउन्ट पेपर मिल्स प्रा. लि.
1608	04-04132	शिल्पा टेक्स्टाइल्स प्रा. लि.

1609	04-04135	बी एम प्रिसीजन्स प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1610	04-04136	बिस्फाक प्रा. लि.
1611	04-04145	तुषार पेपर मिल्स प्रा. लि.
1612	04-04685	भाग्यलक्ष्मी पेपर मिल्स प्रा. लि.
1613	04-04591	स्पेशलीटी ओईल्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
1614	04-04514	विंग्स पेट्रो केमिकल्स प्रा. लि.
1615	04-04370	इला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
1616	04-04422	सोरठ जीमखाना प्रा. लि.
1617	04-04446	गुजरात डाय एण्ड मेटल ट्रीटमेन्ट प्रा. लि.
1618	04-04791	विस्पमेक टेक्स्टाइल मशीनरी मेन्युफेक्चरर्स प्रा. लि.
1619	04-04938	शक्ति जीमखाना प्रा. लि.
1620	04-04949	रुबी स्ट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1621	04-04469	शैरु केमिकल प्रा. लि.
1622	04-29889	जय माडी कृपा डवल्लोपर्स प्रा. लि.
1623	04-29879	फेशीनेशन बुटीक्स प्रा. लि.
1624	04-29838	सेन्च्युर रेमेडीज प्रा. लि.
1625	04-29851	रुक्मी ट्रेडिंग प्रा. लि.
1626	04-29911	शेवरोन ओइल टुल्स प्रा. लि.
1627	04-29669	नियोन प्रमोशन प्रा. लि.
1628	04-29624	योगी फीनस्टोक प्रा. लि.
1629	04-29590	माउन्टेइन एन्टरप्राइजीस प्रा. लि.
1630	04-29588	हिमशिखा सिमेन्ट्स प्रा. लि.
1631	04-29833	आनंद जीमखाना प्रा. लि.
1632	04-34259	नवकार एनर्जी सिस्टम्स प्रा. लि.
1633	04-33809	पद्मावती टचुब्स प्रा. लि.
1634	04-34232	स्कायलेन्ड पम्पस प्रा. लि.
1635	04-39220	माइलस्टोन पेइन्ट्स एण्ड वार्नीशीश प्रा. लि.
1636	04-34678	हितेन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
1637	04-36014	श्री मांडवरायजी केम प्रा. लि.

1638	04-36811	शशांक केमिकल्स प्रा. लि.
1639	04-36727	पुरोहित इन्फोटेक प्रा. लि.
1640	04-36633	मेगालीथ इक्वीपमेन्टस प्रा. लि.
1641	04-36705	वुड पेकर फर्नीचर एण्ड इन्टीरीयर्स इन्डिया प्रा. लि.
1642	04-36722	सुरुशा इम्पेक्स प्रा. लि.
1643	04-36715	भवानी ओर्गेनिक्स प्रा. लि.
1644	04-36766	स्टेलर कोस्मेटिक्स एण्ड फार्मा प्रा. लि.
1645	04-36731	गायत्री क्लासीस प्रा. लि.
1646	04-36461	रिद्धिमा एग्रो फुड्स प्रा. लि.
1647	04-36463	प्राची सेल्स एण्ड सर्वीसीस (गुजरात) प्रा. लि.
1648	04-36500	पपीलोन कम्प्यूटर एज्युकेशन प्रा. लि.
1649	04-36554	स्वीप्र फुड प्रा. लि.
1650	04-36570	न्य कोन्सेप्ट इन्ट्रोड्यूसर प्रा. लि.
1651	04-36586	गुजरात माइक्रो सर्कीट इन्डिया प्रा. लि.
1652	04-36620	फुल्हा इन्फोटेक प्रा. लि.
1653	04-36174	वन्डर प्रिन्ट पेक प्रा. लि.
1654	04-36184	बनास कोम्प्यूटर्स प्रा. लि.
1655	04-36192	कर्णावती मशीनरीज प्रा. लि.
1656	04-36242	सन सीटी मार्केटिंग प्रा. लि.
1657	04-36288	श्री साईं आशिष कम्पनी प्रा. लि.
1658	04-36336	श्री दिग्विजय डवल्लोपर्स प्रा. लि.
1659	04-36394	आइकोन कोम्प्यूटेक प्रा. लि.
1660	04-36412	ब्रियोसीज प्रा. लि.
1661	04-36041	तेजस पेट्रोकेम प्रा. लि.
1662	04-36043	क्रेस्ट इन्फोटेक प्रा. लि.
1663	04-36095	नोबल पेट्रोकेम प्रा. लि.
1664	04-36094	सिद्धनाथ पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
1665	04-36140	रोनक फार्मा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1666	04-36148	अंबिका पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

1667	04-36166	अवध ओर्गेनिक्स प्रा. लि.
1668	04-37436	सुरत पोलीमर्स प्रा. लि.
1669	04-37513	मिलेनीयम इन्फीन प्रा. लि.
1670	04-37524	मेटीक्युलस इन्फोटेक प्रा. लि.
1671	04-37557	श्री गायत्री फीनकेप प्रा. लि.
1672	04-37615	ओशिया कलर्स लिमिटेड
1673	04-36874	डेयरी डोन (गुजरात) प्रा. लि.
1674	04-36934	तेरैया इन्फोटेक प्रा. लि.
1675	04-36955	मायेस्ट्रो इपीसी प्रोजेक्टस प्रा. लि.
1676	04-36962	उमिया एग्रो सीड्स एण्ड ओइल मिल प्रा. लि.
1677	04-36984	पीसी-पाथ इन्फोटेक प्रा. लि.
1678	04-37001	डेल्टा शीट शेप प्रा. लि.
1679	04-37034	विशाल केटफीन प्रा. लि.
1680	04-37046	एनर्जी केयर प्रा. लि.
1681	04-37047	अरिहंत फीन पावर प्रा. लि.
1682	04-37077	नंदी जीनींग प्रेसींग प्रा. लि.
1683	04-37087	शाहनवाज मल्टिप्लेक्स प्रा. लि.
1684	04-37164	श्री रणछोड मेटल्स प्रा. लि.
1685	04-37206	पीरम आयलेन्ड रीसोर्ट प्रा. लि.
1686	04-37551	एन्वायरोमेन्टल मेनेजमेन्ट ओल्टरनेशन कोलाबोरेट प्रा. लि.
1687	04-37554	श्री गायत्री बोकर्स प्रा. लि.
1688	04-37517	गासफ मार्केटींग प्रा. लि.
1689	04-37505	श्री नरसिंहा रोडलाइन्स प्रा. लि.
1690	04-37303	ओमकार आहार प्रा. लि.
1691	04-37298	रिद्धि फर्नीचर्स प्रा. लि.
1692	04-37282	ओजस रीसोर्ट प्रा. लि.
1693	04-37281	सोमनाथ वोटरपार्क प्रा. लि.
1694	04-37261	जे जी के सिक्योरीटी सर्वीसीस प्रा. लि.
1695	04-37378	दिक्षहा इन्फोटेक प्रा. लि.

1696	04-37783	आइकोन मेडी डिस्पोजेबल्स प्रा. लि.
1697	04-37791	माइटी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1698	04-37851	हेमा बेवरेजीस प्रा. लि.
1699	04-37858	डिजाइन इन्फोटेक प्रा. लि.
1700	04-37869	फोकस सायबरटेक प्रा. लि.
1701	04-37892	एडीशन एडवर्टाइज़िंग प्रा. लि.
1702	04-37907	जयश्री द्वारकाधीश डवल्लोपर्स प्रा. लि.
1703	04-37407	ओओसीस एनर्जी प्रा. लि.
1704	04-37412	तिरुपति स्पाईसीस प्रा. लि.
1705	04-37231	शनिदेव सोल्ट वर्क्स प्रा. लि.
1706	04-37285	श्री जानकी डवल्लोपर्स प्रा. लि.
1707	04-37290	ब्रजवामा फीनान्सीयल एण्ड मार्केटींग प्रा. लि.
1708	04-37294	सिनेक्ष एलोइज प्रा. लि.
1709	04-37337	रुभम पेट्रोकेम प्रा. लि.
1710	04-37922	बेनीसन लेबोरेटरीज प्रा. लि.
1711	04-37665	आरासुरी क्वोरी वर्क्स प्रा. लि.
1712	04-37644	इन्फोवे सिस्टम सोल्युशन प्रा. लि.
1713	04-37631	अंबिका अर्थकोन मशीनरी प्रा. लि.
1714	04-37733	क्वीन इन्फोटेक प्रा. लि.
1715	04-37713	नोवा सॉफ्ट माइक्रो सोल्युशन प्रा. लि.
1716	04-37715	एच. आर. पी. एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1717	04-37828	घनश्याम मशीनरी प्रा. लि.
1718	04-37773	गुजरात वेगप्रो प्रा. लि.
1719	04-37774	विनस कन्वर्जन सिस्टम्स (ओटो) प्रा. लि.
1720	04-37758	संघवी साइबर प्रा. लि.
1721	04-37903	आइकोन कोम्प्यूसॉफ्ट प्रा. लि.
1722	04-37870	श्रीजी बापा मशीनरी (इन्डिया) प्रा. लि.
1723	04-37861	श्री योगी ओर्गेनाइजर्स प्रा. लि.
1724	04-37862	आशिष ओर्गेनाइजर्स प्रा. लि.

1725	04-34824	हरिदीप मार्केटिंग प्रा. लि.
1726	04-34802	अंजारिया बिल्डकोन प्रा. लि.
1727	04-34801	करसन बिल्डकोन प्रा. लि.
1728	04-34747	प्रयाग एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1729	04-34744	योगी पोलीवुड प्रा. लि.
1730	04-34741	प्रयाग गोर्वाडर्स प्रा. लि.
1731	04-34701	सेइफवेल्यु इन्वेस्टोक प्रा. लि.
1732	04-35353	प्रोग्रेसीव केओलीन प्रा. लि.
1733	04-35411	संस्कृति मार्केटिंग सर्वीसीस प्रा. लि.
1734	04-35275	सिल्वर क्लब मार्केटिंग सर्वीसीस प्रा. लि.
1735	04-35293	स्टीरीयो प्लास्ट प्रा. लि.
1736	04-35315	सहजानंद जेम्स एण्ड ज्वेलरी प्रा. लि.
1737	04-35350	मान बेवरेजीस एण्ड फुडस प्रा. लि.
1738	04-36025	मल्टिप्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेजीस प्रा. लि.
1739	04-34652	रुषिक एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1740	04-34714	जलाराम प्लान्टेशन्स प्रा. लि.
1741	04-34724	हितेन इंजिनियरींग्स प्रा. लि.
1742	04-34867	प्रिसीमेट ट्रेडिंग प्रा. लि.
1743	04-34794	क्रिश्ना ओटो पार्ट्स प्रा. लि.
1744	04-34879	प्रिन्स पोलीफेब प्रा. लि.
1745	04-34929	आनीक हाउसींग प्रा. लि.
1746	04-34982	उमा ओवरसीज प्रा. लि.
1747	04-35262	शुंग कोम्युनिकेशन प्रा. लि.
1748	04-35268	माहि-पानम खांडसरी प्रा. लि.
1749	04-35201	रुमझुम जीमखाना प्रा. लि.
1750	04-35215	महेश फीनकेप प्रा. लि.
1751	04-35084	जोवान बिल्डर्स प्रा. लि.
1752	04-35076	आर एम पटेल इंजिनियरींग प्रा. लि.
1753	04-35079	एरिज क्लीक बेवरेजीस प्रा. लि.

1754	04-35141	चैतन्य क्रिएटर्स प्रा. लि.
1755	04-35143	भावांजली इम्पैक्स प्रा. लि.
1756	04-35170	रेइसन ट्रावेल्स प्रा. लि.
1757	04-31743	प्रदीप कार्गो मूर्वस प्रा. लि.
1758	04-35866	निरव एल्युमिनियम प्रा. लि.
1759	04-31615	साइनीश स्टोर फिनपस्ट प्रा. लि.
1760	04-35915	रश्मि स्टील प्रा. लि.
1761	04-36030	टोप टेस्ट स्पाइसीस प्रा. लि.
1762	04-35557	शाकुंत होटेलस प्रा. लि.
1763	04-35576	संतोष फिनस्टोक प्रा. लि.
1764	04-35532	शाह ब्रधर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
1765	04-35531	वी के पटेल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
1766	04-35449	नमी फायनान्स प्रा. लि.
1767	04-35597	सिद्धार्थ रेसिन्स प्रा. लि.
1768	04-35643	बंधेज होटेल प्रा. लि.
1769	04-35732	पटेल कोम्प्यूटके प्रा. लि.
1770	04-35740	राजश्री प्रोजेक्ट कन्सल्टन्ट्स प्रा. लि.
1771	04-35773	शीतल स्क्रीन्स प्रा. लि.
1772	04-35667	अभिराम एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1773	04-35672	पटेल ग्रेवीटी एन्जीन (इन्डिया) प्रा. लि.
1774	04-31264	माधव मेट्रेस प्रा. लि.
1775	04-34531	मोशन मोटर्स प्रा. लि.
1776	04-34534	राम-श्याम शुज प्रा. लि.
1777	04-34540	नैया वोटर पार्क प्रा. लि.
1778	04-34572	आकार ट्रेडलीक प्रा. लि.
1779	04-34579	द्रष्टि एगोटेक प्रा. लि.
1780	04-41241	चंद्रविलास मार्केटींग प्रा. लि.
1781	04-41229	नटखट एपरल्स प्रा. लि.
1782	04-41214	भणशाली नेटवर्क प्रा. लि.

1783	04-41213	भूमि सिन्थेटीक प्रा. लि.
1784	04-41189	दरियाइ मार्केटींग प्रा. लि.
1785	04-41172	एकता नेटलींक प्रा. लि.
1786	04-41153	गणेश ब्रोइलर ब्रिडर प्रा. लि.
1787	04-41131	रींश जीमखाना प्रा. लि.
1788	04-41130	क्वीनडदीप एक्जीम प्रा. लि.
1789	04-41129	एन्डयोर फार्मा प्रा. लि.
1790	04-40756	आर्डर मार्केटींग सर्वीसीज प्रा. लि.
1791	04-40730	आयुषी हर्बल प्रोडक्टस प्रा. लि.
1792	04-40874	अक्सी सीआरएम कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
1793	04-40348	हनी मल्टिलींक एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लि.
1794	04-40346	बंजारा फनवर्ल्ड प्रा. लि.
1795	04-40303	राज हायड्रोलिक्स प्रा. लि.
1796	04-40313	सामिया प्रोसेसर्स प्रा. लि.
1797	04-40441	रेक्सरोथ फार्मास्युटीकल एण्ड हायजीन प्रा. लि.
1798	04-40438	रेनेसांस प्लेसमेन्ट कन्सल्टन्टस प्रा. लि.
1799	04-40286	राधेन ओइल प्रा. लि.
1800	04-40273	एपोलो ओटोमोबाइल्स प्रा. लि.
1801	04-40243	सन ओटोबन रिसोर्टस प्रा. लि.
1802	04-40222	प्रायमेक्स इन्पेक्स प्रा. लि.
1803	04-40085	एसेन्ट एरोमेटिक प्रा. लि.
1804	04-40084	तिरुपति एरोमेटिक्स प्रा. लि.
1805	04-40067	नीता एक्जीम प्रा. लि.
1806	04-40051	प्रागम एंजिनियर्स प्रा. लि.
1807	04-40053	हर्षिदा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
1808	04-40057	राइजींगसन होम प्रोडक्टस प्रा. लि.
1809	04-40058	जीटीसी ट्रेडलींक्स प्रा. लि.
1810	04-40028	धरती लेधर बोन एण्ड केमिकल प्रा. लि.
1811	04-40029	मातृ सिक्योरीटी मेन पावर सर्वीसीज प्रा. लि.

1812	04-40014	रीखी पोलीएधर्स प्रा. लि.
1813	04-40077	प्रिसाइस टेली मेडीसीन प्रा. लि.
1814	04-40187	अंबर होस्पिटालीटीज प्रा. लि.
1815	04-40158	सुरत डायमंड टुल्स प्रा. लि.
1816	04-40128	सुधीर एकवाफार्म प्रा. लि.
1817	04-40122	ट्रेन्डस डीजाइन्स प्रा. लि.
1818	04-40111	बीग बिल्ड नेटवर्क मार्केटींग प्रा. लि.
1819	04-39721	सेवन्थसेन्स कोम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
1820	04-39681	विकसन सोल्युशन्स प्रा. लि.
1821	04-39806	जेसनील इम्पेक्स प्रा. लि.
1822	04-39775	आविष्कार एकजीम प्रा. लि.
1823	04-39784	पवन कोन्सेप्टस प्रा. लि.
1824	04-39706	पद्मावती ग्रेनाइट्स प्रा. लि.
1825	04-39683	हीम ओर्गेनिक्स प्रा. लि.
1826	04-39673	राधे कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1827	04-39664	नटराज नेटवर्क सर्वीसीज प्रा. लि.
1828	04-39663	जयसेन्टो टेक्स्टाइल्स प्रा. लि.
1829	04-39653	एन वी ओवरसीज प्रा. लि.
1830	04-39654	आसुतोष होटेल एण्ड रिसोर्ट प्रा. लि.
1831	04-39639	अक्षर ब्रिड्जिंग एण्ड हेचरीज प्रा. लि.
1832	04-39996	पार्थ ओटो एसेसरीज प्रा. लि.
1833	04-39991	सुमंगलम मेरेज होल प्रा. लि.
1834	04-39965	बी-टेक इन्फोनीक्स (इन्डिया) प्रा. लि.
1835	04-39938	मेगा बक्स नेटवर्क सिस्टम्स प्रा. लि.
1836	04-39883	कुलारिया पाउचीज प्रा. लि.
1837	04-39886	भगत हर्बल प्रा. लि.
1838	04-39893	सृष्टि एन्टरप्राइस प्रा. लि.
1839	04-39891	सेमुशी सॉफ्टवेयर प्रा. लि.
1840	04-39894	टेरी हिल्स रिसोर्टस प्रा. लि.

1841	04-39852	पायस रेमेडीज प्रा. लि.
1842	04-39851	किशान हर्बोटेक प्रा. लि.
1843	04-39854	रिद्धि सिद्धि एज्युकेशन प्रा. लि.
1844	04-39857	इम्पीरीयल ट्रेडलीक प्रा. लि.
1845	04-39842	दर्शना मशीनरी प्रा. लि.
1846	04-39257	शिव साकार कोम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
1847	04-39223	नेटवर्थ टेकनोलोजीस प्रा. लि.
1848	04-39073	गामा सिक्वोरीटीज प्रा. लि.
1849	04-39064	श्रद्धा सिमेन्टस प्रा. लि.
1850	04-39056	स्पर्श सुपर स्ट्रक्चर प्रा. लि.
1851	04-39094	एच. ब्रजलाल कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1852	04-39184	एक्टिव एड्यु एण्ड एग्रो बेनीफीटस प्रा. लि.
1853	04-39289	अक्षर मार्केटींग प्रा. लि.
1854	04-39350	तक ग्लोबल नेटवर्क सर्वीसीज प्रा. लि.
1855	04-39303	सरसा पेट्रोलियम्स प्रा. लि.
1856	04-39301	माणेक होटेल्स प्रा. लि.
1857	04-39319	मातृ ओफसेट प्रा. लि.
1858	04-39318	मीरांबिका टेकनोलोजीस प्रा. लि.
1859	04-39309	हार्दिक एक्जीम प्रा. लि.
1860	04-39420	जय उमाजी केस्टर प्रा. लि.
1861	04-39427	अल अमन प्रोजेक्टस प्रा. लि.
1862	04-39430	ललन लेन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
1863	04-39435	सिलिकोन मोनीटर सिस्टम्स प्रा. लि.
1864	04-39388	राजसी इम्पेक्स प्रा. लि.
1865	04-39399	अरिहंत ट्रेडलीक प्रा. लि.
1866	04-39586	अक्षर कोमर्शियल सर्वीसीस प्रा. लि.
1867	04-39566	जीमी केमिकल्स प्रा. लि.
1868	04-39567	अमन इन्फो मार्केटींग प्रा. लि.
1869	04-39571	केशव जीनींग एण्ड प्रेसींग प्रा. लि.

1870	04-39562	गुरुनानक एन्जीकेम प्रा. लि.
1871	04-39463	श्रीजी जीनींग एण्ड प्रेसींग प्रा. लि.
1872	04-39456	मनीष हाइड्रो ड्रिलींग प्रा. लि.
1873	04-39415	ब्यूटी एडवर्टाईजिंग एजन्सी प्रा. लि.
1874	04-38500	विनस्टार प्लास्टीक मशीनरी प्रा. लि.
1875	04-38444	नायजग आयर्न एण्ड स्टील प्रा. लि.
1876	04-38636	जय विमल पोलीयार्न प्रा. लि.
1877	04-38631	जलाराम टुरीजम प्रा. लि.
1878	04-38582	श्री-ओ इन्फोटेक प्रा. लि.
1879	04-38557	प्रबनीत एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1880	04-38282	प्रगति इन्टर एक्टिव प्रा. लि.
1881	04-38476	नर्मदा साईट्स प्रा. लि.
1882	04-38414	अलीमो कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1883	04-38288	ट्रीडन्ट एमरी वर्क्स प्रा. लि.
1884	04-38287	श्री शिवशक्ति फिल्मस प्रा. लि.
1885	04-38226	शेठ ओवरसीज प्रा. लि.
1886	04-38126	ओलवेज फ्रेश कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1887	04-38175	सेवापूजा . कोम प्रा. लि.
1888	04-38508	इजन मेटेक प्रा. लि.
1889	04-38498	देवराज होल्डिंग एण्ड रिसोर्ट प्रा. लि.
1890	04-38490	पिपल्स वेल्फेयर एण्ड क्लब प्रा. लि.
1891	04-38755	सुजय इन्फोटेक प्रा. लि.
1892	04-38732	कीडयुम्स फुड्स प्रा. लि.
1893	04-37717	स्टारबन्च कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
1894	04-38765	रीतुराज प्रोपर्टीज प्रा. लि.
1895	04-38763	प्लेटीनम सॉफ्टवेयर प्रा. लि.
1896	04-38758	आदित्य माइन्स प्रा. लि.
1897	04-38811	झेस्ट एकेडेमी प्रा. लि.
1898	04-38806	इन्टीग्रा कोम्प्यूनेट सर्वीसीज प्रा. लि.

1899	04-38706	श्री उमिया पोलीप्लास्ट प्रा. लि.
1900	04-38858	विशाखा ट्रेडलींक प्रा. लि.
1901	04-38804	यश टेलीमार्केटींग प्रा. लि.
1902	04-38803	पी सी डी कन्सल्टन्टस प्रा. लि.
1903	04-38821	अल-करीम एकजीम प्रा. लि.
1904	04-38813	स्मिता टेकनोलोजीस प्रा. लि.
1905	04-38822	परफेक्ट मेइन्टनन्स सर्वीसीस प्रा. लि.
1906	04-38934	निशांत स्टोक ब्रोकींग प्रा. लि.
1907	04-38918	शुकन होटेलस प्रा. लि.
1908	04-38876	श्री बालाजी इन्फोटेक प्रा. लि.
1909	04-38824	एचएसटी इम्पैक्स प्रा. लि.
1910	04-38961	प्रोलाइन नेटवर्कींग सर्वीसीज प्रा. लि.
1911	04-38998	रीतुराज एन्टरप्राइस प्रा. लि.
1912	04-38996	श्री आरती स्टील पाइप्स प्रा. लि.
1913	04-38975	मीनीटेक एजन्सीस एण्ड सर्वीसीस प्रा. लि.
1914	04-38967	सोमनाथ इम्पैक्स प्रा. लि.
1915	04-38972	फेबटेक वाल्वस एण्ड कन्ट्रोल्स प्रा. लि.
1916	04-40508	आरामुरी इंजिनियरींग प्रा. लि.
1917	04-40519	नूर प्रोसेसर्स प्रा. लि.
1918	04-40513	एस एस रेडीमेइडस प्रा. लि.
1919	04-40473	कारा मिनरल प्रा. लि.
1920	04-40450	अंबिका सोल्ट वर्क्स प्रा. लि.
1921	04-40451	राजमोती सोल्ट सप्लायर्स प्रा. लि.
1922	04-40462	जानकी टेक्ष फेब एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1923	04-40458	केयर गेस फ्लेम मार्केटींग प्रा. लि.
1924	04-40463	जय हर्ष एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1925	04-40460	रत्नसुनी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1926	04-40666	समृद्धि सोल्युशन्स प्रा. लि.
1927	04-40663	मनमंदिर एकजीम प्रा. लि.

1928	04-40637	आदित्य मल्टिटैक प्रा. लि.
1929	04-40633	प्रोस्पर मेनेजमेन्ट सर्वीसीज प्रा. लि.
1930	04-40632	एफोर्डेबल इन्स्योरन्स ब्रोकर्स प्रा. लि.
1931	04-40569	विराज मार्केटींग प्रा. लि.
1932	04-40627	अभिषेक मनीचेन्जर्स प्रा. लि.
1933	04-40529	प्लुटोन फोरनेट प्रा. लि.
1934	04-40522	श्री शक्ति इन्टरनेशनल प्रा. लि.
1935	04-31106	बेलग्रावीआ एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1936	04-40726	मेक्स पेज पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
1937	04-40719	सांइराज सिस्टम्स प्रा. लि.
1938	04-40709	डीएमसी मार्केटींग प्रा. लि.
1939	04-40703	वी. एन. संघवी ज्वेलर्स प्रा. लि.
1940	04-40702	फ्रीडम ट्रेडलींक प्रा. लि.
1941	04-40700	सेल्युटरी हर्बल्स प्रा. लि.
1942	04-40679	वर्षायन ग्रीनवे प्रा. लि.
1943	04-40669	प्रुडेन्शीयल नेटवर्क प्रा. लि.
1944	04-40781	नीजानंद कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1945	04-40786	फर्स्ट फोच्युनेट होम एप्लायन्सीस प्रा. लि.
1946	04-40822	कुटुम्ब इन्स्योरन्स एण्ड मार्केटींग सर्वीसीस प्रा. लि.
1947	04-40831	नाफे पेट्रोकेमिकल्स प्रा. लि.
1948	04-40869	एलएक्स-फेक्ट मल्टिमिडीया प्रा. लि.
1949	04-40852	मोर मुवर सेल्स प्रा. लि.
1950	04-40909	सोनारिका सेल्स प्रा. लि.
1951	04-40932	लस्टर नेटवर्क प्रा. लि.
1952	04-40914	नेटीव कोड सोल्युशन्स प्रा. लि.
1953	04-40985	सिग्नल डीजीटल मिडीया प्रिन्टस प्रा. लि.
1554	04-40981	मारुति मशरूम्स प्रा. लि.
1955	04-40948	क्रिओटीव ओर्गेनीक्स एण्ड इन ओर्गेनीक्स प्रा. लि.
1956	04-40939	राजवीर फार्म्स प्रा. लि.

1957	04-41116	जय अंबे मार्केटींग प्रा. लि.
1958	04-41108	मेगा नेटलीक प्रा. लि.
1959	04-41088	शुभ संकेत एनर्जीसर्स प्रा. लि.
1960	04-41098	सनसुर ट्रेडिंग प्रा. लि.
1961	04-41087	लाकोनीक पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
1962	04-41083	मारवेल स्पिनींग प्रा. लि.
1963	04-41078	अे. डी. ग्रीन चैनल प्रा. लि.
1964	04-41073	पेरेडाइस मेनेजमेन्ट प्रा. लि.
1965	04-41034	फोर्म्युला वन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1966	04-41011	फाइन डेयरी प्रा. लि.
1967	04-41006	श्री धनलक्ष्मी ओनलाईन सर्वीसीस प्रा. लि.
1968	04-31886	तृप्ति बायोटेक प्रा. लि.
1969	04-31842	प्राइम बिल्डकोन प्रा. लि.
1970	04-31866	एपेक्ष मेरीन प्रा. लि.
1971	04-31871	मारुति कोमर्शियल कोम्पलेक्स प्रा. लि.
1972	04-31899	श्री यश फुड्स प्रा. लि.
1973	04-31896	रतन फीलामेन्ट्स प्रा. लि.
1974	04-30179	इश रेसीडेन्सी प्रा. लि.
1975	04-30186	गुरुदेव फीनवेस्ट प्रा. लि.
1976	04-30214	निरल पेट्रोकेम प्रा. लि.
1977	04-30209	केयुर फीनस्टोक प्रा. लि.
1978	04-33613	मेगा फीनस्टोक प्रा. लि.
1979	04-33357	सार्थक फीनलीज प्रा. लि.
1980	04-33381	सौभाग्य एन्टरटेन्मेन्ट प्रा. लि.
1981	04-33408	सविता ओटोपेक प्रा. लि.
1982	04-33423	ब्रजभूमि फायनान्स प्रा. लि.
1983	04-33445	निगर जीमखाना प्रा. लि.
1984	04-33453	आदित्य केपलीज प्रा. लि.
1985	04-33477	विनय वुड बोर्ड्स प्रा. लि.

1986	04-33474	मृत्युञ्जय ओर्गेनिक प्रा. लि.
1987	04-33492	गुरुकृपा ओटोलीकर्स प्रा. लि.
1988	04-33163	नरोडा जीमखाना प्रा. लि.
1989	04-33173	यशवी फीनवेस्ट प्रा. लि.
1990	04-33136	राजपीपला फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
1991	04-33172	विक्रमसेय रिसोर्ट प्रा. लि.
1992	04-33127	चैतन्य एक्वागार्ड प्रा. लि.
1993	04-37094	सीपीएस केमिकल्स (इन्डिया) प्रा. लि.
1994	04-37414	एम एस प्रिन्टोरीयम प्रा. लि.
1995	04-37399	मिलेनियम कन्ज्युमर केयर प्रा. लि.
1996	04-37398	भारडिया टी कम्पनी प्रा. लि.
1997	04-37247	नाइस एग्रोटेक प्रा. लि.
1998	04-37321	जेन इन्फोटेक प्रा. लि.
1999	04-37302	शिवशक्ति बिल्डींग मटीरीयल्स प्रा. लि.
2000	04-38203	ए-वन फीन ट्रेड प्रा. लि.

वी. के. खूबचन्दानी
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) अंतर्गत सुओ मोटो के तहत निम्नलिखित कम्पनियों के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./जी.टी.ए./एम.जी./सुओ मोटो/2007/937/ए--

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अंतर्गत सुओ मोटो के तहत एतद्वारा निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इस नोटिस की तारीख से रजिस्टर से काट दिया जाता है और यह कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

कम्पनियों की सूची

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनियों के नाम
1	04-23873	शिप्रा लेबोरेटरीज प्रा. लि.
2	04-23801	अभिनव डाईकेम प्रा. लि.
3	04-23991	स्वरूपसागर ट्री प्लान्टेन्सन प्रा. लि.
4	04-24266	ओस्कार कोम्युनीकेसन्स प्रा. लि.
5	04-24395	जशवंत प्रतापसिंग (एक्स-सर्विसमेन) सॉल्ट प्रा. लि.
6	04-24708	टोप सिक्युरीटीज प्रा. लि.
7	04-24662	ए टु इंड सर्विसलेण्ड प्रा. लि.
8	04-24649	सारनेह ग्रिटींग्स प्रा. लि.
9	04-24551	भारत बुल्क केरीयर्स प्रा. लि.
10	04-08221	सी.महेन्द्रा टेक्स्युराईजर प्रा. लि.
11	04-24497	अंबर टेलिकोम प्रा. लि.
12	04-24416	श्रीनाथ एन्जीनीयरिंग प्रा. लि.

13	04-19515	अभिनव गारमेन्ट्स प्रा. लि.
14	04-19513	न्यु ओटो एन्सीलरी प्रा. लि.
15	04-19502	सीरीन स्टील प्रा. लि.
16	04-19176	अंकुर गारमेन्ट्स प्रा. लि.
17	04-19258	एक्सपाण्ड पोलीप्लास्ट प्रा. लि.
18	04-16486	रेप्युटेशन फर्नीशिंग्स प्रा. लि.
19	04-16432	एम.जी.डायल एजन्सी प्रा. लि.
20	04-16291	राजमनी सिल्क मिल्स प्रा. लि.
21	04-16481	हरेश प्रकेश राईस मिल्स प्रा. लि.
22	04-16478	श्री डायस एण्ड केमीकल्स प्रा. लि.
23	04-19546	टायुस फिसकल सर्विसीज प्रा. लि.
24	04-19556	गुजरात सिंग्रस प्रा. लि.
25	04-19516	रघुगन फायनेस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
26	04-23118	तप्टी कन्सलटन्सी प्रा. लि.
27	04-19935	आलीशान रीसोर्ट्स प्रा. लि.
28	04-19934	सरीगम मेटल्स प्रा. लि.
29	04-19857	जेमसन केमीकल्स एण्ड प्लास्टीक्स प्रा. लि.
30	04-19823	श्याम डेहायड्रेट्स प्रा. लि.
31	04-19811	काना फिनलेज प्रा. लि.
32	04-19713	सुरभी मार्केटींग प्रा. लि.
33	04-19683	नटवरलाल एण्ड कम्पनी एन्जीनीयरिंग प्रा. लि.
34	04-19855	जयमीत सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
35	04-27100	गुजरात पोलीफेब प्रा. लि.
36	04-26992	महात्मा इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
37	04-26956	कनैयालाल वशरामभाई त्रिवेद सॉल्ट वर्क्स प्रा. लि.

38	04-26881	एडीनडेक्ष कोम्प्युनीकेसन्स प्रा. लि.
39	04-26730	सीताराम केटलफीड प्रा. लि.
40	04-26711	श्रुजान्हवी (इन्डिया) फायनेस प्रा. लि.
41	04-25066	कस्तुरीपार्क प्रा. लि.
42	04-24846	अनी राज बिल्डर्स प्रा. लि.
43	04-24830	एवरेस्ट मशीनरी प्रा. लि.
44	04-26611	एन्गल हेल्थ केर प्रा. लि.
45	04-26561	साईमोल सीलीकोन्स प्रा. लि.
46	04-26551	अमीत ओक्सीकेन प्रा. लि.
47	04-26512	पवनपुत्र सॉल्ट एण्ड केमीकल वर्क्स प्रा. लि.
48	04-24833	सीक्को वेक्युम मेटेलाईड्स प्रा. लि.
49	04-24754	शालीन डेकोग्रील प्रा. लि.
50	04-25230	लक्समुल एस्टेट एन्जीनीयर्स प्रा. लि.
51	04-25716	बट्टी फार्म्स प्रा. लि.
52	04-25175	क्षेत्रंजय फार्म्स प्रा. लि.
53	04-25170	गीरनार फार्म्स प्रा. लि.
54	04-25442	एन.दास फायनान्सीयल सर्वीसीज प्रा. लि.
55	04-25285	सुफार्मा सीक्युरिटीज प्रा. लि.
56	04-25245	अमृत स्टील्स प्रा. लि.
57	04-25605	स्युएब फायनान्सीयल सर्वीसीज प्रा. लि.
58	04-25546	अग्रन प्रोडक्शन्स प्रा. लि.
59	04-25531	सीडल-ईन प्रा. लि.
60	04-16514	अहेमदाबाद सीटी कुरीयर प्रा. लि.
61	04-16552	बीकानेर गोल्डन केरीयर्स प्रा. लि.
62	04-16315	आर्ती ग्रेनाईट मास्बल्स प्रा. लि.

63	04-16300	पलक प्लास्ट प्रा. लि.
64	04-16689	रसीलेन नीओ केमीकल प्रा. लि.
65	04-16630	राजवी प्रोडक्स प्रा. लि.
66	04-26359	किन्दुरा इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
67	04-26360	कल्पना इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
68	04-26462	रीच मेकर फिनलेज प्रा. लि.
69	04-26446	रशीद इम्पोर्टर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स प्रा. लि.
70	04-26445	निलम प्लास्टिक प्रा. लि.
71	04-26444	अवनी फोर्म्स प्रा.लि.
72	04-26428	शहयोग सेफ लोकर्स एण्ड सर्विसीज प्रा.लि.
73	04-26405	ओप्टीमन फायनान्सीयल सर्विसीज प्रा. लि.
74	04-26391	श्री रोकादीया शेठ फायनान्सीयल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
75	04-26375	एडवान्स फोर्ज प्रा. लि.
76	04-26362	चावला फिनवेस्ट प्रा. लि.
77	04-25734	रजवाडी ग्रेनाईट प्रा. लि.
78	04-24954	प्रबोध्द फार्म्स प्रा. लि.
79	04-25955	अलोक फार्म्स प्रा. लि.
80	04-25956	एलाल फार्म्स प्रा. लि.
81	04-25960	देवान्शी फार्म्स प्रा.लि.
82	04-26100	पद्मश्री पीगमेन्ट प्रा. लि.
83	04-26022	जेट पेकेजींग प्रा. लि.
84	04-25730	शील्य सीक्युरीटीज एण्ड होल्डींग्स प्रा. लि.
85	04-25692	पनम एग्रो ओईल प्रा. लि.
86	04-25652	निराली पोलीमर्स प्रा. लि.
87	04-25950	देवधारा फार्म्स प्रा. लि.

88	04-25949	मुकेश फार्म्स प्रा. लि.
89	04-25892	धनजंय एन्टप्राईसीज प्रा. लि.
90	04-25755	जन्मेय केमीकल्स प्रा. लि.
91	04-22933	मोरीवाला पोलीमर्स प्रा. लि.
92	04-22630	इशान एपार्टमेन्ट्स प्रा. लि.
93	04-22584	अमर टेक्स्फेब प्रा. लि.
94	04-22785	सोनल लेमिनेट (इन्डिया) प्रा. लि.
95	04-22774	इश्वराय एपार्टमेन्ट्स प्रा. लि.
96	04-22704	टोटल मार्केटींग सोल्युशन्स प्रा. लि.
97	04-22801	श्री पंचदिप प्लान्टेशन्स एण्ड फार्म्स प्रा. लि.
98	04-22947	श्यामल बिल्डर्स प्रा. लि.
99	04-22958	तिलोक-विजय सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
100	04-22134	अम्बिका (गुजरात) पोली टेप प्रा. लि.
101	04-22129	मेवेव ओवरसीज प्रा. लि.
102	04-22099	शोब्रीन मार्केटींग प्रा. लि.
103	04-21905	अमीन सीमेन्ट को.प्रा.लि.
104	04-22173	कर्मयोगी प्रिन्ट्स प्रा. लि.
105	04-22156	फिलेटेक्ष सीमेन्ट प्रा. लि.
106	04-22144	चांदनी एपार्टमेन्ट्स प्रा. लि.
107	04-22261	कंचन रीसोर्ट्स प्रा. लि.
108	04-22337	उत्तम इन्टरमिडीयेट्स प्रा. लि.
109	04-22574	आईसबर्ग मशीनेस प्रा. लि.
110	04-22572	केमी रेण्ड (इन्डिया) प्रा. लि.
111	04-22468	राज अक्वा फार्म प्रा. लि.
112	04-22420	सुमो ईलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.

113	04-29857	कनन मार्केटींग प्रा. लि.
114	04-29909	अलीशा पोलीप्लास्ट प्रा. लि.
115	04-29948	क्रिश्ना ग्लेड-फ्रिट्स प्रा. लि.
116	04-29841	बनास ओक्सीजन प्रा. लि.
117	04-27458	हर्ष स्टीचवेल प्रा. लि.
118	04-27516	धरती फिनस्टोक प्रा. लि.
119	04-27488	राईप'सु पावर ड्राईव प्रा. लि.
120	04-27527	पुनित ईन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
121	04-27626	भाविक सिक्कुरीटीज प्रा. लि.
122	04-27532	वर्षा प्रोटिन्स प्रा. लि.
123	04-27724	कल्पका फार्मासुटीकल्स प्रा. लि.
124	04-27674	ग्रोमोर मार्केटींग प्रा. लि.
125	04-27727	प्रेमपूजा एपार्टमेन्ट्स प्रा. लि.
126	04-29217	पंचमहाल ग्रेनाईट्स प्रा. लि.
127	04-29374	पाओनीर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
128	04-28105	चुडास्मा केपीटल प्रा. लि.
129	04-27949	हस्तक कन्ट्रक्शन प्रा. लि.
130	04-27959	महीत फेब प्रा. लि.
131	04-27980	पुर्वीना ईन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड होल्डिंग्स प्रा. लि.
132	04-28183	ईन्डोपन पेकेजिंग्स प्रा. लि.
133	04-28082	चुडास्मा स्टोक ब्रोकींग प्रा. लि.
134	04-28065	रुषभ होल्डींग्स प्रा. लि.
135	04-28035	रुमी स्टील प्रा. लि.
136	04-28020	शेटवाला ईम्पेक्ष प्रा.लि.
137	04-29536	शक्ति ईनफीन एण्ड कुरीयर्स प्रा. लि.

138	04-29533	केतकी ईन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
139	04-29501	सीलकोट सेण्ड प्रा. लि.
140	04-29508	युनाईटेड रिकल्स प्रा. लि.
141	04-29523	सरदार ईन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
142	04-29300	घनश्याम मेटा टेक प्रा.लि.
143	04-29475	चांदनी सल्वार कमीझ प्रा. लि.
144	04-28242	शकुन फिनस्टोक प्रा. लि.
145	04-13815	रोहीत मार्केट सर्विसीज प्रा. लि.
146	04-13799	अमर स्पीनींग मिल्स प्रा. लि.
147	04-13798	जगदीश गीनींग एण्ड ओईल मिल्स प्रा. लि.
148	04-14220	श्वेतु लेबल-एक्स प्रा. लि.
149	04-14195	रंगोली हॉलीडे रीसोर्ट्स प्रा. लि.
150	04-13578	जे. के. पटेल होटेल एण्ड मोटेल प्रा. लि.
151	04-13489	सोनी ज्वेलर्स प्रा. लि.
152	04-13463	तप्ती मानव सेवा प्रा. लि.
153	04-13977	नोब्युस प्लास्टिक्स प्रा. लि.
154	04-14396	महेश्वरी गारमेन्ट्स प्रा. लि.
155	04-14375	विद्या मार्केटींग प्रा. लि.
156	04-14158	सुरेखा फाईबर्स प्रा. लि.
157	04-14012	परफेक्ट बीयरींग प्रा. लि.
158	04-14004	हरगोविंददास विठ्ठलदास (ईम्पेक्ष) प्रा. लि.
159	04-14005	विहारदिप इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
160	04-15890	राचीर केमीकल्स प्रा. लि.
161	04-15886	वासुदेव मेटल प्रा. लि.
162	04-15814	चरोतर टेक्स्टाईल्स प्रा. लि.

163	04-15535	जुगल वेक्स प्रा. लि.
164	04-15457	जोधानी फेब्रिक्स प्रा. लि.
165	04-16146	श्री नील कंठ मील्ल्स प्रा. लि.
166	04-16257	स्कलीस इलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.
167	04-15931	धरती मेटल प्रा. लि.
168	04-15928	नर्मदा ब्रिक्स प्रा. लि.
169	04-15750	क्रिष्णा डीजाईनर्स प्रा. लि.
170	04-16129	मुक्तजीवन टेक्ष प्रा. लि.
171	04-16095	चेम्पीयन फोटो कलर लेब प्रा. लि.
172	04-16044	डेल्टा सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
173	04-16032	कटल मरीन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
174	04-16142	एल्युम बेरींग्स प्रा. लि.
175	04-13224	पगन होल्डिंग्स प्रा. लि.
176	04-13191	पायल कन्सल्टन्स प्रा. लि.
177	04-13109	विशेष पोलिकेम प्रा. लि.
178	04-13188	सीबागा स्टील प्रा.लि.
179	04-13091	रोनट मेटल प्रा.लि.
180	04-14684	सरस्वती जीमखाना प्रा. लि.
181	04-14623	नरेश सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
182	04-14931	राज स्तन रीसोर्ट प्रा. लि.
183	04-14709	टफ लोन टेक्स्टाईल्स प्रा. लि.
184	04-14450	जीनोय एक्सपोर्ट (इन्डिया) प्रा. लि.
185	04-14449	जीनोय लेण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
186	04-14461	जय दुर्गा एग्रो इक्वीपमेन्ट्स प्रा. लि.
187	04-14504	कुबेरनगर जीमखाना प्रा. लि.

188	04-14518	प्रकल्प पोलीमर्स प्रा. लि.
189	04-21562	सिद्धि सिन्कोटेक्ष प्रा. लि.
190	04-18815	राजु टेक्षटाईल्स एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
191	04-15019	स्लेन एपरल्स प्रा. लि.
192	04-15000	केनन डाईस्टफ प्रा. लि.
193	04-13527	प्रिन्स ओर्गेनीक्स प्रा. लि.
194	04-15267	वेस्टर्न टेक्नो पेप एन्जीनीयरींग प्रा. लि.
195	04-11832	जयग्रोडीयार फोरगिंग्स प्रा. लि.
196	04-11908	शिव शक्ति यार्न इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
197	04-12004	भाग्यलक्ष्मी ट्रावेल्स प्रा. लि.
198	04-11928	सीमंधर प्लास्टीक्स प्रा. लि.
199	04-11897	गीरीधर एन्जीनीयरींग प्रा. लि.
200	04-10938	तेजी इन्टरमीडीएट्स प्रा. लि.
201	04-10915	गोल्डन जीमखाना प्रा. लि.
202	04-11246	टर्बो लीजींग एण्ड फायनेन्स प्रा. लि.
203	04-11547	एडवान्स वेल्डींग सिस्टम प्रा. लि.
204	04-11471	जीग्रुशी प्लास्टिक्स प्रा. लि.
205	04-11235	अंबाला एस्टेट प्रा. लि.
206	04-10986	मार्वेल परमटेरल्स प्रा. लि.
207	04-11337	सुपर डाईमण्ड प्रा. लि.
208	04-06557	योगेश्वर फिनस्टोक प्रा. लि.
209	04-11170	रेडन केब पाईप्स प्रा. लि.
210	04-11299	समर केमिकल्स प्रा. लि.
211	04-11276	फ्रेण्ड्स ग्रुप ओफ ओईल इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
212	04-11144	नारायण पेट्रो-केम प्रोडक्स प्रा. लि.

213	04-11025	केसरीया टेक्स्टाईल्स प्रा. लि.
214	04-12109	श्री तुलशी सिनटेक्ष प्रा. लि.
215	04-12068	ओमकार मेटल्स प्रा. लि.
216	04-12175	विल वीश पोलीमर्स प्रा. लि.
217	04-12170	वेलसन डाई एण्ड टुल्स प्रा. लि.
218	04-12347	लक्ष्मी प्लास्टीक्स एण्ड पोलीयेस्टर प्रा. लि.
219	04-12317	सुप्रिम केमिकल्स प्रा. लि.
220	04-12287	ट्रयुको इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
221	04-12270	कर्नकुर एक्सपोटर्स प्रा. लि.
222	04-12847	युर्जीत एन्जीनीयरींग वर्क्स प्रा. लि.
223	04-12950	सोना डाई केम प्रा. लि.
224	04-12913	वोगीफीआ गेम्स प्रा. लि.
225	04-12887	वोगीफीआ हिट ट्रान्स प्रा. लि.
226	04-12876	मार्डक्रो प्रोफाईल ब्लेकिंग प्रा. लि.
227	04-12867	एडवान्स सेन्चुरी एक्सपोटर्स प्रा. लि.
228	04-12627	जनरल कोन्ट्राक्स कम्पनी प्रा. लि.
229	04-12569	जानवी फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
230	04-12546	गुजरात पेट्रोबोस प्रा. लि.
231	04-17425	अर्सी फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
232	04-17393	अमर स्टोन वर्क्स प्रा. लि.
233	04-17514	गेलेक्सी एक्सोजल प्रा. लि.
234	04-17999	सीजन्स कोस्मो फुड एण्ड प्लास्टो प्रा. लि.
235	04-17949	अशीना फुड्स इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
236	04-17651	कर्म कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
237	04-17607	बेलादिप इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.

238	04-18825	इचुरा टेप प्रा. लि.
239	04-18166	युनीक ओर्थो सिस्टम्स प्रा. लि.
240	04-18056	पान कन्टेनर्स प्रा. लि.
241	04-07854	डीलाईट बोटलींग प्रा. लि.
242	04-07827	राजश्री जीमखाना प्रा. लि.
243	04-07735	जगलर जीमखाना प्रा. लि.
244	04-18227	गोकुल ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.
245	04-16795	देवेन्द्र शुटींग्स प्रा. लि.
246	04-16983	जवेरी सेफ डीपोजीट वोल्ट्स एण्ड लोकर्स प्रा. लि.
247	04-18278	शार्प सिक्चुरीटी प्रा. लि.
248	04-18263	पटनी-बी-जैन एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
249	04-18136	हर्ष फायनेस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
250	04-18135	नीओ बायो कोल प्रा. लि.
251	04-18456	ड्रीमलेण्ड फुड्स ओईल इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
252	04-18452	प्रजापती एग्रो फुड्स प्रा. लि.
253	04-18366	फरहाना इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्रा. लि.
254	04-18266	रिद्धी एलोईज प्रा. लि.
255	04-18445	मर्चन्ट सोल्ट प्रा. लि.
256	04-18416	सत्येन सिन्थेटिक्स प्रा.लि.
257	04-18582	ओम पार्क प्रा. लि.
258	04-18531	हर्षा फिनस्टोक प्रा.लि.
259	04-17314	लिंग स्टिल प्रा. लि.
260	04-18404	रीशी कोरुगेशन प्रा. लि.
261	04-18447	नारंग रीसोर्ट हेल्थ एण्ड रीक्रीयेशन क्लब प्रा. लि.
262	04-18669	फ्रन्टलाईन स्मोल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि.

263	04-18606	गीर फुड प्रोसेसींग प्रा. लि.
264	04-18891	जय गीरनार वायर प्रा. लि.
265	04-18722	श्रेयस फीजील एण्ड लीजीग प्रा. लि.
266	04-18681	क्रीस्टल सोसीयल क्लब प्रा. लि.
267	04-21400	प्रेक्शल एग्री कलचर एण्ड फीशरीज प्रा. लि.
268	04-21401	टेलर फीशरीज प्रा. लि.
269	04-21402	मांडवीवाला फीशरीज प्रा. लि.
270	04-21461	तीब्शीलोन पोलीटेक्स प्रा. लि.
271	04-21510	उर्वीज सिन्थेटिक्स प्रा.लि.
272	04-21005	मुकुंद टेक्सयुराईज प्रा. लि.
273	04-21409	क्रिश्ना फिशरीज प्रा. लि.
274	04-21546	राज ओर्गेनिक प्रा. लि.
275	04-21260	शकुंतला डाईंग एण्ड प्रिन्टींग मील्स प्रा. लि.
276	04-21399	अंचल एग्रीकल्चर एण्ड फीशरीज प्रा. लि.
277	04-40382	रीयलवेल्सु ईन्फो कोन्सेप्ट्स प्रा. लि.
278	04-40333	श्री एन. एन. फुड्स प्रा. लि.
279	04-40699	अर्न प्लस मार्केटींग प्रा. लि.
280	04-40642	भेरुनाथ फुड्स प्रा. लि.
281	04-40137	अधर ओर्गेनिक (इन्डिया) प्रा. लि.
282	04-40000	वी.बी.एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्विसीज प्रा. लि.
283	04-31717	होटेल पुजानजली प्रा. लि.
284	04-38971	अनंत जीमखाना प्रा. लि.
285	04-38056	विकास ओटो विजन (गुजरात) प्रा. लि.
286	04-38048	ग्रेटलेण्ड मोटेल प्रा. लि.
287	04-38281	गुजरात यु.कोम प्रा. लि.

288	04-38452	हिल्स लेबोरेटरीज प्रा. लि.
289	04-38411	मंगलम ईन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
290	04-38400	सावलीया न्युमेटिक्स प्रा. लि.
291	04-38355	रीलाएबल ग्रेईन्स एक्सपोर्ट प्रा. लि.
292	04-38362	धनश्री फायनेस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा.लि.
293	04-38314	क्रिश्ना प्रोटीन्स प्रा. लि.
294	04-38310	राजकिशन मल्टीप्लेक्स प्रा. लि.
295	04-38276	एडन्स मेक ईन्फोनेट प्रा. लि.
296	04-38555	बायोवर्जी हेल्थकेर प्रा. लि.
297	04-38550	एपोलो एग्रीकलचर एण्ड मिनरल्स प्रा. लि.
298	04-38668	इयुसे ओवरसीज प्रा. लि.
299	04-38585	वासु पुज्य शेर सर्वीसीज प्रा. लि.
300	04-38493	एनीनस्युला ट्रेडलिंक्स प्रा. लि.
301	04-38488	‘एन’ ओपटीयन्स प्रा. लि.ट
302	04-38690	रोहन सेल्स प्रा. लि.
303	04-38502	लोजीकमास्टर सोल्युसन्स प्रा. लि.
304	04-38718	आईडीयल फीनमार्क प्रा. लि.
305	04-38701	श्री गणेश रीसोर्ट्स प्रा. लि.
306	04-38891	एग्ली सिक्युरीटीज प्रा. लि.
307	04-38915	साईनाथ इन्टरमीडीयेट्स डाईज एण्ड केमीकल्स प्रा. लि.
308	04-38936	जेएच ईन्फोरमेशन टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
309	04-38982	शिल्पी पब्लीकेशन प्रा. लि.
310	04-38992	शेक एण्ड ड्राय ओरल्स प्रा. लि.
311	04-38959	एटीपी शीपींग सर्विसीज प्रा. लि.
312	04-38973	एट्को एन्टरप्राईज प्रा. लि.

313	04-38950	स्कायवीन मार्केटींग प्रा. लि.
314	04-38944	मेगधनुष एक्वा हायगेन प्रा. लि.
315	04-33495	आलिशान कन्जुमर मार्केटींग सर्विसीस प्राईवेट लि.
316	04-39095	एरो टेरी सेल्स एण्ड मार्केटींग प्रा. लि.
317	04-39078	हीमटेक ईन्स्ट्रुमेन्ट्स प्रा. लि.
318	04-39051	ईशान डॉक्टर्स हाउस प्रा. लि.
319	04-39190	ट्रेस एक्सपोज़र्स प्रा. लि.
320	04-39215	गुजरात ड्रेडगींग प्रा. लि.
321	04-39196	लीओनीड-हेल्थकेर प्रा. लि.
322	04-39222	मणीभद्र अन्टेनसील्स प्रा. लि.
323	04-39224	जी.जी.बुड (जाम) प्रा. लि.
324	04-39342	कामरान कापडिया लेन्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
325	04-39337	ट्रान्सकुल सीस्टम प्रा. लि.
326	04-39334	स्टील बिल्ड (गुज.) प्रा. लि.
327	04-39324	पेटनर्स एण्ड क्राफ्ट्स (अहमदाबाद) प्रा. लि.
328	04-39320	माय वेब कन्सेप्ट्स प्रा. लि.
329	04-39299	वरुदी डेवलपर्स प्रा. लि.
330	04-39237	ई-टेक सीस्टम्स प्रा. लि.
331	04-33977	सोमनाथ स्टील ट्यूब्स प्रा. लि.
332	04-33985	हेमकुट स्टील प्रा. लि.
333	04-34155	राजघराना होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
334	04-34194	जोहन केबोट केलीब्रेशन ईक्वीपमेन्ट्स प्राईवेट लि.
335	04-34208	भूमिपूजा डेवलपर्स प्रा. लि.
336	04-34226	राज टेक्नोक्रेट्स प्राईवेट लि.
337	04-33872	आल्फा वेल्थकेर (गुज.) प्रा. लि.

338	04-33905	पी.ए. फूड्स प्रा. लि.
339	04-33947	मुक्तेश्वर मार्केटींग प्राईवेट लि.
340	04-33708	श्रीनाथ कार्गो मुवर्स प्राईवेट लि.
341	04-33721	लायन सीक्योरीटी एण्ड मेन पावर सर्विसिस प्रा. लि.
342	04-33769	भवनाथ कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लि.
343	04-33778	दिपक सखीदास पटेल केमीकल्स प्राईवेट लि.
344	04-31592	सुजी ओप्योटेक प्राईवेट लिमिटेड
345	04-38306	बोनी ईन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
346	04-33970	मनोबल एक्षपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
347	04-41275	अश्वमेघ टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
348	04-40334	क्यारा एनर्जी कंट्रोल टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
349	04-41286	बेस्टवे नेटलींक सर्विसिस प्राईवेट लि.
350	04-41280	श्री गुर्जरी फुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लि.
351	04-41276	नीटनेट मार्केटींग प्राईवेट लि.
352	04-40370	सहयोग मुवर्स सर्विसीस प्राईवेट लि.
353	04-40366	वितल वेस्ट डीस्पोज़ल प्रोसेसर्स प्राईवेट लि.
354	04-40344	सन मेन्थोल प्राईवेट लि.
355	04-39971	निलमग ईलेक्ट्रीक कां. प्रा. लि.
356	04-39656	एम.एस. पफ़्युमेक्ष प्राईवेट लि.
357	04-42223	मरुधर फोईल्स प्राईवेट लि.
358	04-40771	प्रेशा ट्रेडलींक प्राईवेट लि.
359	04-40783	क्वोन्टम फोर्सीस ट्रेडलींग प्राईवेट लि.
360	04-39443	जयमा ईन्फोटेक प्राईवेट लि.
361	04-40829	कमलनाथ प्रिन्टर्स प्राईवेट लि.
362	04-40877	मिसुजी रीसोर्ट्स प्राईवेट लि.

363	04-40885	हरबीन्स ट्रेडलीक प्राइवेट लि.
364	04-40992	टोपवे फेशन प्राइवेट लि.
365	04-40958	ऋतुराज मोटर्स प्राइवेट लि.
366	04-40004	कर्ना डीजीटल प्राइवेट लि.
367	04-35118	श्रीनाथजी डेरी प्रोसेस प्राइवेट लि.
368	04-41004	अशोका फेशन्स प्राइवेट लि.
369	04-40052	अहिंसा होटल्स प्राइवेट लि.
370	04-40036	मार्ग मेनेजमेन्ट सर्विसीस प्राइवेट लि.
371	04-40030	बरोडा लेटेक्ष प्राइवेट लिमिटेड
372	04-19634	प्रेमलक्ष्मी होम्स प्राइवेट लिमिटेड
373	04-17337	विश्वराज फार्मास्युटीकल्स एजन्सी प्रा. लि.
374	04-17327	पार्थ धीस एन्जीनीयरींग प्राइवेट लि.
375	04-41162	न्यूवै फेशन प्राइवेट लि.
376	04-41247	ग्रोमोर मेनेजमेन्ट सर्विसीस प्रा. लि.
377	04-41141	प्रविण खाण्डसरी प्राइवेट लि.
378	04-41050	शिवांगीनी कोम्प्युटर्स प्रा. लि.
379	04-19561	सायन फॅन्सी वेब्स प्रा. लि.
380	04-19573	यश कमल मशीन्स प्रा. लि.
381	04-19639	हेस फायनान्स एन्ड लिजिंग प्रा. लि.
382	04-19419	जेड केम प्रा. लि.
383	04-19494	गुजरात कोम्प्युजस्टीस रीट्रायवल सिस्टम प्रा. लि.
384	04-19506	पायॉनिधी कटल डेरी फार्म प्रा. लि.
385	04-19529	पटेल प्रेस प्रा. लि.
386	04-17229	साई वीजन प्रा. लि.
387	04-17123	विनायक सोल्युबल प्रा. लि.

388	04-17096	श्यामल पॉलिपेक एन्ड प्लास्टीक्स प्रा. लि.
389	04-20077	सोना डाईंग एन्ड प्रिन्टींग मिल्स प्रा. लि.
390	04-20045	अंकुश जीमखाना प्रा. लि.
391	04-20035	सीटी एडवर्टाईजमेन्ट प्रा. लि.
392	04-19734	बोम्बे प्रोसेसर्स प्रा. लि.
393	04-19725	श्री एवीएम कोच प्रा. लि.
394	04-19720	सुगम हाउसींग एण्ड लीजींग फायनान्स प्रा. लि.
395	04-19702	शीव सीक्युरिटी सर्विसीस प्रा. लि.
396	04-19676	फिलमेक्ष पेइन्ट्स प्रा. लि.
397	04-19893	विरु मरीन सर्विसीस प्रा. लि.
398	04-19976	राजासाब जीमखाना प्रा. लि.
399	04-19990	शीतल एकजीम प्रा. लि.
400	04-19892	डेल्टा सिल्क मील्स प्रा. लि.
401	04-19906	शीवम फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
402	04-19917	श्रवण ईलेक्ट्रोनीक्स लि.
403	04-19859	कांग्रा वेली प्लान्टेशन एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
404	04-19865	घहरवर टेक्स्टाईल्स प्रा. लि.
405	04-40559	एवीएम अज्युकेम कन्सलटन्स प्रा. लि.
406	04-41387	एमसोनीक मल्टीटेक प्रा. लि.
407	04-41339	ईपीएस लोजीस्टीक्स प्रा. लि.
408	04-41296	फ्रन्टायर नेटवर्क प्रा. लि.
409	04-41294	स्कायटच मार्केटींग प्रा. लि.
410	04-41292	दर्शन मोटर्स प्रा. लि.
411	04-41293	अवीवा नेटवर्क मार्केटींग प्रा. लि.
412	04-40541	जय पावर प्रोटेक्शन्स प्रा. लि.

413	04-40485	नवदुर्गा वेलफेर सर्विसीस प्रा. लि.
414	04-40448	सरल जलसेवा कां. प्रा. लि.
415	04-40444	पदवी फुड एण्ड बेवरेजीस प्रा. लि.
416	04-17687	बीजील ईनवेस्टीगेशन एण्ड प्रोटेक्शन प्रा. लि.
417	04-36803	आदित्य प्लास्टोवेर प्राईवेट लि.
418	04-17292	मोटीवेशन्स एन्जीनीयर प्रा. लि.
419	04-17291	सलीम सी फुड्स प्रा. लि.
420	04-18644	डोमीनो मर्लीगन्सी मैनेजमेन्ट टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
421	04-18651	दीपा ईलेक्ट्रो हाईड्रोलिक्स प्रा. लि.
422	04-18696	डीसेन्ट नीटवेर प्रा. लि.
423	04-18592	डीसा फिनस्टोक प्रा. लि.
424	04-18578	सची ग्रेनाइट्स प्रा. लि.
425	04-18566	गोधरा जीमखाना प्रा. लि.
426	04-18505	एलाईड सीस्टम्स प्रा. लि.
427	04-18493	श्री शरेक कन्सलटन्स प्रा. लि.
428	04-40414	एलेक्ष बुड वर्कींग टुल्स प्राईवेट लि.
429	04-40407	मुकेश सिंघानीआ मल्टीलीक एण्ड प्राईवेट लि.
430	04-40727	रीचीस कन्टेनर्स प्रा. लि.
431	04-40717	जितेन्द्र ईलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
432	04-40670	प्रेमराज टेक्स्टाईल्स प्रा. लि.
433	04-40753	बसिल ईमीग्रेशन सर्विसीज प्रा. लि.
434	04-40619	नियती सीरामीक्स प्राईवेट लि.
435	04-40736	नवरत्न मिलेनीयम प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
436	04-24586	गुप्ता ओटो मोबाईल्स प्रा. लि.
437	04-4834	नरजी होल्डींग्स प्रा. लि.

438	04-40079	हरीश कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
439	04-40072	बुगी मार्केटींग प्रा. लि.
440	04-40117	त्रिमूर्ति पोलिमेर्स प्रा. लि.
441	04-40116	भाग्यलक्ष्मी रबर्स प्रा. लि.
442	04-40099	फटाक केशन प्राईवेट लि.
443	04-40076	सफीलो ओप्टिकल्स प्रा. लि.
444	04-40152	बोरोलेब सायन्टीफीक ग्लास प्राईवेट लि.
445	04-40132	उमिया पोलिमेर्स प्राईवेट लि.
446	04-40168	ईतिश्री एन्टरटेन्मेन्ट प्रा. लि.
447	04-40159	भक्ति कन्सलटन्ट प्रा. लि.
448	04-36804	आदित्य प्लास्टोपेक प्रा. लि.
449	04-40211	मिल्कमेन डेरी (इन्डिया) प्रा. लि.
450	04-40202	आपका डायकेम प्राईवेट लि.
451	04-40253	दत्तकृपा एन्जीनीयरिंग प्रा. लि.
452	04-41321	तिर्थ ईमीग्रेशन सर्विसिस प्राईवेट लि.
453	04-41323	कालिंद मल्टीलीक प्राईवेट लि.
454	04-41324	पेलीकेन नेटवर्क प्राईवेट लि.
455	04-41322	शीव गोल्ड प्राईवेट लि.
456	04-40287	अेशीया विजन टेक्नोलोजीस प्राईवेट लि.
457	04-40235	आशापुरा सोल्ट वर्क्स प्राईवेट लि.
458	04-29737	भाग्यराज इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
459	04-29726	अेसट्रा फिनलीझ प्राईवेट लि.
460	04-29772	एक्मी फ्लाय एश टेक्नीक्स प्राईवेट लि.
461	04-28737	धुरजती पेकेज मार्क प्राईवेट लि.
462	04-28588	वर्धमान शेर सर्विसीस प्राईवेट लि.

463	04-28533	सीमालाईन लेबोलेटरीज प्राईवेट लि.
464	04-27124	श्री नमस्ते टुर सर्विसीस प्राईवेट लि.
465	04-28985	कोम्प्लायर केमीकल्स प्राईवेट लि.
466	04-29103	प्रयोशा एन्जीनीयर एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
467	04-27402	शांतिदूत सिमेन्ट एण्ड केमीकल्स प्रा. लि.
468	04-27376	एरोक्वीप एन्जीनीयर्स प्रा. लि.
469	04-27209	प्योर प्लास्ट (गुजरात) प्रा. लि.
470	04-27128	प्रार्थना हाउसींग एण्ड रीयल एस्टेट डेवलपर्स प्रा. लि.
471	04-29086	तिरुपति सोल्ट्स प्राईवेट लि.
472	04-29045	केनोपी हाउसींग फायनान्स प्रा. लि.
473	04-29025	वस्त्रापुर ईनवेस्टमेन्ट कां. प्रा. लि.
474	04-29498	स्टारव्यु होल्डींग्स प्रा. लि.
475	04-28296	अमरेली लीजींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
476	04-28209	गोकुल एलोईज प्रा. लि.
477	04-32035	सरस्वती सिक्वोरीटी एण्ड डीटेकटीव सर्विसिस प्रा. लि.
478	04-32489	संजोग फार्मा प्राईवेट लि.
479	04-32416	हरसिद्ध प्लास्ट प्रा. लि.
480	04-32457	श्री पद्मावती एडीबल ओईल मिल प्रा. लि.
481	04-28162	अतुल मिल्क केन्स प्रा. लि.
482	04-28161	पंचाल मेटल कोट्स प्रा. लि.
483	04-26688	अदाची अग्रोटेक प्रा. लि.
484	04-26670	एसेन मीडिया प्रा. लि.
485	04-26930	दुष्यन्त कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
486	04-26896	टीम वर्क मार्केटींग प्रा. लि.
487	04-26876	श्याम इन्टीग्रेटेड फायनान्स प्रा. लि.

488	04-24374	लेन्डमार्क ओर्गेनाईजर्स प्रा. लि.
489	04-25618	अर्बुदा इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
490	04-25617	त्रिलोक इन्वेस्टमेन्ट एण्ड सिन्क्योरीटीज प्रा. लि.
491	04-25616	मनोज इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
492	04-18740	पूर्वी कार्गो प्रा. लि.
493	04-18755	श्री पटेल प्लान्टेशन प्रा. लि.
494	04-31455	चिदानंद ओग्रोटैक प्रा. लि.
495	04-31451	सायक्लोन मार्केटींग प्रा. लि.
496	04-31601	सहयोग बेवरेजीस प्रा. लि.
497	04-31605	अंकुर बोलीवुड नेटवर्क प्रा. लि.
498	04-31413	हुमा कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
499	04-31431	आदित्यगुरु रीलेटर्स प्रा. लि.
500	04-31384	शीवानी फिनसेक प्रा. लि.
501	04-31391	अमरयोग लीजींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
502	04-31991	क्लासीक फिनस्टोक प्रा. लि.
503	04-31949	सुरम ओवरसीस प्रा. लि.
504	04-31937	डरवीक्स फार्मास्युटीकल (इन्डिया) प्रा. लि.
505	04-31908	मोडगल्या सुरगी टेक प्राइवेट लि.
506	04-8787	शक्ति हार्ड टेम्प प्रा. लि.
507	04-8613	अमर पेन कां. प्रा. लि.
508	04-8610	रिद्धि जिमखाना प्रा. लि.
509	04-8461	खोडल पोलीफाईबर्स प्रा. लि.
510	04-8488	रेन्को इलेक्शन्स प्रा. लि.
511	04-8440	मार्शल इन्डस्ट्रीयल सिन्क्योरीटी प्रा. लि.
512	04-8412	ऋषभ टेक्स्टाईल्स प्रा. लि.

513	04-8299	योगी अस्टेट प्रा. लि.
514	04-8313	भारत सिमेन्ट ईन्डस्ट्रीज (गुजरात) प्रा. लि.
515	04-8326	भाग्योदय ओईल ईन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
516	04-8352	दीप फूड्स प्रा. लि.
517	04-7312	अबाबेल स्टील रीरोलींग मिल्स प्राईवेट लि.
518	04-7310	माधवपुरा मार्केट ट्रान्सपोर्ट्स को.ओपरेटीव प्रा. लि.
519	04-7281	सुलतान फ्रोजेन फुड्स प्रा. लि.
520	04-7242	अमरज्योत सिरामीक प्रा. लि.
521	04-7299	गुरु गोबिंदसींग स्टील ईन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
522	04-7292	पामरेज एन्जीनीयरींग प्रा. लि.
523	04-8905	क्रिष्णा जिमखाना प्रा. लि.
524	04-8818	ओस्वाल लेमीनेट्स प्रा. लि.
525	04-8621	नु फार्म केमीकल्स प्रा. लि.
526	04-8668	पाटीधर सोशियल क्लब प्रा. लि.
527	04-8781	एवन जीमखाना प्रा. लि.
528	04-8759	जोली फेब्स प्रा. लि.
529	04-8704	सिद्धि जीमखाना प्रा. लि.
530	04-16859	कंचन यार्नस प्रा. लि.
531	04-16861	फ्रेश टवेर्न फुड्स प्रा. लि.
532	04-16868	मारुति स्टेशनर्स प्रा. लि.
533	04-16784	मेडॉज रिसोर्ट्स प्रा. लि.
534	04-8735	अहमदाबाद पोलीक्लीनीक प्रा. लि.
535	04-8638	पिन्की प्लास्टीक्स प्रा. लि.
536	04-30363	विनायक टेलीकोम प्रा. लि.
537	04-30334	साईकाम एन्टरप्राईजीस प्रा. लि.

538	04-30161	हिमांशु सिमेन्ट प्रा. लि.
539	04-30051	हादीया स्टील्स प्रा. लि.
540	04-30048	बाईट मेडीसीस्टम्स प्रा. लि.
541	04-30040	श्री पृथ्वी फायनान्स प्रा. लि.
542	04-30497	आवास मोटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
543	04-30489	काविका यार्नस प्रा. लि.
544	04-30457	अैश्वर्या फिनकेप प्रा. लि.
545	04-30410	लेगा पार्था लिज फिन प्राईवेट लि.
546	04-30394	आश्रिता केमीकल्स प्राईवेट लि.
547	04-30391	अभिगम प्लान्टेशन प्राईवेट लि.
548	04-30386	पलक टी ट्रेडर्स प्रा. लि.
549	04-30526	जगजीत फिनस्टोक प्रा. लि.
550	04-30528	हर्षद फायनान्सीयल सर्विसिस प्रा. लि.
551	04-30503	शंकर आईसक्रीम मार्केटींग प्रा. लि.
552	04-30585	जिंगो प्लास्ट प्राईवेट लि.
553	04-30610	सुप्रिमो जिमखाना प्रा. लि.
554	04-33211	मोनालीषा होलीडे रिसोर्ट्स प्रा. लि.
555	04-33105	भगवती सोलर प्राईवेट लि.
556	04-33183	रीग फार्माकेम प्राईवेट लि.
557	04-33208	होटल देवर्षी प्राईवेट लि.
558	04-33099	श्री सदगुरु बिल्डकोन प्रा. लि.
559	04-33089	सैगीर रिसोर्ट्स प्रा. लि.
560	04-40066	प्लेसमेन्ट पार्क कन्सल्टन्ट्स प्रा. लि.
561	04-33022	वारिया फिनलीज प्राईवेट लि.
562	04-33019	श्री कुदोष कोम्युनीकेशन एण्ड फिल्ड प्रा. लि.

563	04-33574	आदित्य रेमीडीस प्राइवेट लि.
564	04-33293	उमिया मार्केटींग सर्विसिस प्रा. लि.
565	04-33245	गोपाल वेल्डींग केबल्स प्राइवेट लि.
566	04-33567	ओलबाय वोटर एण्ड फनपार्क प्रा. लि.
567	04-33590	रत्नाकर फुड्स प्रा. लि.
568	04-33518	श्री दुधगंगा डेरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
569	04-31115	कर्णावती ओटो रीक्षा फिनलिङ्ग इन्वेस्टमेन्ट लि.
570	04-31142	चिनी लिजिंग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
571	04-31146	सोनी लेन्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
572	04-31288	दोस-मेक्ष मार्केटींग प्रा. लि.
573	04-31250	स्वीफ्ट रीप्रो सर्विसीस प्रा. लि.
574	04-31243	सत्यम ओडीयो सीस्टमस प्राइवेट लि.
575	04-31781	ज्युपीटर इन्केप प्राइवेट लि.
576	04-31509	हरीओम फोर मिल्स प्रा. लि.
577	04-31835	अनिकेत फिनस्टोक प्रा. लि.
578	04-31802	वोटस्कींग (इन्डिया) प्रा.लि.
579	04-31836	हर्षवर्धन फिनस्टोक प्रा. लि.
580	04-20306	अक्षर पेट्रोकेमीकल्स प्रा. लि.
581	04-20234	सयन पोलीफेब प्रा. लि.
582	04-20226	सयन टेक्षच्युराईजर्स प्रा. लि.
583	04-20190	त्रिनेत्र मार्केटींग एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.
584	04-20144	ओरबीट प्रोफेक्ष इम्पेक्ष प्रा. लि.
585	04-36338	पृथ्वी थियेटर्स प्रा. लि.
586	04-29394	शेरवुड फायनान्स प्रा. लि.
587	04-29662	लोसानीया फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.

588	04-29305	कोर्नीश हेल्थकेर प्रा. लि.
589	04-4660	एस.एम.एस. कार्स्टींग प्रा. लि.
590	04-4625	रामक्रिष्णा बोर्ड मिल्स (गुजरात) प्रा. लि.
591	04-38865	टीटुस रब्बर्स प्राईवेट लि.
592	04-29355	अग्रोहा क्रेडीट प्रा. लि.
593	04-39075	वोटेक वोटर टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
594	04-39608	जीनीयस इन्फोसोफ्ट प्रा. लि.
595	04-54-119	आशादीप इन्डस्ट्रीज़ प्रा. लि.
596	04-36339	चिराग शीप ब्रेकींग कां. प्रा. लि.
597	04-40805	स्पेस इन्टरस्ट्रेडलींग प्रा. लि.
598	04-40479	सिध्दार्क सॉफ्टवेर्स प्राईवेट लि.
599	04-40430	शिखर एक्स्पॉर्ट्स प्रा. लि.
600	04-32959	सर्जन रीयालीटीस प्रा. लि.
601	04-32851	टीम ओवरसीस प्रा. लि.
602	04-34015	टेक्स्टाईल टुडे पब्लीकेशन्स प्रा. लि.
603	04-34933	लिंगसी रिसोर्ट्स प्रा. लि.
604	04-9190	ध्रुव बिल्डर्स प्रा. लि.
605	04-9197	युनिवर्सल रीसर्चस प्रा. लि.
606	04-14154	क्रिस्टल वेब्स प्रा. लि.
607	04-41146	पंचामृत नेटवर्क मार्केटींग प्रा. लि.
608	04-5129	श्री द्वारकाधीश आईस एण्ड कोल्डस्टोरेज प्रा. लि.
609	04-5127	कमल बेवरेजीस प्रा. लि.
610	04-13904	वेलकम फूड्स प्रा. लि.
611	04-13975	परकोस इलेक्ट्रो केम प्रा. लि.
612	04-14333	सोनापल फेब्रीक्स प्रा. लि.

613	04-24752	द्विपावती फिनवेस्ट प्रा. लि.
614	04-28455	संकाग्री लेबोरीटरीस प्रा. लि.
615	04-28451	अमेजींग फायनान्स एण्ड मार्केटींग प्रा. लि.
616	04-36729	अर्थ मेनेजमेन्ट प्राईवेट लि.
617	04-28945	नीकी ईररीग्रेशन प्राईवेट लि.
618	04-28892	जैनिल प्रोपर्टीज प्राईवेट लि.
619	04-28965	केनेरा वेगस स्टील फेब्रीकेटर्स प्रा. लि.
620	04-28542	ओझा ठक्कर महेता फायनान्सीयल सर्विसीस प्राईवेट लि.
621	04-28190	जोय डेरी एण्ड फार्मस प्राईवेट लि.
622	04-17149	अरिहंत ओर्गेनाईजर्स प्राईवेट लि.
623	04-18490	मीनीयन कोम्प्युटर्स प्रा. लि.
624	04-32713	परफेक्ट लुब्रिकेन्ट्स प्राईवेट लि.
625	04-31610	गोल्डर्थ सिन्थेटीक्स लि.
626	04-30176	कृपा फायनान्सीयल सर्विसिस प्रा. लि.
627	04-28964	विजेता मनी स्प्रीनर्स प्रा. लि.
628	04-23186	रेडीकल मार्केटींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
629	04-27172	कल्पना स्टीलकोन प्राईवेट लि.
630	04-32996	चौहाण बेवरेजीस प्राईवेट लि.
631	04-32993	होटल बटुल प्राईवेट लि.
632	04-32981	मेघा फुड्स प्राईवेट लि.
633	04-13223	खोडियार डीहाईड्रेशन प्रा. लि.
634	04-32944	श्री विद्या बिल्डिंग मटीरीयल्स प्रा. लि.
635	04-28777	लोटस कमीशन एजन्ट्स प्रा. लि.
636	04-28769	ईलाईट ईन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि.
637	04-28738	धारा ग्रोथ लेण्ड प्रा. लि.

638	04-28722	अलट्रा लेन्ड स्केप एण्ड एक्वीटीक्स प्रा. लि.
639	04-28719	फुलमार्क कोम्प्यु सीस्टम प्रा. लि.
640	04-28711	बेला फिनस्टोक प्रा. लि.
641	04-28458	इन्दुस फर्निचर्स प्रा. लि.
642	04-28439	उज्जवल स्टीलटेक प्रा. लि.
643	04-29803	संतराम फायनान्सीयल सर्विसिस प्रा. लि.
644	04-17364	मसरानी टेक्स्टाईल प्रा. लि.
645	04-29289	वाराही फायनान्स प्रा. लि.
646	04-29160	लुनिक एन्जीनीयरींग प्रा. लि.
647	04-29575	फास्टट्रेक मेग्नेटीक्स प्राईवेट लि.
648	04-29577	धरती ग्रेनाईट्स प्राईवेट लि.
649	04-29377	लीस्टर हेल्थ फर्स्ट प्राईवेट लि.
650	04-29376	गोर्सीआ शीपर्स प्राईवेट लि.
651	04-29381	इनेरटीआ लिजिंग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
652	04-28529	चिराग फिनवेस्ट प्रा. लि.
653	04-28523	रीतु एक्वाकलचर प्रा. लि.
654	04-29413	बीरवा फिनकेप प्रा. लि.
655	04-41310	एम-रीच मेनेजमेन्ट सर्विसिस प्रा. लि.
656	04-41312	श्री कर्णी नेटवर्क मार्केटींग प्रा. लि.
657	04-41307	हार्वेस्ट एन्जीनीयर्स प्रा. लि.
658	04-41254	मूल्य नेटवर्क प्रा. लि.
659	04-40284	कुबेर शेर्स एण्ड सीक्योरीटीज प्रा. लि.
660	04-41316	सेफ लाईफ नेटवर्क्स प्रा. लि.
661	04-41266	किर्तीराज फूड्स प्रा. लि.
662	04-2660	पाटण प्रकाशन लि.

663	04-9662	भूमिका एन्जीनीयरींग वर्क्स प्रा. लि.
664	04-11076	आदिनाथ अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लि.
665	04-11169	विठल मेटल्स प्रा. लि.
666	04-11197	वनराज मरीन एण्ड एन्जीनीयरींग कंपनी प्रा. लि.
667	04-11296	महादेव मार्केटींग प्रा. लि.
668	04-11880	डीलक्ष बोर्डस एण्ड डोर्स प्रा. लि.
669	04-11884	श्री राधा माधव टेक्स्टाईल्स प्रा. लि.
670	04-11976	ईमीग्रेशन एण्ड एलाईड सर्विसेस प्रा. लि.
671	04-12003	चिक वेगन प्रा. लि.
672	04-12014	ओमी एन्जीनीयरींग एण्ड प्लास्टीक्स प्रा. लि.
673	04-12121	सुन्ता बेवरेजीस प्रा. लि.
674	04-12244	राज नोन फेरस प्रा. लि.
675	04-12248	श्री ओम पोलीस्टर्स प्रा. लि.
676	04-12442	श्रीनाथजी लिजिंग प्रा. लि.
677	04-12462	सूर्या कोम्प्लेक्सीस प्रा. लि.
678	04-12881	जर्सी अगफार्म प्रा. लि.
679	04-12885	डेल्टा फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
680	04-12894	क्रिष्णा वुडक्राफ्ट प्रा. लि.
681	04-12933	श्री गुरुकृपा डाईमण्डस प्रा. लि.
682	04-12973	योगीकृपा प्लास्टिक प्रोसेसिंग प्रा. लि.
683	04-13010	खोडियार पेपर्स प्रा. लि.
684	04-13030	रीको प्लास्टीक्स प्रा. लि.
685	04-13062	ब्राईन मरीन मेटल प्रा. लि.
686	04-13088	सौराष्ट्रा डाईग्नोस्टीक्स एण्ड रीसर्च सेन्टर प्रा. लि.
687	04-13175	प्रचंड सिन्थेटीक्स प्रा. लि.

688	04-13179	एच.एन. फेब्रीकेटर्स प्रा. लि.
689	04-13647	सर्वोत्तम फिलामेन्ट्स प्रा. लि.
690	04-13711	सींगल परिवहन प्रा. लि.
691	04-14204	टीमी ओर्गेनीक्स प्रा. लि.
692	04-14266	जलाराम डेवलपर्स प्रा. लि.
693	04-14921	एडवान्स बायो कल्चर प्रा. लि.
694	04-14937	भवानी एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लि.
695	04-15168	श्री नवपद मार्केटींग प्रा. लि.
696	04-15675	पेन्टागोना प्लास्टो प्रा. लि.
697	04-16283	रिझ जिमग्राना प्रा. लि.
698	04-16328	एसोसीएटेड थर्मोसेट प्रा. लि.
699	04-16336	ईगल टेक्च्युराईजर्स प्रा. लि.
700	04-16366	न्यु टाईम एण्ड स्पेस ट्रांसपोर्ट कां. प्रा. लि.
701	04-16398	वैश्रव महिला समाज कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
702	04-16412	पार्थ ईम्पेक्ष प्रा. लि.
703	04-16452	प्रणव रोलिंग मिल्स प्रा. लि.
704	04-16488	रामा कोल्ड रीट्रेडर्स प्रा. लि.
705	04-16536	सुस्त स्टील रोलिंग मिल्स प्राईवेट लि.
706	04-16595	संहम टेक्स्टाईल्स प्रा. लि.
707	04-16703	दर्शन इन्टरमीडीएट्स प्रा. लि.
708	04-16890	शीवम ओर्गेनाईजर्स प्रा. लि.
709	04-16905	डेग्युस्सा फेब्रि डाई (इन्डिया) प्रा. लि.
710	04-16908	सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा. लि.
711	04-16938	निकीता प्रिन्ट्स प्रा. लि.
712	04-16989	सोफटेक्ष मीनरल्स प्रा. लि.

713	04-17033	मोयाना रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
714	04-17059	कैलामा मेटकास्ट प्रा. लि.
715	04-17076	भाग्यनिधी जीमखाना प्रा. लि.
716	04-17114	प्रस्थान रीयल एस्टेट प्रा. लि.
717	04-17443	अल्ला विडान प्रा. लि.
718	04-17475	तरुण डाईस प्रा. लि.
719	04-17656	तेजस एकजीम प्रा. लि.
720	04-18247	समता ग्रेनाईट एण्ड मार्बल्स प्रा. लि.
721	04-18547	नटराज टेक्षप्रो प्रा. लि.
722	04-20157	वोल्गा कोन प्रा. लि.
723	04-20165	वृन्दावन साईजयान प्रा. लि.
724	04-20206	असवा बंसल सर्विसीस प्रा. लि.
725	04-20208	विन्डसन पोलीटेक्ष प्रा. लि.
726	04-20239	आनंद बिल्डींग मटीरीयल्स प्रा. लि.
727	04-20364	अमर एन्टरप्राईजीस प्रा. लि.
728	04-20416	क्वीक कोम्युनिकेशन प्रा. लि.
729	04-20991	श्री ईलेक्ट्रोटेक डीवाईसीस प्रा. लि.
730	04-21015	प्राईम रीसोर्टस प्रा. लि.
731	04-21036	हेब्रोकेर रेमीडाईस प्रा. लि.
732	04-22018	स्पार्इन लिजींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
733	04-22585	मोदी मेडिको सेन्टर प्रा. लि.
734	04-22590	इरेस्ट ओवरसीस प्रा. लि.
735	04-22632	दाली एपरल्स प्रा. लि.
736	04-22979	फलोरीडा फार्मा-केम प्रा. लि.
737	04-23233	ग्रीन वुड एनर्जी प्रा. लि.

738	04-24371	शीवम कोम्युनीकेशन प्रा. लि.
739	04-24390	ब्राइट सिक्युरीटीस प्रा. लि.
740	04-24588	विन्डसर बेरींग प्रा. लि.
741	04-24815	विर गोसीस प्रा. लि.
742	04-25392	पटेल फिनट्रेड प्रा. लि.
743	04-25797	अप्सरा फिनकेप प्रा. लि.
744	04-25963	सुंदरधारा फार्म्स प्रा. लि.
745	04-25964	हरीधारा फार्म्स प्रा. लि.
746	04-25965	अलंकार फार्म्स प्रा. लि.
747	04-25966	राग फार्म्स प्रा. लि.
748	04-25967	शीवम फार्म्स प्राईवेट लि.
749	04-25968	रूपाली फार्म्स प्रा. लि.
750	04-26511	वन्दर ओक्सीजन प्रा. लि.
751	04-26524	सोल्डकोम टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
752	04-26776	अनुप एक्जीम प्रा. लि.
753	04-26800	ईम्पेक केमीकल्स प्रा. लि.
754	04-26803	सविता सीक्युरीटीज प्रा. लि.
755	04-26811	एच.पी. सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
756	04-26844	जयकेम इन्डस्ट्रीयल प्रा. लि.
757	04-26906	विपुल टेक्ष-ओ-ट्वीस्ट प्रा. लि.
758	04-26943	विजयश्री सिमेन्ट कोंक्रिट प्रा. लि.
759	04-26955	नरेन्द्रसिंह डभुभा वाघेला सोल्ट वर्क्स प्रा. लि.
760	04-27766	मंजीरा फिनवेस्ट प्राईवेट लि.
761	04-28235	रघुपति फिनस्टोक प्रा. लि.
762	04-28891	अपूर्व स्थापत्य प्राईवेट लि.

763	04-28972	राजनंदन गारमेन्ट्स प्रा. लि.
764	04-29026	रीलायबल ब्रेक डाउन सर्विसिस प्रा. लि.
765	04-29051	भगवती डीहाईड्रेशन प्राईवेट लि.
766	04-29092	वल्लभ पेकेजींग प्रा. लि.
767	04-30178	समुद्रगुप्त ग्रेनाईट्स एण्ड मीनरल्स प्रा. लि.
768	04-30192	ओमेक्ष फोर्गींग्स प्राईवेट लि.
769	04-30886	सेलमोर सेल्स प्रमोटर्स प्राईवेट लि.
770	04-31132	सेक्रोसेन्ट लिज एण्ड फिनस्टोक प्राईवेट लि.

वी. के. खूबचन्दानी
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560(5) के अंतर्गत निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. आरओसी/गुज-जेटीए/के एच/एसईएस/25/2008/925--

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560(5) के संबंध में एतद्वारा यह नोटीस दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है, एवं निम्न कम्पनियों विघटित हो गयी है ।

क्रम संख्या	कम्पनियों की रजिस्टर्ड संख्या	कम्पनियों का नाम
1	04-16471	शुकन सिल्क सारीज प्रा. लि.
2	04-16746	श्री इन्डटेक्ष कोम्बास्टोन प्रा. लि.
3	04-16749	यक्षराज गणिपितक एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
4	04-16846	जय महादेव इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
5	04-16934	वन्डर पेक (इ) प्रा. लि.
6	04-16957	धर्मेन्द्र लेबोरेटरीज इन्डिया प्रा. लि.
7	04-16995	श्रेया ओर्गेनीक्स प्रा. लि.
8	04-17117	गुजरात कन्ज्युमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
9	04-17134	साफील मार्केटींग प्रा. लि.

10	04-17214	डोना इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
11	04-17274	सविता फीन स्टोक प्रा. लि.
12	04-17283	तुलसीकोन लि.
13	04-17290	वेलप्लस केमिकल्स लि.
14	04-17444	गुटबोन एग्रो इन्स्ट्रीज लि.
15	04-17452	एवरेस्ट फोर्म्युलेशन्स प्रा. लि.
16	04-17499	टायकोन केमिकल्स (इ) प्रा. लि.
17	04-17549	राजबुन्दी सिमेन्ट लि.
18	04-17559	नूतन एग्रोकेम प्रा. लि.
19	04-17588	सिद्धि सोलर लि.
20	04-17862	हिन्दुस्तान काटकेम लि.
21	04-17938	नील दीप इंनिजियर्स प्रा. लि.
22	04-18098	सिमन्धर सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
23	04-18161	मधु यश डाइंग लि.
24	04-18165	बालाजी स्टेशनरी एण्ड मशीन्स प्रा. लि.
25	04-18432	बीझी बी इंनिजियर्स प्रा. लि.
26	04-18446	मनुभाई सकरचंद कन्स. एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लि.
27	04-18588	प्रोफीन फील्टर्स प्रा. लि.
28	04-18664	संक्रित मार्केटींग प्रा. लि.
29	04-18875	मीनीलीसा एक्वाकल्चर प्रा. लि.
30	04-18913	रोहरा ट्रेडिंग प्रा. लि.
31	04-18936	सानियो मीटर एण्ड इलेक्ट लि.
32	04-18972	ब्रह्माणी ओक्सिजन प्रा. लि.
33	04-19000	रेडीक्ष रबर हाउस लि.
34	04-19060	मृदुला एन्टरप्राइसीज प्रा. लि.
35	04-19066	जयभारत रोलिंग मिल्स प्रा. लि.
36	04-19083	औरीगा इंजिनीयर्स लि.
37	04-19200	हवा हाइड्रोलीक्स एण्ड नेयुमेटीस प्रा. लि.
38	04-19236	कोम्पोस फीनान्यस्यल सर्वीसीस प्रा. लि.
39	04-19237	ब्राइट ओर्गेनाइजेशन्स प्रा. लि.
40	04-19390	दीती इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनान्स प्रा. लि.

41	04-19400	मनमंदिर सिन्थेटीक्स प्रा. लि.
42	04-19590	रंकरास बाय केमिकल्स प्रा. लि.
43	04-19883	इफेक्टिव कम्प्यूटर सिस्टम्स प्रा. लि.
44	04-19931	टेली सोप्स प्रा. लि.
45	04-20106	हरिगंगा फायनान्स एण्ड एस्टेट प्रा. लि.
46	04-20167	सलसार टेक्ष्युराइज प्रा. लि.
47	04-20187	नवकार पोलीयान्स प्रा. लि.
48	04-20333	सिल्वरलाइन डवलोपर्स प्रा. लि.
49	04-20456	रोजर इलेक्ट्रीक (इ) प्रा. लि.
50	04-20979	बासुकी प्रिन्टस प्रा. लि.
51	04-20523	डोल्फ कम्पोझीट प्रा. लि.
52	04-20843	अनुलोक जेम्स प्रा. लि.
53	04-20931	देव मंगला लीजींग एण्ड फायनान्सींग प्रा. लि.
54	04-20962	मेघावी डवलोपर्स प्रा. लि.
55	04-40413	हेतल डोट कोम प्रा. लि.
56	04-10051	रीदानी होस्पिटल एण्ड रीसर्च सेन्टर प्रा. लि.
57	04-08486	उषा किरन पोलीविनायक प्रा. लि.
58	04-08060	राजप्लास्ट प्रा. लि.
59	04-22047	सुदर्शन सीएनसी गुइल्लोशन प्रा. लि.
60	04-38667	तेज मेनेजमेन्ट रीयल्टी प्रा. लि.
61	04-07244	बेक पार्टरीडज एजन्सीस प्रा. लि.
62	04-19795	अग्रवाल पेट्रोल्युब प्रा. लि.
63	04-10172	केमिक्स केमिकल्स प्रा. लि.
64	04-39117	आरएमबी सॉफ्टवेयर्स प्रा. लि.
65	04-16726	पम्पोझ स्टील्स प्रा. लि.
66	04-01928	सोना सिन्थेटीक पेकेजींग (इ) प्रा. लि.
67	04-20195	ध्रुव इन्स्ट्रुमेन्टस सिस्टम्स प्रा. लि.
68	04-24800	मोहिनी केमिकल्स प्रा. लि.
69	04-39205	सायनेटा नेटवर्कस इन्डिया प्रा. लि.

70	04-40396	केडी डयुरेबल्स प्रा. लि.
71	04-37570	न्यूरोटेल सॉफ्टवेयर लि.
72	04-15490	मामोदिया प्रोसेसर्स प्रा. लि.
73	04-11089	देवरोही कोम. एण्ड इले. प्रा. लि.
74	04-11167	सफारी टेक्ष्युराइज़िंग प्रा. लि.
75	04-11265	प्रिमीयम पोलीयार्ड प्रा. लि.
76	04-11707	केतल केम प्रा. लि.
77	04-12091	इएलएम इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
78	04-12094	केडेन्सीस इन्टेस्टमेन्ट प्रा. लि.
79	04-12097	बेलरेक्स इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
80	04-12136	डीयर इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
81	04-12137	चरिओत इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
82	04-12093	धगश इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
83	04-12171	पुष्पम पोलीटेक्ष प्रा. लि.
84	04-13005	ट्रीमान्स हाइड्राटुल्स प्रा. लि.
85	04-13052	प्रगति डायमण्ड्स प्रा. लि.
86	04-13110	नीलकीन इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
87	04-13811	सेजल मार्केटींग प्रा. लि.
88	04-13965	डेल्टा इन्सेक्टीसाइड प्रा. लि.
89	04-14526	नोवा हेड बेल प्रा. लि.
90	04-14569	वडसन्स फास्टनर्स प्रा. लि.
91	04-14953	हेमाली प्लास्टीक्स प्रा. लि.
92	04-14963	डेयरी मेइड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
93	04-15014	गुजरात कोमर्शियल गुड्स केरियर्स प्रा. लि.
94	04-15092	शिशिर ट्रेडर्स प्रा. लि.
95	04-15395	ब्रिलियन्ट केमिकल्स प्रा. लि.
96	04-15745	रूपकला सारीज प्रा. लि.
97	04-15285	ताउरस रबर लि.
98	04-15297	विक्टर रेयोन प्रा. लि.

99	04-15823	कुलदीप जीओ मिनरल्स प्रा. लि.
100	04-15949	चिनार एलोइज प्रा. लि.
101	04-41751	बालार्क ग्रेनाइट्स प्रा. लि.
102	04-41299	फैजन इम्पेक्स प्रा. लि.
103	04-41578	श्री माणिभद्रवीर होस्पिटल प्रा. लि.
104	04-41677	डी. एस. पी. इन्फोटेक प्रा. लि.
105	04-42234	आरुषी मेडीकेयर प्रा. लि.
106	04-42637	मिली एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
107	04-42397	हर्षिल बिज़नेस सोल्युशन्स प्रा. लि.
108	04-42960	ओप्स मार्केटींग प्रा. लि.
109	04-43011	रेइनबो एडीबेल्स प्रा. लि.
110	04-43285	नीमा क्रिएशन्स प्रा. लि.
111	04-43984	पी. पी. प्रजापति कन्ट्रोलस प्रा. लि.
112	04-09742	नेब्युला इंजिनियरींग प्रा. लि.
113	04-09850	एग्रोफ्लेक्ष प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
114	04-10409	मंगल सागर एसोसिएट्स प्रा. लि.
115	04-07994	हरुणी एन्टरप्राइज प्रा. लि.
116	04-08007	भारती क्रिम्पेर्स प्रा. लि.
117	04-08171	श्री प्रमुख सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
118	04-08345	एन. जी. फायनान्सर जनरल प्रा. लि.
119	04-08446	अलंकार मार्बल टाईल्स प्रा. लि.
120	04-08456	शिवम टवीस्टर्स प्रा. लि.
121	04-08521	कोठारी पेपर्स प्रा. लि.
122	04-08558	जयप्रकाश स्पोर्ट्स क्लब प्रा. लि.
123	04-08636	तौरस स्किमेटीक्स प्रा. लि.
124	04-08708	यश इन्डस्ट्रीज इन्टरमिडीएट्स प्रा. लि.
125	04-08811	ट्रीयोपेट प्रा. लि.
126	04-09113	विमल प्लास्टीक (गुजरात) प्रा. लि.
127	04-09182	वेर्प एन वेफ्ट इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.

128	04-09195	आर्टलाईन इन्सट्रुमेन्ट प्रा. लि.
129	04-09309	सिम्पीरोल इन्डिया प्रा. लि.
130	04-09562	दाभाश ओर्गेनिक प्रा. लि.
131	04-05645	हेरोक केमिकल्स प्रा. लि.
132	04-05641	सुझी डेन्टल (इ) प्रा. लि.
133	04-05254	सिन्थेटीक पोलीकेम प्रा. लि.
134	04-03741	हरीश मेटीन्ड प्रा. लि.
135	04-03170	क्वीझोल केम प्रा. लि.
136	04-02819	हेत्वीज इंजिनियरींग एन्ड मेन्युफेबचरींग प्रा. लि.
137	04-02696	सुली केमिकल्स प्रा. लि.
138	04-02599	क्रिश्ना ओटीकेम प्रा. लि.
139	04-01249	युनिल पेपर पेक प्रा. लि.
140	04-34429	रोशनी कोम्प्यूटर्स प्रा. लि.
141	04-01985	एच. एस. ब्रधर्स केजीक प्रिन्टरी प्रा. लि.
142	04-02152	इगल बिजनेसीस मशीन्स प्रा. लि.
143	04-25847	पटेल फीस्कल प्रा. लि.
144	4-युटी-75	प्रिमीयर प्लास्टीक पोलिऐस्टर प्रा. लि.
145	4-युटी-117	सुरुची पेकींग प्रा. लि.
146	4-युटी-155	देवनीत इन्फोटेक प्रा. लि.
147	04-00250	न्युबीयन यार्न प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
148	04-00619	हर्षद टेक्स्टाइल मिल्स प्रा. लि.
149	04-32752	माणेकलाल मनसुखभाई मार्केटींग प्रा. लि.
150	04-02341	ओनेस्ट प्लास्टीक्स प्रा. लि.
151	04-07966	तुषार फेब्रीक्स प्रा. लि.
152	04-07940	चरोतर एग्रो केम एण्ड फर्टीलाइज़र्स प्रा. लि.
153	04-07921	सविरा कोटन सारीज प्रा. लि.
154	04-07992	गुजरात केपस्युल्स लि.
155	04-07897	जगदंबा मेटल एण्ड एलोइज प्रा. लि.
156	04-17864	हाथीसन इन्टरनेशनल लि.

157	04-07761	विरल फोर्म प्रा. लि.
158	04-07007	आर्जेनी स्न्वेस्ट कास्ट लि.
159	04-06886	अमर क्रिम्पेक्स प्रा. लि.
160	04-06876	टी. खुराना बिल्डर्स प्रा. लि.
161	04-06754	श्रीरंग ओर्गेनिक्स केम इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
162	04-06620	स्पान ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
163	04-06463	शुभसार ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
164	04-06430	बदोपालिया टेक्स्टाइल मिल्स प्रा. लि.
165	04-05920	शिव एग्रो ग्रामोद्योग इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
166	04-05907	श्रीजी केमिकल्स प्रा. लि.
167	04-05732	सहयाद्री एस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
168	04-26020	क्युबेक्स जेम्स एण्ड ज्वजेलरी लि.
169	04-26038	कैरवी फीनीक्स प्रा. लि.
170	04-26069	सत्यप्रिय बिल्डर्स प्रा. लि.
171	04-26136	अरोमा पान्टालीध एण्ड वोटर रीसोर्सीस लि.
172	04-26188	हवा इन्टरनेशनल लि.
173	04-26189	एल्डीमा मार्केटिंग प्रा. लि.
174	04-26488	सूर्यवंश फुड्स प्रा. लि.
175	04-26554	जे. एम. बी. फुट्स प्रा. लि.
176	04-26621	वैभवी लीजींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
177	04-26638	मधु फीनस्टोक प्रा. लि.
178	04-26693	हार्य हायजीन एण्ड हेल्थकेयर प्रा. लि.
179	04-26941	कोम्पटेल टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
180	04-26958	सरोज एस्टेट डवलपर्स प्रा. लि.
181	04-27048	इन्डोकास्ट इन्कस (इ) प्रा. लि.
182	04-26901	आंगी सिक्वोरीटीज लि.
183	04-27068	हिक्का फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
184	04-27165	पारस कार्गो प्रा. लि.
185	04-27180	इन्फीनीट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि.

186	04-27187	विभा फीस्कल सर्वीसीस प्रा. लि.
187	04-27228	रा-वित्त विनिमय (इ) लि.
188	04-27246	प्रिडोट फीनरी प्रा. लि.
189	04-27558	विरल मेटल कास्ट लि.
190	04-27652	नाइस होटकोल्ड इक्वीपमेन्टस लि.
191	04-27708	वीना इंजिनियर्स (इ) प्रा. लि.
192	04-27808	एच. सन्स एक्सपोर्टस प्रा. लि.
193	04-27941	कर्णावती फीस्कल प्रा. लि.
194	04-27975	सेन्ट्रल शीपींग कम्पनी प्रा. लि.
195	04-27988	फाइवस्टार केटरर प्रा. लि.
196	04-28044	माणेकलाल मनसुखभाई ओर्गेनाइजर्स प्रा. लि.
197	04-28045	माणेकलाल मनसुखभाई हाऊसींग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
198	04-28046	माणेकलाल मनसुखभाई कन्स. प्रा. लि.
199	04-28118	विशाल रोडलाइन्स (गुजरात) प्रा. लि.
200	04-28143	श्री सुक्तम फीनस्टोक प्रा. लि.
201	04-28160	महुली फीनवेस्ट लि.
202	04-28261	एसीएम फीनस्टोक सर्वीसीस प्रा. लि.
203	04-28338	सरदार कार्बोनाइटस लि.
204	04-28520	नीलका ओइल्स प्रा. लि.
205	04-28536	ओमटेक इंजिनियरींग सर्वीसीस प्रा. लि.
206	04-28684	नवनिधि रियल्टि प्रा. लि.
207	04-28740	निष्कल एक्सपोर्टस प्रा. लि.
208	04-28856	सृष्टि प्लान्टेशन एण्ड लेन्ड डवलपमेन्ट लि.
209	04-28857	आइडीयल ड्रग्स लि.
210	04-28898	मधु टाउनशीप लि.
211	04-29065	स्वान वाल्वस प्रा. लि.
212	04-29135	ऋषभ कोटन लि.
213	04-29314	शिवशक्ति मरीन प्रा. लि.
214	04-29348	नायडू मेनेजमेन्ट कन्सल्टन्टस प्रा. लि.

215	04-29505	उज्जवल डीस्ट्रीब्यूडर्स प्रा. लि.
216	04-29765	प्रोसेस ओटोमेशन (गुजरात) प्रा. लि.
217	04-29890	वीवा फीनस्टोक प्रा. लि.
218	04-30015	साइसन कोरोटेक प्रा. लि.
219	04-30207	मायफेयर ओर्गेनाइजर्स लि.
220	04-30229	यश ऐक्जीम प्रा. लि.
221	04-30255	कल्पतरु फीनस्टोक लि.
222	04-30316	प्लस फायनान्सीयल सर्वीसीस प्रा. लि.
223	04-30319	सोलंकी ट्रेडिंग प्रा. लि.
224	04-30320	विश्वासनीय फीनलीस प्रा. लि.
225	04-30321	व्यास इम्पेक्स प्रा. लि.
226	04-30452	हितेश एग्रो फार्म्स प्रा. लि.
227	04-30612	लाइफ लाइन फर्नीचर प्रा. लि.
228	04-30654	ओवरसीस मरीन सर्वीसीस प्रा. लि.
229	04-30679	बीजू इंजिनियरींग प्रा. लि.
230	04-30708	ग्रोवर इंजिनियर्स प्रा. लि.
231	04-30748	फ्रोटेचून पोली प्लास्ट प्रा. लि.
232	04-30920	ऐश्वर्या कार्टून्स प्रा. लि.
233	04-30936	रीच ट्रेडलींक एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
234	04-17666	गया फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
235	04-20423	नताशा इलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.
236	04-26678	एनरीच केपीटल्स प्रा. लि.
237	04-23445	फ्ल्युनेट सर्वीसीस लि.
238	04-13986	अरिहंत टवीस्टर्स प्रा. लि.
239	04-22792	निर्मल गेसीस प्रा. लि.
240	04-28200	अमल एप्लायन्सीस एण्ड बेरींग्स प्रा. लि.
241	04-38381	ऐश्वर्या हर्बल प्रा. लि.
242	04-38358	सर्वोदय शीप ब्रेकिंग प्रा. लि.
243	04-38448	शिवप्रिय ट्रेड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.

244	04-38470	प्रार्थना शेयसू एण्ड ब्रोकर्स प्रा. लि.
245	04-39025	सनराइस सायबरसोफ्ट इन्डिया प्रा. लि.
246	04-39036	रवि ट्रेडलीक्स प्रा. लि.
247	04-37964	रोशीजो इन्फोटेक प्रा. लि.
248	04-37959	शादी इन्फोडोटकोम प्रा. लि.
249	04-37945	विमल डोट कोम प्रा. लि.
250	04-37893	बालार डेवलोपर्स प्रा. लि.
251	04-37535	मिकी इन्फोटेक लि.
252	04-37109	आइकोन टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
253	04-37086	रेडीयल इन्फोटेक प्रा. लि.
254	04-37008	मेट्रो शेयर्स एण्ड सिक्युरिटीस प्रा. लि.
255	04-36865	प्रकाश यार्न्स प्रा. लि.
256	04-39390	साव्य होम एप्लायन्सीस प्रा. लि.
257	04-39518	साईनाथ मेनेजमेन्ट कन्सल्टन्सी प्रा. लि.
258	04-40026	टोटल क्वालीटी बेवरेजीस प्रा. लि.
259	04-30967	मीशीबु बायो-टेक प्रा. लि.
260	04-27026	पतपार्थ स्पीनर्स प्रा. लि.
261	04-04151	झवेरचंद मार्केटींग एण्ड मेन्युफेक्चरींग कम्पनी लि.
262	04-03824	पटेल्स फाइबर ग्लास लि.
263	04-34147	नाससरवनजी पेट्रोलियम प्रा. लि.
264	04-35807	अश इन्फोटेक प्रा. लि.
265	04-32276	प्रणव डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
266	04-32323	योगी बिल्डवेल प्रा. लि.
267	04-24360	श्री सहजानंद फीनस्टोक प्रा. लि.
268	04-24612	सुतरिया मरीन इंजिनियरींग एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि.
269	04-24603	केमरोन केपफीन प्रा. लि.
270	04-24581	के. बोडीवाला प्रा. लि.
271	04-24574	जीनांग इनवेस्टमेन्ट एण्ड होल्डींग प्रा. लि.
272	04-39144	बीसीजे एक्झीम प्रा. लि.

273	04-24341	राजेन्द्रो फार्मास्युटीकल्स लि.
274	04-24971	सिग्माटेक सिस्टम्स प्रा. लि.
275	04-24967	नर्मदा फीनलीज लि.
276	04-24962	श्रीजी सिस्टम्स प्रा. लि.
277	04-08579	बीटेक्स फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.
278	04-24355	ईशा फीनस्टोक प्रा. लि.
279	04-08240	बामा फीझींग एण्ड फायनान्सीयल सर्वीसीस प्रा. लि.
280	04-24548	नहार इन्टरमीडीएट्स प्रा. लि.
281	04-24394	राजवी प्लान्टेशन लि.
282	04-24363	श्री हरिगीता ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
283	04-08035	न्यु पंचाल होट प्लेट्स प्रा. लि.
284	04-31855	लक्शोर पेलेस लीशोर होम्स लि.
285	04-31325	रत्नाकर होटल्स प्रा. लि.
286	04-31324	रत्नाकर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
287	04-21252	पवनपुत्र ट्रान्सलींक प्रा. लि.
288	04-08743	कामिनी कास्टींग प्रा. लि.
289	04-31708	शुभ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
290	04-32123	नोर्थवुड डवल्लोपर्स प्रा. लि.
291	04-21649	रतन प्रोसेसर्स प्रा. लि.
292	04-19796	स्वामी प्लास्टो फ्लेक्स प्रा. लि.
293	04-33789	दिशा डायस्टफ प्रा. लि.
294	04-25948	शील फार्म्स प्रा. लि.
295	04-33548	अंबुजा कन्टेइनर्स प्रा. लि.
296	04-21256	पार्श्वनाथ प्लानींग एण्ड मल्टी. कन्स. प्रा. लि.
297	04-37401	सूर्या डेयरी प्रा. लि.
298	04-35826	झीओन लेबोरेटरीज प्रा. लि.
299	04-35519	हरहित केम प्रा. लि.
300	04-36694	एसेन्ट कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
301	04-35477	मनीषा सदभावना फीनकेप प्रा. लि.

302	04-38829	माधव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रो. (इ) लि.
303	04-39782	बिलेश्वर टेक्स्टाइल्स प्रा. लि.
304	04-36600	दिशती केमि. टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
305	04-37983	नील इन्फोटेक प्रा. लि.
306	04-37821	ब्रालको स्पेशीयालीटी (इ) प्रा. लि.
307	04-37441	रोलेक्ष मेटाक्राफ्ट लि.
308	04-37814	सेतु सायबरटेक लि.
309	04-36638	रोयल लेक रिसोर्ट एण्ड पार्क प्रा. लि.
310	04-36297	आल्फासोफ्ट सोल्युशन्स प्रा. लि.
311	04-38243	गीगासोफ्ट टेक्नोलोजीस प्रा. लि.
312	04-42142	प्रसाद इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
313	04-44237	श्री बालाजी इमीग्रेशन सर्वीसीस प्रा. लि.
314	04-41225	प्लेनेट सेवन ओटो ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
315	04-39028	श्रीजीबापा बोटिंग एण्ड एम्युजमेन्ट प्रा. लि.
316	04-39244	फाइन लाइन फेब्रीक्स प्रा. लि.
317	04-39100	सचिन बोर्ड मिल्स प्रा. लि.
318	04-38171	माइक्रो इन्फोनेट (बरोडा) लि.
319	04-22369	वाघेश्वरी बिल्डर्स प्रा. लि.
320	04-24573	देवर्षि इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
321	04-14500	चेपेन सिन्टेक्स प्रा. लि.
322	04-15063	आलाप डेकोलाम प्रा. लि.
323	04-13298	ब्राइट नोन फेरस मेटल प्रा. लि.
324	04-07999	रचना एन्टरप्राइस प्रा. लि.
325	04-02070	सिलीकार्ब एब्रेसीव्ज प्रा. लि.
326	04-06384	बी.डी. पटेल कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
327	04-06908	अमर स्ट्रक्चर्स प्रा. लि.
328	04-33850	इश्वर ओक्साइड्स लि.
329	04-34847	श्याम कम्प्यूसोफ्ट एज्युकेशन प्रा. लि.
330	04-16411	माश्मा फार्मास्युटीकल्स प्रा. लि.

331	04-32422	प्रिफेर मार्केटींग प्रा. लि.
332	04-34426	वरुण लेमिनेशन्स प्रा. लि.
333	04-33808	गोकुलेश एयर फ्रीज एण्ड मार्केटींग एण्ड सर्वीसीस प्रा. लि.
334	04-33786	महिमा क्वोरी प्रा. लि.
335	04-33727	मनीष बिल्डींग मटीरीयल्स प्रा. लि.
336	04-38532	लेक्सीकोन इन्फोटेक प्रा. लि.
337	04-23515	वल्लभ फीनस्टोक प्रा. लि.
338	04-33463	चारुभा ट्रेडर ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.
339	04-33379	अंकुर टेकनो ट्युब्स लि.
340	04-33363	शिवकृति कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
341	04-33030	श्री पंचम रियल एस्टेट प्रा. लि.
342	04-33119	ज्योतिबाल सिक्कुरीटी प्रा. लि.
343	04-41818	आस्था सुपर मार्केटस प्रा. लि.
344	04-33251	सत्कार क्रिएटीव आर्टस प्रा. लि.
345	04-32864	मंगल डायस्टफ प्रा. लि.
346	04-32764	साविक ट्रेडलींक प्रा. लि.
347	04-28712	मिरल कार्गो शिपिंग प्रा. लि.
348	04-02103	लाबेला फायनान्सीयर्स प्रा. लि.
349	04-15848	सुर-ज्योत इंजिनियरींग प्रा. लि.
350	04-35347	अक्ष इन्फोटेक प्रा. लि.
351	04-10197	धर्म इन्टरमिडीएटस प्रा. लि.
352	04-23320	भाल ब्रिक्वीट्स प्रा. लि.
353	04-13837	श्रीनाथ कोम्पलेक्स प्रा. लि.
354	04-08327	मिनदीप ग्रेनाइटस एण्ड मार्बल्स प्रा. लि.
355	04-35016	अर्पन ट्रेडलींक प्रा. लि.
356	04-33949	पायोनियर केमकास कम्पनी
357	04-33961	प्रफुल्ला फास्टनर्स प्रा. लि.
358	04-15813	ओशवाल फेशन्स प्रा. लि.
359	04-05393	उदित इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.

360	04-37283	त्रिउम्फ फीनसेक (सुरत) प्रा. लि.
361	04-36027	एच. ब्रजलाल इम्पेक्स प्रा. लि.
362	04-36675	मार्कोन्स शिपिंग (गुजरात) प्रा. लि.
363	04-23387	प्योर एयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
364	04-36588	टाइ फुड्स प्रा. लि.
365	04-37466	प्रभात इन्फोसीस लि.
366	04-36089	लोक प्रहारी प्रकाशन प्रा. लि.
367	04-36197	अक्षत हेल्थ केयर प्रा. लि.
368	04-19838	हरिओम नीटींग एण्ड टेक्ष प्रा. लि.
369	04-11233	एस. आर. माणेकलाल डवलोपर्स प्रा. लि.
370	04-08848	अमीसन्स बिल्डर्स प्रा. लि.
371	04-35661	टंडन फेशन्स प्रा. लि.
372	04-38216	जिनियस एप्लायन्सीस प्रा. लि.
373	04-38792	पेसिफिक इन्सोरन्स ब्रोकर्स प्रा. लि.
374	04-38815	डीएसएस सोफटेक (इ) प्रा. लि.
375	04-34809	लेक्सीकोन कोम्पसोफ्ट प्रा. लि.
376	04-38955	ट्रन्की इन्टीरीयर सोल्युशन्स प्रा. लि.
377	04-34962	अन्नपूर्णा पल्स प्रा. लि.
378	04-21535	सोवर्जीन स्केनर्स प्रा. लि.
379	04-38964	शिवम टेक्षप्रिन्ट्स प्रा. लि.
380	04-13372	स्कोपियो एराइस एन्टरप्राइसीस प्रा. लि.
381	04-13317	रेडीक्ष फायर प्रोडक्शन सिस्टम्स प्रा. लि.
382	04-04661	क्लायमेट कन्ट्रोल इंजि. प्रा. लि.
383	04-38149	एसडीएफसी इन्फोटेक लि.
384	04-36409	स्वदेशी कन्झयुम्स एण्ड सोल्ट्स प्रा. लि.
385	04-32816	सहजानंद शेरर्स एण्ड सिक्योरीटीस प्रा. लि.
386	04-36572	एवरग्रीन रियल्टी प्रा. लि.
387	04-07224	स्वामिनारायण पोलीसेक इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
388	04-11924	उन्दी सिरामिक्स प्रा. लि.

389	04-25196	वीर इनवेस्टमेन्ट प्रा. लि.
390	04-06366	माना मशीनरीज प्रा. लि.
391	04-13985	अरिहंत टेक्ष्युराइजींग प्रा. लि.
392	04-34501	मान पेरीफीलर्स प्रा. लि.
393	04-33859	ओझा इन्टरडीस्काउन्ट प्रा. लि.
394	04-33757	चिराग कोचिंग एकेडेमी प्रा. लि.
395	04-32376	नित्य मर्केन्टाइल प्रा. लि.
396	04-32375	मधुर एकझीम प्रा. लि.
397	04-32549	क्रिष्णा डायस्टफ प्रा. लि.
398	04-12524	अंबिका मिनरल्स प्रा. लि.
399	04-32547	वोग शुझ क्रिएशन प्रा. लि.
400	04-32234	श्यामदास सिटेक्ष प्रा. लि.
401	04-32213	इन्दीवर टेक्षटाइल्स प्रा. लि.
402	04-31900	पनामेक्स कोम. सिस्टम्स प्रा. लि.
403	04-31085	ओप्शन इलेक्ट्रोनीक्स प्रा. लि.
404	04-33084	धीरज फीनस्टोक प्रा. लि.
405	04-35798	इन्फ्राटेक एसोसिएट्स प्रा. लि.
406	04-35523	देसाइ फार्माकेम प्रा. लि.
407	04-34757	दन्के पावर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
408	04-34684	नेप्स एज्युकेशनल एकेडेमी प्रा. लि.
409	04-07139	सरदार आयर्न एण्ड स्टील इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
410	04-12333	शिवानी मोटेल्स प्रा. लि.
411	04-12532	साहस यार्न केम प्रा. लि.
412	04-11111	मदन पब्लिकेशन प्रा. लि.
413	04-11983	आकाश दर्शन होटेल्स प्रा. लि.
414	04-11133	शीतल फायबर्स प्रा. लि.
415	04-11699	माइक्रोमेक सर्जीकल्स प्रा. लि.
416	04-12872	म्युलर डायमण्ड्स लि.
417	04-12341	वासुपूज्य बिल्डर्स प्रा. लि.

418	04-12503	मीना लीडिंग एण्ड फायनान्स प्रा. लि.
419	04-13460	पारिजात बिल्डर्स प्रा. लि.
420	04-14039	गौरव मार्केटिंग प्रा. लि.
421	04-14228	लार्क अम्युझमेन्ट पार्क प्रा. लि.
422	04-14364	सप्तर्षि फिनस्टोक प्रा. लि.
423	04-01505	आल्फा डायनामीक प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
424	04-15072	हवा इन्वेस्टमेन्ट लि.
425	04-15294	क्लासिक रेयोन प्रा. लि.
426	04-15969	मरडिया एक्सपोर्ट्स लि.
427	04-00087	भीखाभाई जीवाभाई एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
428	04-04647	सौराष्ट्र आइनोक्स ट्रीप्स प्रा. लि.
429	04-05375	अहमदाबाद टेक्नोनीक्स प्रा. लि.
430	04-06865	अमीन प्रिन्ट एण्ड स्लिट प्रा. लि.
431	04-06959	काबरा प्रोसेसर्स प्रा. लि.
432	04-07328	रत्नराज टेक्ष्युराइजर्स प्रा. लि.
433	04-08019	महेन्द्र लेमिनेशन प्रा. लि.
434	04-09670	क्रोमोनेक इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
435	04-02537	लाबेला कन्स्ट्रक्शन्स कम्पनी प्रा. लि.
436	04-04534	गेलेक्षी डीहायड्रेट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स इन्ड. प्रा. लि.
437	04-07462	गुजरात फोटोकेम प्रा. लि.
438	04-33307	झवेरचंद सायल इन्फोटेक प्रा. लि.
439	04-05223	डीजीसोफ्ट (इन्डिया) प्रा. लि.
440	04-10672	अभिनंदन मेटल एण्ड बॉक्स प्रा. लि.
441	04-10167	सेलमार इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनान्स लि.
442	04-22211	धी मातंगी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लि.
443	04-22259	सोना रुपा प्रा. लि.
444	04-22329	मनी ट्री प्लान्टेशन्स प्रा. लि.
445	04-22520	एनरजींग फायनान्स एण्ड सिक्युरिटीस प्रा. लि.
446	04-22525	एलाइड सिक्युरिटीज प्रा. लि.

447	04-22888	प्रेम फ्लेक्सी प्रिन्ट प्रा. लि.
448	04-22915	जसपर मेटल्स लि.
449	04-22447	पुष्पक स्टील क्राफ्ट इन्डिया प्रा. लि.
450	04-21324	रुचा प्रोसेसर्स प्रा. लि.
451	04-21611	केशव फेब प्रा. लि.
452	04-21625	सत्येन डाइस प्रा. लि.
453	04-21672	कामधेनु फायनान्स लि.
454	04-21696	वेस्टर्न पेलेस प्रा. लि.
455	04-21861	युनिकोर्न टेकनोकेम (इ) लि.
456	04-21866	पालमिरा इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
457	04-21868	हेलो इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
458	04-21884	आदल मेनेजमेन्ट सर्वीसीस प्रा. लि.
459	04-21900	प्रतिक पोलीफेब प्रा. लि.
460	04-21946	सूर्या बेयरिंग्स प्रा. लि.
461	04-21978	श्री एलपीजी बोटलींग प्रा. लि.
462	04-23007	प्रियांक इम्पैक्स (इ) प्रा. लि.
463	04-23020	श्री नित्यानंद केम प्रा. लि.
464	04-23026	राहत होलीडे एण्ड एस्टेट्स प्रा. लि.
465	04-23034	जस इंजिनियर्स प्रा. लि.
466	04-23093	विराज फीनकेप प्रा. लि.
467	04-23266	नारायण गेसीस प्रा. लि.
468	04-23290	गोपाल क्रिष्णा फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
469	04-23491	कार्मेशन टेकनोलोनीस प्रा. लि.
470	04-23534	श्री महाकान्त फीनलीज लि.
471	04-23535	मोर्गेन फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
472	04-23659	व्हाइटलाइन इन्स्युपेक प्रा. लि.
473	04-23781	शेठ इन्टीग्रेड फायनान्स प्रा. लि.
474	04-23860	तिरुपति एग्रो केम प्रा. लि.
475	04-23877	इमर्ग सिस्टम्स सर्वीसीस प्रा. लि.

476	04-23924	राज केपिटल इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.
477	04-34576	रोमर होटेल्स प्रा. लि.
478	04-34580	अश्वरथ एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
479	04-12174	क्रेन्क इंजिनियर प्रा. लि.
480	04-33867	शाखवाला हेल्थेयर प्रा. लि.
481	04-24257	अदिति एस्टेट डवलपर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
482	04-34699	मीवीहित मित्राजया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
483	04-34457	कार्तिक मर्केन्टाइल सर्वीसीस प्रा. लि.
484	04-34631	जयहिन्द प्रेमाकोट इंजिनियरींग प्रा. लि.
485	04-25901	सोफ्टवेस्ट एक्वा फार्म्स प्रा. लि.
486	04-24026	वोल्वोमेट कास्ट प्रा. लि.
487	04-38497	सिल्वर स्प्रिंग बेवरेजीस प्रा. लि.
488	04-32137	गजानंद फीनकेप प्रा. लि.
489	04-32093	समर्पण एस्टेट प्रा. लि.
490	04-31229	ट्रोमेक इंजिनियरींग प्रा. लि.
491	04-31240	परीख केवलदास हरजीवनदास मर्केन्टाइल प्रा. लि.
492	04-31501	ओमेगा फीनकेप प्रा. लि.
493	04-08416	मेडी ट्रान्स लेब प्रा. लि.
494	04-32297	जेनीश सोफ्टवेयर लि.
495	04-24231	शारदा केमिकल्स प्रा. लि.
496	04-24187	जीम ओक्सिजन प्रा. लि.
497	04-39510	हेतकेम ओर्गेनिक्स प्रा. लि.
498	04-24048	बायोवेक्युलर डिवाइसीस रिसर्च लि.
499	04-25621	गिरीजाशंकर फेशनस प्रा. लि.
500	04-25324	शकुंतला टेक्स्टाइल प्रा. लि.
501	04-25133	बी. के. कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
502	04-25107	फोर्च्युन फायनान्स एण्ड लीझींग प्रा. लि.
503	04-10067	किर्ती इन्टरनेशनल फायनान्स लि.
504	04-10263	मिनल प्लास्टीक पोलिमर्स प्रा. लि.

505	04-10945	गुजरात प्रेस प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
506	04-06487	आम्रपाली केम प्रा. लि.
507	04-11499	आलाप लीडिंग फायनान्स प्रा. लि.
508	04-10556	केदार टेक्ष्युराइजर्स प्रा. लि.
509	04-10948	सबुरी टेक्ष्युराइजर्स प्रा. लि.
510	04-11003	कानुनगो कास्टिंग्स प्रा. लि.
511	04-10786	मिहिर मेटल्स लि.
512	04-07554	वालसिन्थ प्लास्टीक इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
513	04-10414	श्रेयस इंजिनियर्स प्रा. लि.
514	04-07938	गुजरात प्रिन्टेड कार्डुन्स एण्ड लेबल्स प्रा. लि.
515	04-24236	होप फर्टीफायींग क्लीनिक एण्ड मेडीकल रिसर्च प्रा. लि.
516	04-39525	स्टीम इन्डिया प्रा. लि.
517	04-07794	मानव गीत लेन्ड एण्ड एस्टेट प्रा. लि.
518	04-08119	बिरलानंद डवल्लोपमेन्ट प्रा. लि.
519	04-18143	जे. डी. त्रिवेदर्स मार्बल प्रा. लि.
520	04-16053	अक्सीस कन्ट्रोल्ल्स प्रा. लि.
521	04-40865	विझडम बायो-टेक प्रा. लि.
522	04-10862	सचिन सिजर्स प्रा. लि.
523	04-06058	भुमा अभियान प्रा. लि.
524	04-33616	राजकुमार मार्केटींग प्रा. लि.
525	04-34943	रवि सिलीकेम प्रा. लि.
526	04-31977	नीशा मेटल प्रा. लि.
527	04-18955	शिवम अक्झीम प्रा. लि.
528	04-10399	केलिफोर्नीया फ्रुट ज्यूसीस प्रा. लि.
529	04-08413	विझार्ड इलेक्ट्रीकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनीक्स प्रा. लि.
530	04-35373	नीकी केबल्स प्रा. लि.
531	04-24333	हरिता फीनस्टोक प्रा. लि.
532	04-32789	मारवाडी इन्फोसीस प्रा. लि.
533	04-19232	अक्षर ग्रेनाइट प्रा. लि.

534	04-33128	राजस्थान प्रोसेसीव्स कोलीन प्रा. लि.
535	04-31827	अस्तरा ओवरीस प्रा. लि.
536	04-32977	कैलासपति टेक्ष्युराइझींग प्रा. लि.
537	04-18649	शुभम सुपर स्टोर प्रा. लि.
538	04-40230	जेम्स बोन्ड ज्वेल प्रा. लि.
539	04-23075	सूर्या एक्सट्रुडन प्रा. लि.
540	04-33839	रेवान्त सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
541	04-33824	राज जनक फीनलीस प्रा. लि.
542	04-21868	नारीता सिक्वोरीटीस प्रा. लि.
543	04-38217	कुन्तराय कार्गो प्रा. लि.
544	04-42631	जीएनएन रिक्लुटमेन्ट प्रा. लि.
545	04-42137	उमे रामाना वुड बोन्डर्स प्रा. लि.
546	04-41215	रीशी बायोफार्म्स लि.
547	04-42516	खोडियार ट्रेडलींक प्रा. लि.
548	04-42168	गोल्डकोइन फोर्ज प्रा. लि.
549	04-41090	श्री गणपति ट्रेडींग प्रा. लि.
550	04-43179	फ्रन्ट रनर सिक्वोरीटी एण्ड इन्वेस्टीगेशन सर्वीसीस प्रा. लि.
551	04-44828	स्टोर्क नरीन प्रा. लि.
552	04-42517	भातृ भाव एक्सपोलिक प्रा. लि.
553	04-42502	अम्बालका इम्पैक्स प्रा. लि.
554	04-45112	चेतुशा कार्स प्रा. लि.
555	04-42060	राजकमल ट्रीम्स एण्ड ब्रेड्स प्रा. लि.
556	04-41976	एक्स्ट्रीम टेकनोलोजीस प्रा. लि.
557	04-42206	न्युसेल मार्केटींग प्रा. लि.
558	04-42630	जीएनएन नर्सीस लीड्रींग प्रा. लि.

वी. के. खूबचन्दानी
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. 00162/123444/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

33-456 GI/2007

सं. 00328/131209/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओमेगा कम्प्यूसिस्टम्स प्राईवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्कायटाईम मीडिया एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00341/131236/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्कायटाईम मीडिया एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स टोटल फिनाइफ प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00032/131824/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टोटल फिनाइफ प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सेपेरेशन टेक्नीक्यूज एण्ड कंसलटेंट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00102/132015/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेपेरेशन टेक्नीक्यूज एण्ड कंसलटेंट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स स्काईलार्क टेलीसिस्टम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00487/123842/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्काईलार्क टेलीसिस्टम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बिल गेट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00037/131884/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बिल गेट कम्प्यूटर्स प्राईवेट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ब्रेनर मार्केट ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00480/123834/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्रेनर मार्केट ट्रेड लिंक्स

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00470/123824/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जी टी एल फॉरवर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00386/123709/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जी टी एल फॉरवर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फ्रेन्ड्स रिकवरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00462/123820/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फ्रेन्ड्स रिकवरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जैन सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00375/123708/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जैन सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जी बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00441/123762/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जी बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एन्-आरी सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00369/123701/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एन्-आरी सोलुशन्स प्राईवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कुश सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00361/123699/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कुश सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्रीनवर्ल्ड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00363/132790/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रीनवर्ल्ड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सेटेलाईट कार्गो कनेक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00382/132794/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेटेलाईट कार्गो कनेक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पी. जी. बी. बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00335/132660/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पी. जी. बी. बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अल्टीमा प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00369/132793/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अल्टीमा प्रिन्ट्स प्राईवेट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अवरोरा इंडिया मरीन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00326/132655/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अवरोरा इंडिया मरीन सिस्टम्स

प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इंडीम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00316/132640/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इंडीम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेमसन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00269/132557/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेमसन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रोहित लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00300/132632/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोहित लैब्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अरोर्स इन्फो प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00246/132528/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अरोर्स इन्फो प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ड्रीम बिल्डर्स इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00291/132623/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ड्रीम बिल्डर्स इनफोटेक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एसबीएस शुगरफ्री एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00231/132511/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एसबीएस शुगरफ्री प्राइवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एस. जी. सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00177/132303/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. जी. सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ऑस्कर ऑनलाईन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00115/132083/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ऑस्कर ऑनलाईन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बॉम्बे पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00161/132273/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बॉम्बे पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विबग्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00797/133310/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विबग्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओम साई गणेश मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00156/132250/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओम साई गणेश प्राइवेट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आवेमारीया इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00632/133245/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आवेमारीया इनफोटेक

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बी. आर. इलेक्ट्रीकल एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00625/133240/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बी. आर. इलेक्ट्रीकल एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आयुश मंगलम् सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00617/133231/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आयुश मंगलम् सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स निरामय ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00610/133147/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निरामय ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मायसिटीएड डॉट कॉम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00605/133095/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मायसिटीएड डॉट कॉम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स व्सोरझ सालूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00597/133084/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स व्सोरझ सालूशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स राजेन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00593/133079/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राजेन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डॉक्सोन मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साई गुरु हॉटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00585/133066/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साई गुरु हॉटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वैष्णो अँग्रो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00545/132984/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वैष्णो अँग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सेवन सी कस्टमर सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00578/132996/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेवन सी कस्टमर सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टच रॉयल हेल्थ केअर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00540/132975/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टच रॉयल हेल्थ केअर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डॉक्सोन मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00572/132985/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नोबोरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00522/132963/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नोबोरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रिवोलूशनरी सर्विसेस एण्ड फैसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वेल वर्थ मेडिसिन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00479/132889/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेल वर्थ मेडिसिन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विजन कनसेप्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00463/132867/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विजन कनसेप्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रिवोलूशनरी सर्विसेस एण्ड फैसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00451/132854/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रियास इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00426/132840/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रियास इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सास ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00417/132833/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सास ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जागृती फूड प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00408/132831/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जागृती फूड प्रॉडक्ट्स प्राईवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्मॉल नेस्ट मार्केटिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00394/132821/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्मॉल नेस्ट मार्केटिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स तारा मर्केन्डाईज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00045/133604/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तारा मर्केन्डाईज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जय बजरंग एग्रो प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00388/132800/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जय बजरंग एग्रो प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कैरियर डेवलपमेंट एकेडमी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00039/133545/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कैरियर डेवलपमेंट एकेडमी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पाटिल इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00737/134319/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पाटिल इम्पैक्ट एक्सट्रूशन

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इप्लानेट कम्प्यूटर एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00024/133442/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इप्लानेट कम्प्यूटर एजुकेशन

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आरजू मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00008/133358/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आरजू मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सिल्वरवैली इनफॉर्मेशन सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00011/126753/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिल्वरवैली इनफॉर्मेशन सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इरीस मैनेजमेंट एण्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00378/131405/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इरीस मैनेजमेंट एण्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्री शिवतेज पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00385/131452/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री शिवतेज पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पालक्कड पावर जनरेशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00391/131485/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पालक्कड पावर जनरेशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इंडिकॉम पर्सनल कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00404/131529/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इंडिकॉम पर्सनल कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
// सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मास्टर लिंक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आशिवांद हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00412/131590/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आशिवांद हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वी. जी. इलेमेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00283/127216/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वी. जी. इलेमेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डी. सी. डोमेनसर्व प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00224/127150/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डी. सी. डोमेनसर्व प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साईकृपा टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00311/127239/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साईकृपा टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मास्टर लिंक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00236/127168/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हिमालय इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00337/127260/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हिमालय इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिल्पा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डब्ल्यू वी सी पी एडवाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00348/127291/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डब्ल्यू वी सी पी एडवाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आदित्य कैंड वर्क स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00060/133754/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आदित्य कैंड वर्क स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आरकोम टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00069/133780/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आरकोम टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अल्फाश्री इनवेस्टमेंट एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00048/126908/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अल्फाश्री इनवेस्टमेंट एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शिल्पा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00065/133764/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बिजनेस ब्रिजेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00051/126961/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बिजनेस ब्रिजेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एनएमआर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00054/126973/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एनएमआर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जगुआर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00057/126975/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जगुआर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पेन्टाग्राम इनवेस्टमेंट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00152/127028/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पेन्टाग्राम इनवेस्टमेंट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फस्ट माइलस्टोन ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00177/127042/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फस्ट माइलस्टोन ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शनेश्वर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00182/127079/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शनेश्वर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स माइक्रोबेस कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एण्ड इक्विपमेंट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00192/127101/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स माइक्रोबेस कम्प्यूटर सॉफ्टवेयरस एण्ड इक्विपमेंट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डायनामिक इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 6097/127134/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डायनामिक इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एलॉय फार्मा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00704/127557/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एलॉय फार्मा प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सनम केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00089/110733/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनम केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स क्लारुड नाईन क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00079/110699/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्लारुड नाईन क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आनन्दी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00101/110772/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आनन्दी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चंदना मैचिंग सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00107/110773/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वंदना मैचिंग सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लीओ होम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साका फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00111/110777/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साका फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आरमोर्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00125/111021/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आरमोर्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शाह एक्सीडेंट क्लेम कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00116/110959/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शाह एक्सीडेंट क्लेम कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स झावर एग्रोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00132/111039/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स झावर एग्रोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स लीओ होम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00119/110972/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इंडी-गो हॉटीकल्चर (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00077/133797/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इंडी-ग्रो हॉर्टीकल्चर (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेडिकॉन बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्रीनहिल्स एग्रो फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00017/126788/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रीनहिल्स एग्रो फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इशान आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00037/126826/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इशान आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जस्ट 4यू ड्रिंक्स (बॉम्बे) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00021/126807/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जस्ट 4यू ड्रिंक्स (बॉम्बे) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पैरीस्विफ्ट इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00042/126849/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पैरीस्विफ्ट इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेडिकॉन बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00031/126817/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आकांक्षा टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00119/133960/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आकांक्षा टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गणेश कृपा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ऑलडाये कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00546/127340/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ऑलडाये कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इसेस इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00588/127414/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इसेस इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स काम इमीग्रेशन कंसलटेन्सी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00569/127399/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स काम इमीग्रेशन कंसलटेन्सी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बालाजी इनोवेटिव इंजीनियरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00612/127434/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बालाजी इनोवेटिव इंजीनियरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गणेश कृपा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00579/127402/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पैरागॉन रिसोर्ट्स होटल्स एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00619/127444/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पैरागॉन रिसोर्ट्स होटल्स एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विमा कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स महा इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00650/127462/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स महा इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स के.वी.एन. सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00692/127546/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स के.वी.एन. सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ऑफ़ांस सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00663/127470/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ऑफ़ांस सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मार्क्यू टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00372/131369/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मार्क्यू टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विमा कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00678/127544/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेलडॉन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00729/134310/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेल्टडॉन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्लासिक मेक फैंब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इनरॉन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00717/134300/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इनरॉन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चाई ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00669/134200/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चाई ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फोर्टीयस टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00708/134289/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फोर्टीयस टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ज्यूपिटर नेवेश प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00646/134189/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ज्यूपिटर नेवेश प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स क्लासिक मेक फैंब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00694/134240/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ट्रांसइंडिया कार्गो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00638/134188/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ट्रांसइंडिया कार्गो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रीन क्रॉप इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इंटरनैशनल एक्सप्रेस कंटेनर्स लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00388/134187/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इंटरनैशनल एक्सप्रेस कंटेनर्स लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विक्टर फूड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00357/134124/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विक्टर फूड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चंचलदास एण्ड सन्स इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00371/134182/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चंचलदास एण्ड सन्स इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हेमंत कोचिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00307/134112/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हेमंत कोचिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्रीन क्रॉप इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00330/134133/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्लाडियस टेक्नोसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00293/134077/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्लाडियस टेक्नोसिस प्राईवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सी. रामन एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00277/134063/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सी. रामन एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नयना मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00266/134038/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नयना मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कृष्णा पिंगाक्शा मरीन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00250/134037/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कृष्णा पिंगाक्शा मरीन

सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओम साई सिद्धांत मार्केटिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00235/133996/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओम साई सिद्धांत मार्केटिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मुंबई ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400 002, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. 00126/133968/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मुंबई ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोलकाता-700 020, दिनांक 28 जनवरी 2008

सं. क.र./प.ब./आई पी सी/560(एसएम)/07--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सू मोये के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र. सं.	कंपनी पंजी. सं.	कंपनी का नाम	1	2	3
1	2	3			
1.	30860	मैसर्स ए. डी. आर. केमिकल लि.	31.	63978	मैसर्स एक्ज्युरेट फाईनेंशियल सर्विसेस प्रा. लि.
2.	27119	मैसर्स एजुदाह फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.	32.	33134	मैसर्स एकूमेन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ लि.
3.	24523	मैसर्स ए. के. घोष प्राईवेट लि.	33.	74656	मैसर्स एड एक्सीम लि.
4.	86884	मैसर्स ए. के. पॉलीप्रोडेक्ट्स प्रा. लि.	34.	57151	मैसर्स एडएक्सीम मार्केटिंग प्रा. लि.
5.	32141	मैसर्स ए. आर. के. इन्वेस्टमेंट्स लि.	35.	37180	मैसर्स एडप्रो शिपिंग कन्सल्टेन्ट्स प्रा. लि.
6.	63849	मैसर्स ए स्कायर बी इंजीनियरिंग एण्ड मार्केटिंग प्रा. लि.	36.	71565	मैसर्स एडीएच इम्पेक्स प्रा. लि.
7.	51613	मैसर्स ए जी एन्टरप्राइसेस प्रा. लि.	37.	63740	मैसर्स एडीआई-एबीसाफ्टवेयर सर्विसेस प्रा. लि.
8.	45107	मैसर्स ए. जी. ट्रेडिंग प्रा. लि.	38.	63842	मैसर्स एडीगम प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
9.	60357	मैसर्स ए. के. पॉल कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	39.	80151	मैसर्स आदित्या इम्पेक्स प्रा. लि.
10.	30535	मैसर्स ए. के. बागछी एण्ड को. प्रा. लि.	40.	79030	मैसर्स आदित्या इन एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
11.	43999	मैसर्स ए. आर. एसोसिएट्स प्रा. लि.	41.	27040	मैसर्स आदित्या आइरन एण्ड स्टील को. प्रा. लि.
12.	58184	मैसर्स ए. टी. सिमेन्ट लाइम प्रा. लि.	42.	30513	मैसर्स एडल्लिप सिन्क्रोनी प्रा. लि.
13.	65048	मैसर्स आहुति इम्पेक्स प्रा. लि.	43.	69210	मैसर्स एड-ओवरसीज़ प्रेफिक्स प्रा. लि.
14.	62704	मैसर्स अक्रूति प्लास्टिक्स प्रा. लि.	44.	50999	मैसर्स एडरी हाउसिंग फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
15.	48065	मैसर्स आरबी प्लास्टो प्रोडेक्ट्स प्रा. लि.	45.	27620	मैसर्स एडवान्स चिटफंड प्रा. लि.
16.	29575	मैसर्स एएआर श्री प्रमोद प्रा. लि.	46.	57400	मैसर्स एडवान्ड टेकनिकल सर्विसेस प्रा. लि.
17.	29972	मैसर्स आरती एपारेल्स प्रा. लि.	47.	83637	मैसर्स एडवर्ट मार्केटिंग लि.
18.	77772	मैसर्स आतिश मार्केटिंग प्रा. लि.	48.	77841	मैसर्स अग्रवाल केपिटल्स प्रा. लि.
19.	64588	मैसर्स एवकिन्स निर्यात प्रा. लि.	49.	24925	मैसर्स एजेन्सीज़ एण्ड सेल्स प्रा. लि.
20.	31402	मैसर्स एबी टीटेक्स इन्डस्ट्रीज़ प्रा. लि.	50.	79373	मैसर्स एजीएम फाईनेंशियल एण्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्रा. लि.
21.	57888	मैसर्स एबाकस मेरकॉनटाइल्स प्रा. लि.	51.	84523	मैसर्स एगनस डेकार लि.
22.	54291	मैसर्स एबे मार्केटिंग कन्सल्टेन्सी प्रा. लि.	52.	75430	मैसर्स एग्रो एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
23.	90144	मैसर्स एबडील ट्रेडिंग प्रा. लि.	53.	75694	मैसर्स एजीआर रोडवेय्स प्रा. लि.
24.	77187	मैसर्स ए बी जी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	54.	82972	मैसर्स एग्रेड इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स प्रा. लि.
25.	66112	मैसर्स अभिलासा बेन्कॉम प्रा. लि.	55.	53951	मैसर्स अग्रदूत क्रेडिट एण्ड फिनवेस्ट लि.
26.	49320	मैसर्स अभिनव प्रिन्ट सिस्टम प्रा. लि.	56.	80033	मैसर्स एगराज स्टील्स लि.
27.	62088	मैसर्स अभिषेक मल्टीप्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	57.	45102	मैसर्स एग्रोमाइट बिल्डिंग प्रोडेक्ट्स लि.
28.	44835	मैसर्स एबीएन डाइगोनेस्टिक लि.	58.	98493	मैसर्स अहिंसा मेरकॉनटाईल प्रा. लि.
29.	88694	मैसर्स एबीएस बिल्डर्स प्रा. लि.	59.	66114	मैसर्स अहिंसा डीलकॉम प्रा. लि.
30.	49257	मैसर्स अछि. लेदर्स प्रा. लि.	60.	52867	मैसर्स एएचबी प्रोपर्टीज़ प्रा. लि.
			61.	53069	मैसर्स आइफा कोल प्रोसेसर्स प्रा. लि.
			62.	55922	मैसर्स एआईएमएस (एक्सपोर्ट्स) प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
63.	63715	मैसर्स एयर ब्रेक पोलिमर्स प्रा. लि.	95.	49825	मैसर्स अल्पाइन रेसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्रा. लि.
64.	68399	मैसर्स एयर फ्राइट कोरियर्स प्रा. लि.	96.	53391	मैसर्स अल्सा होलिडिंग्स प्रा. लि.
65.	50790	मैसर्स एयरवीव सुधीर रिसोर्ट प्रा. लि.	97.	56092	मैसर्स एल्ट्रो सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट (इंडिया) लि.
66.	63624	मैसर्स अजन्ता निर्यात प्रा. लि.	98.	62522	मैसर्स एलुटेक प्रा. लि.
67.	56455	मैसर्स अजंता ट्रेक्सिम लि.	99.	27852	मैसर्स अमलगमेटड बिल्डर्स प्रा. लि.
68.	40576	मैसर्स अजय वुडक्राफ्ट्स प्रा. लि.	100.	31412	मैसर्स अमरनाथ फ्रूट प्रोडेक्ट्स प्रा. लि.
69.	83761	मैसर्स आजीवन कामर्शियल को. लि.	101.	71611	मैसर्स अमेक्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
70.	29573	मैसर्स अजीत टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि.	102.	83946	मैसर्स अम्बा डायरी लि.
71.	51511	मैसर्स आकाश गियर कूपलिंग्स प्रा. लि.	103.	71214	मैसर्स अम्बूटिया आर्गेनिक डायरी फार्मस लि.
72.	63674	मैसर्स अखंडज्योति व्यापार प्रा. लि.	104.	36214	मैसर्स अमेक्स इंजीनियर्स (कलकत्ता) प्रा. लि.
73.	55923	मैसर्स अकोक इंडस्ट्रीयल कम्पनी प्रा. लि.	105.	66411	मैसर्स अमिया मर्चण्ट बैकर्स लि.
74.	43961	मैसर्स अकीर्ति कन्सट्रक्शन प्रा. लि.	106.	76448	मैसर्स अमृत एल्लायज प्रा. लि.
75.	64496	मैसर्स अक्षय निर्यात प्रा. लि.	107.	27728	मैसर्स अमृत पेपर मिल्स प्रा. लि.
76.	88680	मैसर्स एकेबीके ट्रेडिंग प्रा. लि.	108.	81242	मैसर्स अनाम कंसलटेंट्स प्रा. लि.
77.	27710	मैसर्स अलख बिहारी स्टीलरोलिंग मिल्स प्रा. लि.	109.	66636	मैसर्स आनन्द एयरकॉन प्रा. लि.
78.	48814	मैसर्स अलारा इम्पेक्स एण्ड होलिडिंग प्रा. लि.	110.	47682	मैसर्स आनन्द पोर्टेबल स्टेरेज प्रा. लि.
79.	86072	मैसर्स अलारिक डेवलपर्स प्रा. लि.	111.	53391	मैसर्स आनन्द स्नेक्स एण्ड बिस्कुट प्रा. लि.
80.	56184	मैसर्स ऐलबेटोस एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	112.	27647	मैसर्स आनन्द सर्विस स्टेशन प्रा. लि.
81.	43988	मैसर्स अलबन फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.	113.	88788	मैसर्स आनन्दम सॉफ्टवेयर प्रा. लि.
82.	27602	मैसर्स एलेक्स एडवर्टाईसिंग प्रा. लि.	114.	63623	मैसर्स अनन्त डेलर्स प्रा. लि.
83.	27643	मैसर्स एलेक्स मिलर (कोचीन) प्रा. लि.	115.	34403	मैसर्स अनाटेले इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
84.	52340	मैसर्स अल्फा ट्रेड एण्ड कमर्स प्रा. लि.	116.	43557	मैसर्स अनाटेला आईडी सिस्टम प्रा. लि.
85.	62152	मैसर्स एलीस इकोनॉमी लि.	117.	73062	मैसर्स एएनबी मर्चण्डाइज प्रा. लि.
86.	3204	मैसर्स अलीपुरद्वार लोन आफिस लि.	118.	37479	मैसर्स एंकोर होटल्स प्रा. लि.
87.	30814	मैसर्स अलका कन्सलटेन्ट्स एण्ड सर्विसेस लि.	119.	49056	मैसर्स ऐंडीज इनफोच सिस्टम्स प्रा. लि.
88.	29240	मैसर्स ऑल इंडिया डीजल इलेक्ट्रीक लोको स्पेयर्स मैन्यूफैक्चरिंग एसएसएसएन	120.	14397	मैसर्स अंडित कॉरपोरेशन लि.
89.	29776	मैसर्स एलाइन्स चिट एण्ड सेविंग्स को. प्रा. लि.	121.	25226	मैसर्स अन्डूल फाउन्ड्री एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
90.	57054	मैसर्स एलाइड फटीलाइजर्स प्रा. लि.	122.	78284	मैसर्स अंगद वाणिज्य प्रा. लि.
91.	23457	मैसर्स ऐलाय इन्डस्ट्रीज़ प्रा. लि.	123.	86846	मैसर्स अंजेल इण्डिया एग्रो फार्म लि.
92.	63558	मैसर्स अल्फा सेलुलोस प्रा. लि.	124.	33721	मैसर्स अंगुस जूट इंडस्ट्रीज लि.
93.	83256	मैसर्स अल्फा टेलीमेडी इन्टरनेशनल प्रा. लि.	125.	50423	मैसर्स अनिल कॉन्क्युपमेंट प्रा. लि.
94.	33139	मैसर्स अल्पाइन ड्रग्स प्रा. लि.	126.	54002	मैसर्स अनिल होटल रेसोर्ट्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
127.	66009	मैसर्स अनिरॉक्स टेक्नोलॉजी लि.	160.	64705	मैसर्स अरमिलन मर्कण्टलाइज प्रा. लि.
128.	72959	मैसर्स अंजना लेजिंग लि.	161.	34869	मैसर्स अरनब फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
129.	57591	मैसर्स अंकित बिल्डकोन एण्ड फिन्वेस्ट प्रा. लि.	162.	75487	मैसर्स अरनॉल्ड सप्लाय प्रा. लि.
130.	58538	मैसर्स अंकुर लैण्ड मल्टि प्रोजेक्ट लि.	163.	76449	मैसर्स असूमा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
131.	59659	मैसर्स अनमोल एपारल्स प्रा. लि.	164.	77985	मैसर्स अर्पन सप्लायर्स प्रा. लि.
132.	56349	मैसर्स अनमोल इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	165.	68580	मैसर्स अरोगोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
133.	30639	मैसर्स अनपुर्ना एण्ड चपला बैंक लि.	166.	67871	मैसर्स अरोगोल्ड विनिकॉम प्रा. लि.
134.	61012	मैसर्स अनपुर्णा रेसोर्ट्स प्रा. लि.	167.	48330	मैसर्स अर्टेज इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.
135.	30629	मैसर्स अनुज चेम्बर्स सर्विसेस प्रा. लि.	168.	61756	मैसर्स अर्चुर ब्लुम डेगनोस्टिक (इण्डिया) प्रा. लि.
136.	63736	मैसर्स अनमान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रा. लि.	169.	48970	मैसर्स अर्टू एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्रा. लि.
137.	33381	मैसर्स अनुपम वेजटेबल ऑयल प्रा. लि.	170.	62330	मैसर्स अरूधया विनियोग एण्ड फिनान्स (इण्डिया) प्रा. लि.
138.	30862	मैसर्स अनुसिलन फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	171.	23323	मैसर्स अरूण केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
139.	50155	मैसर्स अपन्जन ट्रेवलज एण्ड टूरस प्रा. लि.	172.	31347	मैसर्स अरविन्द मार्केटिंग प्रा. लि.
140.	31143	मैसर्स अपर्णा इक्युपमेंट्स प्रा. लि.	173.	65312	मैसर्स एस बिजनेसज एण्ड ट्रेड प्रा. लि.
141.	53898	मैसर्स एपोसी ऑथोराइज (इण्डिया) प्रा. लि.	174.	69573	मैसर्स असन्कुल कॉस्मेटिक प्रा. लि.
142.	62821	मैसर्स एपेक्स कॉमोडीटिज (इण्डिया) प्रा. लि.	175.	50720	मैसर्स बसकॉन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
143.	37663	मैसर्स एपेक्स कनस्ट्रक्शन प्रा. लि.	176.	85876	मैसर्स आशा प्रकाशन प्रा. लि.
144.	30543	मैसर्स एपेक्स सिफुड प्रा. लि.	177.	66211	मैसर्स अशडील डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
145.	30871	मैसर्स अपर्ला कन्डक्टर्स लिमिटेड	178.	24636	मैसर्स अशोक फेब्रेकेटिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
146.	74213	मैसर्स एप्पल कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	179.	8490	मैसर्स असिआ मर्कण्टलाई प्रोविडेंट इश्योरेस कम्पनी
147.	56490	मैसर्स अपलो मार्केटिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	180.	24682	मैसर्स एशिऐटिक एमएफजी एण्ड अरेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
148.	71908	मैसर्स अप्पु एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	181.	27759	मैसर्स अयकिप्य इंजीनियरिंग प्रा. लि.
149.	66359	मैसर्स अप्पु लिमिटेड	182.	50962	मैसर्स एसएम फुड एण्ड फोरेस्ट प्रा. लि.
150.	43087	मैसर्स अपसा टूल एण्ड डिजाइन इंजीनियर्स प्रा. लि.	183.	69737	मैसर्स एसपोट ग्रीन सेल्स प्रा. लि.
151.	89363	मैसर्स अपसरा क्रियेशन प्रा. लि.	184.	69570	मैसर्स एसपोटमून ट्रेडर्स प्रा. लि.
152.	80001	मैसर्स एक्जुआर्स लेजिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	185.	30425	मैसर्स असाम मशिनफब प्रा. लि.
153.	75861	मैसर्स अक्युला ट्रेडिंग प्रा. लि.	186.	21149	मैसर्स एसोसिएटेड कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज इण्डिया प्रा. लि.
154.	56452	मैसर्स अराधना सेल्स एण्ड एजेंसिज लिमिटेड	187.	27469	मैसर्स एसोसिएटेड इल्लुमिनेशन एक्जुपमेंट्स प्रा. लि.
155.	44082	मैसर्स अरबो केम प्रा. लि.	188.	45508	मैसर्स एसोसिएटेड परशिसियन इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.
156.	31362	मैसर्स अर्चिटेक्ट्स कॉल्लेबोरेट (इण्डिया) प्रा. लि.	189.	31028	मैसर्स एटीए प्रा. लि.
157.	63980	मैसर्स अर्दीकेम मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.			
158.	54970	मैसर्स अरिहन्त कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड			
159.	52602	मैसर्स अरिहन्त गार्मेन्ट्स सेल्स लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
190.	47370	मैसर्स एथेन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	220.	8897	मैसर्स बी के दत्त एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
191.	83074	मैसर्स अतिथि यात्री निवास प्रा. लि.	221.	19147	मैसर्स बी एम ब्रटर्स प्रा. लि.
192.	29790	मैसर्स अटलांटिक जेनरल सेविंग्स चिट फण्ड एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.	222.	49154	मैसर्स बी बी एजेंसिज प्रा. लि.
193.	34428	मैसर्स अटनील्स कंसलटेंट्स प्रा. लि.	223.	62156	मैसर्स बी बी जे इंजीनियरिंग प्रा. लि.
194.	27439	मैसर्स अटवल कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	224.	33004	मैसर्स बी बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
195.	60865	मैसर्स अयुरलिन फिनान्स प्रा. लि.	225.	20790	मैसर्स बी चन्द्रा एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
196.	72029	मैसर्स अयुरा एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट प्रा. लि.	226.	46285	मैसर्स बी डी कन्ट्रेक्टर्स इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
197.	69016	मैसर्स अयुरा फिलिकल सर्विसेज प्रा. लि.	227.	37844	मैसर्स बी एफ रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट प्रा. लि.
198.	73903	मैसर्स अयुराविल मर्चण्डाइज प्रा. लि.	228.	46830	मैसर्स बी जी कॉमर्शियल प्रा. लि.
199.	55542	मैसर्स अस्टर बैटरी प्रा. लि.	229.	38597	मैसर्स बी वी एम ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
200.	58229	मैसर्स ऑटो पावर कंट्रोल इक्युपमेंट्स प्रा. लि.	230.	54353	मैसर्स बाबु ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
201.	29833	मैसर्स आटो टायर्स एण्ड एसेसरिज कम्पनी (कल) प्रा. लि.	231.	63399	मैसर्स बभनन एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
202.	34439	मैसर्स ऑटोक्राफ्ट इंजीनियरिंग इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	232.	37087	मैसर्स बाबी दत्ता कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
203.	24472	मैसर्स ऑटोमोटिव इन्टरप्राइजेज लिमिटेड	233.	39355	मैसर्स बाबूलाल तारचान्द प्रा. लि.
204.	59419	मैसर्स अवलॉन वेपको मार्केटिंग प्रा. लि.	234.	19330	मैसर्स बछुका सन्स प्रा. लि.
205.	77712	मैसर्स अवन्त ग्रेड टेक्नोकाट्स प्रा. लि.	235.	29780	मैसर्स बफना इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
206.	66208	मैसर्स अवरण सप्लायर्स प्रा. लि.	236.	35382	मैसर्स बगला इन्टरप्राइजेज (बी एण्ड आर) प्रा. लि.
207.	44353	मैसर्स अवनेट इंजीनियरिंग (इण्डिया) लिमिटेड	237.	71923	मैसर्स बगला हाउसिंग प्रा. लि.
208.	65280	मैसर्स अवॉन टराकॉन प्रा. लि.	238.	77947	मैसर्स बागरी रिसोर्स प्रा. लि.
209.	68983	मैसर्स अवन्त डिलर प्रा. लि.	239.	74113	मैसर्स बहार डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
210.	33780	मैसर्स आजमगढ़ हायर पर्चेज फिनान्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	240.	56644	मैसर्स बैद फिन्कॉन लिमिटेड
211.	30567	मैसर्स आजमगढ़ सेविंग्स एण्ड फिनान्स इण्डिया लिमिटेड	241.	32045	मैसर्स बैद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
212.	64783	मैसर्स एजेल कॉमर्शियल प्रा. लि.	242.	81746	मैसर्स बजाज एक्वा-टेक प्रा. लि.
213.	59926	मैसर्स अजरक एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	243.	64362	मैसर्स बेकर हुकेज इण्डिया प्रा. लि.
214.	63700	मैसर्स अजुकी एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.	244.	25157	मैसर्स बखराहट व्यवसान समीति
215.	63221	मैसर्स बजुर टेककॉम प्रा. लि.	245.	77216	मैसर्स बकरेश्वर पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड
216.	57387	मैसर्स बी एण्ड पी प्रोपर्टीज प्रा. लि.	246.	77401	मैसर्स बालाजी कंसलटेंसी सर्विसेज प्रा. लि.
217.	18928	मैसर्स बी बी सी प्रा. लि.	247.	75296	मैसर्स बालाजी प्लॉटिंग सेल्स प्रा. लि.
218.	72361	मैसर्स बी बी सॉफ्टवेयर लिमिटेड	248.	65119	मैसर्स बालगोपाल मैनेजमेंट प्रा. लि.
219.	45241	मैसर्स बी ई मिरर प्रा. लि.	249.	25992	मैसर्स बालकन टी एण्ड एम बेयर्स प्रा. लि.
			250.	75404	मैसर्स बाल्लमैन ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
			251.	63403	मैसर्स बलरामपुर एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
			252.	56235	मैसर्स बाम तारा जनकल्याण सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
253.	65882	मैसर्स बामा कंस्ट्रक्शंस सर्विसेज प्रा. लि.	282.	62866	मैसर्स बेन-फोड विनियोग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
254.	69574	मैसर्स बामनी व्यापार प्रा. लि.	283.	54362	मैसर्स बंगाल एंटी बाईओटेक प्रा. लि.
255.	54115	मैसर्स बनब्रोस बिजनेस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.	284.	48026	मैसर्स बंगाल इंडस्ट्रीयल लुब्रिकेटिंग इक्विपमेंट प्रा. लि.
256.	27113	मैसर्स बन्दना इम्प्रेशन प्रा. लि.	285.	74798	मैसर्स बंगाल मेटल फार्म प्रा. लि.
257.	66110	मैसर्स बन्दना वनकॉम प्रा. लि.	286.	34561	मैसर्स बंगाल मॉलक्युलर इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
258.	54256	मैसर्स बंधपुर केमिकल्स प्रा. लि.	287.	15504	मैसर्स बंगाल नेशनल कोइलवरिज लिमिटेड
259.	25742	मैसर्स बन्दिपुर निटर्स सोसाइटी प्रा. लि.	288.	62164	मैसर्स बंगाल पेपर टियुब एण्ड बॉक्स मैनुफेक्चरिंग कम्पनी प्रा. लि.
260.	23991	मैसर्स बनर्जी एण्ड चट्टर्जी स्टेवेडोर्स प्रा. लि.	289.	26830	मैसर्स बंगाल सेफ एण्ड स्टील वर्क्स प्रा. लि.
261.	27876	मैसर्स बनर्जी फार्म एण्ड प्रोसेसिंग प्रा. लि.	290.	30618	मैसर्स बंगाल सेवक सेविंग्स एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्रा. लि.
262.	45093	मैसर्स बंगजनानी इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.	291.	88685	मैसर्स बेनीन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
263.	57549	मैसर्स बंगिया स्टेशनरस प्रा. लि.	292.	56355	मैसर्स बेन्सन सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.
264.	43839	मैसर्स बनिस फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	293.	54078	मैसर्स बेस्को व्हील्स लि.
265.	33986	मैसर्स बनिक स्टेम नविगा टिमन्स कम्पनी लिमिटेड	294.	27740	मैसर्स बेस्ट ग्रीनिंग वर्क्स प्रा. लि.
266.	27535	मैसर्स बनसाव कैमिकल्स प्रा. लि.	295.	65122	मैसर्स बेस्टबाइट मर्चण्टलाइज प्रा. लि.
267.	58066	मैसर्स बनायन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	296.	54249	मैसर्स बेस्टो फिजिकल लि.
268.	54440	मैसर्स बरसात पॉलिटी एण्ड एल्लाइड फार्मस प्रा. लि.	297.	27570	मैसर्स भवानि रबर प्रा. लि.
269.	88081	मैसर्स बर्तमान एगो टेक (आई) लिमिटेड	298.	30433	मैसर्स भगत प्लास्टिक्स प्रा. लि.
270.	57421	मैसर्स बसिल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.	299.	15290	मैसर्स भगत प्रोपर्टीज प्रा. लि.
271.	46586	मैसर्स बासु मार्केटिंग एण्ड मैनुफेक्चरिंग कम्पनी प्रा. लि.	300.	65946	मैसर्स भगत स्टॉक एण्ड शेयर्स प्रा. लि.
272.	59851	मैसर्स बसुमाता सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी (इण्डिया) प्रा. लि.	301.	43805	मैसर्स भागीरथि माइनिंग टूलस प्रा. लि.
273.	11166	मैसर्स बटोकृष्ण राय कम्पनी प्रा. लि.	302.	21778	मैसर्स भाग्यलक्ष्मी राइस मिल एण्ड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
274.	27621	मैसर्स बे फिसिंग एण्ड प्रोसेसिंग प्रा. लि.	303.	78817	मैसर्स भाग्य मर्चण्टस प्रा. लि.
275.	57494	मैसर्स बेकॉन डेवलपर्स प्रा. लि.	304.	69972	मैसर्स भागराज व्यापार प्रा. लि.
276.	60057	मैसर्स ब्युटि चोइस हाउस फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड	305.	68618	मैसर्स भाय फिन्वेस्ट प्रा. लि.
277.	58507	मैसर्स ब्युटि इण्डिया क्रेडिटस लिमिटेड	306.	77799	मैसर्स भण्डारी वुक्स एण्ड बिल्डर्स इण्डिया प्रा. लि.
278.	43916	मैसर्स बीगी वुड क्राफ्ट उद्योग प्रा. लि.	307.	8784	मैसर्स भारत लेबोरेटरी एण्ड केमिकल वर्क्स लि.
279.	48138	मैसर्स बीकेय फेरो एल्लायज प्रा. लि.	308.	54400	मैसर्स भारती जनता सेविंग्स एण्ड फिन्वेस्ट कम्पनी (इण्डिया) लि.
280.	64440	मैसर्स बेल्लोना ट्रेडर्स प्रा. लि.	309.	79287	मैसर्स भात फिन्कॉन सर्विसेज प्रा. लि.
281.	55031	मैसर्स बेनिफिसिक्ल सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड	310.	57089	मैसर्स भट्टाचार्य डेवलपर्स प्रा. लि.
			311.	80839	मैसर्स भवानी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
312.	51520	मैसर्स भिल्ललाई कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.	344.	79579	मैसर्स ब्रह्मपुत्र फेब्रिकेटर्स प्रा. लि.
313.	30589	मैसर्स भोजानि प्रा. लि.	345.	58521	मैसर्स ब्राइट एण्ड बटर इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट लि.
314.	57156	मैसर्स भेल इंजीनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टा प्रा. लि.	346.	48086	मैसर्स ब्राइट कलर एण्ड कम्बिनेशन प्रा. लि.
315.	62535	मैसर्स भोमिया व्यापार प्रा. लि.	347.	48145	मैसर्स ब्राइट इस्टेट प्रा. लि.
316.	70186	मैसर्स भरोसेमण्ड कॉमोडीटिज प्रा. लि.	348.	57854	मैसर्स ब्राइट फ्यूचर्स ट्रेड कन्फेन्सियल सर्विसेज लि.
317.	80538	मैसर्स भूमिका कॉमर्शियल प्रा. लि.	349.	56505	मैसर्स ब्राइट लाइन क्रेडिट एण्ड फिन्वेस्ट इण्डिया लि.
318.	55175	मैसर्स विजन एग्री प्रा. लि.	350.	66195	मैसर्स ब्राइटमून फेब्रिकेटर्स प्रा. लि.
319.	17840	मैसर्स बिजली एजेंट्स लि.	351.	66007	मैसर्स ब्रकीज इम्पेक्स प्रा. लि.
320.	61013	मैसर्स विकास इन्टरट्रेड प्रा. लि.	352.	55256	मैसर्स ब्रिलेन्ट कैरियर हाउसिंग फाईनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
321.	63176	मैसर्स बिल्लय फाईनैस प्रा. लि.	353.	64341	मैसर्स ब्रिलेन्ट विनिमय प्रा. लि.
322.	79537	मैसर्स बिनय फ्युजन सिस्टम्स प्रा. लि.	354.	63554	मैसर्स ब्रोसिस कॉमर्शियल प्रा. लि.
323.	54360	मैसर्स बिन्दु अनु सेविंग्स लि.	355.	84412	मैसर्स ब्रयलोन इंडस्ट्रीयल टिविन्स प्रा. लि.
324.	55770	मैसर्स बिडला कॉटन स्पिनिंग एण्ड वेविंग मिल्स लि.	356.	49784	मैसर्स बीएससी लीजिंग एण्ड फाईनैस कम्पनी लि.
325.	33268	मैसर्स बिसकय एक्सपोर्टर्स लि.	357.	47269	मैसर्स बट्टकॉ क्रेडिट एण्ड मर्चण्टलाइज प्रा. लि.
326.	68006	मैसर्स बिस्को फाईनैसशियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.	358.	21031	मैसर्स बिल्डर्स एण्ड फर्नीचर्स प्रा. लि.
327.	87484	मैसर्स बिस्को टैक्सटाईल प्रा. लि.	359.	74078	मैसर्स बुलबुलटाला राइस मिल प्रा. लि.
328.	31611	मैसर्स बिश्वा होटल्स प्रा. लि.	360.	58796	मैसर्स बुम प्रोडक्ट्स कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
329.	64551	मैसर्स ब्लैक ऑपल प्रोपर्टीज एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	361.	53879	मैसर्स बोनट हाउसिंग फाईनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.
330.	51862	मैसर्स ब्लोकॉन इण्डिया प्रा. लि.	362.	75288	मैसर्स बर्द्धवान ऑटो टर्मिनस एण्ड रेसोर्ट्स लि.
331.	71767	मैसर्स ब्लू बेल पॉलि पाइप्स प्रा. लि.	363.	28037	मैसर्स ब्रेयु फोर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिसर्च प्रा. लि.
332.	63679	मैसर्स ब्लूहेवन इम्पेक्स प्रा. लि.	364.	54607	मैसर्स बुश इस्कय टी प्रा. लि.
333.	42656	मैसर्स बलस्टर कंसल्टेंट्स प्रा. लि.	365.	33849	मैसर्स कस्सी लैण्ड डेवलपमेंट ऑरगनाइजेशन लि.
334.	64777	मैसर्स बोडकिन इक्विम प्रा. लि.	366.	74682	मैसर्स बक्सा पावरपेक लि.
335.	70561	मैसर्स बोआईनचि मोडर्न राइस मिल प्रा. लि.	367.	48078	मैसर्स सी बी के पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
336.	68153	मैसर्स बॉनजा सरमाइक्स प्रा. लि.	368.	64014	मैसर्स सी लवराई एण्ड कम्पनी (शिपिंग) प्रा. लि.
337.	66710	मैसर्स बॉनजा ब्रटर प्रा. लि.	369.	86289	मैसर्स सी एस एण्ड एशियन मेरिन इंजीनियरिंग लि.
338.	88631	मैसर्स बॉनय कम्पेक्शनरी (इण्डिया) प्रा. लि.	370.	62383	मैसर्स सी. बी. प्लोमेयर्स प्रा. लि.
339.	29698	मैसर्स बोनस फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	371.	59822	मैसर्स सी. सी. प्रोपर्टीज प्रा. लि.
340.	29546	मैसर्स बोस्को मशीन्स एण्ड टूल्स (इण्डिया) प्रा. लि.	372.	67392	मैसर्स सी. डी. इम्फोक्म प्रा. लि.
341.	63643	मैसर्स बोस विब्रोटीरी कम्पेक्टर्स प्रा. लि.	373.	43890	मैसर्स सी. एल. मर्चेन्टलाइज प्रा. लि.
342.	54027	मैसर्स बन्दी फाईनैस एण्ड हाउसिंग इण्डिया लि.	374.	46338	मैसर्स सी. एम. एजेंसी प्रा. लि.
343.	87714	मैसर्स बउबाजार होलिंग्स प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
375.	59976	मैसर्स सी. पी. रेसोर्स प्रा. लि.	407.	30663	मैसर्स काराबन सेविंग्स एण्ड फाईनेस प्रा. लि.
376.	47869	मैसर्स ससी. टी. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	408.	31511	मैसर्स कार्गो कैरियर्स प्रा. लि.
377.	55676	मैसर्स केशिकों क्रेडिट (इण्डिया) लि.	409.	58348	मैसर्स कास्कॉन डेवलपर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्रा. लि.
378.	56380	मैसर्स कद-कम डेवलपर्स प्रा. लि.	410.	54549	मैसर्स कैसिओन हाउसिंग फाईनेस (इण्डिया) लि.
379.	89611	मैसर्स काडिस्क बिजनेस लिंक लि.	411.	57688	मैसर्स कैटेलिटिक केमिकल्स प्रा. लि.
380.	81881	मैसर्स कलकत्ता बिस्कुट्स प्रा. लि.	412.	43969	मैसर्स केक्सटॉन प्रिन्टर्स प्रा. लि.
381.	31072	मैसर्स कलकत्ता बोर्ड मिल्स प्रा. लि.	413.	73129	मैसर्स सिस्क्रोन फाईनेसशियल कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
382.	31431	मैसर्स कलकत्ता कलर लेब्रटरी प्रा. लि.	414.	57431	मैसर्स सेन्ट्रल क्रेडिट एण्ड फिनवेस्ट (इण्डिया) लि.
383.	25369	मैसर्स कलकत्ता कॉटन एसोसिएशन	415.	88455	मैसर्स सेन्टर इन्डो टायर एण्ड ऑटोमोबाईल प्रा. लि.
384.	30742	मैसर्स कलकत्ता डेवलमेंट हाउस सर्विसेज प्रा. लि.	416.	79010	मैसर्स सेन्चुरी डेवलोकॉन प्रा. लि.
385.	27307	मैसर्स कलकत्ता कड टेकेस्ट हैण्डलिंग लेबर बोर्ड लि.	417.	86661	मैसर्स सेन्चुरी मैरिन वेन्चर लि.
386.	81285	मैसर्स कलकत्ता फायरवर्क्स एसोसिएशन	418.	44306	मैसर्स सीव इंजीनियर्स प्रा. लि.
387.	48107	मैसर्स कलकत्ता फॉयल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	419.	31484	मैसर्स चेतक रेशम्स (इण्डिया) प्रा. लि.
388.	29929	मैसर्स कलकत्ता गेट एण्ड इंजन कम्पनी प्रा. लि.	420.	40715	मैसर्स चाकोरिओन इंजीनियर्स प्रा. लि.
389.	50882	मैसर्स कलकत्ता इन्फर्टीलिटी क्लिनिक एण्ड आईवीएफ सेंटर प्रा. लि.	421.	39707	मैसर्स चक्रवर्ती (मेटल) इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
390.	59318	मैसर्स कलकत्ता मूवर्स सर्विसेज प्रा. लि.	422.	75277	मैसर्स चक्रवर्ती क्लीयरिंग एजेन्ट्स प्रा. लि.
391.	8623	मैसर्स कलकत्ता ऑरियन्टल प्रेस लि.	423.	69888	मैसर्स चाकसन मर्केन्टाइल्स प्रा. लि.
392.	27658	मैसर्स कलकत्ता पेट्रो-कैम इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	424.	29749	मैसर्स चालिहा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
393.	27638	मैसर्स कलकत्ता प्लास्टिसिजर्स प्रा. लि.	425.	29767	मैसर्स चालिहा टी एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
394.	69709	मैसर्स कलकत्ता पावर प्रोजेक्ट्स लि.	426.	29851	मैसर्स चन्दन मशीन टूल्स प्रा. लि.
395.	27105	मैसर्स कलकत्ता प्रोसेज एण्ड पब्लिकेशन प्रा. लि.	427.	85789	मैसर्स चांदनी बीडी वर्क्स प्रा. लि.
396.	73081	मैसर्स कलकत्ता प्रोफेशनल सर्विसेज प्रा. लि.	428.	63757	मैसर्स चन्द्र प्रावन ट्रेडिंग प्रा. लि.
397.	51641	मैसर्स कलकत्ता स्पॉग लि.	429.	54845	मैसर्स चैनल इलेवेन इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
398.	46584	मैसर्स कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.	430.	43572	मैसर्स चारू एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
399.	30534	मैसर्स कलकत्ता टयबो जनरेटर एण्ड इरेक्टर प्रा. लि.	431.	76602	मैसर्स चारूकारू एड प्रा. लि.
400.	57423	मैसर्स कल-टेक मेकेनिकल इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.	432.	34862	मैसर्स चासरा इस्टेट प्रा. लि.
401.	57617	मैसर्स केमेक सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	433.	80490	मैसर्स चटर्जी रियल्टी प्रा. लि.
402.	74834	मैसर्स कैनलेय इंजीनियरिंग प्रा. लि.	434.	85749	मैसर्स चतुर्वेद फोरेस्ट इण्डिया लि.
403.	49007	मैसर्स कैनन क्रेडिट एण्ड कंसल्टेन्सी प्रा. लि.	435.	63641	मैसर्स चौलहाटी टी इस्टेट प्रा. लि.
404.	48079	मैसर्स सेन्टर ऑटो वर्क्स प्रा. लि.	436.	82701	मैसर्स चयन कोम्मोडिटीज प्रा. लि.
405.	48066	मैसर्स कैप्को प्लास्टिक प्रा. लि.	437.	39789	मैसर्स चेमफिल इण्डिया प्रा. लि.
406.	58633	मैसर्स कैप्पा कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा. लि.	438.	61823	मैसर्स चेम्न एजेंसीज प्रा. लि.
			439.	65461	मैसर्स चेकर्स हाल्लिंग्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
440.	70014	मैसर्स चिक कंसल्टेन्सी प्रा. लि.	472.	33486	मैसर्स कस्टैट सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स (इण्डिया) लि.
441.	63625	मैसर्स चिन्तामणि डीलकॉम प्रा. लि.	473.	54109	मैसर्स कॉन्ट्राई ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
442.	61186	मैसर्स चित्र व्यापार प्रा. लि.	474.	63904	मैसर्स कॉन्टशिप व्यापार प्रा. लि.
443.	57805	मैसर्स चित्रलेखा आर्ट प्रा. लि.	475.	64343	मैसर्स कंवर्टेक्स डीलर्स प्रा. लि.
444.	62997	मैसर्स चोपड़ा होम्स प्रा. लि.	476.	62607	मैसर्स कोर विनिमय प्रा. लि.
445.	82580	मैसर्स चौधरी लीजिंग प्रा. लि.	477.	64290	मैसर्स कार्नाप्लावर डीलर्स प्रा. लि.
446.	47586	मैसर्स चौधरी पॉली गार्ड उद्योग प्रा. लि.	478.	43431	मैसर्स कोरोसिस थर्मल इंजीनियरिंग प्रा. लि.
447.	85054	मैसर्स चौधरी ग्रुप इंजीनियरिंग कंसल्टेन्सी प्रा. लि.	479.	77011	मैसर्स कॉरपोरेट शिपिंग प्रा. लि.
448.	54266	मैसर्स चौधरी हाई-टेक कम्प्यूटर सिस्टम्स प्रा. लि.	480.	69020	मैसर्स कॉरपोरेट मैनेजमेंट सर्विसेज एण्ड रिसर्च लि.
449.	39291	मैसर्स क्रोमप्लेट (इण्डिया) प्रा. लि.	481.	29847	मैसर्स कोस्मो चेम लेबोरेट्रीज़ इण्डिया प्रा. लि.
450.	57874	मैसर्स सिमा प्रा. लि.	482.	88755	मैसर्स कोस्मापोलिटन कम्प्यूटर्स इन्फोटेक लि.
451.	51881	मैसर्स सिपा ड्रग्स प्रा. लि.	483.	62174	मैसर्स कोरमोपोलाईट रबड्स प्रा. लि.
452.	68106	मैसर्स सिप्लोक्स सप्लायर प्रा. लि.	484.	71694	मैसर्स कौगर मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
453.	74897	मैसर्स सिटिगेट डीलर प्रा. लि.	485.	71702	मैसर्स कौगर ट्रेडर्स प्रा. लि.
454.	89224	मैसर्स सिटिजेन होम केयर लि.	486.	56528	मैसर्स कोवेटेबल हाउसिंग डेवलपमेंट फाईनेंस कम्पनी लि.
455.	46756	मैसर्स साइट्रस केमिकल्स प्रा. लि.	487.	55664	मैसर्स कोयाल सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.
456.	08137	मैसर्स सिटी लैण्ड डेवलपमेंट ट्रस्ट लि.	488.	53251	मैसर्स सीपीएस फाईनेंसशियल सर्विसेज प्रा. लि.
457.	57450	मैसर्स सिटीलिक बिल्डर एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.	489.	54253	मैसर्स सीपीवी मल्टीमीडिया लि.
458.	55804	मैसर्स स्लेयरजोयंत सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.	490.	46951	मैसर्स क्रिएशन मार्केटिंग प्रा. लि.
459.	64347	मैसर्स क्लाम कोम्मोडिटीज प्रा. लि.	491.	57758	मैसर्स क्रिएटिव इन्सुरेन्स सर्वे प्रा. लि.
460.	70855	मैसर्स कोल्लोकेट विनिमय प्रा. लि.	492.	91935	मैसर्स क्रैसेन्ट डॉट कॉम प्रा. लि.
461.	58653	मैसर्स कोर्लेन एक्सपोर्ट्स लि.	493.	57377	मैसर्स क्रैसेन्ट इण्डिया कोनेक्स प्रा. लि.
462.	31246	मैसर्स कॉम्बस्ट टेक्निक प्रा. लि.	494.	55975	मैसर्स क्रैसेन्ट पेपर मिल्स प्रा. लि.
463.	88699	मैसर्स कमाण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	495.	81515	मैसर्स क्रैसेन्ट प्लान्टेशन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
464.	88696	मैसर्स कमाण्ड रबड़ प्रा. लि.	496.	81702	मैसर्स क्रोमैक्स लीजिंग एण्ड फिनान्स प्रा. लि.
465.	88700	मैसर्स कमाण्ड ट्रांसपोर्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	497.	67888	मैसर्स क्रोनिज कॉमर्शियल प्रा. लि.
466.	29691	मैसर्स कॉमर्शियल कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लि.	498.	31525	मैसर्स क्रोप प्रोटेक्टेंट्स (इण्डिया) प्रा. लि.
467.	29850	मैसर्स कम्पैक्ट क्रेडिट एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्रा. लि.	499.	29769	मैसर्स क्रोपेड (इण्डिया) प्रा. लि.
468.	82175	मैसर्स कम्प्यू-क्वेस्ट सिस्टम्स एण्ड सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	500.	50805	मैसर्स क्राउन पॉलीयूरेथाने प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
469.	42942	मैसर्स कम्प्यूटर एण्ड एलॉयड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	501.	62289	मैसर्स क्रुशियल फिस्कल प्रा. लि.
470.	60063	मैसर्स कंसेप्ट लेडरबारेन प्रा. लि.	502.	56454	मैसर्स क्रिस्टल सेल्स लि.
471.	59118	मैसर्स कोंच फाईनेंसियल एण्ड इन्वेस्टमेंट्स (इण्डिया) लि.			

1	2	3	1	2	3
503.	45816	मैसर्स क्रिस्टल ट्रेडर्स प्रा. लि.	535.	57699	मैसर्स डेबसेम स्क्रीन सिस्टम्स प्रा. लि.
504.	81701	मैसर्स सीएसएसआर प्रोपर्टीज प्रा. लि.	536.	27655	मैसर्स डी बी एक्जीबिटर्स प्रा. लि.
505.	89587	मैसर्स साईबर क्वेस्ट टेक्नो सोलुशन्स लि.	537.	55181	मैसर्स डीजी एगो एण्ड फूट्स प्रा. लि.
506.	75858	मैसर्स डी पी सिन्थेटिक्स प्रा. लि.	538.	57627	मैसर्स दीप सागर सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
507.	73579	मैसर्स डी.जी.ए. कंसल्टेंट्स प्रा. लि.	539.	57084	मैसर्स दीप टेक (इण्डिया) प्रा. लि.
508.	47863	मैसर्स डी.के. स्टोर्स प्रा. लि.	540.	46069	मैसर्स दीपक इण्डस्ट्रीयल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग एण्ड प्रोजेक्ट सर्विसेज प्रा. लि.
509.	55217	मैसर्स डी.एन. मेमोरियल सेन्टर फॉर रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट	541.	49502	मैसर्स दीपक मर्केन्टाईल प्रा. लि.
510.	57226	मैसर्स डी.पी. इन्टरलोजिक सिस्टेक्स प्रा. लि.	542.	56364	मैसर्स दीपज्योति मार्केटिंग कम्पनी प्रा. लि.
511.	54258	मैसर्स दैबलाना इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडर्स लि.	543.	34434	मैसर्स दीपसन्स प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
512.	63845	मैसर्स डेगोर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	544.	56353	मैसर्स डेल्टा टेक्नीकल सर्विसेज प्रा. लि.
513.	65601	मैसर्स डेगोर मास्टर सेल्स प्रा. लि.	545.	57499	मैसर्स डियो इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
514.	25545	मैसर्स दैहाल ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.	546.	68144	मैसर्स देसकाल पत्रिका प्रा. लि.
515.	87922	मैसर्स दामोदर बैली एगो टेक (इण्डिया) लि.	547.	40607	मैसर्स डेसन्स फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
516.	45520	मैसर्स दरोमा ऐरोसोल्स प्रा. लि.	548.	54728	मैसर्स डेस्टीनी कॉमर्शियल एण्ड ट्रेक्जिम प्रा. लि.
517.	85421	मैसर्स दर्पण प्लान्ट्स एण्ड फूड्स प्रा. लि.	549.	80082	मैसर्स ड्यूटस्चे बैंबकॉक टेक्सटाईल मशीनरी लि.
518.	54624	मैसर्स दस तक प्रा. लि.	550.	74247	मैसर्स देवारुन साइंटिफिक इलेक्ट्रीकल मैनुफैक्चरिंग प्रा. लि.
519.	47070	मैसर्स दासनगर स्ट्रक्चरल्स प्रा. लि.	551.	64442	मैसर्स देवदारू विनिमय प्रा. लि.
520.	62902	मैसर्स दातेर्स फार्मा प्रा. लि.	552.	68202	मैसर्स देविधोर फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
521.	67975	मैसर्स दत्त एयर एक्सप्रेस लि.	553.	54575	मैसर्स देया नेया फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
522.	75542	मैसर्स दौलत विनिमय प्रा. लि.	554.	90295	मैसर्स डी-फेनिल फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
523.	73172	मैसर्स डे नाईट एक्सप्रेस प्रा. लि.	555.	81437	मैसर्स डीजीएस सिस्टम्स प्रा. लि.
524.	27746	मैसर्स दयारानी प्लान्टेशन इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	556.	39715	मैसर्स डीएच एण्ड एस मल्टीकंसल्ट प्रा. लि.
525.	27751	मैसर्स डे कोक एण्ड कोल प्रा. लि.	557.	57850	मैसर्स धन सागर सेविंग्स एण्ड फिनान्स लि.
526.	27135	मैसर्स देबाली पिक्चर्स प्रा. लि.	558.	63335	मैसर्स धनलक्ष्मी डीलकॉम प्रा. लि.
527.	57486	मैसर्स देबलिना फिनान्शियल सर्विसेज प्रा. लि.	559.	30510	मैसर्स धनावत ब्रदर्स प्रा. लि.
528.	54403	मैसर्स देबरति अपार्टमेंट प्रा. लि.	560.	74863	मैसर्स धनधान ट्रेक्जिम प्रा. लि.
529.	43807	मैसर्स देबकार्गो सर्विसेज प्रा. लि.	561.	65526	मैसर्स धीरज ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
530.	36336	मैसर्स देबेन्द्र नाथ कॉटन मिल्स लि.	562.	69642	मैसर्स दियाच मेटल्स एण्ड एलॉयज प्रा. लि.
531.	77531	मैसर्स देबी कंसल्टेंट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	563.	55985	मैसर्स डोंयल डाटा सर्विसेज प्रा. लि.
532.	54007	मैसर्स देबनाबदय जनरल फिनान्स लि.	564.	52110	मैसर्स डायमण्ड बॉक्स एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
533.	59462	मैसर्स डिक्केड कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा. लि.			
534.	67182	मैसर्स डेकोलिक सेल्स प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
565.	74075	मैसर्स डायस डेको प्रा. लि.	596.	43100	मैसर्स दुआ एयर कौन प्रा. लि.
566.	29733	मैसर्स डीचरोमेट्स इण्डिया प्रा. लि.	597.	34877	मैसर्स डफ आयरन मिनरल्स प्रा. लि.
567.	67191	मैसर्स डीडवानिया फिनान्स प्रा. लि.	598.	92840	मैसर्स दुलाल वेज एण्ड फूड कोल्ड स्टोरेज कं. प्रा. लि.
568.	57513	मैसर्स दिगन्त क्लीनिक एण्ड नर्सिंग होम प्रा. लि.	599.	59816	मैसर्स डंकन्स शुगर लि.
569.	91489	मैसर्स डिजिटल डाटा सर्विसेज प्रा. लि.	600.	33575	मैसर्स डनहिल प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
570.	85358	मैसर्स डिजिटल सोर्स प्रा. लि.	601.	51827	मैसर्स दुर्गापुर फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स प्रा. लि.
571.	82606	मैसर्स डिगिटी कॉमर्शियल प्रा. लि.	602.	33258	मैसर्स दुर्गेश फिनान्शियर्स एण्ड इन्वेस्टर्स लि.
572.	83038	मैसर्स डिगिटी मार्केटिंग प्रा. लि.	603.	65227	मैसर्स दुर्गेश रियल इस्टेट डेवलपमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
573.	51904	मैसर्स दिग्विजय फिनवेस्ट प्रा. लि.	604.	56441	मैसर्स दत्ताज प्लास्टिक्स प्रा. लि.
574.	29899	मैसर्स डीजी इस्टेट्स प्रा. लि.	605.	66076	मैसर्स द्वारिकापुरी एक्जीमपोर्ट प्रा. लि.
575.	45408	मैसर्स डीजीत कौसेट्स प्रा. लि.	606.	81035	मैसर्स द्विजेन्द्र बिड़ि फैक्टरी प्रा. लि.
576.	57041	मैसर्स दिलीप इन्टरनेशनल प्रा. लि.	607.	44139	मैसर्स डायना ऑटोमोबाईलस कम्पनी प्रा. लि.
577.	27582	मैसर्स दिलीप राय (ट्रान्सपोर्ट) प्रा. लि.	608.	44260	मैसर्स डायनेमिक इलेक्ट्रो विजन प्रा. लि.
578.	79649	मैसर्स दीपलोक प्रोपर्टीज प्रा. लि.	609.	80050	मैसर्स डायनेस्टी इण्डस्ट्रीज लि.
579.	47153	मैसर्स डिस्पो प्लास्ट प्रा. लि.	610.	33523	मैसर्स डायट्रॉन (इण्डिया) लि.
580.	65467	मैसर्स डायवर्स टैक्स प्रा. लि.	611.	48050	मैसर्स ईगल जूट कम्पनी प्रा. लि.
581.	63158	मैसर्स डीकेएस कंसोलीडेटेड प्रोफेशनल सर्विसेज प्रा. लि.	612.	--	मैसर्स ईगल प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स प्रा. लि.
582.	33168	मैसर्स डॉल्लिन ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	613.	69553	मैसर्स ईस्ट कॉस्ट एलपीजी बोटलिंग प्लान्ट प्रा. लि.
583.	75009	मैसर्स डोलेक्स सेल्स एजेन्सीज प्रा. लि.	614.	11477	मैसर्स ईस्ट एकरा कोलियरी कं. प्रा. लि.
584.	29821	मैसर्स डॉल केम इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	615.	64272	मैसर्स ईस्ट इण्डिया सिलिंडर प्रा. लि.
585.	64543	मैसर्स डॉल्फिन डीलकॉम प्रा. लि.	616.	31430	मैसर्स ईस्ट इण्डिया गियर्स प्रा. लि.
586.	89945	मैसर्स डॉल्फिन रिसर्च फाउण्डेशन लि.	617.	85772	मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयर कंडीशनिंग प्रा. लि.
587.	24055	मैसर्स डूम डूमा ऑटोमोबाईलस प्रा. लि.	618.	29957	मैसर्स ईस्टर्न बेटको प्रा. लि.
588.	45339	मैसर्स डोरवेल वूड इण्डिया प्रा. लि.	619.	27278	मैसर्स ईस्टर्न ब्यालर मार्केटिंग प्रा. लि.
589.	76806	मैसर्स डोसान इन्टरप्राइसेज प्रा. लि.	620.	77228	मैसर्स ईस्टर्न कैलिब्रेटर्स एण्ड कंसल्टेंट्स इण्डिया प्रा. लि.
590.	71236	मैसर्स डोवर मेडिकल सेन्टर प्रा. लि.	621.	31948	मैसर्स ईस्टर्न कोक मैन्यूफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.
591.	54453	मैसर्स डॉवेल सेविंग्स एण्ड हाउसिंग इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.	622.	90611	मैसर्स ईस्टर्न डायकैम प्रा. लि.
592.	44441	मैसर्स डाउन इस्ट टॉवर्स प्रा. लि.	623.	30642	मैसर्स ईस्टर्न फाईन-ओ-सिन्थेटिक प्रा. लि.
593.	54013	मैसर्स डीपीसीएसडी कंस्ट्रक्शन एण्ड लीजिंग कं. प्रा. लि.	624.	27102	मैसर्स ईस्टर्न ग्रेफाईट एण्ड मिनरल्स प्रा. लि.
594.	31332	मैसर्स ड्रग चेम्बर प्रा. लि.	625.	71593	मैसर्स ईस्टर्न इण्डिया टेलीलॉक प्रा. लि.
595.	54070	मैसर्स डीयू इन्वेस्टमेंट्स लि.	626.	78104	मैसर्स ईस्टर्न निकोलॉय प्रा. लि.

1	2	3
627.	53791	मैसर्स ईस्टर्न फाइटो केमिकल्स मैनुफैक्चर एण्ड रिसर्च प्रा. लि.
628.	81036	मैसर्स ईस्टर्न रियलटर्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
629.	59797	मैसर्स ईस्टर्न स्कैन सिस्टम (इण्डिया) प्रा. लि.
630.	25216	मैसर्स ईस्टर्न स्टील एण्ड इन्जीनियरिंग कारपोरेशन प्रा. लि.
631.	50885	मैसर्स ईस्टर्न टूल्स मैनुफैक्चरिंग प्रा. लि.
632.	77090	मैसर्स ईस्टर्न ट्रांसकॉम प्रा. लि.
633.	44074	मैसर्स ईस्टर्न विडियो प्रा. लि.
634.	29878	मैसर्स इक्वैलिटी प्रिंटिंग प्रेस प्रा. लि.
635.	75252	मैसर्स इक्लेक्ट्रीक इम्पैक्स (इण्डिया) प्रा. लि.
636.	31559	मैसर्स इकोनॉमिक डाय सेन्टर प्रा. लि.
637.	29745	मैसर्स इकोनॉमिक मेटल्स प्रा. लि.
638.	65185	मैसर्स इक्रीत सिस्टम्स प्रा. लि.
639.	43765	मैसर्स इडेन नर्सिंग होम प्रा. लि.
640.	53510	मैसर्स एजुकेशन इम्पोरियम प्रा. लि.
641.	37745	मैसर्स इफेक्टिव डाटा कंट्रोल सर्विसेज प्रा. लि.
642.	41686	मैसर्स इआई इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लि.
643.	43125	मैसर्स इस्कु एग्री इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
644.	58706	मैसर्स इकाबिंशस्तब्दी इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
645.	24959	मैसर्स इलेक्ट्रीकल इन्सुलेंटिंग ट्यूब्स प्रा. लि.
646.	31245	मैसर्स इलेक्ट्रो मेटल (इण्डिया) प्रा. लि.
647.	40584	मैसर्स इलेक्ट्रोमेकार (इण्डिया) प्रा. लि.
648.	37915	मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लि.
649.	78827	मैसर्स एलीजेन्ट मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
650.	33314	मैसर्स इलेक्ट्रो टेक्नीक (इण्डिया) प्रा. लि.
651.	84809	मैसर्स एलिट टी सप्लायर्स प्रा. लि.
652.	33226	मैसर्स एलिट ट्रेडर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स प्रा. लि.
653.	60060	मैसर्स एल्लेन इन्वेस्टमेंट कम्पनी (इण्डिया) प्रा. लि.
654.	70020	मैसर्स एलोरा डीलर्स प्रा. लि.
655.	27737	मैसर्स एल्मा पॉवर आर्क्स प्रा. लि.
656.	55711	मैसर्स इम्प्रीटेक्स एक्जीम प्रा. लि.
657.	53543	मैसर्स इमेकॉन कंसल्टेन्सी प्रा. लि.

1	2	3
658.	70025	मैसर्स इमेरेल्ड विनिमय प्रा. लि.
659.	54164	मैसर्स इएमजी होल्डिंग्स लि.
660.	57892	मैसर्स इम्प्रो मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
661.	59961	मैसर्स इएमटी इन्जीनियर्स प्रा. लि.
662.	58192	मैसर्स इमत्री इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
663.	33837	मैसर्स इनामौर इन्वेस्टमेंट्स लि.
664.	32799	मैसर्स इन्कोर एक्सपोर्ट प्रा. लि.
665.	62849	मैसर्स इन्डियावर एक्जुआ लाईफ प्रा. लि.
666.	57864	मैसर्स इन्डॉव कटिक्स प्रा. लि.
667.	30429	मैसर्स इनेस इन्टरप्राइजेज (इन्जीनियरिंग) प्रा. लि.
668.	57774	मैसर्स इन्मोर कोम्प्युटिज प्रा. लि.
669.	68353	मैसर्स इन्नॉन टेक्नोलॉजिज प्रा. लि.
670.	80947	मैसर्स इन्ब्रोमिन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
671.	88460	मैसर्स इफार्मा मार्केटिंग प्रा. लि.
672.	62836	मैसर्स इक्युनोक्स इन्जीनियरिंग प्रा. लि.
673.	57532	मैसर्स इरेकॉन हाउसिंग फिनान्स कम्पनी लि.
674.	30661	मैसर्स इरमोस इण्डिया प्रा. लि.
675.	83880	मैसर्स इसारकैय निर्माण प्रा. लि.
676.	30577	मैसर्स इस्केय (परिवार) प्रोपर्टीज प्रा. लि.
677.	57233	मैसर्स इस्सार हाउसिंग एण्ड फिनान्स लि.
678.	50390	मैसर्स इस्सेम फेब्रिकेटर्स प्रा. लि.
679.	29777	मैसर्स इटीए कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
680.	48871	मैसर्स इथनार्च फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
681.	61598	मैसर्स इयुम कॉमर्शियल कम्पनी प्रा. लि.
682.	43971	मैसर्स यूरो सर्विसेज एण्ड होल्डिंग्स प्रा. लि.
683.	54720	मैसर्स एवरेस्ट एग्री प्रा. लि.
684.	56555	मैसर्स एवरेस्ट इन्वेस्टमेंट एण्ड लीजिंग लि.
685.	45304	मैसर्स एवरेस्ट लायजन्स कम्पनी प्रा. लि.
686.	58524	मैसर्स एवरेस्ट ट्रांसफॉर्मर्स प्रा. लि.
687.	27632	मैसर्स एवरफ्रेश टी कम्पनी प्रा. लि.
688.	61300	मैसर्स एवरग्रीन इस्पात प्रा. लि.
689.	63416	मैसर्स एवरग्रीन टाई-अप प्रा. लि.
690.	36283	मैसर्स एवरलास्ट होल्डिंग्स लि.

1	2	3
691.	63693	मैसर्स एवरवेयर एक्सपोर्टर्स प्रा. लि.
692.	70022	मैसर्स एक्ससेल्लॉन कोमोडिटीज प्रा. लि.
693.	43020	मैसर्स एक्ससेप्शनल कंसलटेन्सी सर्विसेज प्रा. लि.
694.	82702	मैसर्स एक्सकलुसिव मर्चेन्डाईज प्रा. लि.
695.	29979	मैसर्स एक्सप्रेस इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
696.	55210	मैसर्स एक्सप्रेस लीज एण्ड फिनान्स प्रा. लि.
697.	55164	मैसर्स एक्सटोल क्रेडिट एण्ड हाउसिंग प्रा. लि.
698.	85808	मैसर्स एफ. एच. ई. एग्रो राईस मिल प्रा. लि.
699.	29615	मैसर्स एफ. के. बिल्डर्स एण्ड कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
700.	55686	मैसर्स फेयर राईट प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
701.	56368	मैसर्स फेयर व्यू हाउसिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड
702.	81705	मैसर्स फार्मस्टार (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
703.	57817	मैसर्स फारोस क्रेडिट एण्ड हायर पर्वेज (इण्डिया) लिमिटेड
704.	88812	मैसर्स फैशनाडा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
705.	60138	मैसर्स फेब कंस्ट्रक्शन फाईनेन्स इण्डिया लिमिटेड
706.	55163	मैसर्स फेयर फिन्वेस्ट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
707.	57552	मैसर्स फेवरेबल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड
708.	50585	मैसर्स एफडीटी टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
709.	61386	मैसर्स फेलेक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्स्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
710.	83512	मैसर्स फेरो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
711.	56265	मैसर्स फेस्को इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
712.	52969	मैसर्स फेस्टीनो कोल एण्ड कोक प्राईवेट लिमिटेड
713.	57873	मैसर्स फेस्टिवल फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
714.	54267	मैसर्स फिक्कोल ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड
715.	63850	मैसर्स फिंदुस प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
716.	22325	मैसर्स फिंगिस प्राईवेट लिमिटेड
717.	57360	मैसर्स फाईन प्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
718.	68127	मैसर्स फर्स्ट रो डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
719.	37401	मैसर्स फिट पैक प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
720.	29642	मैसर्स फिटवेल फास्टनर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
721.	82537	मैसर्स फिटवर्थ इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
722.	57440	मैसर्स फिज्जा विनियोग प्राईवेट लिमिटेड
723.	67856	मैसर्स फोनयना एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
724.	63583	मैसर्स फोरसीला सिक्क्यूरिटीज लिमिटेड
725.	46900	मैसर्स फोरच्यून प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
726.	56584	मैसर्स फ्रेश एण्ड सॉफ्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
727.	31262	मैसर्स फ्रेण्ड्स प्रेस मेटल प्राईवेट लिमिटेड
728.	31049	मैसर्स फुल राउण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
729.	67457	मैसर्स फुलब्लूम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
730.	67463	मैसर्स फुलब्लूम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
731.	63049	मैसर्स फुल्पी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
732.	59444	मैसर्स फ्यूरोर ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
733.	60335	मैसर्स फ्यूचरा कैपिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड
734.	54448	मैसर्स फ्यूचर लाईफ फिन्को एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड
735.	54366	मैसर्स फ्यूचर लाईफ सेविंग्स एण्ड फिन्वेस्ट लिमिटेड
736.	46952	मैसर्स फ्यूचरिस्टिक बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड
737.	86127	मैसर्स जी एस ए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
738.	28505	मैसर्स जी. डी. सी. कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
739.	29424	मैसर्स जी. डी. एम. कॉन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
740.	55891	मैसर्स जी. एल. इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
741.	81461	मैसर्स जी. एम. बिल्डिंग कम्प्लेक्स कम्पनी लिमिटेड
742.	429656	मैसर्स गदाधर इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
743.	60478	मैसर्स गेनवेल कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
744.	36272	मैसर्स गजानन्द व्यापार लिमिटेड
745.	73338	मैसर्स गम ट्रेडफिन प्राईवेट लिमिटेड
746.	62990	मैसर्स गणपति मैनेजमेन्ट एण्ड कंसलटेन्सी सर्विसेज लिमिटेड
747.	80953	मैसर्स गणपति प्रचार प्राईवेट लिमिटेड
748.	84586	मैसर्स गणपति टी कम्पनी लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
749.	68421	मैसर्स गणदेवी ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड	775.	530193	मैसर्स जनरल सेविंग्स एण्ड चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
750.	73057	मैसर्स गाँधी एण्ड गाँधी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	776.	59895	मैसर्स जेनेसिस कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
751.	78248	मैसर्स गणेश डीलिंग प्राईवेट लिमिटेड	777.	54461	मैसर्स जेनेसीसी ट्रेडर्स एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
752.	78814	मैसर्स गणेश डीलिंग प्राईवेट लिमिटेड	778.	48072	मैसर्स जेनुईन होलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
753.	60757	मैसर्स गंगा फाईनेन्सर्स प्राईवेट लिमिटेड	779.	21459	मैसर्स घनश्यामदास जयदयाल प्राईवेट लिमिटेड
754.	61585	मैसर्स गंगाधरम सेल्स प्रमोशन प्राईवेट लिमिटेड	780.	64658	मैसर्स जिल्टेज एडवर्टिजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
755.	31239	मैसर्स गणपति कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	781.	63366	मैसर्स जिम्पेक्स ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
756.	78772	मैसर्स गार्डन कोम्पोजिटीज प्राईवेट लिमिटेड	782.	56456	मैसर्स गिरिजानंद एजेन्सीज सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
757.	54474	मैसर्स गारने फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड	783.	46856	मैसर्स गिरिराज शील्लेक इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
758.	60452	मैसर्स गेटवे ट्वेन्टीवन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	784.	68240	मैसर्स ग्लेडियेटर गुड्स प्राईवेट लिमिटेड
759.	66777	मैसर्स गाथेर्ड मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	785.	57384	मैसर्स ग्लेडियेटर लेदर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
760.	54478	मैसर्स गतिशील कॉमर्शियल एण्ड क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड	786.	33973	मैसर्स ग्लैमर पिकचर्स प्राईवेट लिमिटेड
761.	84458	मैसर्स गौरव ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	787.	66775	मैसर्स ग्लोम्स ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
762.	21912	मैसर्स गेय गेय ऑटोमोबाईल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	788.	71310	मैसर्स ग्लिट्ज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
763.	30641	मैसर्स गजानुन्द बिस्सेस्वारलाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	789.	68766	मैसर्स ग्लोब ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
764.	62571	मैसर्स गजेल कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	790.	58839	मैसर्स जीएमआई इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
765.	56221	मैसर्स जीबीएस कैसेट्स एण्ड रिकॉर्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	791.	55507	मैसर्स गॉड ब्लेस क्रेडिट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
766.	33352	मैसर्स जी. डी. पैकिंग एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	792.	52816	मैसर्स गोधुली फाईनेन्स एण्ड हायर पचेज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
767.	46113	मैसर्स गीता क्रेडिट एण्ड ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड	793.	71701	मैसर्स गाडवेज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
768.	75204	मैसर्स गीता फाईनेन्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	794.	56379	मैसर्स गॉड-विन फिनवेस्ट क्रेडिट कम्पनी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
769.	87519	मैसर्स गीतांजली मैन्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	795.	54222	मैसर्स गोकुल इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
770.	64936	मैसर्स गीतांजली टाउनशीप कम्पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड	796.	27783	मैसर्स गोलाम्बो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
771.	48124	मैसर्स जेलकोल्ड एयरकंडीशनिंग प्राईवेट लिमिटेड	797.	27301	मैसर्स गोलछा टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
772.	63690	मैसर्स जेमिनी हाईब्रीड सीड्स प्राईवेट लिमिटेड	798.	63955	मैसर्स गोल्ड क्रैस्ट मर्चेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
773.	88831	मैसर्स जनरल डायनेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड	799.	58517	मैसर्स गोल्डेन बनयान फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड
774.	14182	मैसर्स जनरल इन्स्ट्रुमेंट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	800.	72494	मैसर्स गोल्डस्टार एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
			801.	55091	मैसर्स गोलपार कम्पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड
			802.	86583	मैसर्स गोमती मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
			803.	76330	मैसर्स गुडअर्थ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
804.	53545	मैसर्स गुड फूड मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड	833.	70859	मैसर्स ग्रीन हॉर्न वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड
805.	57668	मैसर्स गुडअर्थ एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	834.	70860	मैसर्स ग्रीन हॉर्न विन्कॉम प्राईवेट लिमिटेड
806.	47765	मैसर्स गुडफेथ इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	835.	84168	मैसर्स ग्रीनेज एगोटेक लिमिटेड
807.	63954	मैसर्स गुडमैप कॉन्ट्रा प्राईवेट लिमिटेड	836.	54908	मैसर्स ग्रीनडे फाईनेंस एण्ड क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
808.	78825	मैसर्स गुडरॉक ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	837.	76264	मैसर्स ग्रीनफील्ड्स हनविता एगो प्राईवेट लिमिटेड
809.	32974	मैसर्स गुमबीड़ा वेयरहाउस प्राईवेट लिमिटेड	838.	82754	मैसर्स ग्रीनटेक फाईनेंस लिमिटेड
810.	67152	मैसर्स गुंजा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	839.	77774	मैसर्स ग्रीण्डवेल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
811.	53957	मैसर्स गोप फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	840.	77439	मैसर्स ग्रीण्डवेल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
812.	70447	मैसर्स गोपीसन्स सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	841.	58197	मैसर्स प्रोमोर मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
813.	56389	मैसर्स गोशाला फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	842.	65444	मैसर्स गौन्ज व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
814.	44459	मैसर्स गौर पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	843.	68096	मैसर्स गुजरात एनआरई फाईनेंसशिथल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
815.	30553	मैसर्स गौरव (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	844.	68094	मैसर्स गुजरात एनआरई गैसेज प्राईवेट लिमिटेड
816.	68216	मैसर्स गोरंग कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	845.	44478	मैसर्स गुलमर्ग इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
817.	56581	मैसर्स गौरलैण्ड सेविंग्स एण्ड क्रेडिट कम्पनी इण्डिया लिमिटेड	846.	43717	मैसर्स गुंजन इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
818.	36287	मैसर्स गोविन्द वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड	847.	77601	मैसर्स गुप्ता ऑटो फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
819.	25697	मैसर्स गोयल कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	848.	65221	मैसर्स गुप्ता फेरस एण्ड नॉन-फेरस प्राईवेट लिमिटेड
820.	36240	मैसर्स ग्रेस (इण्डिया) लिमिटेड	849.	17894	मैसर्स गुप्ताज टी हाउस लिमिटेड
821.	31106	मैसर्स ग्रामीण म्युचुअल बेनिफिट सोसाइटी प्राईवेट लिमिटेड	850.	80747	मैसर्स गुरुजी एजेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
822.	54819	मैसर्स ग्रेनेरी हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन (इण्डिया) लिमिटेड	851.	33424	मैसर्स एच टी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
823.	58004	मैसर्स ग्राफ्को ब्रेवेरिज लिमिटेड	852.	59965	मैसर्स एच मंडल (आर्टिटेक्ट्स) प्राईवेट लिमिटेड
824.	55658	मैसर्स ग्राफ्का फाईनेंसशिथल सर्विसेज लिमिटेड	853.	43835	मैसर्स एच. एस. होलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
825.	67830	मैसर्स ग्राफ्को स्पीनिंग एण्ड निटिंग लिमिटेड	854.	31437	मैसर्स हेब्ल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
826.	67812	मैसर्स ग्राफ्को टेक्सटाईल्स लिमिटेड	855.	54729	मैसर्स हैडली हाईड्रोएलिक्स प्राईवेट लिमिटेड
827.	65414	मैसर्स ग्राप्स ट्रेड प्रोमोटर लिमिटेड	856.	76566	मैसर्स हाल्डेन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
828.	43256	मैसर्स ग्रासरूट्स इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	857.	52970	मैसर्स हलदर ग्लास एण्ड सिलिकेट प्राईवेट लिमिटेड
829.	53747	मैसर्स ग्रेट वेल फाईनेंस एण्ड हाउसिंग (इण्डिया) लिमिटेड	858.	66025	मैसर्स हल्दिया शिपिंग एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
830.	56325	मैसर्स ग्रीन बनयान फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	859.	48057	मैसर्स हल्दिया सेविंग्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
831.	55104	मैसर्स ग्रीन चिप सिस्टम्स डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड	860.	75764	मैसर्स हैल्मन डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड
832.	52606	मैसर्स ग्रीन क्रॉस ट्रेवेल्स प्राईवेट लिमिटेड	861.	50514	मैसर्स हामस फिरकल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
			862.	72753	मैसर्स हैम्पशायर कंसलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
			863.	66197	मैसर्स हैपिंग मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
			864.	27317	मैसर्स हैप्पी लैण्ड फार्म प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
865.	49221	मैसर्स हैम्पी मर्केन्टाईल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	895.	80503	मैसर्स हाई-टेक इंडस्ट्रीयल प्लान्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
866.	78255	मैसर्स हरलालका भोवनीपुर टैक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड	896.	80536	मैसर्स हितेश गार्मेन्ट्स एण्ड फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
867.	36334	मैसर्स हरे कृष्णा इन्वेस्टमेंट एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	897.	43895	मैसर्स हितरोनिक डिजिटल कंट्रोल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
868.	78823	मैसर्स हरिओम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	898.	75253	मैसर्स एचएमपी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
869.	57889	मैसर्स हरिश्ता मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	899.	30870	मैसर्स होली इण्डियन नैचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
870.	75477	मैसर्स हाल्ले इन्वायरोफलो एशिया प्राईवेट लिमिटेड	900.	68242	मैसर्स होली-फेथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
871.	69973	मैसर्स हाट्स सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	901.	37640	मैसर्स होमकेयर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
872.	43935	मैसर्स हैज ट्रान्सपोर्ट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	902.	51531	मैसर्स होमली सर्विंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
873.	76820	मैसर्स हाथीमल निर्मल कुमार प्राईवेट लिमिटेड	903.	63073	मैसर्स होन्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
874.	87630	मैसर्स हाति कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	904.	85625	मैसर्स हुगली केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
875.	29858	मैसर्स हेयग्रीव क्रेडिट एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	905.	86466	मैसर्स हुगली इण्डस्ट्रीयल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
876.	31397	मैसर्स हीटवेल (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	906.	31495	मैसर्स हुगली लाइटिंज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
877.	30552	मैसर्स हेब्जे इंजीनियर प्राईवेट लिमिटेड	907.	37816	मैसर्स हुगली स्टेण्डर्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
878.	55813	मैसर्स हीलगेर शिपिंग एजेन्सीज एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	908.	56629	मैसर्स हुगली साइंटिफिक इन्स्ट्रुमेंट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
879.	54006	मैसर्स हेल्लो हाउसिंग फाईनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	909.	84418	मैसर्स होप एजुकेशन इन्स्टीच्यूट प्राईवेट लिमिटेड
880.	54223	मैसर्स हेमा लेफिन लिमिटेड	910.	66951	मैसर्स होरिजोन कैपिटल मार्केट लिमिटेड
881.	34495	मैसर्स हेमनगर इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	911.	83151	मैसर्स होर्ट मर्जेन्सर लिमिटेड
882.	57637	मैसर्स हेराल्ड हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड	912.	77532	मैसर्स होटल इपीक्यूर्स प्राईवेट लिमिटेड
883.	45853	मैसर्स हेक्सागोनल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	913.	27672	मैसर्स होटेल नालंदा प्राईवेट लिमिटेड
884.	76451	मैसर्स हाई-टेक वायर्स प्राईवेट लिमिटेड	914.	36496	मैसर्स हाउस ऑफ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
885.	67472	मैसर्स हाईफिल व्यापार प्राईवेट लिमिटेड	915.	64454	मैसर्स हावड़ा इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
886.	80625	मैसर्स हाईग्रोथ कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	916.	84485	मैसर्स हावड़ा टॉर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
887.	80569	मैसर्स हाई-टेक फायर एण्ड सेक्यूरिटी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	917.	63553	मैसर्स हाईडेक्स कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
888.	31266	मैसर्स हिमालयन कैनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	918.	45949	मैसर्स हाईड्रैक्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
889.	16196	मैसर्स हिमतसिंगका मिल्स लिमिटेड	919.	36284	मैसर्स ह्यूनडाई फाईनैसशियल सर्विसेज लिमिटेड
890.	63587	मैसर्स हाई-मैक्स इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	920.	60224	मैसर्स आई. सी. कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
891.	29503	मैसर्स हिमदूत सर्विंग्स प्राईवेट लिमिटेड	921.	89910	मैसर्स आईए पावर डेवलपमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
892.	44375	मैसर्स हिमेल आईस प्राईवेट लिमिटेड	922.	57376	मैसर्स इसीटी एक्सजर प्राईवेट लिमिटेड
893.	43152	मैसर्स हिन्टेक्स टी प्राईवेट लिमिटेड	923.	54251	मैसर्स इला होलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
894.	29364	मैसर्स हिरन टोबैक्को फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड	924.	57837	मैसर्स इलुजन्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
			925.	52957	मैसर्स इमेज मेकर (टेफेन) प्राईवेट लिमिटेड
			926.	48288	मैसर्स इम्पेरियल फिस्कल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
927.	21029	मैसर्स इम्पेक्स कलकत्ता प्राईवेट लिमिटेड	955.	8634	मैसर्स इन्सुरेंस ऑफ इण्डिया लिमिटेड
928.	70923	मैसर्स इम्पेक्स इण्डिया ट्रेडिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड	956.	59611	मैसर्स इन्टेग्रेटेड लोजिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
929.	54846	मैसर्स इन्कोस कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	957.	72027	मैसर्स इन्टर कॉमर्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
930.	33751	मैसर्स इन्देव डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड	958.	22910	मैसर्स इन्टरनेशनल स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
931.	69648	मैसर्स इण्डिया कॉन्कार्ड ट्रेडिंग एण्ड फाईनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	959.	38705	मैसर्स इन्ट्रोसियन शिपिंग (कलकत्ता) प्राईवेट लिमिटेड
932.	27029	मैसर्स इण्डिया क्रॉस मशीन्स लिमिटेड	960.	72203	मैसर्स इन्टेक्स इण्डिया कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
933.	29359	मैसर्स इण्डियन क्रोप मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	961.	48150	मैसर्स इन्टीमेट सेविंग्स एण्ड क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड
934.	30520	मैसर्स इण्डियन फिशेरिज प्राईवेट लिमिटेड	962.	85233	मैसर्स इन्वीन्सीबल इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
935.	78829	मैसर्स इन्दीवर कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	963.	66031	मैसर्स इष्का कोम्पोजिटीज प्राईवेट लिमिटेड
936.	25800	मैसर्स इन्डो-बंगाल प्लास्टिक एसोसियेशन	964.	43950	मैसर्स आईपीएस पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
937.	81526	मैसर्स इन्डो ब्रिटिश प्रोमेगा प्राईवेट लिमिटेड	965.	75066	मैसर्स इरिस मीडिया एण्ड कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
938.	21161	मैसर्स इन्डो नेपाल कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड	966.	75068	मैसर्स इरिस सर्जिकल एण्ड फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
939.	36529	मैसर्स इन्द्रमणि (इण्डिया) लिमिटेड	967.	54029	मैसर्स इसेप्स जनरल फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
940.	63339	मैसर्स इन्द्रप्रस्थ इस्टेट्स लिमिटेड	968.	34446	मैसर्स इस्सार पॉली इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
941.	48109	मैसर्स इन्द्रपुरी लैण्ड एण्ड हाउसिंग इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	969.	34680	मैसर्स आईटीसी टीज प्राईवेट लिमिटेड
942.	63041	मैसर्स इन्द्रेपा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	970.	56525	मैसर्स जे. जे. स्पीन्सर्स लिमिटेड
943.	27454	मैसर्स इन्दु प्लास्टिक्स (सेल्स) प्राईवेट लिमिटेड	971.	30669	मैसर्स जे. एस. एक्सपोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
944.	45701	मैसर्स इन्दु सिलिका प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	972.	62048	मैसर्स जे. सेनगुप्ता एण्ड एसोसियेट्स (कॉन्ट्रेक्टर्स) प्रा. लि.
945.	83926	मैसर्स इण्डस्ट्रीयल कार्बाइड एण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	973.	45126	मैसर्स जे. पी. चन्द्राणी प्रा. लि.
946.	66206	मैसर्स इण्डस्ट्रीयल कम्पोनेंट्स बीकेएम प्राईवेट लिमिटेड	974.	67507	मैसर्स जगदम्बा प्लान्टेशन प्रा. लि.
947.	25712	मैसर्स इण्डस्ट्रीयल फ्यूल एण्ड लुब्रीकेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	975.	68215	मैसर्स जहुरा कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा. लि.
948.	29515	मैसर्स इण्डस्ट्रीयल इंस्ट्रुमेंट्स (कलकत्ता) प्राईवेट लिमिटेड	976.	73350	मैसर्स जय मोंतारा कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
949.	15841	मैसर्स इण्डस्ट्रीयल सर्विस एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	977.	56775	मैसर्स जयललिता मर्केन्टायिल्स प्रा. लि.
950.	59718	मैसर्स इनफिनिटि रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड	978.	31013	मैसर्स जैन एण्ड एसोसियेट्स (इण्डिया) प्रा. लि.
951.	91490	मैसर्स इन्फो आईडियाज टेक प्राईवेट लिमिटेड	979.	43891	मैसर्स जैन आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस प्रा. लि.
952.	91488	मैसर्स इन्फो वेब सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	980.	37595	मैसर्स जैन फिनांस एण्ड लीजिंग कम्पनी लि.
953.	91487	मैसर्स इन्फोसेल टेक प्राईवेट लिमिटेड	981.	02760	मैसर्स जैनटी (सेन्ट्रल) कोलियरी लि.
954.	21210	मैसर्स इन्फेज एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	982.	78105	मैसर्स जयराज इम्पोरियम प्रा. लि.
			983.	75284	मैसर्स जायसवाल इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
984.	02160	मैसर्स जलपाईगुडी लक्ष्मी लोन ऑफिस लि.	1016.	75514	मैसर्स जीनेन फाइनान्शियल सर्विसेज प्रा. लि.
985.	58132	मैसर्स जल-तरंग सेविंग्स एण्ड फाइनेन्स प्रा. लि.	1017.	59721	मैसर्स जीतेन्द्र मेमोरियल मेडिकल सर्विसेज प्रा. लि.
986.	75092	मैसर्स जणगण फिन्वेस्ट (इण्डिया) लि.	1018.	74166	मैसर्स जेकेबी बिल्डर्स प्रा. लि.
987.	55650	मैसर्स जनरक्ष सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.	1019.	71849	मैसर्स जेकेएम बिल्डर्स प्रा. लि.
988.	33061	मैसर्स जनतेज कॉमर्शियल इन्टरप्राइजेज लि.	1020.	71850	मैसर्स जेकेएम रियल इस्टेट प्रा. लि.
989.	63677	मैसर्स जैप्स इम्पेक्स प्रा. लि.	1021.	77558	मैसर्स जेएमएस कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
990.	33295	मैसर्स जयधारी केमिकल वर्क्स प्रा. लि.	1022.	25674	मैसर्स ज्ञानलोक प्रा. लि.
991.	21482	मैसर्स जयशंकर एण्ड कम्पनी प्रा. लि.	1023.	29541	मैसर्स जोगमाया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स प्रा. लि.
992.	33526	मैसर्स जातेक्स कॉमर्शियल कम्पनी लि.	1024.	54151	मैसर्स ज्वानटॉप सेविंग्स (इण्डिया) लि.
993.	59937	मैसर्स जातिया लीजिंग प्रा. लि.	1025.	31334	मैसर्स जॉनसन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
994.	55932	मैसर्स जवान बीड़ी प्रा. लि.	1026.	86084	मैसर्स जॉय सिटी होटल रिसोर्ट्स प्रा. लि.
995.	53813	मैसर्स जयन्ती केमिकल्स एण्ड पिग्मेंट्स प्रा. लि.	1027.	50590	मैसर्स जयगुरु राइस मिल प्रा. लि.
996.	21483	मैसर्स जयन्तीलाल एण्ड सन्स प्रा. लि.	1028.	77655	मैसर्स जॉयलैण्ड मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
997.	63731	मैसर्स जायसवाल हाउसिंग डेवलपमेंट प्रा. लि.	1029.	82658	मैसर्स जेएसबी ट्रेडिंग प्रा. लि.
998.	68471	मैसर्स जयमैन ट्रेड प्रा. लि.	1030.	50062	मैसर्स जुबिली डेवलपर्स प्रा. लि.
999.	31126	मैसर्स जयसील प्रा. लि.	1031.	65613	मैसर्स जुही फेबट्रेड प्रा. लि.
1000.	47540	मैसर्स जीत प्रोसेस सप्लाय कम्पनी प्रा. लि.	1032.	56303	मैसर्स जुही सेल्स एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि.
1001.	33378	मैसर्स जीवक फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.	1033.	29966	मैसर्स जुली टी सेविंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी प्रा. लि.
1002.	66593	मैसर्स जेट ऐज कॉमर्शियल कम्पनी प्रा. लि.	1034.	22414	मैसर्स जुपीटर यूनिन (इण्डिया) प्रा. लि.
1003.	90660	मैसर्स जेट ऐयरबेस एण्ड मेन्टेनेन्स प्रा. लि.	1035.	82124	मैसर्स जूट प्रोडक्ट्स डेवलपर्स प्रा. लि.
1004.	82524	मैसर्स जेट ग्रोथ कैपिटल मार्केट्स लि.	1036.	56900	मैसर्स ज्याइन इम्पेक्स प्रा. लि.
1005.	69572	मैसर्स जेटएयर मार्बल प्रा. लि.	1037.	30261	मैसर्स के एल बागरी (स्टील) लि.
1006.	69571	मैसर्स जेटएयर सप्लाय प्रा. लि.	1038.	75301	मैसर्स के एम एन ट्रेडर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1007.	30313	मैसर्स ज्वेल इन्वेस्टमेंट्स लि.	1039.	48961	मैसर्स के. सी. पॉल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
1008.	66529	मैसर्स ज्वेलरॉक टाई-अप प्रा. लि.	1040.	81499	मैसर्स के. सी. एस. कुरियर सर्विस प्रा. लि.
1009.	18277	मैसर्स झाझरिया ट्रेडिंग कम्पनी लि.	1041.	62384	मैसर्स के. जे. फिन्वेस्ट प्रा. लि.
1010.	60126	मैसर्स झान्कर सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (आई) लि.	1042.	58541	मैसर्स के. के. फाइनेन्स प्रा. लि.
1011.	57409	मैसर्स झावर कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	1043.	24954	मैसर्स के. के. राय प्रा. लि.
1012.	68772	मैसर्स झीकझीक विनिमय प्रा. लि.	1044.	53960	मैसर्स के. स्टील एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
1013.	27675	मैसर्स झुनझुनु एजेन्ट्स प्रा. लि.	1045.	30505	मैसर्स कबिता फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
1014.	46517	मैसर्स झुनझुनवाला क्रेडिट्स प्रा. लि.	1046.	74627	मैसर्स कदम प्लान्टेशन प्रा. लि.
1015.	63585	मैसर्स जियाजी रोडवेज़ प्रा. लि.	1047.	71374	मैसर्स कदमबारी फण्ड्स प्रा. लि.
			1048.	57462	मैसर्स कैलाश फार्म्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1049.	80844	मैसर्स कैजन मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	1081.	80180	मैसर्स केयकॉन इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्रा. लि.
1050.	82047	मैसर्स कैजेन कंसल्टेंट्स प्रा. लि.	1082.	60092	मैसर्स केबीएस होल्डकॉन प्रा. लि.
1051.	63797	मैसर्स कैजर इन्जीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.	1083.	35304	मैसर्स केसीबीपी कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
1052.	61387	मैसर्स काकद्वीप सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.	1084.	50765	मैसर्स कियट्स ट्रेडिंग प्रा. लि.
1053.	50481	मैसर्स ककरानिया इम्पेक्स प्रा. लि.	1085.	16533	मैसर्स केदार नाथ मुखर्जी एण्ड सन्स प्रा. लि.
1054.	62386	मैसर्स काकुफसाई इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	1086.	31232	मैसर्स केदार नाथ ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
1055.	79934	मैसर्स काली हाउस प्रा. लि.	1087.	8739	मैसर्स केदारनाथ पसोतम दास एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
1056.	47580	मैसर्स कल्पना कम्बाईन्स प्रा. लि.	1088.	58300	मैसर्स केडिया मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
1057.	85999	मैसर्स कल्याणेश्वरी बेकर्स प्रा. लि.	1089.	33254	मैसर्स केडिया प्रेस एण्ड पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1058.	65735	मैसर्स कल्याणी डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रा. लि.	1090.	29153	मैसर्स केनापो क्रिम्पर्स प्रा. लि.
1059.	55927	मैसर्स कल्याणी प्रेसिंग्स लि.	1091.	29751	मैसर्स केरल प्लास्टिक्स प्रा. लि.
1060.	78981	मैसर्स कल्याणकारी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	1092.	63654	मैसर्स केशव विनियम प्रा. लि.
1061.	54148	मैसर्स कमल कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्क्लेव प्रा. लि.	1093.	25790	मैसर्स केयेन केमिकल्स कम्पनी प्रा. लि.
1062.	74472	मैसर्स कमला ब्रेजिंग्स प्रा. लि.	1094.	36713	मैसर्स केयनिंग क्रोम एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
1063.	66096	मैसर्स कामरूप टाई-अप प्रा. लि.	1095.	52835	मैसर्स कीस्टोन कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
1064.	30561	मैसर्स कंचन फाइनान्स डेवलपमेंट कम्पनी लि.	1096.	68673	मैसर्स कीटच इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
1065.	54371	मैसर्स कंचन करिश्मा क्रेडिट इण्डिया लि.	1097.	65740	मैसर्स खेतान फिस्कल सर्विसेज प्रा. लि.
1066.	66419	मैसर्स कंचनजंगा हाई टेक प्रा. लि.	1098.	56580	मैसर्स खेतान निल्लियमसन टी लि.
1067.	61035	मैसर्स चरापाड़ा बेनेफिशियल फिन्वेस्ट (इण्डिया) प्रा. लि.	1099.	14518	मैसर्स खास सामपोर कोल कम्पनी लि.
1068.	34803	मैसर्स कान्दोई प्रोपर्टीज प्रा. लि.	1100.	31341	मैसर्स खेमका ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
1069.	53931	मैसर्स कान्हा टी पैकेजिंग प्रा. लि.	1101.	40065	मैसर्स खेपा कास्टिंग इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1070.	33821	मैसर्स कनिष्क उद्योग विनियोग प्रा. लि.	1102.	77399	मैसर्स खुर्शिद एक्सपोर्ट प्रा. लि.
1071.	80877	मैसर्स कानोसियन एक्सपोर्ट प्रा. लि.	1103.	54030	मैसर्स काइनेटिक जेनरल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
1072.	37666	मैसर्स कानपुर सिगरेट्स लि.	1104.	63988	मैसर्स किंगसटन कंसल्टेंट एण्ड इन्सुरेंस सर्वेयर प्रा. लि.
1073.	4292	मैसर्स करनपुरा कोलियरीज लि.	1105.	74811	मैसर्स किरण डीलर प्रा. लि.
1074.	60243	मैसर्स कर्निका कॉमर्शिल्स प्रा. लि.	1106.	74868	मैसर्स किरपाल सिंह एण्ड कम्पनी (जूट) प्रा. लि.
1075.	81306	मैसर्स करुण्डिया ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी प्रा. लि.	1107.	56224	मैसर्स कीर्ति एक्जीम एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि.
1076.	59754	मैसर्स कास्प्रोब इन्जीनियरिंग प्रा. लि.	1108.	36364	मैसर्स किसालय जेनरल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
1077.	36676	मैसर्स कथादिया टेक्नो-इन्जीनियरिंग प्रा. लि.	1109.	86987	मैसर्स किसान टिल्लर्स एण्ड ट्रेक्टर्स लि.
1078.	71281	मैसर्स कातिया स्टील्स प्रा. लि.	1110.	43872	मैसर्स किसाई कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
1079.	50320	मैसर्स केय इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	1111.	76990	मैसर्स केकेजी शेयर्स एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्रा. लि.
1080.	21356	मैसर्स कयाल प्रा. लि.	1112.	66865	मैसर्स कलाप व्यापार प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1113.	62141	मैसर्स कोएमएस कॉन्टेनर्स प्रा. लि.	1146.	80615	मैसर्स लरी फाइनान्स एण्ड होलिंग्स प्रा. लि.
1114.	31283	मैसर्स नॉक्स एण्ड नॉकर (इण्डिया) प्रा. लि.	1147.	43450	मैसर्स सलसाले (इण्डिया) प्रा. लि.
1115.	79965	मैसर्स कोहिनुर इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	1148.	17900	मैसर्स लौरी एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
1116.		मैसर्स कोहिनुर इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	1149.	41645	मैसर्स नव-कुश होटल प्रा. लि.
1117.	69575	मैसर्स कोकाव व्यापार प्रा. लि.	1150.	65848	मैसर्स लव-कुश विनियोग प्रा. लि.
1118.	79133	मैसर्स कोणार्क लॉज प्रा. लि.	1151.	25287	मैसर्स लॉ मुरे एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
1119.	69569	मैसर्स कॉकण व्यापार प्रा. लि.	1152.	59729	मैसर्स लक्ष्मी रोडवेज प्रा. लि.
1120.	43978	मैसर्स कूल केव कम्पनी प्रा. लि.	1153.	73587	मैसर्स एलडी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
1121.	71110	मैसर्स फूल हर्ब्स प्रा. लि.	1154.	56348	मैसर्स लियाल इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
1122.	55917	मैसर्स कोपैक इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	1155.	71096	मैसर्स लेबेन फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
1123.	43830	मैसर्स कोर्रोस डाटा (इण्डिया) प्रा. लि.	1156.	31254	मैसर्स लीना ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
1124.	60635	मैसर्स क्राफमार्क एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	1157.	59913	मैसर्स लीजेन्डी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट इण्डिया लि.
1125.	80922	मैसर्स कृन्स इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	1158.	27724	मैसर्स लीला प्लास्टिक्स प्रा. लि.
1126.	61483	मैसर्स कृप्स कनफेक्शनेरीज प्रा. लि.	1159.	48135	मैसर्स लियो फार्म्स प्रा. लि.
1127.	48004	मैसर्स कृष्णा डेयरी प्रा. लि.	1160.	60853	मैसर्स लियोम इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
1128.	65462	मैसर्स कृष्णा इक्विटी फण्ड लि.	1161.	78287	मैसर्स लियोनार्ड ट्रेडर्स प्रा. लि.
1129.	79631	मैसर्स कृष्णस फूड्स प्रा. लि.	1162.	33366	मैसर्स लेस लिफ्ट प्रा. लि.
1130.	55693	मैसर्स क्रुसप स्टील्स प्रा. लि.	1163.	63637	मैसर्स लिबरसन इन्जीनियर्स प्रा. लि.
1131.	68626	मैसर्स क्षितिज मार्केटिंग प्रा. लि.	1164.	66549	मैसर्स लिबरसन गुड्स एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि.
1132.	56005	मैसर्स कुलिक सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.	1165.	89687	मैसर्स लिट्टा हाइड्रोएलिक्स प्रा. लि.
1133.	21437	मैसर्स कुंदन टेक्सटाइल्स प्रा. लि.	1166.	56315	मैसर्स लाईफ बोट फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.
1134.	79878	मैसर्स कुण्डू फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.	1167.	56428	मैसर्स लाईफ बोट सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
1135.	31529	मैसर्स एल सी लॉ एण्ड कम्पनी प्रा. लि.	1168.	56429	मैसर्स लाईफ गेन फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
1136.	67452	मैसर्स एल. ए. फण्ड्स इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	1169.	56227	मैसर्स लाईफ हैप्पी फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
1137.	55852	मैसर्स एल. एन. बिल्डर्स प्रा. लि.	1170.	54441	मैसर्स लाईफ सपोर्ट सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
1138.	57510	मैसर्स एल. एन. हाउसिंग डेवलपमेंट प्रा. लि.	1171.	53954	मैसर्स लाईट शिप सेविंग्स फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
1139.	33503	मैसर्स लाधली टेक्सटाइल्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी लि.	1172.	50603	मैसर्स लिग्ना चेम प्रा. लि.
1140.	79958	मैसर्स लेडी राजशक्ति फार्म हाउस प्रा. लि.	1173.	64088	मैसर्स लिंक-देव-मार्क प्रा. लि.
1141.	31103	मैसर्स लाहा पेण्ट्स प्रा. लि.	1174.	57079	मैसर्स लिस्का कॉमर्शियल कम्पनी प्रा. लि.
1142.	30390	मैसर्स लेक एवेन्यू एजेन्सी लि.			
1143.	79912	मैसर्स ललितम्बा प्रोपर्टीज प्रा. लि.			
1144.	58555	मैसर्स लैण्ड मार्क सर्विसेज प्रा. लि.			
1145.	23370	मैसर्स लैण्ड रिक्लेमेशन कारपोरेशन लि.			

1	2	3
1175.	61977	मैसर्स लिटल रॉयल किङ्सवियर प्रा. लि.
1176.	66532	मैसर्स लाईव-इन-स्टाईल ट्रेडर्स प्रा. लि.
1177.	31358	मैसर्स लोहारीवाला देवता कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
1178.	56480	मैसर्स लोकमान्य हाउसिंग फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
1179.	77777	मैसर्स लोकार्पण कॉमर्स प्रा. लि.
1180.	78791	मैसर्स लोकेश मर्केंटाईल्स प्रा. लि.
1181.	58809	मैसर्स लोकनाथ ऑटोफिन प्रा. लि.
1182.	64806	मैसर्स लॉन्ग रेंज एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1183.	30675	मैसर्स सलोटस स्टीलमेक जेनरल इण्डस्ट्रीज लि.
1184.	54384	मैसर्स लव सीक क्रेडिट एण्ड फिनवेस्ट कम्पनी लि.
1185.	36697	मैसर्स लोवर आसाम टिम्बर प्रा. लि.
1186.	68570	मैसर्स लुकास इन्जीनियरिंग प्रा. लि.
1187.	57328	मैसर्स लुडविग कॉमर्शियल कम्पनी प्रा. लि.
1188.	62397	मैसर्स लुमिनेल्ले एडवर्टीजिंग प्रा. लि.
1189.	91950	मैसर्स लुमिनोस टेक्नोलॉजी प्रा. लि.
1190.	56789	मैसर्स लुण्डिया प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1191.	57507	मैसर्स लाइन्क्स होलिडिंग्स प्रा. लि.
1192.	86833	मैसर्स एम बी प्लान्टेशन प्रा. लि.
1193.	63666	मैसर्स एम सी एस ओवरसीज प्रा. लि.
1194.	21458	मैसर्स एम जी भगत एण्ड सन्स प्रा. लि.
1195.	19863	मैसर्स एम एल चटर्जी इस्टेट प्रा. लि.
1196.	50445	मैसर्स एम पी अपार्टमेंट एण्ड रिसोर्ट प्रा. लि.
1197.	43096	मैसर्स एम पी मार्बल प्रा. लि.
1198.	29750	मैसर्स एम पी प्लास्टिक्स प्रा. लि.
1199.	84833	मैसर्स एम आर मैनेजमेंट एण्ड कंसल्टेन्सी प्रा. लि.
1200.	68228	मैसर्स एम एस ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
1201.	50545	मैसर्स एम सील ट्रेडिंग प्रा. लि.
1202.	43038	मैसर्स एम बी बिल्डर्स प्रा. लि.
1203.	52769	मैसर्स एम ई सी टी चेस्ट प्रा. लि.
1204.	78399	मैसर्स एम एल मोइजा एण्ड ब्रदर्स प्रा. लि.
1205.	56888	मैसर्स एम एम डी इन्जीनियर्स प्रा. लि.

1	2	3
1206.	83178	मैसर्स एम पी ओवरसीज प्रा. लि.
1207.	52532	मैसर्स एम एस रोटी इन्वेवर्स एण्ड इम्पेक्स प्रा. लि.
1208.	77643	मैसर्स एम एस एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1209.	55173	मैसर्स माँ मनशा मेडिकल सेन्टर प्रा. लि.
1210.	63836	मैसर्स माँ निस्टूनी कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1211.	79643	मैसर्स माँ वैष्णो मर्केंटाईल्स प्रा. लि.
1212.	52201	मैसर्स माँ वूमी प्रोपर्टीज प्रा. लि.
1213.	81160	मैसर्स मैकील कोप ऑटो इक्विपमेंट्स प्रा. लि.
1214.	75672	मैसर्स मैकमेट दालीन टेलीवेयर लि.
1215.	59169	मैसर्स मधु क्रेडिट एण्ड कॉमर्शियल लि.
1216.	65747	मैसर्स मधुवन मार्केटिंग प्रा. लि.
1217.	78231	मैसर्स मैड्रीड कॉमर्स प्रा. लि.
1218.	69955	मैसर्स मैगल कॉमर्शियल प्रा. लि.
1219.	57139	मैसर्स मैगनम कन्क्लेव फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
1220.	49164	मैसर्स महादेव क्रेडिट एण्ड इस्टेट्स प्रा. लि.
1221.	59804	मैसर्स महालया इन्वेस्टमेंट प्लान्टेशन एण्ड हायर पर्चेज लि.
1222.	50195	मैसर्स महाराजा ब्रिक्स प्रा. लि.
1223.	51730	मैसर्स महाश्वेता ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
1224.	46385	मैसर्स महेश्वरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
1225.	48128	मैसर्स महमिया फेरो एलॉयज प्रा. लि.
1226.	50482	मैसर्स मॉजगदम्बा डेवलपर्स प्रा. लि.
1227.	48184	मैसर्स माकेश्वर्य फिस्कल सर्विसेज प्रा. लि.
1228.	69547	मैसर्स मकलाम व्यापार प्रा. लि.
1229.	43719	मैसर्स मालदा पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1230.	27757	मैसर्स माल एजेन्सीज प्रा. लि.
1231.	66588	मैसर्स मलमाजरा फाइनान्स प्रा. लि.
1232.	40676	मैसर्स मालिवका लेमिनेट्स प्रा. लि.
1233.	39433	मैसर्स ममता कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
1234.	53741	मैसर्स मान सरोवर सेविंग्स एण्ड फिनवेस्ट लि.
1235.	89679	मैसर्स मनदा राइस मिल प्रा. लि.
1236.	68755	मैसर्स मानवता डीलिंग प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1237.	39674	मैसर्स मानभूम एलॉयज एण्ड स्टील प्रा. लि.	1267.	78575	मैसर्स माश ट्रेडिंग प्रा. लि.
1238.	25634	मैसर्स मनदारिया इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.	1268.	84765	मैसर्स मास टेक्नीकल सर्विस प्रा. लि.
1239.	53260	मैसर्स मंगल ज्योति फिनवेस्ट एण्ड क्रेडिट प्रा. लि.	1269.	90715	मैसर्स मास्टर ट्राक्स इण्डिया प्रा. लि.
1240.	98800	मैसर्स मंगला गौरी सप्लायर्स प्रा. लि.	1270.	99217	मैसर्स मातंगी कोम्पोजिटीज प्रा. लि.
1241.	48451	मैसर्स मंगलदीप पिक्चर्स प्रा. लि.	1271.	52654	मैसर्स माते ऑटो हेल्प प्रा. लि.
1242.	75521	मैसर्स मंगलपुर स्टील प्रा. लि.	1272.	80683	मैसर्स मातु न्यूजप्रिन्ट लि.
1243.	47632	मैसर्स मनीष फिस्कल सर्विसेज प्रा. लि.	1273.	58838	मैसर्स मैक्स सीमेन्ट प्रा. लि.
1244.	58319	मैसर्स मनिषा इरेक्टर्स एण्ड कॉन्टेक्टर्स प्रा. लि.	1274.	57518	मैसर्स मैक्सलक्स लीड लि.
1245.	31154	मैसर्स मंजूश्री प्रा. लि.	1275.	84869	मैसर्स मैक्सवर्थ ट्रेडर्स प्रा. लि.
1246.	77305	मैसर्स मनोज कुमार मनीष कुमार सेक्योरिटीज प्रा. लि.	1276.	88131	मैसर्स माया पैकेजिंग प्रा. लि.
1247.	56958	मैसर्स मन्समता सिनेमा हॉल प्रा. लि.	1277.	34973	मैसर्स मेफेयर इंजीनियर्स एण्ड फेब्रिकेटर्स प्रा. लि.
1248.	47284	मैसर्स मापले शू इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	1278.	64333	मैसर्स मेफेयर टूल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1249.	48116	मैसर्स मराद एजेन्सीज एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.	1279.	31060	मैसर्स मयूर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1250.	57651	मैसर्स मर्केन्डी एक्जुआबेस लि.	1280.	36296	मैसर्स मयूराक्षी शुगर मिल्स प्रा. लि.
1251.	77795	मैसर्स मारदा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	1281.	60536	मैसर्स एमबीए बिजनेस सेन्टर प्रा. लि.
1252.	01469	मैसर्स मार्गरेट्स होप टी कम्पनी लि.	1282.	57597	मैसर्स एमडीके फिनवेस्ट प्रा. लि.
1253.	45546	मैसर्स मरियम राइस मिल प्रा. लि.	1283.	85165	मैसर्स मेकेम इक्युपमेंट्स प्रा. लि.
1254.	60308	मैसर्स मारियान्ने एण्ड कम्पनी (होटेल्स एण्ड ट्रेवल्स) प्रा. लि.	1284.	54014	मैसर्स मेडि टेस्ट लेबोरेटरी प्रा. लि.
1255.	50132	मैसर्स मैरिगोल्ड फिन्को प्रा. लि.	1285.	72142	मैसर्स मीडियाटेक क्रेडिट एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.
1256.	64643	मैसर्स मैरिन हाईड्रोप्रिक्स सर्विसेज प्रा. लि.	1286.	73324	मैसर्स मेडिक-ईसी इक्युपमेंट्स प्रा. लि.
1257.	81451	मैसर्स मैरिन ट्रान्समिसन्स प्रा. लि.	1287.	48149	मैसर्स मीना पॉली पाईप्स प्रा. लि.
1258.	30213	मैसर्स मार्शल इन्जीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स लि.	1288.	55582	मैसर्स मेगा बक्स इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी प्रा. लि.
1259.	89538	मैसर्स मार्टिन ब्राइट स्टील इन्टरनेशनल लि.	1289.	77782	मैसर्स मेगाट्रेन्ड टेक्नोलॉजिज प्रा. लि.
1260.	78859	मैसर्स मार्टिन कॉमर्शियल प्रा. लि.	1290.	78279	मैसर्स मेघना मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
1261.	30711	मैसर्स मारुति होटेल्स लि.	1291.	81043	मैसर्स मेघदूत इन्वेस्टमेंट कम्पनी (इण्डिया) प्रा. लि.
1262.	55331	मैसर्स मार्वेल इण्डिया लि.	1292.	66170	मैसर्स मेघना टाई-अप प्रा. लि.
1263.	60964	मैसर्स मार्वेस इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.	1293.	55924	मैसर्स मेघनी टेक इंजीनियर्स प्रा. लि.
1264.	60743	मैसर्स मार्वलोन फाईनेस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.	1294.	57146	मैसर्स मेलियोरेट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
1265.	56187	मैसर्स मर्यादा ट्रेक्जीम प्रा. लि.	1295.	49573	मैसर्स मेमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
1266.	68884	मैसर्स मास्कॉट अयोटा एक्जुआ कॉमर्शियल कम्पनी प्रा. लि.	1296.	64640	मैसर्स मेम्बर्स म्यूचुअल गारण्टी लि.
			1297.	31034	मैसर्स मेनासियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
			1298.	77631	मैसर्स मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1299.	58658	मैसर्स मर्लिन इन्टरनेशनल प्रा. लि.	1333.	79337	मैसर्स एमएलएस क्लीनिक सेन्टर प्रा. लि.
1300.	54752	मैसर्स मेटलमैन लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.	1334.	58957	मैसर्स एमएम इन्टरप्राइजेज एण्ड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
1301.	58360	मैसर्स मेटलेक्स ट्रेडर्स प्रा. लि.	1335.	8976	मैसर्स मॉडेल निटिंग इण्डस्ट्रीज लि.
1302.	8793	मैसर्स मेट्रोपोलिटन बैंक लि.	1336.	57839	मैसर्स मॉडर्न एशुरेन्स फिनवेस्ट कम्पनी (इण्डिया) लि.
1303.	79804	मैसर्स माइक्रो साईकिल्स प्रा. लि.	1337.	71460	मैसर्स मॉडर्न पेट्रो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
1304.	80336	मैसर्स माइक्रो डायमेनसन्स प्रा. लि.	1338.	45507	मैसर्स मॉडर्न राइस इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1305.	45697	मैसर्स माइक्रो रिप्रोग्राफिक्स प्रा. लि.	1339.	80010	मैसर्स मॉडर्न सेल्स प्रा. लि.
1306.	61655	मैसर्स माइक्रो सोलस कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	1340.	59788	मैसर्स मॉडर्न स्पोर्ट सर्विसेज प्रा. लि.
1307.	57622	मैसर्स माइक्रो ट्रेण्ड प्रा. लि.	1341.	27735	मैसर्स मॉडर्न टॉय इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1308.	54314	मैसर्स माइक्रोन फिनवेस्ट कम्पनी लि.	1342.	46895	मैसर्स मोड्यूलर कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट प्रा. लि.
1309.	63249	मैसर्स मिदास प्लास्टो-फिन प्रा. लि.	1343.	31563	मैसर्स मोहिन्द्रा भूई प्रा. लि.
1310.	59871	मैसर्स मिडलटन इस्टेट्स प्रा. लि.	1344.	62194	मैसर्स मोहित एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
1311.	34433	मैसर्स मीडेर कंसल्टेंट्स प्रा. लि.	1345.	59557	मैसर्स मोहित अग्रवाल एण्ड कम्पनी (टी) प्रा. लि.
1312.	29768	मैसर्स मिहिजाम मशीन टूल्स (इण्डिया) प्रा. लि.	1346.	44791	मैसर्स मोलिसा एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
1313.	54922	मैसर्स मिकोलिन केमिकल्स इण्डिया प्रा. लि.	1347.	48082	मैसर्स मोनाको ट्रेवेल्स प्रा. लि.
1314.	51071	मैसर्स मिलन एडवार्डजरी सर्विसेज प्रा. लि.	1348.	31228	मैसर्स मोना-लिसा स्टील्स एण्ड फोर्जिंग्स (पी) लि.
1315.	31568	मैसर्स माईल्स लेबोरेटरीज प्रा. लि.	1349.	33316	मैसर्स मंडल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा. लि.
1316.	76919	मैसर्स माईलस्टोन कोम्मोट्रेड प्रा. लि.	1350.	71148	मैसर्स मंडल राइस मिल प्रा. लि.
1317.	73183	मैसर्स मिल्वन क्लीन एण्ड केयर सिस्टम्स प्रा. लि.	1351.	57656	मैसर्स मोनेर मोती फाईनेस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
1318.	88860	मैसर्स मीना आर्ट प्रा. लि.	1352.	48165	मैसर्स मोनो पॉलीमर प्रा. लि.
1319.	83852	मैसर्स मिन्डेल एजेन्टी प्रा. लि.	1353.	57649	मैसर्स मोनो रामा फिनकोन एण्ड एलॉयड सर्विसेज प्रा. लि.
1320.	78469	मैसर्स मिनर्वा इम्पेरियम प्रा. लि.	1354.	77468	मैसर्स मोन्टेक्स कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
1321.	50053	मैसर्स मिनर्वा टेक नोक्राफ्ट्स प्रा. लि.	1355.	068245	मैसर्स मूड सप्लाय एण्ड गुड्स प्रा. लि.
1322.	65876	मैसर्स माईन-टेक एजेन्सीज प्रा. लि.	1356.	57961	मैसर्स मूनलाईट सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट इण्डिया प्रा. लि.
1323.	64316	मैसर्स मीनी जूट प्रोसेस प्रा. लि.	1357.	64419	मैसर्स मूनस्टार डीलर एण्ड सप्लायर प्रा. लि.
1324.	29527	मैसर्स मीनी पेपर कंसल्टेंट्स प्रा. लि.	1358.	64255	मैसर्स मोरग मैनेजमेंट प्रा. लि.
1325.	67491	मैसर्स मिराटज सिस्टेम्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	1359.	87130	मैसर्स मोरिस कॉमर्शियल प्रा. लि.
1326.	24837	मैसर्स मिरबहर ब्रदर्स प्रा. लि.	1360.	66000	मैसर्स मोटार् मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
1327.	48266	मैसर्स मिस्टर एप्पारेल्स प्रा. लि.	1361.	56718	मैसर्स मोरवी मोटर्स प्रा. लि.
1328.	55864	मैसर्स मिताली प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.			
1329.	55537	मैसर्स मित्रा मार्केटिंग एण्ड क्रेडिट प्रा. लि.			
1330.	29789	मैसर्स मित्तल लाईटिंग्स प्रा. लि.			
1331.	24680	मैसर्स मित्रर मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा. लि.			
1332.	84290	मैसर्स एमजे कंसल्टेंट्स प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
1362.	52101	मैसर्स मदर लैण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.	1391.	49244	मैसर्स एन.एस. इलेक्ट्रो इक्युपमेंट प्रा. लि.
1363.	27695	मैसर्स मदरलैण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	1392.	58531	मैसर्स एन.एस. फाईनेंस कम्पनी लि.
1364.	58164	मैसर्स माउण्ट व्यू एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	1393.	27532	मैसर्स नब बंग कृषि संस्था प्रा. लि.
1365.	37612	मैसर्स मोयना सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.	1394.	54175	मैसर्स नब दिशारी टेक्नो प्रा. लि.
1366.	82321	मैसर्स एमपीके इंजीनियर्स प्रा. लि.	1395.	53955	मैसर्स नबदया लीजिंग एण्ड फिनवेस्ट (इण्डिया) लि.
1367.	62901	मैसर्स एमआरसी मोड्यूलर मार्केटिंग प्रा. लि.	1396.	59228	मैसर्स नबराज सेविंग्स एण्ड क्रेडिट (इण्डिया) लि.
1368.	73867	मैसर्स मृणाल इस्टेट्स प्रा. लि.	1397.	8165	मैसर्स नवशक्ति न्यूज पेपर्स कम्पनी प्रा. लि.
1369.	43142	मैसर्स एमएसडीजी रबर्स एण्ड रेजिन्स प्रा. लि.	1398.	21618	मैसर्स नवश्री ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रा. लि.
1370.	54401	मैसर्स एमएसटीएस इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	1399.	08329	मैसर्स नदिया एग्रीकल्चरल एण्ड इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लि.
1371.	27350	मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स (एक्सपोर्ट हाउस) लि.	1400.	76576	मैसर्स नागरिक पब्लिकेशन प्रा. लि.
1372.	59423	मैसर्स मुखर्जी इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.	1401.	88554	मैसर्स नागपुरिया एग्रो कम्पनी लि.
1373.	55815	मैसर्स मुखर्जी स्टेरिबेर इन्स्ट्रुमेंट्स प्रा. लि.	1402.	88555	मैसर्स नागपुरिया पब्लिकेशन कम्पनी लि.
1374.	33218	मैसर्स मुक्जे एण्ड एसोसियेट्स प्रा. लि.	1403.	87657	मैसर्स नाका इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
1375.	77755	मैसर्स मुक्ता एजेन्सीज प्रा. लि.	1404.	34545	मैसर्स नकुल होलिंग्स प्रा. लि.
1376.	79886	मैसर्स मुक्ता डेवलपर्स प्रा. लि.	1405.	43553	मैसर्स नालंदा पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
1377.	63066	मैसर्स मुकुल मिल्स प्रा. लि.	1406.	70884	मैसर्स नमन कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
1378.	60846	मैसर्स मुकुन्द फाईनेलीज लि.	1407.	45455	मैसर्स नन्दनी इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1379.	44736	मैसर्स मल्टीमैक्स एक्जीम प्रा. लि.	1408.	35885	मैसर्स नरे शूगर मिल प्रा. लि.
1380.	61047	मैसर्स मल्टीमोडल कार्गो सर्विसेज इण्डिया प्रा. लि.	1409.	85235	मैसर्स नर्मदा कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1381.	64661	मैसर्स मल्टीमोड एक्जुआफार्म लि.	1410.	9403	मैसर्स नर्सिंगदास हीरालाल प्रा. लि.
1382.	53962	मैसर्स मल्टीप्लेक्स कॉमर्शियल क्रेडिट एण्ड सेविंग्स कम्पनी लि.	1411.	57594	मैसर्स नर्वदा प्रोपर्टीज प्रा. लि.
1383.	63591	मैसर्स मुनीलाल रामेश्वर प्रसाद सेक्यूरिटीज प्रा. लि.	1412.	73932	मैसर्स नटराज मार्केटिंग सर्विसेज प्रा. लि.
1384.	78211	मैसर्स मुरासन एजेन्सीज प्रा. लि.	1413.	66109	मैसर्स नाटको कोम्पोजिटीज प्रा. लि.
1385.	87317	मैसर्स मस्टड इण्डिया मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि.	1414.	8216	मैसर्स नेशनल केमिकल एण्ड साल्ट वर्क्स (इण्डिया)
1386.	24714	मैसर्स म्यूचुअल कॉमर्शियल कारपोरेशन प्रा. लि.	1415.	27604	मैसर्स नेशनल ट्रेवल एजेन्सी (इण्डिया) प्रा. लि.
1387.	14660	मैसर्स म्यूचुअल प्रोपर्टीज प्रा. लि.	1416.	31513	मैसर्स नेटिव फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1388.	85962	मैसर्स एमवीके सेक्यूरिटीज प्रा. लि.	1417.	30256	मैसर्स नटराज पिनक्लिप उद्योग प्रा. लि.
1389.	29788	मैसर्स एन.एन.पी. ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	1418.	61785	मैसर्स नव दुर्गा सेविंग्स एण्ड विनियोग लि.
1390.	56366	मैसर्स एन.पी.ए. डेवलपर एण्ड हाउसिंग फिन्को लि.	1419.	68796	मैसर्स नवदीप कॉमर्शियल प्रा. लि.
			1420.	69485	मैसर्स नवदीपक कॉमर्स प्रा. लि.
			1421.	55707	मैसर्स नविनोन एजेन्सीज प्रा. लि.
			1422.	55838	मैसर्स नविपोन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1423.	81572	मैसर्स नवल फोर्म्स प्रा. लि.	1455.	59783	मैसर्स नीलकंठ कम्प्लेक्स प्रा. लि.
1424.	73299	मैसर्स नयनसुख विनिमय प्रा. लि.	1456.	55161	मैसर्स निलोयराज फार्मिंग एण्ड ट्रेडिंग इण्डिया लि.
1425.	84022	मैसर्स एनसीबीए फाईनैसशियल सर्विसेज लि.	1457.	8340	मैसर्स नीलुरी पात्र कोल कम्पनी प्रा. लि.
1426.	65430	मैसर्स नील झील कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	1458.	70883	मैसर्स निम्बस कोम्मोडिटीज प्रा. लि.
1427.	82990	मैसर्स नीलाम्बर इंजीनियर्स प्रा. लि.	1459.	52483	मैसर्स निफा ट्रेड्स एण्ड एजेन्सीज प्रा. लि.
1428.	71814	मैसर्स नीलगिरि सर्विसेज प्रा. लि.	1460.	84866	मैसर्स निराला मेडियेटर्स प्रा. लि.
1429.	83587	मैसर्स नेहा विनिमय प्रा. लि.	1461.	65620	मैसर्स निरिक्षा जियो साइंस लि.
1430.	50524	मैसर्स नेल्सन ट्रेड प्रा. लि.	1462.	77462	मैसर्स निलॉन कंसल्टेन्सी एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.
1431.	29766	मैसर्स नियो कोट (इण्डिया) प्रा. लि.	1463.	57860	मैसर्स निर्माण कोटिंग्स प्रा. लि.
1432.	79388	मैसर्स नियो कंसल्टेंट्स एण्ड इंजीनियर्स प्रा. लि.	1464.	82751	मैसर्स निरूपम मर्चेन्डाईज प्रा. लि.
1433.	61501	मैसर्स नियो शेल्कॉन लि.	1465.	39082	मैसर्स नीता ओसियन एक्सप्लोरर्स प्रा. लि.
1434.	79336	मैसर्स नियोसा लीजिंग एण्ड फाईनैस प्रा. लि.	1466.	54081	मैसर्स नित्य संचय फिनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
1435.	79143	मैसर्स नेप्च्यून ट्रेडर्स प्रा. लि.	1467.	59111	मैसर्स निवेल इण्डस्ट्रीयल कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
1436.	21478	मैसर्स नेताजी मोटर सर्विस प्रा. लि.	1468.	54242	मैसर्स नूक इन्वेस्टमेंट लि.
1437.	29774	मैसर्स न्यू इरा स्टील्स प्रा. लि.	1469.	31295	मैसर्स नोपानी एण्ड सन्स प्रा. लि.
1438.	80225	मैसर्स न्यू इरा टाई-अप प्रा. लि.	1470.	43954	मैसर्स नोर्टक्यू इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1439.	15754	मैसर्स न्यू हॉफटोन प्रा. लि.	1471.	59654	मैसर्स नॉर्थ बनयान एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
1440.	75422	मैसर्स न्यू इन्फोरमेशन टेक्नोलोजिज (इण्डिया) प्रा. लि.	1472.	29785	मैसर्स नॉर्थ बेंगाल क्रेडिट एण्ड फिनांस कम्पनी प्रा. लि.
1441.	64347	मैसर्स न्यू इनवेन्शन लीजिंग कम्पनी लि.	1473.	31309	मैसर्स नॉर्थ बेंगाल फार्मास्यूटिकल्स ऑरगेनाईजेशन (1977) प्रा. लि.
1442.	54041	मैसर्स न्यू मल्टी बॉण्ड इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	1474.	88143	मैसर्स नॉर्थ बेंगाल पॉलीप्लास्ट प्रा. लि.
1443.	57460	मैसर्स न्यू प्रेसीड इण्डिया हाउसिंग फाईनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.	1475.	57603	मैसर्स नॉर्थ ईस्ट फिनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
1444.	86218	मैसर्स न्यू स्टार कॉमटेक लि.	1476.	45914	मैसर्स नॉर्थ ईस्ट पावर कंडक्टर्स प्रा. लि.
1445.	30588	मैसर्स न्यू स्टील एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.	1477.	36684	मैसर्स नदर्न लीजिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.
1446.	47726	मैसर्स न्यूजमैन मीडिया एण्ड डोकुमेन्टेशन्स प्रा. लि.	1478.	72001	मैसर्स नॉर्थलैण्ड इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
1447.	61089	मैसर्स एनजीएम टी एण्ड टी सर्विसेज प्रा. लि.	1479.	64198	मैसर्स नोटदोम पॉलीमर्स (इण्डिया) प्रा. लि.
1448.	78275	मैसर्स निकोलसन मर्चेन्ट्स प्रा. लि.	1480.	65569	मैसर्स नोटेक्स व्यापार प्रा. लि.
1449.	64704	मैसर्स निधि इन्ट्रा प्रा. लि.	1481.	29815	मैसर्स नौशेर अली खान प्रा. लि.
1450.	69719	मैसर्स नाईटिंगल फार्मा प्रा. लि.	1482.	70708	मैसर्स एनपीएस रोडवेज प्रा. लि.
1451.	34447	मैसर्स नाईटिंगल प्रा. लि.	1483.	60527	मैसर्स एनआर सन्स विनियोग प्रा. लि.
1452.	44419	मैसर्स निहारिका कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि.			
1453.	78128	मैसर्स निकिता मर्चेन्ट्स प्रा. लि.			
1454.	30397	मैसर्स नीलाम्बु फुड्स लि.			

1	2	3	1	2	3
1484.	55191	मैसर्स एनटीआईसी टूर्स प्रा. लि.	1514.	65025	मैसर्स ओरनर इम्पेक्स प्रा. लि.
1485.	81837	मैसर्स नू फिश फार्मिंग कम्पनी लि.	1515.	54301	मैसर्स ओवरटॉप फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
1486.	55211	मैसर्स नूक्लीयस इन्टरप्राइज प्रा. लि.	1516.	33340	मैसर्स ऑक्सफोर्ड मोटर्स प्रा. लि.
1487.	74360	मैसर्स नूक्लीयस व्यापार प्रा. लि.	1517.	36534	मैसर्स पी के बी कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज लि.
1488.	59555	मैसर्स नूजेन सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी (इण्डिया) लि.	1518.	34498	मैसर्स पी एल जयसवाल एण्ड सन्स प्रा. लि.
1489.	28942	मैसर्स नू-लूक बिल्डर्स प्रा. लि.	1519.	33092	मैसर्स पी आर देवान्ड एसोसिएट प्रा. लि.
1490.	83083	मैसर्स न्यूट्रीशन एग्री टेक प्रा. लि.	1520.	77844	मैसर्स पी. बी. सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.
1491.	76917	मैसर्स नटशेल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.	1521.	71427	मैसर्स पी. एन. एपार्टमेंट प्रा. लि.
1492.	37661	मैसर्स ओ टी सी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.	1522.	47763	मैसर्स पी. एन. एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1493.	56226	मैसर्स ओबेडियेण्ट फिनान्शियल सर्विसेज (इण्डिया) लि.	1523.	46046	मैसर्स पी. पी. मरिन फुड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1494.	34868	मैसर्स ओसियन हंटर्स एजेन्सीज प्रा. लि.	1524.	57043	मैसर्स पी.आर. होम कन्सलटेन्सी प्रा. लि.
1495.	30574	मैसर्स ओसियन मैरिटायम्स कलकत्ता प्रा. लि.	1525.	86028	मैसर्स पी. एस. कन्ट्रोल इक्युपमेंट्स प्रा. लि.
1496.	72700	मैसर्स ओसियनस एक्जम प्रा. लि.	1526.	67065	मैसर्स पी. टी. इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
1497.	29959	मैसर्स ऑफलवाजेन (इण्डिया) प्रा. लि.	1527.	66044	मैसर्स पासालट प्रोसेसिंग प्रा. लि.
1498.	82868	मैसर्स ओलिवर स्टील्स प्रा. लि.	1528.	62172	मैसर्स पेसिफिक फाइनेंसियल सर्विसेज प्रा. लि.
1499.	58520	मैसर्स ओलिम्पस क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.	1529.	68557	मैसर्स पदमाश्री कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1500.	45149	मैसर्स ओम श्री श्री कुल देवता कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1530.	53638	मैसर्स पदमावथी ओवरसीज लि.
1501.	83942	मैसर्स ओम श्रीम फिनान्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा. लि.	1531.	79877	मैसर्स पेग इण्डिया लि.
1502.	57538	मैसर्स ओमेगा केमिकल्स प्रा. लि.	1532.	37998	मैसर्स पाल्लि-मंगल हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.
1503.	57537	मैसर्स ओमेगा फुड प्रोसेसिंग प्रा. लि.	1533.	45301	मैसर्स पालसन्स मार्केटिंग एजेंसी प्रा. लि.
1504.	57539	मैसर्स ओमेगा लेटरटेक्स प्रा. लि.	1534.	-----	मैसर्स पामेड इंजीनियर्स प्रा. लि.
1505.	78347	मैसर्स ओमेक्स ट्रेडलिंग्स प्रा. लि.	1535.	52061	मैसर्स पनसिया मेडिकल सेंटर प्रा. लि.
1506.	79294	मैसर्स ओमनियम फिन्को प्रा. लि.	1536.	25416	मैसर्स पंकेट मिनिरल्स एण्ड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
1507.	50883	मैसर्स ओंकारनाथ आयल मिल्स प्रा. लि.	1537.	64926	मैसर्स पंचगंगा मर्कण्टाइल प्रा. लि.
1508.	55250	मैसर्स ओपाल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.	1538.	20314	मैसर्स पाण्डे ब्रदर्स प्रा. लि.
1509.	65377	मैसर्स ओ पी एस कॉन्ट्रेड प्रा. लि.	1539.	68370	मैसर्स पनडोरा फुड प्रा. लि.
1510.	85565	मैसर्स ओरगा केम एग्री रिसर्च डेवलपमेंट प्रा. लि.	1540.	50649	मैसर्स पंकज प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1511.	35496	मैसर्स ओरगेन रिसर्च सेंटर	1541.	64244	मैसर्स पेनोरमा डेल्कोम प्रा. लि.
1512.	62555	मैसर्स ओरिफफ आयरन एण्ड स्टील प्रा. लि.	1542.	33493	मैसर्स पपकॉन पेपर मिल्स प्रा. लि.
1513.	49465	मैसर्स ओरिजन फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.	1543.	65589	मैसर्स पारामाईट मर्चण्ट्स प्रा. लि.
			1544.	62153	मैसर्स परिचय इम्पेक्स प्रा. लि.
			1545.	8183	मैसर्स पार्कसाइड मोटर्स प्रा. लि.
			1546.	60552	मैसर्स पार्थ राय कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
			1547.	77609	मैसर्स पारुल कॉमर्शियल प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1548.	21073	मैसर्स पासारी ब्रदर्स प्रा. लि.	1581.	83817	मैसर्स पेनॉन प्लान्टेशन लि.
1549.	86670	मैसर्स पाशुपति मैनेजमेंट प्रा. लि.	1582.	30606	मैसर्स पेपको स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
1550.	33324	मैसर्स पाशुपति रोडवेज प्रा. लि.	1583.	57660	मैसर्स पेरेन्नायल हाउसिंग फाइनैस कम्पनी लि.
1551.	56442	मैसर्स पास फ्लैट इण्डिया प्रा. लि.	1584.	60445	मैसर्स परफेक्ट आयल एण्ड एग्री लि.
1552.	37344	मैसर्स पस्सिफ्लोरा कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	1585.	86957	मैसर्स परफेक्ट पैक एण्ड ट्रेड प्रा. लि.
1553.	59252	मैसर्स पशुपति इंजीनियर्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा. लि.	1586.	33205	मैसर्स परफेक्ट ट्रेडर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स लि.
1554.	66374	मैसर्स पाठक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लि.	1587.	87495	मैसर्स परिहेलियन मार्केटिंग लि.
1555.	71632	मैसर्स पाटलिपुत्रा बिल्डर्स प्रा. लि.	1588.	70885	मैसर्स परकिन कॉमर्शियल प्रा. लि.
1556.	72762	मैसर्स पाटलिपुत्रा डेवलपर्स प्रा. लि.	1589.	21518	मैसर्स परसनेल एडमिनिस्ट्रेशन प्रा. लि.
1557.	78350	मैसर्स पाटलिपुत्रा विनिमय प्रा. लि.	1590.	29322	मैसर्स फेनॉल (इण्डिया) प्रा. लि.
1558.	56096	मैसर्स पाटना मेडिकल रिसर्च सेंटर	1591.	87981	मैसर्स पिक्काडिलि होल्डिंग्स प्रा. लि.
1559.	30497	मैसर्स पटुलिया इंडस्ट्रीयल इस्टेट सोसाइटी लि.	1592.	56350	मैसर्स पिकअप मर्कण्डलाइज प्रा. लि.
1560.	48029	मैसर्स पाल एण्ड मुखर्जी केमको प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1593.	57685	मैसर्स पिकअप मर्कण्डाइज प्रा. लि.
1561.	63917	मैसर्स पवाई ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.	1594.	57296	मैसर्स पिक्कविक फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.
1562.	29342	मैसर्स पावलिडिस मन्ना एण्ड सन्स प्रा. लि.	1595.	54731	मैसर्स पिडी डेवलपर एण्ड कन्सलटेंसी प्रा. लि.
1563.	49201	मैसर्स पावलेडिस सिपिंग प्रा. लि.	1596.	46244	मैसर्स पिजन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1564.	43738	मैसर्स पवनपुत्र कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	1597.	54252	मैसर्स पिमान्ड फाइनैस सर्विगज एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
1565.	84385	मैसर्स पवनपुत्र फूड प्रा. लि.	1598.	56478	मैसर्स पिक सर्किल इस्टेट प्रा. लि.
1566.	56280	मैसर्स पावमैन फाइनैशियल एण्ड कन्सल्टेंसी लि.	1599.	47782	मैसर्स पिक्स एन ब्लूज एप्पारेल्स प्रा. लि.
1567.	77197	मैसर्स पायल एजेंसिज प्रा. लि.	1600.	30467	मैसर्स पायनिर चैन्स लि.
1568.	77196	मैसर्स पायल मल्टि प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	1601.	29762	मैसर्स पायनिर पेंट एण्ड लाइट केमिकल्स प्रा. लि.
1569.	33567	मैसर्स पायल सर्विसेज एण्ड ट्रेडिंग्स कम्पनी लि.	1602.	85715	मैसर्स पायनिर पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1570.	79569	मैसर्स पी सी डाटामेटिक्स प्रा. लि.	1603.	34334	मैसर्स पायनिर रेफ्रेक्ट्रिज प्रा. लि.
1571.	54271	मैसर्स पी सी आई टेक्नोलॉजी प्रा. लि.	1604.	71421	मैसर्स पिताम्बर फण्ड्स प्रा. लि.
1572.	50662	मैसर्स पीडीआर फार्मासियुटिकल्स प्रा. लि.	1605.	61809	मैसर्स पिटका प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
1573.	55832	मैसर्स पीसलैण्ड हाउसिंग फाइनैस एण्ड डेवलपमेंट कम्पनी लि.	1606.	33091	मैसर्स पिट्सबर्ग स्टेरलिंग फाइनैस एण्ड ट्रेड प्रा. लि.
1574.	80902	मैसर्स पिकॉक टाई-अप प्रा. लि.	1607.	53998	मैसर्स पितृशक्ति सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
1575.	87131	मैसर्स पल टाई-अप प्रा. लि.	1608.	90232	मैसर्स पियुश एजेंसिज प्रा. लि.
1576.	30542	मैसर्स पेक्कॉन बाऊ प्रा. लि.	1609.	74862	मैसर्स प्लेटेनियम इनफोटेक प्रा. लि.
1577.	63629	मैसर्स पीकेय कोवेंटी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	1610.	83903	मैसर्स प्लाजा पोअन्ट प्रा. लि.
1578.	30729	मैसर्स पेगेट इंजीनियर्स प्रा. लि.	1611.	88209	मैसर्स पी एम पी एजेंसिज प्रा. लि.
1579.	31441	मैसर्स पेलिकन पेपर मिल्स प्रा. लि.	1612.	56608	मैसर्स नूमेटिक पावर टूल्स एण्ड कम्पनी लि.
1580.	85362	मैसर्स पेनासिया प्लान्टेशन लि.			

1	2	3
1613.	78493	मैसर्स पोद्दार विनिमय प्रा. लि.
1614.	76062	मैसर्स प्लास्टर इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी प्रा. लि.
1615.	74361	मैसर्स पोलो वाणिज्य प्रा. लि.
1616.	29058	मैसर्स पोलिफुड प्रा. लि.
1617.	64797	मैसर्स पूजा प्रोफिन प्रा. लि.
1618.	78594	मैसर्स पूजित मर्चण्ट्स प्रा. लि.
1619.	76122	मैसर्स पूनम कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1620.	36994	मैसर्स पोर्टिको बिजनेस प्रा. लि.
1621.	88693	मैसर्स पावर एण्ड स्पेयर्स प्रा. लि.
1622.	71013	मैसर्स प्रभुधन कॉमोडिटीज प्रा. लि.
1623.	71014	मैसर्स प्रभुधन मर्चण्डाइज प्रा. लि.
1624.	78243	मैसर्स प्रदिप इन्फिन प्रा. लि.
1625.	53498	मैसर्स प्रफुल बासु एण्ड सन्स क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
1626.	76704	मैसर्स प्रगति निकेतन प्रा. लि.
1627.	48177	मैसर्स प्रहलादराय सत्यनारायण एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
1628.	85163	मैसर्स परम रेसोर्ट्स एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.
1629.	27709	मैसर्स परामिया इंजीनियरिंग प्रा. लि.
1630.	60795	मैसर्स परामुक ट्रेडर्स एण्ड मैनुफेक्चरर्स प्रा. लि.
1631.	54226	मैसर्स परनति इंडस्ट्रीज लि.
1632.	56560	मैसर्स परन्तिक सिक्क्युर्ड सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
1633.	55995	मैसर्स प्ररित इन्वेटमेंट्स प्रा. लि.
1634.	47134	मैसर्स परसान्त कानन हाउसिंग कम्पनी प्रा. लि.
1635.	77703	मैसर्स प्रतिभुति फाइनेंसियल सर्विसेज प्रा. लि.
1636.	57511	मैसर्स प्रतिदिन क्रेडिट प्रा. लि.
1637.	93105	मैसर्स प्रत्याशा कन्जुमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1638.	56220	मैसर्स प्रयाग सेल्स एजेंसी प्रा. लि.
1639.	61246	मैसर्स प्रयोग इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.
1640.	36301	मैसर्स पीआरबी कॉमर्शियल लि.
1641.	85355	मैसर्स प्रीसीड फार्मा लि.
1642.	41733	मैसर्स प्रीसीजन मेकिनकल वर्क्स प्रा. लि.
1643.	28889	मैसर्स प्रीसीज रॉलिंग मिल्स लि.
1644.	58830	मैसर्स प्रेफटेक डेवलपमेंट प्रा. लि.
1645.	70914	मैसर्स प्रीमीयर मेटलेक्स प्रा. लि.

1	2	3
1646.	21218	मैसर्स प्रीमीयर माइनिंग कारपोरेशन प्रा. लि.
1647.	64037	मैसर्स प्रीमीयर वेट्स एग्री प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1648.	43977	मैसर्स प्रिमियम स्मेलटिंग एण्ड रिफाइनिंग कम्पनी प्रा. लि.
1649.	68729	मैसर्स प्रेमनारायण मर्कण्टाइल प्रा. लि.
1650.	59062	मैसर्स प्रेसकॉबर इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
1651.	23177	मैसर्स प्रेस एजेंट्स प्रा. लि.
1652.	58333	मैसर्स प्रसटिजियस हाउसिंग डेवलपर्स प्रा. लि.
1653.	81025	मैसर्स प्राइम निटिंग प्रा. लि.
1654.	60005	मैसर्स प्रिक फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
1655.	77277	मैसर्स प्रीक्स अबसान लि.
1656.	59978	मैसर्स प्रियदर्शिनी इक्विजम प्रा. लि.
1657.	24317	मैसर्स प्रोसेज एण्ड प्रिन्ट प्रा. लि.
1658.	59500	मैसर्स प्रोकटन फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
1659.	59759	मैसर्स प्रोग्राम्ड जेनरल फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
1660.	56852	मैसर्स प्रोग्रेस एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1661.	30503	मैसर्स प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रानिक प्रा. लि.
1662.	75955	मैसर्स प्रोग्रेसिव फिशिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1663.	23845	मैसर्स प्रोग्रेसिव मैनुफेक्चरर्स प्रा. लि.
1664.	50931	मैसर्स प्रोग्रेसिव फोटो सेंटर प्रा. लि.
1665.	45291	मैसर्स प्रोग्रेसिव सेल्स प्रा. लि.
1666.	58505	मैसर्स प्रोजोनि हाउसिंग एण्ड फिन्सकल (इण्डिया) लि.
1667.	27220	मैसर्स प्रकाश बोर्ड मिल्स प्रा. लि.
1668.	65460	मैसर्स प्रोमेक्स होल्डिंग्स प्रा. लि.
1669.	86459	मैसर्स प्रोस्पेरीटी डेवलपर्स प्रा. लि.
1670.	68757	मैसर्स प्रोटेक्स स्टेशनरी प्रा. लि.
1671.	57715	मैसर्स प्रो-टूल्स प्रा. लि.
1672.	40309	मैसर्स प्रोवा मार्केटिंग प्रा. लि.
1673.	50441	मैसर्स प्रोविडेन्स जेनरल फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
1674.	83469	मैसर्स प्रूडेन्टल एएमसी लि.
1675.	81301	मैसर्स प्रूडेन्टल कैपिटल कॉरपोरेशन लि.

1	2	3	1	2	3
1676.	56529	मैसर्स प्रूडेन्टल सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लि.	1706.	19029	मैसर्स आर. एन. सराओगी एण्ड कम्पनी लि.
1677.	30850	मैसर्स पब्लिशर्स गिल्ड प्रा. लि.	1707.	39871	मैसर्स आर. एन. एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1678.	57639	मैसर्स पुनित कॉमर्शियल प्रा. लि.	1708.	30516	मैसर्स आर. एन. फार्मासियूटिकल्स प्रा. लि.
1679.	64603	मैसर्स पंका इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	1709.	21601	मैसर्स आर. पी. सेन प्रा. लि.
1680.	61440	मैसर्स पुरान प्लैट्स प्रा. लि.	1710.	52031	मैसर्स आर. आर. फिनवेस्ट कम्पनी लि.
1681.	31455	मैसर्स पुरबाचल इस्टेट प्रा. लि.	1711.	27511	मैसर्स आर. एस. बेकेय लेबोरेट्रीज़ (इण्डिया) प्रा. लि.
1682.	83171	मैसर्स पुरभाषा मार्केटिंग प्रा. लि.	1712.	29808	मैसर्स आर. एस. रॉय इलैक्ट्रिक कम्पनी प्रा. लि.
1683.	52083	मैसर्स प्योरमिक्स एक्स्ट्रूशन प्रा. लि.	1713.	64427	मैसर्स आर. एस. सी-फूड्स प्रा. लि.
1684.	68243	मैसर्स प्रोटेक कॉमोडोटीज प्रा. लि.	1714.	68652	मैसर्स रबिरूण वाणिज्य प्रा. लि.
1685.	78855	मैसर्स पूर्वज कॉमोडोटीज प्रा. लि.	1715.	58685	मैसर्स रेस इन्वेस्टमेंट एण्ड हाउसिंग फाईनेंस कम्पनी लि.
1686.	20518	मैसर्स पूर्वज्योति इन्वेस्टमेंट लि.	1716.	57436	मैसर्स रचित होलिंग्स प्रा. लि.
1687.	71777	मैसर्स पुष्कर नारायण श्री कुमार प्रा. लि.	1717.	65966	मैसर्स रचना फाइनैशियल सर्विसेस प्रा. लि.
1688.	47769	मैसर्स पुष्पांजलि फिसिकल सर्विसेज प्रा. लि.	1718.	61297	मैसर्स राधा कृष्ण फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ इण्डिया प्रा. लि.
1689.	58552	मैसर्स पुष्परंग सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.	1719.	21366	मैसर्स राधा कृष्ण स्टोर्स प्रा. लि.
1690.	88611	मैसर्स पी वार्ड ओवरसिज प्रा. लि.	1720.	38996	मैसर्स राधा निकेत एपार्टमेंट्स प्रा. लि.
1691.	31396	मैसर्स परायोमेटल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	1721.	56838	मैसर्स राधा रमन फाईनेंस प्रा. लि.
1692.	71637	मैसर्स क्यूलकॉन सिस्टम एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.	1722.	50886	मैसर्स राधामाधव बोर्ड्स प्रा. लि.
1693.	75893	मैसर्स क्वालिटी कन्सलटेंसी प्रा. लि.	1723.	66005	मैसर्स रडियन्ट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1694.	19169	मैसर्स क्वारिज एण्ड माईन्स प्रा. लि.	1724.	65281	मैसर्स रडियन्ट ट्रेकॉम प्रा. लि.
1695.	53894	मैसर्स क्वैस्ट निर्माण हाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड फाईनेंस कम्पनी लि.	1725.	24976	मैसर्स रघुनाथ स्टेशनरी प्रा. लि.
1696.	54548	मैसर्स क्वीटटेन्स सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी (इण्डिया) लि.	1726.	18580	मैसर्स रायसाहिब चन्द्रमुल इंद्र कुमार प्रा. लि.
1697.	34627	मैसर्स आर जी एसोसिएट्स प्रा. लि.	1727.	29961	मैसर्स रायगंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
1698.	46626	मैसर्स आर के रिरोलिंग मिल्स प्रा. लि.	1728.	3575	मैसर्स रायकुल इंडस्ट्रीयल बैंक लि.
1699.	88009	मैसर्स आर एन डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा. लि.	1729.	39315	मैसर्स रायलटन इलैक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
1700.	64002	मैसर्स आर. एस. फिन्कॉन प्रा. लि.	1730.	40443	मैसर्स रालटन इंडस्ट्रीयल एण्ड साइंटिफिक इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1701.	57428	मैसर्स आर. सी. कॉन प्रा. लि.	1731.	74363	मैसर्स रेनबो कॉम्पोट्रेड प्रा. लि.
1702.	40738	मैसर्स आर. सी. पी. कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.	1732.	28515	मैसर्स रेनबो मेटल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1703.	56447	मैसर्स आर. जी. पॉल कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	1733.	89358	मैसर्स रेनबो सारीज प्रा. लि.
1704.	10742	मैसर्स आर. के. चटर्जी एण्ड सन्स प्रा. लि.	1734.	69576	मैसर्स रैनस्काई ट्रेवल प्रा. लि.
1705.	56395	मैसर्स आर. एन. भट्टाचार्या एण्ड एसोसिएट्स प्रा. लि.	1735.	55514	मैसर्स राजा प्रोमोटर्स एण्ड इन्वेस्टर्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1736.	64164	मैसर्स राजाधिराज डेलर प्रा. लि.	1768.	62428	मैसर्स रेड ऑक ओडियो विजुअल प्रा. लि.
1737.	71026	मैसर्स राजदीप सेल्स प्रोमोन प्रा. लि.	1769.	79382	मैसर्स रेडक्लिफा डेलकॉम प्रा. लि.
1738.	64607	मैसर्स राजेन्द्र विनियोग एण्ड होलिंग प्रा. लि.	1770.	57508	मैसर्स रेडिक होलिंग्स प्रा. लि.
1739.	71226	मैसर्स राजेश स्टॉक होलिंग प्रा. लि.	1771.	82696	मैसर्स रीड एण्ड पिक एक्सपोर्ट्स लि.
1740.	77960	मैसर्स राजगरिया क्रेडिट एण्ड फिन्वेस्ट प्रा. लि.	1772.	33991	मैसर्स रेफिन होलिंग्स लि.
1741.	71100	मैसर्स राजिगंगा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	1773.	31518	मैसर्स परफ़ोर्म रबर रोलर प्रा. लि.
1742.	89588	मैसर्स राजलक्ष्मी रेफ़क्टरिज एण्ड क्रेमिक वर्क्स प्रा. लि.	1774.	36048	मैसर्स रीजनल स्माल सेविंग्स इन्वेस्टमेंट लि.
1743.	48212	मैसर्स राजशि सिन्यूटि सिस्टम्स प्रा. लि.	1775.	51848	मैसर्स रेकोरड इंजीनियरिंग प्रा. लि.
1744.	78129	मैसर्स राजश्री मर्चेन्ट्स प्रा. लि.	1776.	59323	मैसर्स रिलेबल कॉमर्शियल डेवलपमेंट प्रा. लि.
1745.	58366	मैसर्स राज्यकोष ट्रेडर्स प्रा. लि.	1777.	73615	मैसर्स रिलायंस एग्रीफार्म प्रा. लि.
1746.	72811	मैसर्स राकेश इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	1778.	33418	मैसर्स रिलायंस फाइब्रस लि.
1747.	82806	मैसर्स राकेश प्रिन्ट प्रा. लि.	1779.	78569	मैसर्स रेनर सिस्टम्स एण्ड इंजीनियरिंग प्रा. लि.
1748.	54502	मैसर्स रामा ट्राफ़िन्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	1780.	54110	मैसर्स रे-ऑपरेट होलिंग्स एण्ड क्रेडिट इण्डिया लि.
1749.	86330	मैसर्स रामेश्वर मर्चेन्ट्स प्रा. लि.	1781.	42922	मैसर्स रेप्लिका सर्विसेज प्रा. लि.
1750.	53385	मैसर्स रामेश्वर एपार्टमेंट्स प्रा. लि.	1782.	88655	मैसर्स रिसर्च पब्लिशिंग एण्ड प्रिंटिंग फाउण्डेशन प्रा. लि.
1751.	48071	मैसर्स रमिक्स कन्सलटेंट्स प्रा. लि.	1783.	55257	मैसर्स रेसोल्ट फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
1752.	34747	मैसर्स रामकनई कृष्ण कान्त पाल प्रा. लि.	1784.	53734	मैसर्स आरएफडी डेवलपर्स प्रा. लि.
1753.	85581	मैसर्स रामकृष्ण कन्टेनर्स प्रा. लि.	1785.	45086	मैसर्स आरएचडी एसोसिएट्स प्रा. लि.
1754.	80182	मैसर्स रमणिक होलिंग्स प्रा. लि.	1786.	81523	मैसर्स रिच कन्डिमेंट्स कम्पनी प्रा. लि.
1755.	37018	मैसर्स रानाघाट टैक्सटाईल मिल्स प्रा. लि.	1787.	70906	मैसर्स रिकॉचेट सेल्स प्रा. लि.
1756.	29891	मैसर्स रंजन चिट एण्ड सेविंग्स कम्पनी प्रा. लि.	1788.	43939	मैसर्स रिद्धि सिद्ध इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1757.	81077	मैसर्स रंजन इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	1789.	52707	मैसर्स रिटेक इन्वेस्टमेंट्स एण्ड होलिंग्स प्रा. लि.
1758.	22531	मैसर्स रंजन प्रेस प्रा. लि.	1790.	33541	मैसर्स राइजिंग कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1759.	58779	मैसर्स रास कम्प्यूटर कंसलटेंटसी एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.	1791.	37585	मैसर्स रिटर्को एजेंसीज इण्डिया प्रा. लि.
1760.	29306	मैसर्स रेशमी प्रिंटिंग कम्पनी प्रा. लि.	1792.	30447	मैसर्स रितज बिल्डर्स एण्ड डेकोरेटर्स प्रा. लि.
1761.	26989	मैसर्स रेशमी टैक्सटाईल्स प्रा. लि.	1793.	69077	मैसर्स रिवरप्रोव मार्केटिंग प्रा. लि.
1762.	62236	मैसर्स रत्नाकर सेल्स प्रोमोशन प्रा. लि.	1794.	81793	मैसर्स आर. जे. डी. चैन प्रा. लि.
1763.	65236	मैसर्स रबिना क्रियेशन प्रा. लि.	1795.	27296	मैसर्स रोड मशीन्स (इण्डिया) लि.
1764.	75523	मैसर्स नाय डाइर्स प्रा. लि.	1796.	33880	मैसर्स रॉबर्ट्स मेक्लेन फार्मास्यूटीकल्स लि.
1765.	84284	मैसर्स रायमान टेक प्रा. लि.	1797.	57697	मैसर्स रॉबसन सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
1766.	82181	मैसर्स आरबीजी उद्योग प्रा. लि.	1798.	45917	मैसर्स रॉबस्ट इण्डिया फूड्स प्रा. लि.
1767.	60554	मैसर्स आरसीजी लीजिंग एण्ड क्रेडिट लि.	1799.	36544	मैसर्स रॉक कोर्पो लि.

1	2	3	1	2	3
1800.	30648	मैसर्स रॉकफोर्ट इन्वेस्टमेंट्स प्रोपर्टीज प्रा. लि.	1830.	18221	मैसर्स एस के रूंगटा प्रा. लि.
1801.	65352	मैसर्स रॉक-पिक विनिमय प्रा. लि.	1831.	23825	मैसर्स एस पी कन्सॉलिडेट इंजीनियर कम्पनी प्रा. लि.
1802.	45232	मैसर्स रॉकवेल एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	1832.	54378	मैसर्स एस. सेन कन्सलटेंट्स प्रा. लि.
1803.	78228	मैसर्स रॉडरिफयूज एजेंसीज प्रा. लि.	1833.	57125	मैसर्स एस. डी. निर्माण हाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी प्रा. लि.
1804.	59827	मैसर्स प्रोग्रेस होलिडे होम एण्ड विलिकल सर्विसेज प्रा. लि.	1834.	85417	मैसर्स एस. डी. मर्कैटाइल्स प्रा. लि.
1805.	59737	मैसर्स रोहन मेडिकल सिस्टम प्रा. लि.	1835.	77195	मैसर्स एस. एफ. इंजीनियर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स कम्पनी प्रा. लि.
1806.	58664	मैसर्स रोहतक कॉमर्स प्रा. लि.	1836.	60657	मैसर्स एस. एच. होटल एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि.
1807.	24471	मैसर्स रॉला (इण्डिया) लि.	1837.	60849	मैसर्स एस. के. लूमिनियर प्रा. लि.
1808.	37668	मैसर्स रॉलेण्ड बोर्ड एण्ड पेपर मिल प्रा. लि.	1838.	29773	मैसर्स एस. के. लुब्रिकेन्ट्स लि.
1809.	80181	मैसर्स रॉनयपेट प्रोपर्टीज प्रा. लि.	1839.	58954	मैसर्स एस. पी. करक्यूलेशन नेटवर्क प्रा. लि.
1810.	59215	मैसर्स रूफ एण्ड स्लेटर डेवलपमेंट प्रा. लि.	1840.	82130	मैसर्स एस. पी. ट्रेडफिन प्रा. लि.
1811.	55305	मैसर्स रॉसरलैण्ड इन्वेस्टमेंट लि.	1841.	81812	मैसर्स एस. पी. प्लास्टिक्स प्रा. लि.
1812.	51597	मैसर्स रोज टी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	1842.	54452	मैसर्स एस. आर. कॉमर्शियल एण्ड होल्डिंग्स प्रा. लि.
1813.	78851	मैसर्स रोशनी कॉमर्शियल प्रा. लि.	1843.	79276	मैसर्स एस. आर. (कलकत्ता) ट्रेडिंग एण्ड फाइनेंस प्रा. लि.
1814.	30498	मैसर्स रोजी फाईनेंस एण्ड एग्री-इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.	1844.	71012	मैसर्स सानराज टाई-अप प्रा. लि.
1815.	68662	मैसर्स रोटेक्स इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	1845.	53888	मैसर्स साबरप्रिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
1816.	64764	मैसर्स राय ब्रस (शेयर एण्ड सिक्युरिटीज) प्रा. लि.	1846.	47630	मैसर्स सबिता वायर इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
1817.	41864	मैसर्स राय प्रधान एसोसिएट प्रा. लि.	1847.	77767	मैसर्स सदगुण मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
1818.	62746	मैसर्स रॉयल कन्टिनेन्टल डज सिपिंग प्रा. लि.	1848.	77428	मैसर्स सदगुण ट्रेडिंग प्रा. लि.
1819.	24667	मैसर्स रॉयलिट एण्ड कम्पनी प्रा. लि.	1849.	51478	मैसर्स सफल सेविंग्स क्रेडिट लि.
1820.	54489	मैसर्स आर. आर. सी. फाईनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि.	1850.	77215	मैसर्स सागरडिडी पावर जनरेशन कम्पनी लि.
1821.	76668	मैसर्स रसा ट्रेडर्स प्रा. लि.	1851.	66181	मैसर्स सागरिका मर्चेन्डाइज प्रा. लि.
1822.	36678	मैसर्स रूबय इम्पॉरियम प्रा. लि.	1852.	33208	मैसर्स साह कांटेज इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
1823.	53886	मैसर्स रत्र इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंजीनियरिंग लि.	1853.	29639	मैसर्स सहाना पेपर मिल्स लि.
1824.	24685	मैसर्स रूपा भारति फिल्मस प्रा. लि.	1854.	86197	मैसर्स साहु फाईनेंस कम्पनी लि.
1825.	35610	मैसर्स रूपा क्लिनिकल प्रा. लि.	1855.	55272	मैसर्स सहयोग कॉमर्शियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
1826.	20700	मैसर्स रूपायन प्रोडक्शन प्रा. लि.	1856.	58381	मैसर्स सहयोगिता व्यापार प्रा. लि.
1827.	55255	मैसर्स एस एस (इण्डिया) प्रा. लि.	1857.	59748	मैसर्स साई इक्विम प्रा. लि.
1828.	27314	मैसर्स एस बी रबर इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	1858.	29965	मैसर्स साइगल प्लास्टिक एण्ड रबर इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
1829.	87617	मैसर्स एस के मण्डल कम्पनी इंजीनियरिंग एण्ड कन्ट्रेक्टर्स प्रा. लि.	1859.	59841	मैसर्स सौली जनरल फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) प्रा. लि.

1	2	3
1860.	78276	मैसर्स साइमन्स ट्रेडर प्रा. लि.
1861.	53682	मैसर्स साइन फिन्वेस्ट हायर पचेज (इण्डिया) लि.
1862.	55291	मैसर्स साइनथिया कॉर्पोरेट आयल प्रा. लि.
1863.	79511	मैसर्स साईम प्रोपर्टिज प्रा. लि.
1864.	82292	मैसर्स साइट इण्डिया प्रा. लि.
1865.	82964	मैसर्स सकुरा कैमिकल्स प्रा. लि.
1866.	48043	मैसर्स सलभ ट्रेडिंग प्रा. लि.
1867.	44845	मैसर्स सलासर कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1868.	46398	मैसर्स सालिमपोर होल्डिंग्स प्रा. लि.
1869.	47375	मैसर्स साल्ट लेक फूड्स प्रा. लि.
1870.	33245	मैसर्स समाचार प्रेस लि.
1871.	48865	मैसर्स समरेश हायर पचेज एण्ड क्रेडिट प्रा. लि.
1872.	89327	मैसर्स स्मेलियन हरबस लि.
1873.	69027	मैसर्स समझौता मार्केटिंग प्रा. लि.
1874.	89769	मैसर्स समप्रिकता मार्केटिंग प्रा. लि.
1875.	54359	मैसर्स समप्रति सुरक्षा फिनान्स एण्ड क्रेडिट लि.
1876.	58906	मैसर्स समराधनी एगो कैम ट्रेडिंग प्रा. लि.
1877.	46461	मैसर्स समराट हैण्डिक्राफ्ट्स प्रा. लि.
1878.	69578	मैसर्स समुद्रा ट्रेवलस प्रा. लि.
1879.	55434	मैसर्स समुशक्ति ट्रेडिंग प्रा. लि.
1880.	58572	मैसर्स सान फिनान्स लि.
1881.	60245	मैसर्स सन्दिपनी व्यापार प्रा. लि.
1882.	27534	मैसर्स सनदपाइपरस मार्केटिंग प्रा. लि.
1883.	43444	मैसर्स संगम कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
1884.	60151	मैसर्स संगमि फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
1885.	82937	मैसर्स संगयुनि क्रेडिट एण्ड फिनान्स कम्पनी प्रा. लि.
1886.	63645	मैसर्स संजीव मैनेजमेंट प्रा. लि.
1887.	52011	मैसर्स संयुक्ता फिन्वेस्ट प्रा. लि.
1888.	63457	मैसर्स शंकर फुटवेयर प्रा. लि.
1889.	27577	मैसर्स संस्कृति संगम लि.
1890.	33188	मैसर्स सान्ताहार इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
1891.	53923	मैसर्स शान्ति(के) फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.

1	2	3
1892.	29955	मैसर्स शान्ति क्रेडिट कम्पनी एण्ड चहत प्रा. लि.
1893.	78280	मैसर्स ससनविक कॉर्पोरेशियल प्रा. लि.
1894.	27782	मैसर्स सप्ताह पब्लिकेशन प्रा. लि.
1895.	56242	मैसर्स सप्तर्षि पब्लिकेशन प्रा. लि.
1896.	84295	मैसर्स सराफ फर्टिलाइजरस प्रा. लि.
1897.	48863	मैसर्स सराफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एण्ड इम्पेक्स प्रा. लि.
1898.	33970	मैसर्स सर्वोपरि सेविंग्स एण्ड इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.
1899.	33112	मैसर्स सारबिक इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
1900.	53680	मैसर्स सरबोधन हाउसिंग कम्प्लेक्स प्रा. लि.
1901.	33510	मैसर्स सरब्लॉक फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
1902.	89514	मैसर्स सारदा पेट्रोलियम प्रा. लि.
1903.	47053	मैसर्स सारेजहाँ कन्स्ट्रक्शन एण्ड फिनान्स कम्पनी प्रा. लि.
1904.	62213	मैसर्स सरकार सुपारी ट्रेड प्रा. लि.
1905.	31335	मैसर्स सरकारस इन्डिका लि.
1906.	31534	मैसर्स सर्मा टिम्बर प्रोडक्ट (इण्डिया) प्रा. लि.
1907.	68694	मैसर्स सरसता सेल्स प्रा. लि.
1908.	62891	मैसर्स सर्वोत्तम इक्युटी सर्विसेज प्रा. लि.
1909.	64536	मैसर्स सर्वोत्तम फेबटेक्स प्रा. लि.
1910.	50040	मैसर्स सर्वोत्तम आयलस प्रा. लि.
1911.	29857	मैसर्स सत्यभामा क्रेडिट विट् एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
1912.	47480	मैसर्स सत्यम होल्डिंग्स प्रा. लि.
1913.	81683	मैसर्स सत्यम राइस प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1914.	52560	मैसर्स सत्यनारायण कॉर्पोरेशियल एण्ड एजेंसी प्रा. लि.
1915.	58551	मैसर्स सवेरा हाउसिंग डेवलपमेंट फिनान्स कम्पनी लि.
1916.	58540	मैसर्स सविऑन फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.
1917.	45055	मैसर्स साव ब्लेड इण्डिया प्रा. लि.
1918.	67064	मैसर्स सयन ट्रेवल सर्विसेज प्रा. लि.
1919.	78494	मैसर्स स्कन्डिया कॉर्पोरेशियल प्रा. लि.
1920.	78495	मैसर्स स्विन्डया कॉर्पोरेट प्रा. लि.
1921.	70113	मैसर्स स्केनबर्ग इण्डिया प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1922.	32492	मैसर्स स्केनल्लर माइक्रोनिक्स प्रा. लि.	1954.	43974	मैसर्स शर्मा मिनरल्स जॉयपार प्रा. लि.
1923.	17147	मैसर्स स्कीन्टिफिक डाइंग एण्ड क्लिनिंग कम्पनी प्रा. लि.	1955.	77853	मैसर्स शारविज मण्डस कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
1924.	70908	मैसर्स स्कीफिकेट सेल्स प्रा. लि.	1956.	73683	मैसर्स शास्वति वाणिज्य प्रा. लि.
1925.	84171	मैसर्स स्कड इंजीनियरिंग एण्ड डेवलपर्स लि.	1957.	67866	मैसर्स सेवामोंगा मर्चेडाइज प्रा. लि.
1926.	63875	मैसर्स सी फार्मर्स प्रा. लि.	1958.	43071	मैसर्स शिवा इरेक्टोज प्रा. लि.
1927.	79848	मैसर्स सी ग्रीट कॉमर्शियल प्रा. लि.	1959.	65197	मैसर्स शिवम् ओवरसिज प्रा. लि.
1928.	56420	मैसर्स शिलांग इण्डिया प्रा. लि.	1960.	45244	मैसर्स शिवराम जुट एण्ड फाइबर ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
1929.	48522	मैसर्स सिपोर्ट मेरिन प्रा. लि.	1961.	44805	मैसर्स शोवा रानि डेब एण्ड सन्स प्रा. लि.
1930.	77249	मैसर्स सिरोड ट्रान्सपोर्टर्स प्रा. लि.	1962.	59792	मैसर्स श्रद्धा कॉमोडोटीज प्रा. लि.
1931.	82452	मैसर्स सिस्टार एक्सपोर्टर्स प्रा. लि.	1963.	61048	मैसर्स श्रद्धा इलेक्ट्रोप्लास्ट प्रा. लि.
1932.	62357	मैसर्स सिवेव कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	1964.	57522	मैसर्स श्रद्धाजलि पब्लिशर्स प्रा. लि.
1933.	79753	मैसर्स सेकफिना होल्लिंग्स एण्ड सिक्युरिटीज प्रा. लि.	1965.	61498	मैसर्स श्री चामुण्डि प्रोपराइट्स प्रा. लि.
1934.	62333	मैसर्स सीमा फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.	1966.	48379	मैसर्स श्री दुर्गा कम्प्लेक्स प्रा. लि.
1935.	59176	मैसर्स सेखाबति होटल्स प्रा. लि.	1967.	81107	मैसर्स श्री गणेश व्यापार प्रा. लि.
1936.	86831	मैसर्स सेलेक्ट फैसन्स प्रा. लि.	1968.	8673	मैसर्स श्री कृष्ण इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
1937.	68726	मैसर्स सेलेक्युटि प्रा. लि.	1969.	48378	मैसर्स श्री लक्ष्मी नारायण कम्प्लेक्स कम्पनी प्रा. लि.
1938.	47783	मैसर्स सेमिक्रिक्युट प्रा. लि.	1970.	57934	मैसर्स श्री नाना ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
1939.	31236	मैसर्स सेराफुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1971.	64435	मैसर्स श्री ननेश इक्विम प्रा. लि.
1940.	54144	मैसर्स सेरफाइन एग्रीकॉल इण्डिया प्रा. लि.	1972.	25466	मैसर्स श्री नटराज फिल्मस प्रा. लि.
1941.	43823	मैसर्स सेठ कॉमर्शियल वर्क्स (डेलही) प्रा. लि.	1973.	57568	मैसर्स श्री नर्सिंग मार्केटिंग प्रा. लि.
1942.	31189	मैसर्स सेठी राइटिंग इन्स्ट्रुमेंट्स प्रा. लि.	1974.	48377	मैसर्स श्री पार्वति डेवलपमेंट प्रा. लि.
1943.	89066	मैसर्स सेवा कृषि फार्मर्स (इण्डिया) लि.	1975.	79173	मैसर्स श्री राधा रानी मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट प्रा. लि.
1944.	46556	मैसर्स सेवा मार्केटिंग प्रा. लि.	1976.	84446	मैसर्स श्री रामदेवजी फिनान्सियल सर्विसेज प्रा. लि.
1945.	52562	मैसर्स साह इंजीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	1977.	53968	मैसर्स श्री संगिता कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
1946.	74669	मैसर्स साह निद्धि निवो प्रा. लि.	1978.	62065	मैसर्स श्री श्याम साकम्बरि ग्रेनाइट्स प्रा. लि.
1947.	52559	मैसर्स साह ट्रेड एण्ड एजेंसी प्रा. लि.	1979.	58295	मैसर्स श्री सिद्धि बिनायक होटल्स प्रा. लि.
1948.	63895	मैसर्स शेख एण्ड पण्डित एजेंसीज प्रा. लि.	1980.	43466	मैसर्स श्री श्रीनिवास मेटल्स प्रा. लि.
1949.	55787	मैसर्स शक्तिसुर कम्पनी प्रा. लि.	1981.	54423	मैसर्स श्री विनायक फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
1950.	64675	मैसर्स शालीनि फबट्रेड प्रा. लि.	1982.	33739	मैसर्स श्रीकान्त केमिकल इंडस्ट्रीज लि.
1951.	27631	मैसर्स श्यामबाजार लैण्डस एण्ड इस्टेट्स प्रा. लि.	1983.	63529	मैसर्स श्रीनेश ट्रेडिंग प्रा. लि.
1952.	33305	मैसर्स शान्ता एण्ड सन्स प्रा. लि.	1984.	79577	मैसर्स श्री गुरु इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
1953.	88582	मैसर्स शान्ति होटल्स एण्ड टुरिजम प्रा. लि.	1985.	33656	मैसर्स श्री निवस राइस एण्ड आयल इंडस्ट्रीज लि.
			1986.	63748	मैसर्स श्री श्याम बाबा प्रोमोटर्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1987.	29906	मैसर्स श्री वृन्दाबन प्रोपर्टीज लि.	2018.	49136	मैसर्स स्वकाप इंजीनियरिंग प्रा. लि.
1988.	30539	मैसर्स शरॉफ स्टील प्रा. लि.	2019.	27256	मैसर्स स्कारटन डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा. लि.
1989.	59599	मैसर्स शुभ मर्चेंट्स प्रा. लि.	2020.	38985	मैसर्स स्कॉन ग्लास प्रा. लि.
1990.	39741	मैसर्स श्याम मर्केंटाइल प्रा. लि.	2021.	84478	मैसर्स स्कायलिन फार्मस एण्ड फूड्स प्रा. लि.
1991.	45221	मैसर्स श्यामजननि रॉलिंग मिल्स प्रा. लि.	2022.	86364	मैसर्स स्मार्ट इन्टेल्लायज लि.
1992.	58535	मैसर्स श्यामपुर मानिकअचन फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.	2023.	73273	मैसर्स एसएमबी पोर्टफोलियो प्रा. लि.
1993.	28522	मैसर्स सिबसन्स इण्डिया मार्केटिंग एजेंसी प्रा. लि.	2024.	79743	मैसर्स एसएमई प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
1994.	62385	मैसर्स सिद विनियोग प्रा. लि.	2025.	53157	मैसर्स स्नेह नीर प्रा. लि.
1995.	63615	मैसर्स सिद्धार्थ कम्प्यूट्रोनिक्स एण्ड सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	2026.	59897	मैसर्स स्नॉबॉल कम्प्यूनिकेशन सर्विसेज प्रा. लि.
1996.	68126	मैसर्स सिद्धान्त मैनजमेंट कंसल्टेंट्स प्रा. लि.	2027.	48904	मैसर्स स्नॉबॉल मार्केटिंग सर्विसेज प्रा. लि.
1997.	57346	मैसर्स सिद्धिदाता कॉन्क्लेव प्रा. लि.	2028.	21669	मैसर्स सोदपुर इलेक्ट्रीक सप्लाय कम्पनी लि.
1998.	22883	मैसर्स साइट एण्ड साउण्ड प्रा. लि.	2029.	91505	मैसर्स सॉफ्ट सेल टेक प्रा. लि.
1999.	85780	मैसर्स सिगमा पम्प प्रा. लि.	2030.	50991	मैसर्स सोमा काग्रो मुवर्स प्रा. लि.
2000.	52671	मैसर्स सिग्नल वर्ड्स एण्ड पिक्चर्स प्रा. लि.	2031.	71842	मैसर्स सोर्जरन ट्रेवल्स एण्ड टूरस प्रा. लि.
2001.	72615	मैसर्स सिकारिया बारटर प्रा. लि.	2032.	32423	मैसर्स सोलर साइटिफिक ग्लास इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
2002.	63547	मैसर्स सिलवरलाईन सिरामिक्स प्रा. लि.	2033.	56577	मैसर्स सोलर सिस्टम ट्रेवल्स प्रा. लि.
2003.	59923	मैसर्स साइनकेयर मर्केंटलाइज प्रा. लि.	2034.	41507	मैसर्स सॉलिडबॉण्ड एडहेंसिक्स प्रा. लि.
2004.	71076	मैसर्स सिंह पारमा डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा. लि.	2035.	76189	मैसर्स सोनाटा ओडियोविजन प्रा. लि.
2005.	02680	मैसर्स सिंहभुम क्रॉमाइट कम्पनी लि.	2036.	62985	मैसर्स सोन भद्र एग्रो प्लान्टेशन प्रा. लि.
2006.	86718	मैसर्स सिन्हा ब्रदर्स एण्ड कम्पनी प्रा. लि.	2037.	43844	मैसर्स सोनेक्स सिलक मिल्स प्रा. लि.
2007.	33088	मैसर्स सिरकर एण्ड मुखर्जी पिक्चर्स प्रा. लि.	2038.	57013	मैसर्स संजोग फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
2008.	56843	मैसर्स सिरको इण्डिया सेविंग्स एण्ड जनरल फिनान्स कम्पनी प्रा. लि.	2039.	37638	मैसर्स सोनम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
2009.	66431	मैसर्स सिरकू इंजीनियर्स एण्ड फेब्रिकेटर्स प्रा. लि.	2040.	58534	मैसर्स सॉथर्न कॉन्क्लेव प्रा. लि.
2010.	58372	मैसर्स सिरपुर इक्विजम प्रा. लि.	2041.	54814	मैसर्स सोम्यदीप फिनान्स एण्ड प्रोजेक्ट लि.
2011.	56421	मैसर्स सिरसिल मार्केटियर्स प्रा. लि.	2042.	21783	मैसर्स साउथ कलकत्ता डाइग्नोस्टिक क्लिनिक प्रा. लि.
2012.	27110	मैसर्स सिशुतिर्था प्रा. लि.	2043.	04296	मैसर्स साउथ कर्णपुरा कॉल कम्पनी लि.
2013.	46624	मैसर्स सिस्कॉन इण्डिया डेवलपर्स प्रा. लि.	2044.	36493	मैसर्स साउथ पैसिफिक इंडस्ट्रीज लि.
2014.	55640	मैसर्स सीता क्रेडिट कंसल्टेंट्स प्रा. लि.	2045.	29457	मैसर्स साउदर्न कोलड स्टोरेज प्रा. लि.
2015.	77704	मैसर्स सितला टॉकिज़ प्रा. लि.	2046.	57950	मैसर्स एसपीए एक्सपोर्ट्स ट्रेड्स प्रा. लि.
2016.	07612	मैसर्स सितारा -आर्द-हिन्द प्रेस प्रा. लि.	2047.	88782	मैसर्स एसपीए पैकेजिंग प्रा. लि.
2017.	73047	मैसर्स सियाराम सारिज़ लि.	2048.	43833	मैसर्स सपारा डेवलपर्स प्रा. लि.
			2049.	78597	मैसर्स स्पंदन मर्चेंट्स प्रा. लि.
			2050.	78273	मैसर्स स्पंदन ट्रेड्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
2051.	99195	मैसर्स स्पंदन विनिमय प्रा. लि.	2082.	51694	मैसर्स स्टेनलेस फिस्कल सर्विसेज प्रा. लि.
2052.	88959	मैसर्स स्पार्क मुविज प्रा. लि.	2083.	77656	मैसर्स स्टालवर्त कॉमर्स प्रा. लि.
2053.	59463	मैसर्स स्पार्स कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.	2084.	48275	मैसर्स स्ट्रामफोर्ड शिप मैनेजमेंट प्रा. लि.
2054.	80976	मैसर्स स्पेशल इन्सको प्रा. लि.	2085.	27445	मैसर्स स्टैंडर्ड एल्युमिनियम फेडरर्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
2055.	55464	मैसर्स स्पेस्लिटी कॉमोडिटीज प्रा. लि.	2086.	33356	मैसर्स स्टैंडर्ड टिम्बर प्रा. लि.
2056.	60137	मैसर्स स्पेशकेन इन्स्ट्रुमेंट प्रा. लि.	2087.	33635	मैसर्स स्टेन्ले स्केपल ट्रेड एण्ड फिनान्स लि.
2057.	85168	मैसर्स स्पीड बर्ड फिनान्सियल सर्विसेज प्रा. लि.	2088.	81625	मैसर्स स्टार इलेक्ट्रोपावर इक्युपमेंट्स प्रा. लि.
2058.	27182	मैसर्स स्पीड कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	2089.	30595	मैसर्स स्टार फार्मासियूटिकल्स प्रा. लि.
2059.	81699	मैसर्स स्पीडेक्स मार्केटिंग प्रा. लि.	2090.	64969	मैसर्स स्टार सीडस फार्मस प्रा. लि.
2060.	33914	मैसर्स स्पीट्रम कलर्स (कलकत्ता) प्रा. लि.	2091.	83616	मैसर्स स्टारलिट एडवाइजर प्रा. लि.
2061.	67177	मैसर्स स्पिका ट्रेड एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.	2092.	78277	मैसर्स स्टेस मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
2062.	25239	मैसर्स स्प्रेडरॉम प्रा. लि.	2093.	54225	मैसर्स स्टे-इन-होटल एण्ड रेसोर्ट्स प्रा. लि.
2063.	80533	मैसर्स स्प्रिंग फिल्ड कॉमर्स प्रा. लि.	2094.	75435	मैसर्स स्टीलेज वाणिज्य प्रा. लि.
2064.	62091	मैसर्स स्प्रिंग टच कॉमोडिटीज प्रा. लि.	2095.	41977	मैसर्स स्टीलमैन इक्युपमेंट्स प्रा. लि.
2065.	90500	मैसर्स एसआर शोपिंग प्रा. लि.	2096.	58388	मैसर्स स्टेन्सील व्यापार प्रा. लि.
2066.	57541	मैसर्स श्री अडवितय सिपिंग मिल्स प्रा. लि.	2097.	51110	मैसर्स स्थावर कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
2067.	29920	मैसर्स श्री चिट्स ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.	2098.	67952	मैसर्स स्टीटेकर्स पॉलिपेकस प्रा. लि.
2068.	31016	मैसर्स श्री गोविन्द (एसोसिएटेड) होजरी मिल्स प्रा. लि.	2099.	27154	मैसर्स स्टॉकमैन होटल प्रा. लि.
2069.	25339	मैसर्स श्री जगन्नाथ पिक्चर्स प्रा. लि.	2100.	62755	मैसर्स स्टोप्लीक मर्चेन्डाइज प्रा. लि.
2070.	15487	मैसर्स श्री कृष्ण शिवभगवान कम्पनी प्रा. लि.	2101.	65515	मैसर्स स्ट्रेंगर्स कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रा. लि.
2071.	31575	मैसर्स श्री मा मिनरल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	2102.	54408	मैसर्स सब हिमालयन प्लान्टेशन प्रा. लि.
2072.	73165	मैसर्स श्रेयनस इंजीनियर्स लि.	2103.	70833	मैसर्स सुबल एक्सपोर्ट (इण्डिया) प्रा. लि.
2073.	31354	मैसर्स श्री दुर्गा पेपर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	2104.	43964	मैसर्स सुबानी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2074.	75696	मैसर्स श्री गोकुल इकोनॉमिक सर्विसेज प्रा. लि.	2105.	65464	मैसर्स सुबासिश शिपिंग एण्ड शिप बिल्डिंग कम्पनी लि.
2075.	54445	मैसर्स श्री करनी इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.	2106.	65198	मैसर्स शुभम ओवरसिज प्रा. लि.
2076.	43931	मैसर्स श्री कृष्णा एपार्टमेंट प्रा. लि.	2107.	55100	मैसर्स शुभामति हाउसिंग फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
2077.	43157	मैसर्स श्री निवास लीजिंग एण्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	2108.	81892	मैसर्स सुभंकर ट्रेडिंग प्रा. लि.
2078.	30138	मैसर्स श्रीमा चिट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	2109.	27563	मैसर्स सुभनयन (इस्टेट) प्रा. लि.
2079.	85193	मैसर्स श्रीनारायणी फेरो एलायज लि.	2110.	34678	मैसर्स सुभास राय एण्ड कम्पनी (फोरेक्स ब्रोकर्स) प्रा. लि.
2080.	48045	मैसर्स श्रीनिद्धि फार्मसी कम्पनी प्रा. लि.	2111.	80676	मैसर्स शुभो सिमेंट प्रा. लि.
2081.	56354	मैसर्स श्रीसती वाणिज्य प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
2112.	67734	मैसर्स शुभश्री सेल्स प्रा. लि.	2144.	66652	मैसर्स सुपरेक्स पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
2113.	81817	मैसर्स सुबिर फोटोकॉम प्रा. लि.	2145.	31505	मैसर्स सुपर ग्रीस ऑयल कम्पनी प्रा. लि.
2114.	41615	मैसर्स सुबरबन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.	2146.	53198	मैसर्स सुपर प्लास्ट इन्टरनेशनल प्रा. लि.
2115.	81148	मैसर्स सुधर्शन प्लान्टेशन लि.	2147.	80642	मैसर्स सुपरकिंग फिन्वेस्ट प्रा. लि.
2116.	45305	मैसर्स सुधीर लीजिंग एण्ड हायर पर्वेज प्रा. लि.	2148.	49497	मैसर्स सुपरसॉनिक रोडवेज प्रा. लि.
2117.	20660	मैसर्स शूगर सप्लायर्स प्रा. लि.	2149.	17597	मैसर्स सुप्रभात इंजीनियरिंग कम्पनी लि.
2118.	81263	मैसर्स सुजाता ट्रेकॉम प्रा. लि.	2150.	53887	मैसर्स सुप्रभात सेविंग्स एण्ड फिस्कल लि.
2119.	51426	मैसर्स सुकदेव बीरभुम फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	2151.	57625	मैसर्स सुप्रीम कैसेट्स प्रा. लि.
2120.	63867	मैसर्स सुखमय पाल सिक्कूरिटिज प्रा. लि.	2152.	33482	मैसर्स सुप्रीम पेंट्स प्रा. लि.
2121.	39004	मैसर्स सुखानी डगर कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	2153.	48601	मैसर्स सुपर्णा एजेंसी प्रा. लि.
2122.	59686	मैसर्स सुलभ विनिमय प्रा. लि.	2154.	81108	मैसर्स सूर जूट ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
2123.	87951	मैसर्स सुमंगल सारीज़ प्रा. लि.	2155.	51081	मैसर्स सुराना फिन्वेस्ट कम्पनी प्रा. लि.
2124.	54273	मैसर्स सुमति सेविंग्स एण्ड फिन्वेस्ट कम्पनी (इण्डिया) लि.	2156.	64537	मैसर्स सुरीची फेबटेक्स प्रा. लि.
2125.	73231	मैसर्स सुमेरू फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.	2157.	81143	मैसर्स सुरवि कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
2126.	71916	मैसर्स सुमी इक्विटीक (इण्डिया) प्रा. लि.	2158.	75224	मैसर्स सूर्या स्टोरेज प्रा. लि.
2127.	68218	मैसर्स सन कास्ट इण्डिया प्रा. लि.	2159.	75226	मैसर्स सूर्या टैक्स प्रा. लि.
2128.	69566	मैसर्स सन इन्शोरेंस सर्विसेस प्रा. लि.	2160.	50793	मैसर्स सूर्यादित्य हिटिंग सिस्टम्स प्रा. लि.
2129.	54539	मैसर्स सुनन्दा जिन्कोकेम प्रा. लि.	2161.	84677	मैसर्स सुरजी एक्सपोर्ट प्रा. लि.
2130.	53826	मैसर्स सुनयना इन्क्लेक्स प्रा. लि.	2162.	54262	मैसर्स सुशरि इन्ट्रेड प्रा. लि.
2131.	31235	मैसर्स सुन्दर सिंथैटिक्स प्रा. लि.	2163.	33766	मैसर्स सतोदय इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग्स कम्पनी लि.
2132.	78588	मैसर्स सुन्दरम मर्चेन्ट्स प्रा. लि.	2164.	91793	मैसर्स सुवन बायोटेक प्रा. लि.
2133.	59779	मैसर्स सुन्दरबन एक्सपोर्ट्स इण्डिया लि.	2165.	36454	मैसर्स सुवरिन मेटल इंडस्ट्रीज लि.
2134.	30509	मैसर्स सुन्दर इलेक्ट्रिक मार्ट प्रा. लि.	2166.	29886	मैसर्स स्वदेशी कार्ड बोर्ड बॉक्स एमएफजी कम्पनी प्रा. लि.
2135.	58368	मैसर्स सुन्दरबन मर्चेन्ट्स प्रा. लि.	2167.	08800	मैसर्स स्वदेशी इंडस्ट्रीज लि.
2136.	54617	मैसर्स सन-ग्लो वायर्स एण्ड केबल्स प्रा. लि.	2168.	56202	मैसर्स स्वामी विवेकानन्द कल्चरल फाउण्डेशन
2137.	59624	मैसर्स सुनील बिल्डर्स प्रा. लि.	2169.	53267	मैसर्स स्वानो क्रेडिट एएमडी फिन्वेस्ट प्रा. लि.
2138.	84421	मैसर्स सुनीकॉन डेवलपमेंट प्रा. लि.	2170.	48180	मैसर्स स्वारन मार्केटिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा. लि.
2139.	48283	मैसर्स सनराइज (स्टील) स्ट्रीप्स प्रा. लि.	2171.	53878	मैसर्स स्वारन सेठ डेवलपर्स एण्ड फाईनेंस कम्पनी लि.
2140.		मैसर्स सनराइज ट्रेवलस एण्ड काग्रो प्रा. लि.	2172.	57631	मैसर्स स्वस्थ फूड्स लि.
2141.	82545	मैसर्स सनस्टार विनकॉम प्रा. लि.	2173.	25703	मैसर्स स्वास्तिक प्रिन्ट क्राफ्ट प्रा. लि.
2142.	50860	मैसर्स सनटेक्स इक्सपो-इम्पो प्रा. लि.	2174.	76693	मैसर्स स्वस्तिका सप्लायर्स प्रा. लि.
2143.	58891	मैसर्स सनयेट लीजिंग (इण्डिया) प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
2175.	55738	मैसर्स स्वीट लाइफ हाउसिंग एण्ड फाईनेंस (इण्डिया) लि.	2206.	24985	मैसर्स टेक्नॉ लेबोरेटरीज़ इण्डिया प्रा. लि.
2176.	31094	मैसर्स स्वीटेस्ट सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	2207.	36568	मैसर्स टेक्नॉ कॉन्वेरेटर्स (इण्डिया) लि.
2177.	51352	मैसर्स स्वीटी वाणिज्य प्रा. लि.	2208.	68637	मैसर्स टेक्वाल्ला ट्रेडिंग प्रा. लि.
2178.	48160	मैसर्स स्वेताम्बर होलिंग्स प्रा. लि.	2209.	66949	मैसर्स टेलेमैटिक्स बारटर प्रा. लि.
2179.	71993	मैसर्स सिम्बयोसिस रिसोर्सिज प्रा. लि.	2210.	54573	मैसर्स टेल्लर क्रेडिट एण्ड फाईनेंस प्रा. लि.
2180.	57463	मैसर्स सिम्फोनि इलेक्ट्रोडेज प्रा. लि.	2211.	75003	मैसर्स टेमेक कॉमोडीटिज प्रा. लि.
2181.	63851	मैसर्स सयनापस इन्टरनेशनल एडवर्टाईजिंग एण्ड कम्यूनिकेशन प्रा. लि.	2212.	30587	मैसर्स टेम्पल नर्सिंग होम प्रा. लि.
2182.	53023	मैसर्स सिस्टम्स सोल्यूशन्स प्रा. लि.	2213.	34567	मैसर्स ट्रेनेक प्रा. लि.
2183.	86180	मैसर्स टी. एम. शाह प्रा. लि.	2214.	33264	मैसर्स टेरेसा इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लि.
2184.	53336	मैसर्स टी. एन. फैंशन्स प्रा. लि.	2215.	64503	मैसर्स ट्रेकॉन मर्केंटाइल प्रा. लि.
2185.	54328	मैसर्स टाका हशी टी प्रा. लि.	2216.	57237	मैसर्स टेस्ता वैली एग्रो-प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2186.	67523	मैसर्स टेक क्यूरेज कॉमर्स प्रा. लि.	2217.	37475	मैसर्स टेक्सपैक इण्डिया प्रा. लि.
2187.	61548	मैसर्स टालबॉट हाउसिंग फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.	2218.	29570	मैसर्स ठाकुर कैमिकल्स प्रा. लि.
2188.	85652	मैसर्स टालिया डेयरी एण्ड एग्रो प्रा. लि.	2219.	64259	मैसर्स थालिया ट्रेडर्स प्रा. लि.
2189.	15536	मैसर्स तमलुक ट्रान्सपोर्ट एण्ड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	2220.	30658	मैसर्स थापर कंसल्टेंट्स एण्ड सर्विसेज लि.
2190.	43953	मैसर्स तन मन हेल्थ क्लब प्रा. लि.	2221.	78311	मैसर्स थियेटर इण्डिया लि.
2191.	79882	मैसर्स ताना इलेक्ट्रिक प्रा. लि.	2222.	64653	मैसर्स थीम पब्लिकेशन प्रा. लि.
2192.	65962	मैसर्स टानफेक मर्चेन्ट्स प्रा. लि.	2223.	77688	मैसर्स श्री चियर्स डेवलपर्स प्रा. लि.
2193.	75656	मैसर्स तपबन डायरी फार्मिंग प्रा. लि.	2224.	84287	मैसर्स टाइगर इन्टेलिजेंस एण्ड सिक्युरिटी एजेंसी
2194.	64510	मैसर्स तारा मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	2225.	75736	मैसर्स टाइगर ट्रेकॉम प्रा. लि.
2195.	51671	मैसर्स तराई इन्वेस्टमेंट एण्ड लीजिंग प्रा. लि.	2226.	37637	मैसर्स तिलक चान्द लि.
2196.	85181	मैसर्स तारामा डेयरी प्रा. लि.	2227.	49229	मैसर्स तिलॉक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
2197.	80909	मैसर्स ताराना ट्रेडलिंग प्रा. लि.	2228.	30399	मैसर्स टाइम्स सिक्युरिटीज लि.
2198.	27644	मैसर्स तरमि मिनरल्स प्रा. लि.	2229.	54369	मैसर्स टाइम्स लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड हाउसिंग फिनान्स कम्पनी लि.
2199.	30638	मैसर्स तासेस टी कम्पनी प्रा. लि.	2230.	78574	मैसर्स तिरथापति ट्रेडिंग प्रा. लि.
2200.	20910	मैसर्स तातर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी (इण्डिया) लि.	2231.	52275	मैसर्स तिरुपति बालाजी रोड कैरियर्स प्रा. लि.
2201.	83225	मैसर्स टिक-टाक प्लान्टेशनस कम्पनी लि.	2232.	58536	मैसर्स तिरुपति फाइरेक्स कैमिकल्स प्रा. लि.
2202.	56246	मैसर्स टीको प्लान्टेशन्स लि.	2233.	65130	मैसर्स तिरुपति टेक्सनित प्रोसेसर्स प्रा. लि.
2203.	57859	मैसर्स टेक्नविरो इंजीनियर्स प्रा. लि.	2234.	63616	मैसर्स टियागूह फार्म टेक्नोलॉजीस लि.
2204.	63141	मैसर्स टेकमा कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	2235.	75442	मैसर्स टुडेज फिनान्स प्रा. लि.
2205.	44843	मैसर्स टेक्नॉ इकोनॉमिक एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	2236.	33528	मैसर्स टॉल्ली इलेक्ट्रो एक्जुटर्स प्रा. लि.
			2237.	33439	मैसर्स टॉम्प फूड केनिंग कम्पनी प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
2238.	64535	मैसर्स टॉनाडो रेसोर्ट्स एण्ड क्लब्स प्रा. लि.	2268.	48067	मैसर्स ट्रॉपिकल हाऊसिंग डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
2239.	82045	मैसर्स टॉप लाइफटर्स प्रा. लि.	2269.	43160	मैसर्स ट्रॉयी एसोसीएट्स प्रा. लि.
2240.	56675	मैसर्स टॉप प्रिंट एण्ड पैक प्रा. लि.	2270.	64870	मैसर्स टीआरएस कंसल्टेंट्स (इण्डिया) प्रा. लि.
2241.	55391	मैसर्स टोपाज सेविंग प्रोडक्ट्स लि.	2271.	59376	मैसर्स ट्रूमैन इन्फोरमैटिक्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
2242.	73134	मैसर्स तवरित इंजीनियरिंग प्रा. लि.	2272.	3434	मैसर्स टुफानिलौंगा टी कम्पनी लिमिटेड
2243.	56069	मैसर्स टॉरन्डो इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	2273.	74022	मैसर्स टुलिप मेडिक्स प्रा. लि.
2244.	78853	मैसर्स टॉरिन्ट कॉमोडीटिज प्रा. लि.	2274.	55963	मैसर्स टम्बलवीड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2245.	75524	मैसर्स तोशामिया कॉमर्शियल इन्क्लेव प्रा. लि.	2275.	84489	मैसर्स तुसार कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
2246.	84698	मैसर्स तोशिब कमल इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	2276.	41824	मैसर्स ट्वेन्टी फस्ट सेंचुरी एल्लायज प्रा. लि.
2247.	40739	मैसर्स टीपीएस सिस्टम प्रा. लि.	2277.	65468	मैसर्स ट्वेन्टी फस्ट सेंचुरी क्लिनिक प्रा. लि.
2248.	53478	मैसर्स टीआर अँको सर्विसेज (इण्डिया) प्रा. लि.	2278.	43625	मैसर्स ट्वन्टीफस्ट सेंचुरी डेवलपमेंट फिनान्स कम्पनी लिमिटेड
2249.	27839	मैसर्स ट्रेकॉ सु प्रा. लि.	2279.	60866	मैसर्स अबरस फिनान्स प्रा. लि.
2250.	19885	मैसर्स तराईलख्य इंजीनियरिंग सीट एण्ड मेटल वर्क्स प्रा. लि.	2280.	31018	मैसर्स उचलन क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
2251.	86766	मैसर्स टीआरबी ट्रान्सपोर्ट एजेंसी प्रा. लि.	2281.	36282	मैसर्स उद्यान्वल् ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड
2252.	67492	मैसर्स ट्रेसियूर्स लैण्ड (एक्सपोर्ट्स) प्रा. लि.	2282.	29670	मैसर्स उद्यान क्रेडिट एण्ड जेनरल इन्वेस्टमेंट कम्पनी
2253.	54338	मैसर्स ट्रेनड इण्डिया मार्केटिंग एण्ड पब्लिकेशन प्रा. लि.	2283.	63790	मैसर्स उदयटेक (सॉफ्टवेयर) प्रा. लि.
2254.	60867	मैसर्स ट्रेनडस्ट्र फिनान्सियल सर्विसेज प्रा. लि.	2284.	58374	मैसर्स उजाला व्यापार प्रा. लि.
2255.	56985	मैसर्स त्रिदेव इक्विजम प्रा. लि.	2285.	54510	मैसर्स यूलेक्स टेक्सटाइल इण्डिया लिमिटेड
2256.	80199	मैसर्स त्रिगेम मर्वेण्ट्स प्रा. लि.	2286.	80620	मैसर्स अल्ट्रा विन्स प्रा. लि.
2257.	58669	मैसर्स त्रिमलाइन ट्रेकिजम प्रा. लि.	2287.	43728	मैसर्स यूनिबॉन्ड स्पेशलिटी अधेसिवस प्रा. लि.
2258.	46601	मैसर्स त्रिनैनी प्रोपर्टीज प्रा. लि.	2288.	60455	मैसर्स यूनिक्रॉन सिस्टम प्रा. लि.
2259.	89909	मैसर्स त्रिनयनी मार्केटिंग लि.	2289.	85129	मैसर्स यूनिक्रॉन ट्रेवल सर्विसेज प्रा. लि.
2260.	63656	मैसर्स त्रिनेत्र गुड्स एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.	2290.	60467	मैसर्स यूनिक्रॉन व्यापार लिमिटेड
2261.	35707	मैसर्स त्रिनिट्रोन इण्डिया प्रा. लि.	2291.	85653	मैसर्स यूनिमैग मार्केटिंग प्रा. लि.
2262.	30592	मैसर्स त्रिनेति आर्गेनिक लि.	2292.	57804	मैसर्स यूनिनयन पेट्रोकेम प्रा. लि.
2263.	68697	मैसर्स त्रिपिटिक ऑर्गेनिक लिमिटेड	2293.	78262	मैसर्स यूनिप्रो इन्फोचप्रा. लि.
2264.	27545	मैसर्स त्रिपुरा गलास वर्क्स प्रा. लि.	2294.	21391	मैसर्स यूनिक कार्ड बोर्ड बोक्स एमएफजी कम्पनी प्रा. लि.
2265.	53971	मैसर्स त्रि-रत्न हाउसिंग फिनान्स एण्ड लैण्ड डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड	2295.	57779	मैसर्स यूनिक स्ट्राइल प्रा. लि.
2266.	44230	मैसर्स त्रिस्टार कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	2296.	79916	मैसर्स यूनिस्टार स्ट्र बोर्ड मिल्स प्रा. लि.
2267.	57470	मैसर्स त्रिटेकनिक इक्युपमेंट्स प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
2297.	46280	मैसर्स यूनाइटेड क्लिनिक प्रा. लि.	2327.	33460	मैसर्स वारिगेट प्रा. लि.
2298.	40046	मैसर्स यूनाइटेड रोड कैरियर्स प्रा. लि.	2328.	56376	मैसर्स वर्णाली डाइकेम प्रा. लि.
2299.	33467	मैसर्स यूनाइटेड स्टर्म्पिंगस प्रा. लि.	2329.	62742	मैसर्स वास्को कॉर्पोरेटिज प्रा. लि.
2300.	65593	मैसर्स यूनाइटेड टेलिकॉम सिस्टम्स प्रा. लि.	2330.	33820	मैसर्स वासुकी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
2301.	29772	मैसर्स यूनाइटेड ट्रांसफोरमर्स प्रा. लि.	2331.	76691	मैसर्स वसुन्धरा मार्केटिंग प्रा. लि.
2302.	42659	मैसर्स यूनियटी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	2332.	36234	मैसर्स वसुन्धरा कॉमर्शियल लिमिटेड
2303.	57071	मैसर्स यूनियटी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड	2333.	72010	मैसर्स वीसीके लैण्ड एण्ड प्रोपर्टीज प्रा. लि.
2304.	57614	मैसर्स यूनियवेर फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.	2334.	53862	मैसर्स वेन्टस फिलिकल सर्विसेज प्रा. लि.
2305.	76144	मैसर्स अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी प्रा. लि.	2335.	78581	मैसर्स वेनस डेलिंग प्रा. लि.
2306.	10887	मैसर्स अपर इण्डिया इन्वेस्टमेंट क्रॉन प्रा. लि.	2336.	55940	मैसर्स वेरोमाता सेविंग्स एण्ड क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
2307.	63774	मैसर्स अपटेक प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	2337.	56440	मैसर्स वेरोनिका क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
2308.	29849	मैसर्स अर्थेन साइन्टिफिक रबड कैमिकल्स वर्क्स इण्डिया प्रा. लि.	2338.	78891	मैसर्स वेटमेड लेब्रोटेरिज प्रा. लि.
2309.	48663	मैसर्स उर्सिन्हा फार्मासियुटिकल्स प्रा. लि.	2339.	65284	मैसर्स विबेस ट्रेवलस एण्ड टूरिस्ट प्रा. लि.
2310.	30148	मैसर्स उर्वसि चीत एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.	2340.	44916	मैसर्स विबगियोर लेदर फिनिशस प्रा. लि.
2311.	76185	मैसर्स उर्वी निर्माण प्रा. लि.	2341.	54024	मैसर्स विक्टोरिया सेवीकिंग्स एण्ड फिनान्स लिमिटेड
2312.	82018	मैसर्स ऊषा डाइगोनेस्टिक सेंटर प्रा. लि.	2342.	65107	मैसर्स विधुर लेफिन प्रा. लि.
2313.	75007	मैसर्स उटमसेल कॉमर्स प्रा. लि.	2343.	44422	मैसर्स विडुला पॉलिमर्स प्रा. लि.
2314.	75993	मैसर्स यू-टेक ऑटो सर्विसेज प्रा. लि.	2344.	63240	मैसर्स विजय कॉक इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
2315.	56516	मैसर्स उतकल क्रेडिट एण्ड कॉमर्स प्रा. लि.	2345.	33566	मैसर्स विक्रम मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2316.	48224	मैसर्स उतपल सेल प्रोपर्टीज प्रा. लि.	2346.	55019	मैसर्स विन्धवासिनी सेल्स एजेंसि प्रा. लि.
2317.	62262	मैसर्स उत्सव कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	2347.	79920	मैसर्स विन्धवासिनी कॉमर्शियल प्रा. लि.
2318.	48163	मैसर्स वी आई पी लेब्रोटेरी (इण्डिया) प्रा. लि.	2348.	70890	मैसर्स विनियोग सेल्स प्रा. लि.
2319.	56600	मैसर्स वी के ए एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	2349.	64374	मैसर्स विनलाइन डिल्स प्रा. लि.
2320.	48295	मैसर्स वी आर मर्चण्टाइल प्रा. लि.	2350.	55242	मैसर्स विनसेंट हाउसिंग फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
2321.	63067	मैसर्स वी सी प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	2351.	63340	मैसर्स विन्सन डेवलपर्स लिमिटेड
2322.	29421	मैसर्स वी आई पी नर्सिंग होम प्रा. लि.	2352.	53529	मैसर्स विपुल फिनान्स एण्ड प्रोपर्टीज प्रा. लि.
2323.	76301	मैसर्स वैष्णव इंजीनियर्स प्रा. लि.	2353.	52983	मैसर्स विराट गंगा मर्चण्टलाइज प्रा. लि.
2324.	54317	मैसर्स वालिएन्ट सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट इण्डिया लिमिटेड	2354.	72118	मैसर्स विरेन टी कम्पनी प्रा. लि.
2325.	87921	मैसर्स वालका फिन्कॉन (आई) लिमिटेड	2355.	67644	मैसर्स विरगिना सिल्क प्रा. लि.
2326.	33983	मैसर्स वलमेट (इण्डिया) लिमिटेड	2356.	54246	मैसर्स विरवीना इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
			2357.	75289	मैसर्स विश्राम इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.

1	2	3
2358.	60247	मैसर्स विश्वाबासु मर्चण्टलाइज प्रा. लि.
2359.	55925	मैसर्स वीएमएस कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
2360.	69865	मैसर्स बॉलुन्टर ट्रेडिंग प्रा. लि.
2361.	48185	मैसर्स वॉमेक्स फिनान्स इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
2362.	57787	मैसर्स वइआरडी सलफोन्टर्स प्रा. लि.
2363.	54039	मैसर्स वफर फूड एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2364.	50314	मैसर्स वाल्लम टी गारडेंस प्रा. लि.
2365.	82265	मैसर्स वमिका एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2366.	33499	मैसर्स वरिद्धि (इण्डिया) लिमिटेड
2367.	56277	मैसर्स वेव मेडिकेयर प्रा. लि.
2368.	44325	मैसर्स वेक्स एक्सपोर्ट प्रा. लि.
2369.	00045	मैसर्स वेबल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम
2370.	33463	मैसर्स वेबल प्रेक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2371.	52576	मैसर्स वेकॉन फिनान्स प्रा. लि.
2372.	58513	मैसर्स वेल्फेयर इन्टरनेशनल इकोनॉमी फिन्को लिमिटेड
2373.	64118	मैसर्स वेलगार्ड कॉमोडेल प्रा. लि.
2374.	57596	मैसर्स वेल्स इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
2375.	59621	मैसर्स वेलकेयर कम्प्लेक्स एण्ड फिनान्स लिमिटेड
2376.	60275	मैसर्स वेलमेड कॉमर्शियल प्रा. लि.
2377.	66017	मैसर्स वेन्डर वाणिज्य प्रा. लि.
2378.	58090	मैसर्स वेन्स इम्पेक्स प्रा. लि.
2379.	20595	मैसर्स वेस्ट बंगाल कॉल डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी प्रा. लि.
2380.	39370	मैसर्स वेस्ट इन्ड इंजीनियरिंग प्रा. लि.
2381.	24639	मैसर्स व्हाइट फोम प्रा. लि.
2382.	54906	मैसर्स व्हाइट लेबल सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
2383.	87537	मैसर्स व्हाइट प्ले प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
2384.	67697	मैसर्स होलसम व्यापार प्रा. लि.
2385.	53344	मैसर्स वाइल्ड वूड रिट्रेट प्रा. लि.
2386.	59750	मैसर्स विल्ली फलायर इकोनॉमि फिन्वेस्ट प्रा. लि.
2387.	61178	मैसर्स विकॉम इक्विजम प्रा. लि.
2388.	38614	मैसर्स विनवूड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
2389.	57642	मैसर्स विजडम इकोनॉमि एण्ड फिनान्स इण्डिया प्रा. लि.
2390.	27514	मैसर्स ऊमाचरण क्योरमोंकर प्रा. लि.
2391.	37432	मैसर्स रेपरर्स एण्ड पैकर्स (इण्डिया) प्रा. लि.
2392.	38763	मैसर्स वाई ई (इण्डिया) प्रा. लि.
2393.	62732	मैसर्स यशोमाता कॉमोड्रेड प्रा. लि.
2394.	50887	मैसर्स यशवर्द्धन फब्रीक प्रा. लि.
2395.	76464	मैसर्स योजना इंजीनियर्स प्रा. लि.
2396.	68722	मैसर्स योनेक्स फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2397.	8892	मैसर्स यंग बंगाल स्टोर्स प्रा. लि.
2398.	57274	मैसर्स यंग क्रियेशन फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
2399.	14675	मैसर्स यंगमॅन्स (ज्वैलर्स) प्रा. लि.
2400.	57632	मैसर्स यूओर लाइफ जेनरल फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
2401.	80319	मैसर्स जेड कंसल्टेंसी (इण्डिया) प्रा. लि.
2402.	31287	मैसर्स जाइगलर रबर वर्क्स प्रा. लि.
2403.	52442	मैसर्स जेनिथ वूड बोर्ड्स प्रा. लि.
2404.	64122	मैसर्स जेरी व्यापार प्रा. लि.
2405.	53087	मैसर्स जोट्रोप इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.

डी. बन्दोपाध्याय
कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में

कोयंबतूर — 641005, दिनांक 30.01.2008

सं. आरओसी/सीभीई/ 560,561 /2007 — कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा 561 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यहां निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टार ऑफ कम्पनिज के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियों विघटित कर दी जाएंगे

क्र.सं.	नंबर	कम्पनी का नाम
195	1020	जि.एस.राजा टेक्सटिल प्रइवेट लिमिटेड
196	1038	श्री मिणाक्षी हैडो एक्जुप्मेन्ट प्रइवेट लिमिटेड
197	1050	मिरज चिट फन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
198	1067	वेलमूर पेप्पर मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
199	1069	विरकषणकुमारी एस्टेट्स प्रइवेट लिमिटेड
200	1072	सनदिप निटविक्स प्रइवेट लिमिटेड
201	1110	फाबकोड प्रइवेट लिमिटेड
202	2000	एस्सनसियल फ्लोरल आर्यलस(मेडरास) प्रइवेट लिमिटेड
203	2019	अखषया हउसिंग इन्वेस्टमेन्ट (इन्डिया) लिमिटेड
204	2021	एस.जि.एफ. इन्वेस्टमेन्ट को प्रइवेट लिमिटेड
205	2027	ओम शक्ति फेरो अलायस प्रइवेट लिमिटेड
206	2035	बेल्केलस स्टील इन्डसट्रीस प्रइवेट लिमिटेड
207	2038	गिनाविच लिसिंग को. प्रइवेट लिमिटेड
208	2041	गनष राजा लिसिंग प्रइवेट लिमिटेड
209	2043	अनकाम्प्रमैसिंग क्वालिटी कन्स्टक्सनस प्रइवेट लिमिटेड
210	2065	बलूमैन्ट कारटनस प्रइवेट लिमिटेड
211	2080	केविके टेक्सटइल मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
212	2081	जस्मा फुड कान्सेन्टरेट्स प्रइवेट लिमिटेड
213	2092	अमरिता जोति क्लात विविंग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
214	2093	आन।द जोति विविंग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
215	2109	रासी अप्पेरलस प्रइवेट लिमिटेड
216	2114	कयुबेक टेक्सटइलस प्रइवेट लिमिटेड
217	2115	विविन फइनान्स अन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड

218	2132	उदयम एलकटाडस प्रइवेट लिमिटेड
219	2137	मारुती डरगस प्रइवेट लिमिटेड
220	2144	आन डज़ट एक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
221	2145	अल्लम्मा मेसिनवर्कस प्रइवेट लिमिटेड
222	2152	के.जि.ए.सि. चिट फन्डस फइनान्स प्रइवेट लिमिटेड
223	2156	गुहन न्टिस पप्रइवेट लिमिटेड
224	2163	प्रइम रबबर प्राडक्टस प्रइवेट लिमिटेड
225	2165	ए टू इजट फन्डस लिमिटेड
226	2166	गुरु चिटफनडस प्रइवेट लिमिटेड
227	2170	नान फइनानसिंग प्रइवेट लिमिटेड
228	2175	री शखती सकवेर टुल्स प्रइवेट लिमिटेड
229	2176	श्रा रामजेयम ट्रड अन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
230	2184	पराशखती एलकटानिक्स प्रइवेट लिमिटेड
231	2193	एस विजे मेटल फिनिसर्स प्रइवेट लिमिटेड
232	2205	मिटसो सरविस्स प्रइवेट लिमिटेड
233	2209	कोनि लिसिंग अन्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रइवेट लिमिटेड
234	2214	अल्टा वेल्ड प्रइवेट लिमिटेड
235	2222	के.जि.ए.सि. लिसिंग प्रइवेट लिमिटेड
236	2234	आन्वर अप्पेरल्स प्रइवेट लिमिटेड
237	2253	सुछरसन एनजिनियअरिंग प्रइवेट लिमिटेड
238	2258	साफ्ट बेस (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
239	2268	लावनया एलकटानिक्स प्रइवेट लिमिटेड
240	2272	महारानी केमिकलस अन्ड डिस्टिलरिस प्रइवेट लिमिटेड
241	3123	विगनेष मेटल्स प्रइवेट लिमिटेड
242	3127	कोनि कंप्यूटर फार्मस पयप्रइवेट लिमिटेड
243	3135	श्रीनित स्पिन्निंग मिल्स पप्रइवेट लिमिटेड
244	3144	वेलसपिन टेक्स प्रइवेट लिमिटेड
245	3151	रेगो टेक्स प्रइवेट लिमिटेड
246	3165	सुमनि स्पिन्नअरस प्रइवेट लिमिटेड
247	3166	मनिमलै कमगसबै स्पिन्निंग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
248	3170	जयविनायकर अन्ड महालक्ष्मि मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
249	3180	श्री बन्नारी अम्मन गारमेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
250	3208	सुप्रिम फेरटिलैर्सस अन्ड पेस्टिसैडस प्रइवेट लिमिटेड
251	3209	इरुलप्पा स्पिन्नअरस प्रइवेट लिमिटेड

252	3233	राजलक्ष्मि फाब्रिक्स प्रइवेट लिमिटेड
253	3248	करुमैयान राटटो स्पिन्नअरस प्रइवेट लिमिटेड
254	3253	एम के पि एक्स्पॉर्टस प्रइवेट लिमिटेड
255	3261	श्री ताय स्पिन्नंग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
256	3270	श्री राजकोन्डलू कार्डस प्रइवेट लिमिटेड
257	3281	कषणा रिशर्टस प्रइवेट लिमिटेड
258	3282	कोच्चि चैनल्स प्रइवेट लिमिटेड
259	3286	नटराजा फाब्रिक्स प्रइवेट लिमिटेड
260	3292	सहुन्तला टेक्स्टाइलस प्रइवेट लिमिटेड
261	3299	जा टेक्सटइल्स अन्ड अप्पारल्स एक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
262	3319	प्रनवा स्पिर्न्स प्रइवेट लिमिटेड
263	3325	डिसैनस कारुगेटड पाक्केजिंग प्रइवेट लिमिटेड
264	3328	डिभी मेसिन्स प्रइवेट लिमिटेड
265	3334	सार्प कंप्युटर फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
266	3341	अमरिता फाषन गारमेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
267	3342	केनि जुस्स प्रइवेट लिमिटेड
268	3367	विकास सोप्स अन्ड केमिकल्स प्रइवेट लिमिटेड
269	3372	जिगमा निटर्स प्रइवेट लिमिटेड
270	3380	गलोसी टेक्स्टइल्स प्रइवेट लिमिटेड
271	3412	कायंबत्तूर विजे इन्जिनयरिंग प्रइवेट लिमिटेड
272	3430	रैस सेक्युरिटीस अन्ड सेर्यस प्रइवेट लिमिटेड
273	3445	पाइन्ट टु पाइन्ट कोरियस प्रइवेट लिमिटेड
274	3459	नायगरा एक्स्पॉर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
275	3475	कावै श्री भालाजि रियल एस्टेट्स प्रइवेट लिमिटेड
276	3480	श्री भागया स्टीलस प्रइवेट लिमिटेड
277	3501	जे.आर मिनरल्स प्रइवेट लिमिटेड
278	3502	वेस्टर्न गट रिसार्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
279	3503	मुरुगन स्टील्स प्रइवेट लिमिटेड
280	3504	जननी अलाय केसटिंग्स प्रइवेट लिमिटेड
281	3514	रक्ष मेटल्स अन्ड मटालार्जिकल्स प्रइवेट लिमिटेड
282	3524	श्री आन्जनेय टेयर्ल्स प्रइवेट लिमिटेड
283	3614	शन इन्डस्टीयल प्रडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
284	3627	रायल सूस (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
285	3632	कतिरेसा राजा साल्वेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड

286	3659	सुरय लक्ष्मी टेक्स्टइल्स प्रइवेट लिमिटेड
287	6915	री जानकिराम चिट प्रइवेट लिमिटेड
288	6918	बैरवी फूड अन्ड बिबरेजस लिमिटेड
289	6927	विजिराम फइनान्स प्रइवेट लिमिटेड
290	6929	श्री रंगा एन्डरलैन टेक्स-स्टैल्स मिल लिमिटेड
291	6932	फोनिकस फरमवेअरस अन्ड अप्लैयन्सस प्रइवेट लिमिटेड
292	6933	एस.एस.एस टान्सपोट प्रइवेट लिमिटेड
293	6942	तुलिप टेड ओवरसिस प्रइवेट लिमिटेड
294	6943	बरिन्दा इन्डस्टियल फिल्टरस प्रइवेट लिमिटेड
295	6946	असिटान एलक्टानिक्स प्रइवेट लिमिटेड
296	6953	होटल रिषबम प्रइवेट लिमिटेड
297	6955	अपरा अगरी प्राडक्टस प्रइवेट लिमिटेड
298	6972	अमर जयुट प्राडक्टस प्रइवेट लिमिटेड
299	6973	कैसलया राम मेसिन वर्क प्रइवेट लिमिटेड
300	6975	है-टेक कट फलवर फामर्स प्रइवेट लिमिटेड
301	6976	शण्मुगा अग्रो फामर्स प्रइवेट लिमिटेड
302	6977	कुमरन अग्रो फामर्स प्रइवेट लिमिटेड
303	6981	राजपुरणास चिटस प्रइवेट लिमिटेड
304	6994	चेरन पेप्पर अन्ड बोर्डस प्रइवेट लिमिटेड
305	6999	सुतारा चिटफन्ड प्रइवेट लिमिटेड
306	7000	डयमन्ड गोट फार्म इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
307	7004	टिम निट प्रइवेट लिमिटेड
308	7005	सुप्रिम विकास कार्ड्स प्रइवेट लिमिटेड
309	7008	एनआरएस एक्सपोर्टस अन्ड इम्पोर्टस प्रइवेट लिमिटेड
310	7011	वसनता बालाजी स्टिल अन्ड इनगाट प्रइवेट लिमिटेड
311	7016	फन्टलइन बेनिफिट फन्ड लिमिटेड
312	7020	पुकल फइनान्स अन्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रइवेट लिमिटेड
313	7023	नमबियूर सिपिन्ग मिलस प्रइवेट लिमिटेड
314	7034	विविल आटोपिन प्रइवेट लिमिटेड
315	7040	भालमुरली सिपिन्ग मिलस प्रइवेट लिमिटेड
316	7041	श्री माई चिट फन्डस प्रइवेट लिमिटेड
317	7042	मार्डन गोट फार्म प्रइवेट लिमिटेड
318	7043	री सबतगिरिवासन रियल एसटेट प्रइवेट लिमिटेड
319	7044	श्री सबतगिरिवासन हैयर परचेस अन्ड लिसिंग प्रइवेट लिमिटेड

320	7047	लतिका हेरबस प्रइवेट लिमिटेड
321	7052	कोयंबतूर हैटेक फउन्डरिस प्रइवेट लिमिटेड
322	7056	निलमलै पेस्टीसैडस अन्ड केमिकलस प्रइवेट लिमिटेड
323	7057	निलमलै वेरहउस प्रइवेट लिमिटेड
324	7058	पार्कआवी क्लात मिल प्रइवेट लिमिटेड
325	7065	श्री अप्पाई लिस अन्ड फइनान्स प्रइवेट लिमिटेड
326	7070	वि.जि.पि. पेप्पर मिलस प्रइवेट लिमिटेड
327	7080	विवेगम अनिमल फामर्स प्रइवेट लिमिटेड
328	7082	कुडुम्बम फइनान्स अन्ड इन्वेस्टमेन्टस प्रइवेट लिमिटेड
329	7084	छेविसेटटि तालम कास्ट सपिन प्रइवेट लिमिटेड
330	7096	पि.के.के. फइनान्स प्रइवेट लिमिटेड
331	7101	ए.यू.जि फइनान्सियल सरविस्स प्रइवेट लिमिटेड
332	7104	सरच अन्ड रिसर्च लेबस प्रइवेट लिमिटेड
333	7105	एस्सेन नियुटरिसन प्रइवेट लिमिटेड
334	7106	कारतिकानत चिटस प्रइवेट लिमिटेड
335	7111	अलगप्पन सिवगामि चिट प्रइवेट लिमिटेड
336	7117	टेलि टेन्डस प्रइवेट लिमिटेड
337	7124	माषा सेक्युरिटटीस लिमिटेड
338	7130	री सिछदार एन्टरप्राइस प्रइवेट लिमिटेड
339	7133	समसन टेक्स्टइलस लिमिटेड
340	7135	पि.के.आर. इमपोएक्स प्रइवेट लिमिटेड
341	8727	कोडै गोल्डन पारक प्रइवेट लिमिटेड
342	8735	आनटिगवा क्लातिंग प्रइवेट लिमिटेड
343	8739	भि.एस.आर. फाबस प्रइवेट लिमिटेड
344	8750	एडडी मोटार टेक्पालजिस प्रइवेट लिमिटेड
345	8754	एसकेएमपी प्राइक्टस प्रइवेट लिमिटेड
346	7499	विजयशक्ती स्टील्स अन्ड अलायस प्रइवेट लिमिटेड
347	7497	होसूर पवर इलक्ट्रिकल्स प्रइवेट लिमिटेड
348	7492	असविका काठठन मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
349	7484	अकमे पल्मर कमाडिटटीस प्रइवेट लिमिटेड
350	7500	रासी सर्जिकल काठठन प्रइवेट लिमिटेड
351	7511	डियानि फाशन्स प्रइवेट लिमिटेड

352	7518	सर्वोदया सेक्युरिटी सर्विस प्रइवेट लिमिटेड
353	7519	टेन्क्स फल्क्सफाब प्रइवेट लिमिटेड
354	7524	अली ट्रेड फेर अन्ड एक्सपोसिशनस प्रइवेट लिमिटेड
355	7561	आर.एस.आर.फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
356	7565	बडब्रेक टी इन्डस्ट्रीस प्रइवेट लिमिटेड
357	7566	योक्सेमा कम्युनिकेशनस प्रइवेट लिमिटेड
358	7568	बदरावती चिटस प्रइवेट लिमिटेड
359	7541	गजेन्द्रा टेक्स्टाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
360	7582	येल्लो विंगस एक्सपोर्टस प्रइवेट लिमिटेड
361	7555	श्री शरदा भारती स्टील्स प्रइवेट लिमिटेड
362	7584	गोल्डन रेनी एक्सपोर्ट अन्ड इम्पोर्ट कंपनी प्रइवेट लिमिटेड
363	7585	फन्टलइन हालिडे रिसार्टस प्रइवेट लिमिटेड
364	7594	दन्डपानी चिट फन्डस प्रइवेट लिमिटेड
365	7595	श्री मुरुगन पालि वर्कस प्रइवेट लिमिटेड
366	7606	भवानी सीडस अन्ड अग्रो प्राडक्टस प्रइवेट लिमिटेड
367	7616	गोल्ड कन्टी हैदेक फार्मस लिमिटेड
368	7611	पल्लीपालयम अग्रो प्रइवेट लिमिटेड
369	7635	वेल्लीमलै फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
370	7637	कीसल क्लबस अन्ड फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
371	7667	गंगा केप्स अन्ड क्लोर्सस प्रइवेट लिमिटेड
372	7698	हनू डेवलप्स प्रइवेट लिमिटेड
373	7699	एलएनएम चिट फन्डस प्रइवेट लिमिटेड

374	7718	वैटीब्रा सिस्टमस प्रइवेट लिमिटेड
375	7704	राजगनपती स्पिन्नींग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
376	7726	बोर्डिंग बेल्लोस इनडीया प्रइवेट लिमिटेड
377	7731	कैन्टी फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
378	7735	पेगो फाइबरस प्रइवेट लिमिटेड
379	7743	रेन्नी टावलस अन्ड सर्वीसस प्रइवेट लिमिटेड
380	7742	बेन्सन अन्ड लिन्सन फुडस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
381	7488	शेबणा जेन्सेट लिमिटेड
382	7540	मेक - सेन्लप्पा फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
383	7506	गुड रिच हिल्स रिसार्टस अन्ड क्लबस प्रइवेट लिमिटेड
384	7530	प्रइम - सन सवीसस प्रइवेट लिमिटेड
385	7605	गान्दीजेयम टेक्स्टाइल्स इन्डस्टीस लिमिटेड
386	7725	कार्तीक फउन्डरी एक्जुप्मेन्ट प्रइवेट लिमिटेड
387	7669	विएमपि टेक्स एनविरो प्रइवेट लिमिटेड
388	7656	हेमिक अकामडेष्णन प्रइवेट लिमिटेड
389	7647	टेन्क्स हालिडे सर्विस्स प्रइवेट लिमिटेड
390	7646	कण्णसुक्करा चिटस प्रइवेट लिमिटेड
391	7496	लूम -आरट अप्पेरल्स प्रइवेट लिमिटेड
392	2438	वोंगू केमिकल्स प्रइवेट लिमिटेड
393	2442	एवरैस्ट सिपिन्नींग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
394	2444	कॉडिएस हेल्थ हीलर प्रइवेट लिमिटेड
395	2453	श्री अरंगनाथर सेक्युरिटीस प्रइवेट लिमिटेड
396	2464	डोमि टयुब्स प्रइवेट लिमिटेड
397	2490	रागम एक्स्पॉट प्रइवेट लिमिटेड

398	2492	एस.वि.जि. मार्केटिंग एजन्सिस प्रइवेट लिमिटेड
399	2493	एसविजि एनजिनियर्स अन्ड असोसियेटेड प्रइवेट लिमिटेड
400	2494	शकती अलटेक प्रइवेट लिमिटेड
401	2522	देवी शंकरी सिपिन्नींग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
402	2546	मेलडि फाशन्स एक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
403	2548	सन टी प्रइवेट लिमिटेड
404	2332	राग प्लासटो एलक्टानिकस प्रइवेट लिमिटेड
405	2337	श्रीराम पवर प्राडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
406	1354	मुरुगन स्पिन्नरस प्रइवेट लिमिटेड
407	2328	सैलश्री एलक्टानिकस प्रइवेट लिमिटेड
408	2346	सेडबेल क्वार्टस अन्ड ग्राफैट इन्डस्ट्रीस प्रइवेट लिमिटेड
409	2317	श्री लक्ष्मी अग्रो प्राडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
410	1347	कैसी एनजिनियरिंग प्रइवेट लिमिटेड
411	1306	रामप्रकाश मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
412	1315	बोडिप्पट्टी राजदुरै टान्सपोर्ट्स अन्ड आठोमोबैल्स प्रइवेट लिमिटेड
413	2281	कावेरी फक्टोस प्रइवेट लिमिटेड
414	1322	ए.पि.के. टेक्सटइल्स प्रइवेट लिमिटेड
415	1328	सरोमा कास्टील लिमिटेड
416	2314	एयमरा एलक्टानिकस प्रइवेट लिमिटेड
417	2302	कोरमन्डल वयर सेलस प्रइवेट लिमिटेड
418	2286	उट्टी राबराय टी प्रइवेट लिमिटेड
419	2291	कोवै कन्स्टक्शन्स प्रइवेट लिमिटेड
420	2315	ज्वादेव पलपिंगस प्रइवेट लिमिटेड
421	1227	विकटोर एन्जिनिअरिंग प्रइवेट लिमिटेड
422	1242	कन्दसामी विविंग फाक्टरी प्रइवेट लिमिटेड
423	1204	आर एस डिजि रिफराक्टरीस प्रइवेट लिमिटेड
424	1201	दी कोवै स्टील्स प्रइवेट लिमिटेड
425	2331	कैरली सरजी एयडस प्रइवेट लिमिटेड
426	2348	एसटी ग्रनैट प्रइवेट लिमिटेड
427	2358	अन्नदनी चिट फन्ड प्रइवेट लिमिटेड
428	2374	किंग स्टोन ग्रानैट्स प्रइवेट लिमिटेड
429	2394	कावेरी स्टार्च प्राडक्ट्स एक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
430	2397	जेविरा एक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
431	2398	एम.पी. मोटर पम्प्स प्रइवेट लिमिटेड

432	2408	प्रेम ग्रानैटस (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
433	2415	मारस आठठो काम्पोनन्टस प्रइवेट लिमिटेड
434	2428	स्फुष्टी स्टक्चुरल्स प्रइवेट लिमिटेड
435	2304	होसुर प्रसिसन प्राडक्टस प्रइवेट लिमिटेड
436	7727	अयसवरया वल्ली फइनान्स प्रइवेट लिमिटेड
437	7602	ज्जह डिम मेर्कस हउसिंग फइनान्स प्रइवेट लिमिटेड
438	7634	विन्सी फइनान्स अन्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रइवेट लिमिटेड
439	7715	श्री दन्सूरया फइनान्स प्रइवेट लिमिटेड
440	7694	श्री विजयराजा फइनान्स अन्ड लिसिंग प्रइवेट लिमिटेड
441	7546	स्टार अन्ड जुपिटर फइनान्स अन्ड इन्वेस्टमेन्टस इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
442	1304	एकलास्ट फइनान्स अन्ड इन्वेस्टमेन्टस प्रइवेट लिमिटेड
443	1223	मनिखम चिट फन्डस प्रइवेट लिमिटेड
444	2321	एजेएस आठठो फइनान्स प्रइवेट लिमिटेड
445	2455	बलूमउन्नन प्लान्टेशनस प्रइवेट लिमिटेड
446	2454	सुपर प्लान्टेशनस प्रइवेट लिमिटेड
447	1237	कोडै फ्लोर मिल प्रइवेट लिमिटेड
448	7760	सेलम वंननगर डइंग कामन एफलुयन्ट ट्रिटमेन्ट कंपनी लिमिटेड
449	8646	टैटानिक इम्पेक्स प्रइवेट लिमिटेड
450	8668	तामरै अग्रो फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
451	8680	प्रीया अन्ड प्रीया सेल सरविस्स प्रइवेट लिमिटेड
452	8702	आन्विन रोटोप्लास्ट प्रइवेट लिमिटेड
453	8709	टारगेट अग्रो प्रमोटर्स प्रइवेट लिमिटेड
454	8710	पोल्लाची डयरी फार्मस प्रइवेट लिमिटेड

पी. राजगोपालनद्ध
कंपनी पंजीयक
तमिलनाडू कोयंबत्तूर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पटना-800 001, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. आर ओ सी पैट 560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	2631	मैसर्स मिनार कंसल्टन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	9211	मैसर्स मिश्रा मेडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड
3.	2153	मैसर्स चित्रगुप्त फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	9635	मैसर्स माइथल टेक्नोलॉजी हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
5.	6127	मैसर्स इन्द्रधन फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड

1	2	3
6.	5188	मैसर्स कॉन्टीनेन्टल ऑर्गेनिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
7.	5492	मैसर्स असकोस इकोनॉमी डेवलपमेंट लिमिटेड

के. प्रसाद
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवम् झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स क्विकसोफ्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682 021, दिनांक 29 जनवरी 2008

सं. 560(3)एम सी ए/आर ओ सी/एरनाकुलम/560/2008/00004--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्विकसोफ्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस एम अमीरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 1st January 2008

No. A-19011/1/2003-Admn. I—Consequent upon acceptance of his request for premature repatriation *vide* DOP&Trg. OM No. 21/1/2003-EO (MM-I) dated 26th December, 2007, Shri A. K. Dash, (IPoS : 84), who was on central deputation as Joint Secretary, UPSC (Director Level) and is presently pursuing the 2nd M. A. In Public Policy and Sustainable Development (2007-2009) at TERI School of Advanced Studies, New Delhi w.e.f. 8.1.2007, stands relieved from the Commission's Office with effect from the forenoon of 14.1.2008. He is directed to report for duty in his parent department, viz. Ministry of Communications and I.T., Department of Posts, New Delhi.

S. B. SAROHA
Dy. Secy. (Admn.)

New Delhi, the 4th January 2008

No. A-19011/3/2005-Admn. I—In pursuance of the Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training Order No. 7/1/2008-EO (SM-I) dated 1st January, 2008, the Union Public Service Commission is pleased to appoint Shri Surendra Pal Gaur, IAS (UP : 74) as Secretary of the Commission in the rank and pay of Secretary to the Govt. of India w.e.f. the afternoon of 2nd January, 2008 until further orders.

Dr. A. S. KHAN
Jt. Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 30th January 2008

No. DP/Pers. I/2008/0029/3/41/2005—The President is pleased to approve continuation of Shri Vijay Shanker, IPS (UP : 1969) as Director, CBI upto 31.07.2008 i.e. the date of superannuation from Govt. Service.

RAJENDRA MISHRA
Dy. Director (Admn.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 30th January 2008

No.-01/6/004-Admn./2789—Consequent upon his appointment to the Selection Grade (Deputy Secretary) of the Central Secretariat Service on ad hoc basis (*vide* DoPT's order No. 4/4/2007-CS. I dated 14.12.2007) and his posting to the Central Vigilance Commission, Shri R. C. Arora is hereby appointed as the Deputy Secretary in the Commission

on deputation basis in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the afternoon of 07.01.2008 till further orders.

SATVINDER SINGH
Under Secy. (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

The 31st January 2008

No. 11/107-Admn/2843—The Secretary, Central Vigilance Commission, hereby appoints Shri P. Balasubramanian, Personal Assistant, in the Commission as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 25.01.2008 till further order.

SATVINDER SINGH
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110 003, the 22nd January 2008

No. O. II. 3751/07-CRC (MOs)—On acceptance of his resignation from service by the competent authority, Dr. Virender Kumar Singh, M. O. (IRLA-7244) has been struck off from the strength of GC, CH, CRPF, Gandhinagar w.e.f. 4.12.2007 (FN). Accordingly, his name deleted from the strength of the Force from 4.12.2007 (FN).

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 25th January 2008

No. E-16015/(2)/2007/Pers. I/15—The President is pleased to appoint the following Deputy Commandant on regular promotion to the rank of Commandant in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Commandant on regular basis
1	2	3	4
1.	S/Shri Manohar Lal Chouhan	Mumbai Airport	12.12.2007 (A. N.)
2.	Smt. V. Khamo	NISA, Hyderabad (UN Mission at Kosovo)	14.12.2007

1	2	3	4
3.	S/Shri Prafulla Kumar Nanda	WS HQrs., Mumbai	24.12.2007
4.	Prakash Kumar	HEP Uri	26.12.2007 (A.N.)
5.	Balbir Singh	DAE HQrs., Hyderabad	24.12.2007 (A.N.)
6.	Smt. Harpreet Kaur	IGI, Airport	14.12.2007
7.	S. Nedunchezian	Group HQrs., Ahmedabad	31.12.2007
8.	K. R. Viswanathan	OIL, Duliajan	14.12.2007
9.	Jai Prakash Pandey	Group HQrs., Hyderabad	14.01.2008
10.	Arjun Singh	CCL, Ranchi	04.01.2008 (A.N.)
11.	Digvijay Kumar Singh	2nd Res Bn., Delhi	31.12.2007
12.	P. Raman	VSSC, Thumba	28.12.2007 (A.N.)
13.	Harish Chandra Lamba	HTPP, Kashimpur	24.12.2007

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/NSG/05/Pers-II/PF/220—Consequent upon appointment as Group Commander (GD) in the National Security Guard (NSG) on deputation basis for a period of five years, Smt. Shikha Gupta, Senior Commandant, CISF has relinquished the charge of the post of Senior Commandant, CISF Unit, GBS, New Delhi w.e.f. 31.12.2007 (AN) and assumed the charge of Group Commander (GD) in the NSG on 01.01.2008 (FN).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-28017/1/Noti/2008/Pers-II/226—Consequent upon his voluntary retirement from Govt. Service under Rule-48A of CCS (Pension) Rules, 1972, Shri C. P. Kundu, AC/Fire, relinquished the charge of the post of Assistant Commandant (Fire) CISF HQrs., New Delhi, in the forenoon of 10.01.2008.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 30th January 2008

No. E-38015(7)/VKT/2007/Pers. I/20—The President is pleased to accept the resignation of Shri Vivek Kumar Tiwari, Dy. Commandant, CISF Unit IG Mint, Hyderabad with effect from 14.01.2008 (A.N.)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-32015(4)/2/ACs(GD)/2006/Pers. I/24—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar (Group A) as Assistant Commandant in CISF against the Civil Services Examination—1994 with effect from 01.10.2007 in compliance with the judgement order dated 07.09.2007 of Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 5505-5507 of 2003 with 7004 of 2003 and Contempt Petition (C) No. 13 of 2007 in Civil Appeal 5505-5507/2003 filed by Shri Satya Prakash and others against their allotment to Central Industrial Security Force on the basis of CSE Examinations 94 & 96. The officer is posted to CISF 2nd Res Bn Mahipalpur, Delhi with effect from 01.10.2007.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

MINISTRY OF FINANCE
BANK NOTE PRESS

(A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India Limited)

Dewas, the 29th January 2008

No. BNP/C/44/98-I—The period of ad hoc promotion granted to Shri K. K. Pandit vide Notification dated 31.10.2007 is extended further from 26.01.2008 to 25.10.2008 on the same terms and conditions.

D. V. GONDNALE
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110 002, the 29th January 2008

No. Admn. I/O. O. No.-261—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi has been pleased to appoint Shri Rajan Gupta, Assistant Audit Officer to officiate as Audit Officer (with effect from 21.01.2008 (F.N.) in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 1st January 2008

No. WM-I/Q-55(G)/Vol. II/2796-2799—Under the orders of the Accountant General (A&E), West Bengal the following Divisional Accounts Officer Gr.-I who is now on deputation to the office of the Hooghly River Bridge Commissioners, Kolkata, has been granted proforma promotion as Sr. Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- w.e.f. the date on which his junior as shown below takes over charge as Sr. D. A. O.

Name of the person granted proforma promotion	Name of his next junior
Shri Amal Kanti Saha	Shri Dibyendu Dasgupta

All the conditions precedent to the grant of promotion under the "Next below Rules" stood fulfilled in this case and it has been declared that the post held by Shri Amal Kanti Saha now deputation is outside the ordinary line of service.

On promotion, his pay will be fixed under F. R. 22(I)(a)(i) for which he may exercise his option within one month from the date of issue of this order.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs & VLC)

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT :
CENTRAL : KOLKATA

Kolkata-700 001, the 30th January 2008

No. Confdl./C/538/2008/316(18)—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following Audit Officers as Senior Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 01.01.2008 (F.N.) or from the date from which they take over charge as Senior Audit Officer whichever is later.

Sl. No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1.	Sujoy Ghatak	OAD
2.	Sunirmal Bhowmik	ITRA
3.	Sudip Dutta	ITRA
4.	Panchu Gopal Ghosh	ENTT/PEN-TRG

They are directed to report for duty to their respective Group Officers.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 (I)(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed by Administration in due course.

APOORVA SINHA
Dy. Director (Admn.)

No. Confdl./C/470-II/2008/317(19)—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following Asstt. Audit Officers as Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 01.01.2008 (F.N.) or from the date from which they take over charge as Audit Officer whichever is later.

Sl. No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1.	Sunal Kumar Jatua	ITRA
2.	Amitava Chowdhury	RAO/KOPT
3.	Swati Dutta	ITRA
4.	Kajal Chakraborty	ITRA
5.	Perla Satish Kumar	CERA
6.	Dibyendu Samanta	OAD
7.	Pijush Kanti Bhattacharyya	CERA
8.	Kamalesh Khanta	ITRA

They are directed to report for duty to their respective Group Officer.

All the officials as above will be transferred to the Branch Office at ANI/Port Blair in due course. Posting orders with specific date of transfer will follow.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 (I)(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O. M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed by Administration in due course.

APOORVA SINHA
Dy. Director (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (CIVIL AUDIT), ORISSA

Bhubaneswar, the 24th January 2008

No. Admn. (CA)/17-2/Vol. IV//Sr. A. O./2204—In pursuance of OOC No. 1006 dated 31.12.2007 communicated vide Memo No. Admn-(CA)17-2/Vol. IV/Sr. A. O./1974 dtd. 31.12.2007 the following Audit Officers on promotion have assumed charge as Sr. Audit Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the dates indicated against each.

Sl. No.	Name of the Officer	Date of assuming charge as Sr. A.O.
	S/Shri	
1.	Golak Bihari Panda	01.01.2008 (FN)
2.	Sricharana Rath	01.01.2008 (FN)
3.	Rama Chandra Samanta	01.01.2008 (FN)
4.	K. Somasekhar Rao	01.01.2008 (FN)
5.	V. Gagannadha Swamy	01.01.2008 (FN)
6.	Achyutananda Lenka	01.01.2008 (FN)
7.	Nrusingha Charan Rout	01.01.2008 (FN)
8.	Prafulla Chandra Kar	01.01.2008 (FN)
9.	Kamal Krishna Mishra	01.01.2008 (FN)
10.	Nirjharendu Ghose	01.01.2008 (FN)
11.	Gour Mohan Mohanty	01.01.2008 (FN)
12.	Narayan Behera-II	01.01.2008 (FN)
13.	Ghanshyam Panigrahi	01.01.2008 (FN)
14.	Jaladhar Sethi	01.01.2008 (FN)
15.	Prasanna Kumar Pattnaik	01.01.2008 (FN)
16.	Lokanath Behera-II	01.01.2008 (FN)

TRILOCHAN ACHARYA
Sr. Audit Officer/Admn.

The 25th January 2008

No. Admn. (CA)-3-1-1/Vol. VI/2211—In pursuance of this Office Order No. 1007 dated 31.12.2007 communicated vide Memo No. Admn-(CA)-3-1-1/Vol. VI/1976 dtd. 31.12.2007 the following Section Officers on their promotion

have assumed charge as Asstt. Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the dates noted against each.

Sl. No.	Name of the Officer	Date of joining
	S/Shri	
1.	Priyadarsan Kanungo	01.01.2008 (FN)
2.	Prabhat Kumar Das	01.01.2008 (FN)
3.	Ms. Swati Panigrahi	01.01.2008 (FN)
4.	Sudam Charan Panda	01.01.2008 (FN)
5.	Karunakar Moharana	01.01.2008 (FN)
6.	Jashobant Sahoo	01.01.2008 (FN)
7.	Rankanath Mallik	01.01.2008 (FN)
8.	Bibhuti Bhusan Ray	01.01.2008 (FN)
9.	Rabinarayan Mohapatra	01.01.2008 (FN)
10.	Ramakanta Sahoo	01.01.2008 (FN)

TRILOCHAN SINGH
Sr. Audit Officer/Admn.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ORISSA

Bhubaneswar-1, the 25th January 2008

No. Admn. I-Con-4/AAO/1114—The Accountant General (A&E), Orissa has been pleased to allow the following Section Officer (Accounts) to officiate in the cadre of Assistant Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the date noted against their name.

1.	Ashok Kumar Panigrahi	1.1.2008 FN
2.	Ramakanta Nayak	1.1.2008 FN
3.	Pitambar Sahoo	1.1.2008 FN
4.	Mohan Charan Bedant	1.1.2008 FN
5.	Pitambar Rath	1.1.2008 FN

The promotion to the cadre of Assistant Accounts Officer is subject to the final decision of Supreme Court/High Court/Central Administrative Tribunal without prejudice to the claims of their seniors.

The other conditions of OOC 556 dated 1.1.2008 remain unchanged.

S. C. SAHOO
Sr. Accounts Officer. Admn.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 25th January 2008

No. OE (Cash)/Pen/10-2/2007-2008—The following officer of the Office of the Principal Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram has retired from Government Service on the date noted against his name.

Sl. No.	Name & Designation	Date of Retirement	Remarks
1.	Shri B. Vallabha Dhas, Senior Audit Officer	31.12.2007	Super-annuation

P. UNNIKRISHNAN
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 31st January 2008

No. 5/1/2007-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 remained stationery at 134 (one hundred & thirtyfour) for the month of December, 2007.

R. K. GUPTA
Jt. Director

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 30th January 2008

No. A-19012/466/08-Estt. A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee Shri R. Z. Mehar, Senior Technical Assistant (M. E.) is promoted to the post of Assistant Mining Engineer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 11.1.2008 (F.N.).

S. DASGUPTA
Sr. Administrative Officer
for Controller General

No. A-19012/467/08-Estt. A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee Shri N. Subrahmanyam, Senior Technical Assistant (M. E.) is promoted to the post of Assistant Mining Engineer in Indian Bureau of Mines, Chennai w.e.f. 18.1.2008 (F.N.).

S. DASGUPTA
Sr. Administrative Officer
for Controller General

SURVEY OF INDIA
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun-248001, the 28th January 2008

No. C-31/913-H(A)—The undermentioned Hindi Translator (Senior) is hereby promoted as Assistant Director (Official Language) (GCS Group 'B' Post) in Survey of India in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis with effect from the date as shown against her name :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Kum. Ira Rani	10.01.2008

R. S. TANWAR
Brigadier
Surveyor General of India

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
(FILMS DIVISION)

Mumbai-400 026, the 23rd January 2008

No. A-32014/8/2006-Estt. I—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Competent Authority has promoted Shri A. R. Shaikh, Superintendent, Films Division, Mumbai to the post of Assistant Administrative Officer (Group "B" Gazetted) in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in the same office with effect from the forenoon of 14th January, 2008 until further orders.

T.T. FERNANDES
Asstt. Administrative Officer
for Chief Producer

No. A-32014/8/2006-Estt. I—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Competent Authority has promoted Smt. Bhanumathi V. Narvekar, Superintendent, Films Division, Mumbai to the post of Assistant Administrative Officer (Group "B" Gazetted) in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in the same office with effect from the forenoon of 14th January, 2008 until further orders.

T.T. FERNANDES
Asstt. Administrative Officer
for Chief Producer

The 24th January 2008

No. A-32014/1/2007-Estt. I—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Competent Authority has promoted Shri K. Venugopal, Branch Manager, Films Division, Thiruvananthapuram Branch to the post of Senior Branch Manager (Group "B" Gazetted) in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in the same office with

effect from the forenoon of 15th January, 2008 until further orders.

T.T. FERNANDES
Asstt. Administrative Officer
for Chief Producer

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 24th January 2008

No. PD/2(3)/07/R-IV/775—The President is pleased to appoint Dr. Pawaskar Alok Suresh as Scientific Officer grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-+NPA in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from forenoon of 24th December, 2007 until further orders.

S. G. MARKANDEYA
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 10th January 2008

No. 21/3(2)/2007-CCS/01—The President is pleased to appoint Shri R. Pasupathy, Senior Accounts Officer (Scale of pay of Rs. 8,000—13,500/-), Board of Radiation and Isotope Technology, Mumbai of this Department as Deputy Controller of Accounts (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-) in the General Services Organisation, BARC, Tarapur with effect from 17.12.2007 (FN) until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 16th January 2008

No. 6(2300)/2000/Adm./84—The President is pleased to appoint Shri V. P. Raja, IAS (MH : 74), Additional Secretary, Department of Atomic Energy as Principal Adviser in the pay of Secretary to the Government of India in his present post, with effect from the afternoon of January 02, 2008.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400 094, the 18th January 2008

No. DPS/07011/Rectt./292—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy hereby appoints Smt. M. S. Bhange, Purchase Assistant, (Scale of pay of Rs. 5,000-150-8,000/-), Central Purchase Unit, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the scale of pay of

Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 27th December 2007 (F.N.) in the same unit, until further orders.

S. KRISHNAN
Administrative Officer-III

BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400 705, the 31st January 2008

No. BRIT/9/18/28—The President is pleased to appoint Shri Devaraj Glorymetilda Mahesh as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of September 01, 2007 until further orders.

A. K. KOHLI
Chief Executive

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 18th January 2008

No. NFC/ADM/PEN/EC-1762/1749—On attaining the age of superannuation, Shri Ajay Kumar Sinha, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.12.2007 (A.N.)

K. S. MURTHY
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/ADM/PEN/EC-0709/1750—On attaining the age of superannuation, Shri P. Satyanarayana Reddy, Scientific Officer 'F' (Scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.11.2007 (A.N.)

K. S. MURTHY
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/ADM/PEN/EC-0222/1751—On attaining the age of superannuation, Shri P. C. Sivadasan, Scientific Officer 'F' (Scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.11.2007 (A.N.)

K. S. MURTHY
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/ADM/PEN/EC-0514/1752—On attaining the age of superannuation, Shri S. Ram Murthy, Scientific Officer

'F' (Scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.12.2007 (A.N.)

K. S. MURTHY
Asstt. Personnel Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE OF
EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 18th January 2008

No. AMD-4/2/2007-Rectt/1963—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer/Engineer of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grade mentioned below (carrying the scale of pay as mentioned thereunder) in the same Directorate in an officiating capacity with effect from the date shown below, until further orders :

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade/ Scale of pay	Substan- tive post held	Date of Assump- tion of Charge
1.	Shri Vinay Kumar Jha	SO-C	SO-D Rs. 10,000- 325-15,200/-	Group-C (Tech.)	02.11.2007

(Dr.) ANJAN CHAKI
Director

DIRECTORATE GENERAL OF WORKS
O/O CHIEF ARCHITECT (NDR)
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi-110 011, the 31st January 2008

No. 27/310/1988-CA(NDR)/Estt./189-196—Consequent upon his attaining the age of superannuation Smt. Gayatri Devi Sharma, Technical Officer, Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi-110 011, retires from Government service with effect from the afternoon of 31.01.2008.

VIJAY P. RAO
Liaison Officer to Chief Architect (NDR)

No. 27/275/1988-CA(NDR)/Estt./197-207—Consequent upon his attaining the age of superannuation Smt. Surinder Kaur Panesar, Technical Officer, Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi-110 011, retires from Government service with effect from the afternoon of 31.01.2008.

VIJAY P. RAO
Liaison Officer to Chief Architect (NDR)

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 21st January 2008

No. A-32013/9/2006-E-II—The President is pleased to appoint Shri Rajendra Prasad, Airworthiness Officer to the grade of Senior Airworthiness Officer on regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Directorate

General of Civil Aviation with effect from the forenoon of 28.12.2007 and until further orders.

MEENA SHARMA
Dy. Director of Admin.

No. A. 39012/2/2007-E. II—The President is pleased to accept the resignation of Shri S. Ponnudurai, Senior Airworthiness Officer, in the Civil Aviation Department, with effect from 26.10.2007 (Afternoon) and stands relieved of his duties with effect from 26.10.2007 (Afternoon).

MEENA SHARMA
Dy. Director of Admin.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Ahmedabad-380 013, the 31st December 2007

No. ROC(Guj)/JTA(MD)/Suo-Motto/560/2007/789—Notice is hereby given suo-motto action under Section 560 (5) of the Companies Act, 1956, that the names of the following Companies have this day been struck off the Register of Registrar of Companies and the said Companies shall stand dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	12156	M/s Arden Pharmachem Private Limited
2.	12070	M/s Angel Polysack Private Limited
3.	12238	M/s Paras Gymkhana Private Limited
4.	12073	M/s Giriraj Packaging Private Limited
5.	12214	M/s Manifold Services Private Limited
6.	18441	M/s Swagat Marketing Private Limited
7.	13363	M/s Five Friends Leasing and Finance Private Limited
8.	13366	M/s Dharmapur Plastics Private Limited
9.	13368	M/s Sigma Tours and Travels Private Limited
10.	13369	M/s. Sonal Gymkhana Private Limited
11.	13325	M/s. Swastik Gems Cuttings Private Limited
12.	33178	M/s. Purushottam Seeds Exports Private Limited
13.	15241	M/s. Vadala Fashion Private Limited
14.	15824	M/s. Amardeep Gymkhana Private Limited
15.	15580	M/s. Turkana Chemicals Private Limited
16.	15628	M/s. Marutikrupa Consultancy Private Limited
17.	12008	M/s. Sheetal Complexes Private Limited
18.	12036	M/s. Dostana Gymkhana Private Limited

19	12061	ANKLESHWAR POLY PRODUCTS PVT LTD
20	12075	SARJAK MERCANTILE AND FINANCE PVT. LTD.
21	12085	INTERLINK DATA SYSTEMS PVT. LTD.
22	12022	SUPPORT SERVICES PVT LTD
23	12019	PAVAN GYMKHANA PVT LTD
24	12942	SHREEJI DAL AND BESAN MILLS PVT LTD
25	12164	MODI BUNSAL AND SHETH EXPORT PVT. LTD.
26	12163	HAMANIKA AGRO PRODUCTS PVT. LTD.
27	12159	KYNOTEX ENGINEERS PVT. LTD.
28	12187	MONA MARKETING PVT.LTD.
29	12157	PATEL SHOES PVT. LTD.
30	12131	JNT CONSTRUCTION AND FINANCE PVT. LTD.
31	25112	NOVIS LEASING AND FINANCE PVT LTD
32	25117	RUCHI SPICES EXPORTS PVT LTD
33	25101	RAJA TRADING AND VEHICLE FINANCE PVT LIMITED
34	25262	MIDWEST SECURITIES PVT LTD
35	25288	BOMBAY TEX-ENGG.MACHINERY PVT LTD
36	25345	SHREE REALTY PVT LTD
37	25347	PEARL VALUABLES TRADING PVT LTD
38	25006	ZISHAN FINSTOCK SERVICES PVT LTD
39	25024	WONDERCHEM PVT LTD
40	25302	GOOD FOREST PLANTATION PVT.LTD.
41	25413	MADHUDEV EXPORTS PVT LTD
42	25411	GURUKRIPA GAS SERVICES PVT LTD
43	36109	BHOOMI PRINTINGS AND PACKAGING PVT LIMITED
44	36210	BHAVNAGAR POWER PRIVATE LIMITED
45	36219	ASARPOTA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
46	36248	MASCOT INFOSYS PRIVATE LIMITED
47	36240	ASTRON SOFTWARE AND SURVEY PRIVATE LIMITED
48	36156	MEET MOTORS PRIVATE LIMITED
49	36167	BHOMIYAJI ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
50	36170	MAHIMA PETRIFIED PRIVATE LIMITED
51	36172	MAA ACCUVIEW ACCESS MARKETING PVT LIMITED
52	36231	ACCORD TELECOM PRIVATE LIMITED

53	36223	GANESH PROTEINS PRIVATE LIMITED
54	36221	DYNAMIC MERCANTILE SERVICES PRIVATE LIMITED
55	36088	BLISS INFOTECH PRIVATE LIMITED
56	36077	DEVYANI PROCESSORS PRIVATE LIMITED
57	36079	POOSHAN AGRO PRIVATE LIMITED
58	36802	VENTURA FILMS PRIVATE LIMITED
59	36817	JAYDAYAL GASES PRIVATE LIMITED
60	36639	LINK INDIA INFOTECH SERVICES PRIVATE LIMITED
61	36672	ALCHYMARS ICM PHARMA PRIVATE LIMITED
62	36677	PUJA BIO-CLINICAL RESEARCH (INDIA) PVT LIMITED
63	36706	JIVANDHARA MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
64	36767	M.A.M. AGENCIES PRIVATE LIMITED
65	36709	PROMANS ACADEMY AND MULTIMEDIA EDUCATION PVT LTD
66	36976	INTERFACE INDIA PRIVATE LIMITED
67	36986	ARISE MARKETING PRIVATE LIMITED
68	37040	SVS STEELS PRIVATE LIMITED
69	37089	ARTH INFONET PRIVATE LIMITED
70	36854	AYUR-AALAYA SANSTHAN PRIVATE LIMITED
71	36872	MAJARA TRADING PRIVATE LIMITED
72	36890	NOVA BREAVES PRIVATE LIMITED
73	36892	VANSDA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
74	36834	ADNET ADVERTISING PRIVATE LIMITED
75	36844	FENIL PLAST EXPORTS PRIVATE LIMITED
76	36848	HEENA EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
77	11200	NAVRATNA DIAMOND VYAPAR PVT LTD.
78	11213	ELECTRO CIRCUITS PVT LTD
79	11193	UNIVERSAL DEEP WELI PUMPS PVT LTD.
80	11238	KAKKAD DAIRY PRODUCTS PVT LTD
81	11245	BINDOO GRAPHIC CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
82	11257	POPAT JESSA CONSTRUCTION PVT LTD.
83	11290	ASHISH SPUNTEX PVT LTD.
84	36235	ASTRON INFO-SYS PRIVATE LIMITED
85	35677	SANSKRUTI PROJECTS PRIVATE LIMITED

86	35656	SHWETA EXHIBITORS PRIVATE LIMITED
87	35731	VIKAS TEX-PRINT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
88	35696	POONAM POULTRY FARM PRIVATE LIMITED
89	35408	TOUCHWOOD CONCEPT MARKETING PRIVATE LIMITED
90	32957	PAWAN DYEING AND PRINTING PRIVATE LIMITED
91	32740	VRUNDAVAN RESTAURANT PRIVATE LIMITED
92	35964	NEUTRON REMEDIES PRIVATE LIMITED
93	34779	SHREE MARUTI NANDAN PLASTICS PRIVATE LIMITED
94	34788	JAYCO COTTON INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
95	35840	ESQUIRE INFRASTRUCTUR PRIVATE LIMITED
96	35780	GENESIS INFOTECH PRIVATE LIMITED
97	35758	ACCORD MARITIME AGENCIES PRIVATE LIMITED
98	35754	SHREE GANADHYAKSHA AGRO FOODS PVT LIMITED
99	33711	AARTI POLYPLAST PRIVATE LIMITED
100	33870	R.B.DAVE ELECTRICALS AND ENGINEERING PVT LTD
101	34127	TRISHUL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
102	34025	MAHASHAKTI TEXTILES MILLS PRIVATE LIMITED
103	34035	RAJ REAL DISCOUNT CARD SERVICES PRIVATE LIMITED
104	33382	SHANTI INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
105	33332	PARTH BIO-TECH PRIVATE LIMITED
106	34538	FLY UP MARKETING PRIVATE LIMITED
107	32410	SHRI RADHA KRISHNA LEASING AND FINANCE PVT LTD
108	33595	NIRMAL OIL MILLS PRIVATE LIMITED
109	33556	PEARL TUBES PRIVATE LIMITED
110	33605	NOBLE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
111	36032	AJANABI CHEMICAL AND PHARMA PRIVATE LIMITED
112	35889	TAJ GARMENTS PRIVATE LIMITED
113	35874	MILAN SOAPS PRIVATE LIMITED
114	35991	MARINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
115	35998	LAXMI GEMS PRIVATE LIMITED
116	35994	SHREE MAHARSHI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
117	35864	BHAGYODAY TOURS N TRAVELS PRIVATE LIMITED
118	36428	SUPER FAST EXPRESS (COURIERS) PRIVATE LIMITED
119	36055	PAN AYURVEDIC PRIVATE LIMITED

120	36020	FLAMINGO COURIER SERVICES PRIVATE LIMITED
121	36034	NAMO ARIHANT EXIM PRIVATE LIMITED
122	24787	RADHIKA DEVELOPERS PVT LTD
123	26609	EKTA EQUITY PVT LTD
124	26632	VAKRA FOOD PRODUCTS PVT LTD
125	26586	TRIO AUDIO PLACE PVT LTD
126	26190	IMPULSE SECURITIES AND FINANCE PVT LTD
127	26127	NISU FINLEASE PVT LTD
128	26062	CAREWELL PHARMACEUTICALS PVT LTD
129	24527	RATHORE FINANCE AND TRADING PVT LTD
130	24509	BALAJI TRANSTRADE PVT LTD
131	24845	NIRVI SHIPPING AND ALLIED SERVICES PVT LTD
132	24867	KANSAI GUJARAT CHEMICALS PVT LTD
133	24806	SHUBHAM MILK AND FOODS PVT LTD
134	24740	SAHYOG OXYGEN PVT LTD
135	36049	SILVER COIN PROPERTIES PRIVATE LIMITED
136	36017	NEEL HOTELS PRIVATE LIMITED
137	33615	KEYUR CONVERTORS PRIVATE LIMITED
138	34084	DIAMOND CONSUMER UTILITY SERVICES PVT LIMITED
139	33447	RAHUL OVERSEAS PRIVATE LIMITED
140	33311	GURUKRUPA MARKETING PRIVATE LIMITED
141	34054	SIERRA SHIPPING PRIVATE LIMITED
142	33888	AURORA INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
143	33834	VADODARA GUIDELINE INFONET SERVICES PVT LTD
144	24014	SHRI SADGURU STEELS PVT LTD
145	24058	EKTA DYEING AND PRINTING MILLS PVT LTD
146	23910	VEE TEXTILES PRIVATE LIMITED
147	25725	BHATIA TRAVELS PVT.LTD.
148	25869	SADGURU TEA PVT LTD
149	25910	ZENITH TOWER PVT LTD
150	25942	PREMILA FARMS PVT LTD
151	17735	TAPKESHWAR GYMKHANA PVT LTD
152	17912	SHITAL FORGINGS PRIVATE LIMITED
153	17916	EXTOL WATCH FACTORY PVT LTD

154	17945	DIAMOND BULB PVT LTD
155	17955	SATYA MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED
156	17884	VIDIMA EXPORTS PVT LTD
157	18281	ASTRALINE EQUIPMENTS PVT LTD
158	18257	ASHISH SYNTEX PVT LTD
159	18057	GOPA PAINTS AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
160	18131	RIWA BUILDERS PVT LTD
161	18078	ACCURATE COPPER ALLOYS PVT LTD
162	17869	RAGHUVIR PLASTICS PVT LTD
163	17780	BARODA FITTINGS PVT LTD
164	17816	REAL AND PURE TRADE LINKS PVT LTD.
165	17821	GULABDAS PRINTERS PVT LTD
166	17831	CAPTAIN CHEMICALS PVT LTD
167	17841	RAN BOW PRINTS PRIVATE LIMITED
168	24216	MOULANA AQUACULTURE PVT LTD
169	24362	ALPINE LPG BOTTLING PVT LTD
170	27053	CORDS CAPITAL PVT LTD
171	25690	NAMASKAR BUILDERS PVT LTD
172	16358	KHODIAR PIPES AND FITTINGS PVT. LTD.
173	16342	NAANKI TRANSPORTS PVT. LTD.
174	14647	AHMEDABAD SPINNERS PRIVATE LIMITED
175	14346	MANEKCHOWK GYMKHANA PVT.LTD.
176	14329	MAHAVIR DEVELOPERS PVT.LTD.
177	13873	AQUELON SYNTHETICS PVT.LTD.
178	23710	NDEES MARKETING PVT LTD
179	13670	AMAR GRANITES PVT. LTD.
180	14165	MANJEES TEXTILES PVT LTD
181	12766	DEVRAJ DEVELOPERS PVT LTD
182	12520	NEW KARNAVATI ENGINEERING PVT LTD.
183	12312	PADMAVATI PAPER PRODUCTS PVT. LTD.
184	13534	INDRESHWAR PROCESSORS PVT LTD
185	11519	MADHU TIN CONTAINERS PVT LTD.
186	11527	GUJARAT COURIER SERVICE PVT LTD.
187	11292	PARAGON DYES AND INTERMEDIATS PVT LTD.

188	11371	SPICA AIR PRODUCTS PVT LTD
189	11386	SHRINATH PLASTICS PVT LTD
190	11305	VAGHELA AMPOULES PVT LTD.
191	11297	AHARNISH TEXTURISING PVT LTD.
192	11335	IDEAL BELTS PVT LTD
193	11825	PLUS PRODUCTS PRIVATE LIMITED
194	11823	AVISHKAR ELECTRONICS PVT LTD
195	11600	HARBAL BUILDERS PVT LTD
196	11599	SAWASHTRA DRUGS PVT LTD
197	11623	NARMADA INSECTICIDES PVT LTD
198	11684	NEW AVKAR (MEHSANA) GYMKHANA PVT LTD
199	11691	VALIA POLYTEX PVT LTD.
200	11703	ALKLESHWAR INTERMEDIATES PVT LTD.
201	11702	GUJARAT FINANCIAL MANAGEMENT CO. PVT LTD.
202	11906	SUNNY GYMKHANA PVT LTD
203	11936	INTERKILN MINERALS PVT LTD
204	11945	SHREE CARBONIC AND CHEMICALS PVT LTD
205	11922	PALLAV ENGINEERS PVT LTD
206	11925	AAKAR GYPSUM PRODUCTS PVT LTD
207	11947	NEWS CARRIERS (INDIA) PVT LTD
208	10731	BHAVANI WOODS PVT LTD
209	10004	PATHIK HOTELS PVT LTD
210	11550	AMI SYNTHETICS AND LUBRICANTS PVT LTD.
211	11487	ST PLAST (INDIA) PVT LTD.
212	11503	TEJAS TEXTURISING PVT LTD.
213	11338	SAVERA SYNTHETICS PVT LTD
214	11419	GUJARAT PLASMEEK ENGINEERING PVT LTD
215	11443	MARK SYNTHETICS PVT LTD
216	11482	BANNER CONSTRUCTORS CONSULTANTS PVT LTD.
217	11765	KRISHNA FURNITURE PVT LTD
218	11781	PARTH MERCANTILE AND FINANCE PRIVATE LIMITED
219	11828	UNITY PROPERTIES PVT LTD
220	11710	RAVI CABLES PVT LTD
221	11716	R.K.ORGANISERS AND DEVELOPERS PVT LTD

222	11728	SAURASHTRAE FOOT WEAR PVT LTD
223	11763	PARSHWANATH CHEMICALS PVT LTD
224	11090	PADMAVATI GLASS PROCESSORS PVT LTD
225	11077	ANANTA ESTATES PRIVATE LIMITED
226	11054	SAURASHATRA SOOPRISES PRIVATE LIMITED
227	11073	ANKUR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
228	11072	ASOPALAV APARTMENTS PRIVATE LIMITED
229	11071	ABHILASHA APARTMENTS PVT LTD
230	11066	RALL-TECH STEELS PVT LTD
231	11151	SPECIALITY WELDING PVT LTD
232	11158	PADMAVATS BUILDERS PVT LTD
233	11165	SATYAM GRAH NIRMAN PVT LTD
234	13176	CHIRANJIVI SYNTHETICS PVT. LTD.
235	14345	SAIKRUIPA HOTELS PVT.LTD.
236	11137	SOPPHIRE CHEMICALS PVT LTD
237	11136	TEJSIL (INDIA) PVT LTD
238	11135	DHRUV PLASTICS PVT LTD
239	11102	SURAT AUTO CO. PVT LTD
240	11119	MANJIRI BOREWELL PVT LTD
241	11117	SIR-LAA HOTEL PVT LTD
242	12504	SAPHIRE INJECTS PVT LTD.
243	12700	RUSHI HOTEL PVT LTD
244	22383	ELITE ALUMILLS (INDIA) PVT LTD
245	22435	CHEMITRON (INDIA) PVT. LTD
246	22451	MADHU PROCESSORS PVT LTD
247	11767	SHRIPATI CONSTRUCTION PVT LTD
248	11764	SIYARAM FURNITURE PVT LTD
249	11655	GUJARAT OX-CHEMICALS PVT LTD.
250	11558	SUNRISE TWISTING PVT LTD.
251	11563	DEV DEEP TEXTILES PVT LTD.
252	11570	GITAN PHARMACEUTICALES PVT LTD.
253	20386	SILVER ORNAMENTS PVT LTD
254	11981	JACKSON SYNTHETICS PVT LTD
255	11898	ABHILASHA MERCANTILE AND FINANCE PVT LTD

256	11888	ARBOUR CHEMICALS PVT LTD
257	11881	SIYARAM ELECTRONICS (GUJARAT) PVT LTD
258	11846	MONA ELECTRONICS PVT LTD
259	11862	HARIYANA GUJARAT ROAD CARRIERS PVT LTD
260	20956	DATTATRAYA FINE CHEMICALS PVT LTD
261	20617	KNACK CULTIVATE PVT LTD
262	20653	VERTEX LABORATORIES PVT LTD
263	20399	SHANTI FIBRES PVT LTD
264	20754	CELLULOSE ESTATES BUILDERS PVT LTD
265	20751	KRISHNA TILES PVT LTD
266	20792	REX DYE CHEM PVT LTD
267	20881	LEENA ELECTRICALS AND ENGINEERING PVT LTD.
268	20891	SAMVIT CHEMICALS PVT LTD
269	20944	RONY PLASTICS PVT LTD.
270	20957	SHATRUJIT COMPUTERS PVT LTD
271	20408	VIDEAL TRADE PVT LTD
272	20952	PARKIN INTERMEDIATES PVT LTD
273	20992	MADHURAM CASTINGS PVT LTD
274	20984	MANSI DIAMONDS PVT LTD
275	20975	DIVYA TRANS SHIPPING AND EXPORTS PVT LTD
276	20420	SUNSHINE GARMENTS PVT LTD
277	20453	SURYA FINCAP PVT LTD
278	20461	SAFAMA EXPORT PVT LTD
279	20520	SAHJANAND FABRICS PVT LTD
280	20511	LENRKEN TOURISM DISCOUNT CARD PVT LTD
281	20223	RAJ `N` RAJ SEA FOOD PVT LTD
282	20468	SARASWATI FURNISHING VELVET PVT LTD
283	20380	CHANDANI SOCIALCLUB PVT LTD
284	21349	POSHA CHEMICALS PVT LTD
285	21566	HOTEL SHAGUN PLAZA PVT.LTD.
286	21775	HIMANI OILFIELD SERVICES PVT LTD
287	21968	SAVANI EXPORTS PVT LTD
288	21993	VISHNU SYNTHETICS PVT LTD
289	21040	KASTUR ORGANICS PRIVATE LIMITED

290	21503	GREEN CHANNEL CAPITAL SERVICES PVT.LTD.
291	23663	AMBAWADI APPARTMENTS PVT. LTD
292	23958	RAJ AMRIT PETROCHEMICALS PVT. LTD
293	23999	ASH CONCRETE OF INDIA PVT LTD
294	23185	NEW GENERATION ENVELOPS PVT LTD
295	23005	PRAMANIK TEXTILE PVT LTD
296	23068	NATRAJ STOCKHOLDING AND FINANCE PVT LTD
297	23074	GIRIRAJ OIL MILLS PVT LTD
298	23166	ANALYTIC WORKGROUP PVT LTD
299	23165	RATNARAJ FINANCE PRIVATE LIMITED
300	23158	PATIDAR FINSTOCK PVT LTD
301	23133	PARIJAT INVESTMENTS PVT LTD
302	23707	KRISHNMURTY INVESTERS PVT LTD
303	23753	ASSOCIATED FINVEST PVT. LTD
304	23834	YASHRAJ FINANCE PVT LTD
305	23822	SWET OXYGEN PVT LTD
306	23902	ABYSS TECHNOLOGIES PVT LTD
307	23778	CIFARQUEST PVT LTD
308	23408	ASH-TAJ EXPORT AND FINANCE PVT LTD
309	23406	HUGY FISHRIES (INDIA) PVT LTD
310	23507	NISRAG FINANCE AND EXPORT PVT. LTD
311	23611	VARUN FIBRES PRIVATE LIMITED
312	23617	OSTRICK PHARMA PVT LTD
313	23201	MAHAKALI CREATIVE PVT LTD
314	23183	VANSH STEEL PVT LTD
315	23172	PARK FASHIONIQUE PVT LTD
316	23255	POJO INDUSTRIES PVT LTD
317	22231	DHARESHWAR GRANITES MARBLES AND TILES PVT LTD
318	22281	MEVAD PROTEINS PVT LTD
319	22233	VASUKI COTTEN PROCESS PRIVATE LIMITED
320	22320	SHREE KAYJAY TRADING AND INVESTMENTS PVT LTD
321	22249	DYNAMIC COATS PVT LTD
322	22154	DIGVIJAY AQUACULTURE PVT LTD
323	22171	KAVERI SHIPPING PVT LTD

324	22852	SUDHA BUSINESS MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
325	22899	SUMIRA MARKET PVT. LTD
326	22963	AD MICRO MARKETING PVT. LTD
327	22843	TEJ MARKETING AND FINSTOCK PVT LTD
328	22013	MANAV FINANCE AND INVESTMENT PVT LTD
329	12281	VIDHYUT GYMKHANA PVT. LTD.
330	12562	SIDDHI POTTERIES PVT. LTD.
331	12540	SHASTRI POLYESTER PVT LTD.
332	12351	MICROFINE CHEMICALS PVT. LTD.
333	12288	YASHKIRTI RESIDENCIES PVT. LTD.
334	18287	ALMSCHEM PVT LTD
335	18330	RAVI GYMKHANA PVT LTD
336	18340	HAWA CHEMICALS PVT LTD
337	18351	AMULYA FINANCE PVT LTD
338	18422	VATAN DYE CHEM PVT LTD
339	18474	MINHAL MARINE PVT LTD
340	10769	SUPERLAM POLYMERS PVT LTD
341	10669	ROSHNI GYMKHANA PVT LTD
342	10589	SARKHEJ GYMKHANA PVT LTD
343	8132	BRIGHT POLYVIEW PVT LTD
344	8120	PRAJESH SMELTING PVT LTD
345	8105	JHAVERI DIE-CAST PVT LTD
346	8049	ARCHANA CHEMICALS PVT LTD
347	7967	PARVIRSONS ENGINEERING PVT LTD
348	8321	P.D.CHEMICAL INDUSTRIES PVT LTD
349	8248	HAPPY CIRCLE GYMKHANA PVT LTD
350	10523	SHREE SAI TWISTERS PVT LTD
351	10851	PERSIS ELECTRONICS PVT LTD
352	10908	ROYAL PNEUMATICS (INDIA) PVT LTD
353	10569	SUPERCOAT INKS AND RESINS PRIVATE LIMITED
354	8501	S.H.FASTNERS.PVT LTD
355	8472	DEEPREKHA KALATMAK SAREE KENDRA PVT LTD
356	8466	LEO PACKAGING PVT LTD
357	8330	SACHIN ELECTRONICS PVT LTD

358	18453	BALA MINING MACHINES PVT LTD
359	18363	ANEKANT DYE-CHEM PVT LTD
360	18466	SHAKUNTAL SPORTS AND RECREATION CLUB PVT LTD
361	21692	HOT ICE FASHIONS PVT.LTD.
362	21937	ROSEMOUNT SIZINGS PVT LTD
363	21966	SAVANI SILK MILLS PVT LTD
364	21886	HOTEL AHWA INN PVT LTD
365	21825	SHIV REROLLING MILLS PVT LTD
366	21798	ALLIED SYNTHETICS PVT LTD
367	21820	VIBHA BELTING PVT LTD.
368	21092	PARIJAT IMPEX PVT LTD
369	21323	COMPUTECH SOLUTIONS PVT LTD
370	21621	HIGHWAY ROADLINES PVT.LTD.
371	21707	POOJA EXIM PVT.LTD.
372	21716	SOOSHREE GRANITE AND MARBLES PVT.LTD.
373	21744	PLASMATECH METALLISING SERVICES PVT.LTD.
374	21156	CHANDRA LOK GYMKHANA PVT LTD
375	21348	SAVLI OVERSEAS CABLES PVT LTD
376	21043	GUJARAT MARKETING SALES PRIVATE LIMITED
377	21653	BONTON CHEMICALS PVT.LTD.
378	20400	SHRIKANT HOTELS PVT LTD
379	20819	RATNAMANI SHELL EXTRUSION PVT LTD
380	20898	KAJANI EXIM PVT LTD
381	22387	GUJARAT MIN-CHIN KAOLIN PVT LTD
382	22579	PHOENEX FINSTOCK PVT LTD
383	22739	RANMUKTESHWAR GYMKHANA PVT LTD
384	22716	B.N.MEHTA SECURITIES PVT LTD
385	14074	GAYLORD GYMKHANA PVT.LTD.
386	30312	RAWAL IMPEX PRIVATE LIMITED
387	30328	MEETA SECURITIES PRIVATE LIMITED
388	30761	NEELAM COREPACKS PRIVATE LIMITED
389	30644	BHAGYODAYA MANUFACTURING CO. PRIVATE LIMITED
390	30840	ILVADURG DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED
391	30742	HEMANI AGRICARE LIMITED

392	30843	MANUSHREE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
393	30688	CHIRAG LINERS PRIVATE LIMITED
394	30675	GANESH DYE-CHEM PRIVATE LIMITED
395	30692	WINNERS WINDER PRIVATE LIMITED
396	30273	PRARABDHA AGROTH PRIVATE LIMITED
397	30288	REEMA TEX PRIVATE LIMITED
398	30305	VRAJ FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
399	22225	ESTEEM SECURITIES PVT LTD
400	22241	ANTRIX LUBES PRIVATE LIMITED
401	22204	TAHA FASHIONS PVT LTD
402	21150	WELLTEX TEXTURISING PVT LTD
403	21965	SAVANI GEMS PVT LTD
404	22817	SUVRATT MACHINERY CO.PVT LTD
405	22643	HUMBOLDT DECANTERS INDIA PRIVATE LIMITED
406	23031	NAVIN BAROT INVESTMENT PVT LTD
407	22976	JAIVARASH EXPORT PVT. LTD
408	22996	VEPRAY PRINTERS PVT LTD
409	21277	GISOTON BUILDING MATERIALS (INDIA) PVT LTD
410	21241	POTOFLAKES FOODS PVT LTD
411	21215	NOVELL COMMODITIES PVT LTD
412	21944	MAULY FINANCE PVT LTD
413	21899	SAVANI TEXTURISING PVT LTD
414	21172	RAJ WEAVERKNIT PVT LTD
415	21133	KANAKDHARA DIAMOND EXPORT PVT LTD
416	21116	NIRMAN CONTRACTORS AND ENGINEERS PVT LTD
417	22842	SHARMILA COMPLEX SERVICES PVT LTD
418	22780	MONARCK SHAREFINMANN PVT. LTD
419	20744	ALANKAR DYEING MILLS PVT LTD
420	20644	AIR STAR PVT LTD
421	20506	PALLAVI GYMKHANA PVT LTD
422	20385	NOVA HERBALS PVT LTD
423	20407	MANAS MONEY MANAGEMENT PVT LTD
424	20470	RISHOO EXPORT PVT LTD
425	12514	DWARKADHISH PLASTICS PVT LTD.

426	12522	MAYUR BOARD MILLS PVT LTD.
427	12681	EXCELLENCE IMPEX PRIVATE LIMITED
428	12912	SOMNATH DIAMONDS PVT LTD
429	12774	RAMAN AND MUKESH CONSTRUCTION PVT LTD
430	12988	ARMIRA ELECTRONICS PVT. LTD.
431	12944	APNA GYMKHANA PVT LTD
432	12789	GONDEL ESTATE DEVELOPMENT AND FINANCE PVT LTD
433	12713	TRILOK GYMKHANA PVT.LTD.
434	12752	KATHIAWAD HOUSING AND FINANCE COMPANY PVT LTD
435	12703	RUBY TOOLS PVT LTD
436	12048	ZEAL BIOSYNTH PVT LTD
437	12819	SHRI JUGDAMBA MERBLES PVT LTD
438	7812	SAMSON PLYWOOD PVT LTD
439	7875	INDUCTO FOUNDRY (INDIA) PVT LTD
440	7776	KIRAN MINERALS AND STONES PVT LTD
441	9483	GUJARAT VINOL RESINS PVT LTD
442	9349	AMAR HOUSING PVT. LTD.
443	9347	PRIME PLASTICS (GUJARAT) PVT. LTD.
444	9262	ROLS SOCIAL GROUP PVT. LTD.
445	9276	ATLON TEXTILE MILLS PVT LTD.
446	9284	HITIXA CONSTRUCTION CO PVT LTD
447	9287	KARNAVATI GYMKHANA PRIVATE LIMITED
448	9288	CHAIM GYMKHANA PVT LTD
449	9295	VIKRAM TOURS AND TRAVELS PVT LTD
450	9438	VAMI UDYOG PVT. LTD.
451	9429	WEBS MACHINE TOOLS PVT. LTD.
452	9400	KUTCH CLAYS AND CERAMICS PVT. LTD.
453	9406	RAJMOTI SYNTHETICS PVT. LTD.
454	9411	NINA CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
455	15105	REENA LEASING AND FINSTOCK PVT.LTD.
456	15071	SHREE GOPI SPORTS CLUB PVT.LTD.
457	30745	MARSHAL FINSTOCK PRIVATE LIMITED
458	30712	KARD HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
459	30038	ACTIVE BUYERS CO. PRIVATE LIMITED

460	30245	JANAM EXPORTS PRIVATE LIMITED
461	31517	ANUP MARBLES PRIVATE LIMITED
462	31556	MADHUMILAN ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
463	31578	WHITE CLOUD HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED
464	31628	PUREMETAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
465	31644	NAVJYOT FINVEST PRIVATE LIMITED
466	31675	DIPTI OVERSEAS PRIVATE LIMITED
467	31105	BELGRAVIA SHIPBREAKING PRIVATE LIMITED
468	31104	BELGRAVIA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
469	31222	EARTH BUILDCON PRIVATE LIMITED
470	31219	RAJMANI POLY-CHEM PRIVATE LIMITED
471	31235	MOUNT PACKERS PRIVATE LIMITED
472	30257	JALARAM NEWSPRINT AND PAPER PRIVATE LIMITED
473	30510	PREMIUM CEMENTS PRIVATE LIMITED
474	30620	RATH TRAVELNET PRIVATE LIMITED
475	30829	SAMINAAT BUILDERS PRIVATE LIMITED
476	25711	MEGHA BUILDERS PRIVATE LIMITED
477	26019	TINKUJI RESORTS PVT LTD
478	25946	NEETA FARMS PVT LTD
479	25947	RASHMIN FARMS PVT LTD
480	25945	SUNDERGOPALAM FARMS PVT LTD
481	25951	SANIDHYA FARMS PVT LTD
482	25997	RAJRATAN DEVELOPERS PVT LTD
483	24931	COMPUTECH SERVICES PVT LTD
484	25786	VISHU CHEMICALS PVT LTD
485	25232	SHREE VINAYAK DIAMONDS PVT LTD
486	24901	ADVANCED OILFIELD SERVICES PVT LTD
487	25937	NEW INDIA FORGE INDUSTRIES PVT LTD
488	25944	NISHKAL FARMS PVT LTD
489	25909	ZEREH PARK PRIVATE LIMITED
490	25912	VISHWAS FINSTOCK PVT LTD
491	25929	HI-TECHNO VESSELS PVT LTD
492	26532	AKSHAR HOSPITALS PRIVATE LIMITED
493	26570	HIRALI FINSTOCK SERVICES PVT LTD

494	26806	JOJOBA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
495	26809	HANSDHURP FINANCING PVT LTD
496	29985	ORBIT MANISHA REALITY PRIVATE LIMITED
497	29973	ALANSU CORPORATE SERVICE PRIVATE LIMITED
498	29959	MAMTA FASHIONS (INDIA) LIMITED
499	29975	MARIA CREDIT-CAPITAL PRIVATE LIMITED
500	29976	PARIDHAN FINVEST PRIVATE LIMITED
501	29320	RANI TRAVELS PRIVATE LIMITED
502	29425	CHAKALAYIL POLY BOARD PRIVATE LIMITED
503	29472	EMPIRE GARMENTS PRIVATE LIMITED
504	28026	VINAYAK ROLLING PVT LTD
505	27999	NIFCON ESTATE DEVELOPERS PVT. LTD
506	27948	GAKLAXY PRINT PACKAGING PVT LTD
507	27860	VRUNDA CHEMICALS PVT. LTD.
508	27256	GUJARAT GOAT FARMING AND PLANTATION PVT LTD
509	27205	AKASH AGRITECH PVT LTD
510	27666	ULTRAPURE ICE-CUBES PVT. LTD.
511	27537	SHUBHAM MARKETING PVT LTD
512	28953	AMPREX ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS PVT LTD
513	28934	SHREE VINNY IMPEX PRIVATE LIMITED
514	27767	MAKSHI FINVEST PVT LTD
515	27744	HARVI FINANCE PVT LTD
516	16881	RELIEF SOCIAL CLUB PVT LTD
517	16719	DHRUNIL CHEMICALS PVT.LTD.
518	16770	JATIN TEXTILE TRADING PVT. LTD.
519	16758	KAKA GYMKHANA PVT. LTD.
520	16728	POONAM FOOD PRODUCTS PVT.LTD.
521	16716	JALA CHEMICALS PVT. LTD.
522	16745	SHRI MOTTEX FISHERIES PVT.LTD.
523	19123	FLAIR FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
524	19151	SHIVOM COMBINES PVT LTD
525	19171	EUROMAX (INDIA) PVT LTD
526	19243	NILKAMAL AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
527	19241	TARA AGROIL PVT LTD

528	19240	GUJARAT INTEGRATED CIRCUITS PVT LTD
529	16341	BLOWLITE TECHNOLOGIES PVT. LTD.
530	16535	SURAT ALLOYS PVT. LTD.
531	16346	SHRI PODAR TEXFAB PVT. LTD.
532	16349	METRO SOCIAL CLUB PVT. LTD.
533	16344	NAANKI CHEMICALS AND MINES PVT. LTD.
534	34545	JAGAT SALT PRIVATE LIMITED
535	34542	SILVER SALT PRIVATE LIMITED
536	5413	HABK CLUB PRIVATE LIMITED
537	5446	JIVANLAL CHAUDHARY INVESTMENT PVT LTD
538	5065	GREATER RURAL DEVELOPMENT HOUSING CO PVT LTD
539	5472	S K CONES PVT LTD
540	5304	RANIP GYMKHANA PRIVATE LIMITED
541	4986	A K GASES PVT LTD
542	5226	MARSHEL AND MARSHAL AUTO ELECTRONIC PVT LTD
543	5266	PROSPECTA SLEEVES MANUFACTURING CO PVT LTD
544	5295	PALM SOAPS (KANDLA) PVT LTD
545	5245	SEEMA ELECTRODES PVT LTD
546	5298	LAXMI KHANDSARI SUGAR INDUSTRIES PVT LD
547	5193	VISWAKARMA MINERALS PVT LTD
548	5199	KAPADWANJ GYMKHANA PRIVATE LIMITED
549	5146	PANCHAL AND MISTRY ENGINEERING WORKS PVT LTD
550	5022	SUMITRA CEMENT PVT LTD
551	17369	BAROLIA DEVELOPERS PVT LTD.
552	17376	SUPER FUSION REFRACTORIES PVT.LTD.
553	17497	KHODAL TEXTILES PVT.LTD.
554	17542	GHAEL INVESTMENTS PVT LTD
555	17736	MACHHU GYMKHANA PVT LTD
556	17552	GREENFIELD PHARMA PVT LTD
557	29105	SANGHVI FINVEST PRIVATE LIMITED
558	28831	REETU DYESTUFF PRIVATE LIMITED
559	28840	SWEETY AUTO FINANCE PRIVATE LIMITED
560	28887	RACHNA STHAPATYA AND PROPERTIES PVT. LTD.
561	28901	SHAYONA AUDIO VISUAL CO. PRIVATE LIMITED

562	28930	NAVLAKHA FINSTOCK PRIVATE LIMITED
563	28955	EXPERT CARGO PRIVATE LIMITED
564	28957	SAPAN TRADELINK PRIVATE LIMITED
565	29197	GUJARAT CIRCUIT BREAKERS PRIVATE LIMITED
566	29123	WAGESH ENERGY EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
567	28289	RANDAL TEXTILES PVT. LTD.
568	28320	SIMONI DOMESTIC APPLINACES PVT. LTD.
569	28330	TULSIDEVA FINANCE PVT LTD
570	28334	AMBICA PLASTO-WEAVE PVT. LTD.
571	28778	VARNI PLANTATION PRIVATE LIMITED
572	28795	VISHAL PRINTED CIRCUIT BOARD PRIVATE LIMITED
573	28805	KAMALABEN AMBALAL GENERAL HOSPITAL PVT LTD
574	36593	LOKPREM PUBLICATION PRIVATE LIMITED
575	36604	TANAVUL RICE MILLS PRIVATE LIMITED
576	36603	NEMAT RICE MILLS PRIVATE LIMITED
577	28786	KAROLIA TRADELINKS PVT LTD
578	36610	RAVISUN PACK ART PRIVATE LIMITED
579	36565	SATNAM ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
580	36557	HARIYA BEVERAGES PRIVATE LIMITED
581	36556	PARTH CARE PURIFICATIONS PRIVATE LIMITED
582	36521	PIGOLI OVERSEAS PRIVATE LIMITED
583	36555	ROOTS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
584	36529	ABHIJIT TOURS PRIVATE LIMITED
585	36504	SHRINATH INOTECH PRIVATE LIMITED
586	36492	SITARAM MARKETING PRIVATE LIMITED
587	36475	SHREE BAN GANGA ROLLER FLOUR AND PULSE MILLS PRIVATE LIMITED
588	36432	SHREESAI SIDDHI SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
589	36404	SARMILA SILK MILLS PRIVATE LIMITED
590	36280	DHVANEEL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
591	36283	MOON SILK MILLS PRIVATE LIMITED
592	36265	SONU PLAST PRIVATE LIMITED
593	36257	SHREE RAJ RAJESHWARI COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
594	36249	ZIGMA INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED

595	36318	SADBHAVANA BUILDERS PRIVATE LIMITED
596	30867	JADE HOTEL PRIVATE LIMITED
597	30851	NEERAJ FINVEST PRIVATE LIMITED
598	31584	RAJVI FINLEASE PRIVATE LIMITED
599	31506	SARVODYA FINCAP PRIVATE LIMITED
600	19071	ANAND EXIM PVT LTD
601	18910	SHREE MEDIA CERAMIC MATERIALS PVT LTD
602	19002	PRAJYOT FINANCE PVT LTD
603	19266	SAI PHOSPHATE PVT LTD
604	19112	GUJARAT BRUFIN LAB PVT LTD
605	19283	MIRA GYMKHANA PVT LTD
606	19314	KAMAL GYMKHANA PVT LTD
607	19343	IMAGE ENGINEERING PVT LTD
608	19367	ALPS FINANCIAL SERVICES PVT LTD
609	19412	SHARDA HOMES PVT LTD
610	19404	RAMESHWAR FLAVOUR AND FRAGRANCE PVT LTD
611	18950	AMECO ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
612	18938	RAJMAN MULTI FLEX PVT LTD
613	18829	IMAGE ADHESIVES PRIVATE LIMITED
614	18985	ZARNA FINSTOCK PVT LTD
615	18977	AKOP ELECTRO-PRODUCTS PVT LTD
616	18974	SHITAL LAMINATES PVT LTD
617	18853	PAWAN CLUB PRIVATE LIMITED
618	18843	JAVERI RUBBER PRODUCTS PVT LTD
619	18811	SCINTIFIC CONSTRUCTION PVT LTD
620	18813	COMVA REAL ESTATE CO. PRIVATE LIMITED
621	18814	VINIMA DISTRIBUTORS PVT LTD
622	18816	AARASURI POLYMERS PVT LTD
623	26863	SPARSH SECURITIES PVT LTD
624	28187	LIFE INTER LINK SERVICES PVT LTD
625	16613	SHREE JAYKRISHNA TEXTURISERS PVT. LTD.
626	16981	RAJESHWARI HOTELS PVT LTD
627	24587	PARSH PACKAGING PVT LTD
628	24576	NOSTREDAME FINSTOCK PVT LTD

629	24424	SHREE RAM MARUTI SAHYOG LEASING AND FINANCE PVT LTD
630	17582	MASSTRANSFER CERAMICS PVT LTD
631	27011	BILESHWAR OIL PRODUCT PVT LTD
632	28072	NIKI SHARE CONSULTANCY PVT. LTD.
633	28054	MAHALAXMI INTERLINK FISCAL SERVICES PVT LTD
634	28140	MAHESH REAL TRADING AND IVESTMENT PVT LTD
635	28603	GAJANAN CEREMICS PVT LTD
636	26635	SARJAK HOTELS PRIVATE LIMITED
637	26999	BOLTS MANUFACTURES PVT LTD
638	26721	VRANZ TECHNO-ENGINEERS PRIVATE LIMITED
639	26703	NITIN AND NILESH EXPORTS PRIVATE LIMITED
640	26982	RATNADEEP FINANCE PVT LTD
641	26927	YOGI DEVELOPERS PVT LTD
642	25614	MALIRAM INVESTMENT PVT LTD.
643	24660	GIFCON FINANCIAL SERVICES PVT LTD
644	18746	GURUSHARAN SALT AND CHEMICALS PVT LTD
645	18719	ARAMAX PACKAGING AND PLASTICS PVT LTD
646	34562	PARTH AGRI EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
647	31606	ASHISH ANIL DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
648	31725	ATLANTA DRUGS PRIVATE LIMITED
649	31686	RAJ MANDIR REALTY PRIVATE LIMITED
650	31611	AMIK AGRO PRIVATE LIMITED
651	31289	AALAP STUDIO PVT. LTD
652	31331	BAISAN HOTELS PRIVATE LIMITED
653	31326	MULTIWORTH TRADELINK PRIVATE LIMITED
654	5040	SAURASHTRA COLOUR PHOTOGRAPHIC LABORATORY PRIVATE LIMITED
655	31897	VAISHAKHI FINANCIALS PRIVATE LIMITED
656	31075	RATH TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
657	31033	DIGITAL MOVIES PRIVATE LIMITED
658	30993	OLYMPIC EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
659	30947	TINY TRADERS PRIVATE LIMITED
660	31993	RIDDHI ANAND FIN-STOCK PRIVATE LIMITED
661	31992	TIARA IMPEX PRIVATE LIMITED

662	8359	VANJY POLY PACKS PVT LTD
663	8244	AJAY DEPARTMENTAL STORES PVT LTD
664	8239	POONAM TOURS PVT LTD
665	8231	P.R. COMPUTER SERVICE PVT LTD
666	8224	VEGO POLYMERS PVT LTD
667	8130	ECO-DEVELOPMENT AND MANAGEMENT RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
668	8151	BHAKTI LAMINATION INDUSTRIES PVT LTD
669	8084	RINGROAD GYMKHANA PVT LTD
670	8081	HARNIA FOOD PVT LTD
671	7315	HARDIK CHEMICALS PHARMACEUTICALS PVT.LTD.
672	7394	SEQUIN PHARMA PVT LTD
673	7380	BALARAM TEXCHEM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
674	7367	AVON CALOCHEM PVT.LTD.
675	7366	AVON RANG RASAYAN PVT.LTD.
676	7439	MICRO MEDICS (INDIA) PVT LTD
677	7441	ASHOK AWAD MAKERS PVT.LTD.
678	7428	GUJARAT HEALERS LABORATORIES PVT LTD
679	7546	HUNS TEXTILE MACHINERY MFG CO PVT LTD
680	7557	NAGRI GYMKHANA PVT.LTD.
681	7501	RAJIV GASES PVT LTD
682	7567	ZEBRA MINERALS PVT LTD
683	28288	ANGEER HOLDINGS PVT LTD
684	28089	SACCHAI METALS PVT LTD
685	28886	NAVSARAJAN BUILDERS PRIVATE LIMITED
686	28253	AMARPRAKASH CAPITAL AND FINANCE PVT. LTD
687	32731	DIGVIJAY FINSTOCK PRIVATE LIMITED
688	32638	TIME PLUS FINVEST PRIVATE LIMITED
689	34557	BHUMI SALT PRIVATE LIMITED
690	34533	SIGNET MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
691	34505	SHADOWSPAWN MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
692	34494	BIRHA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
693	32815	SATNAM FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
694	32736	PRASONA ANALYTICALS LABORATORIES PVT LIMITED

695	32680	ASHIRVAD DAIRY PRIVATE LIMITED
696	32788	IQRA TRAVELS PRIVATE LIMITED
697	32526	ARUN DYESTUFF PRIVATE LIMITED
698	32516	HET MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
699	32579	PRASHANT PAINTS PRIVATE LIMITED
700	32915	SINGHAL POLYESTERS PRIVATE LIMITED
701	32901	MILI GYMKHANA PRIVATE LIMITED
702	32855	NEST TRANSMISSION PRIVATE LIMITED
703	33179	YURAJ POLYSACK PRIVATE LIMITED
704	26654	NISHITA FINANCIAL AND TRADING PVT LTD
705	26665	ARKEN POLLUTION CONTROLS PVT LTD
706	32392	JAYDEEP HYGINE PRIVATE LIMITED
707	32336	YASH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
708	32693	SARVODAY CATTLE FEED PRIVATE LIMITED
709	38218	MAC APPLE INFOTECH PRIVATE LIMITED
710	39469	PARAMOUNT COPPER ROLLING MILLS PVT LIMITED
711	39499	SYNAPSE INFOTECH PRIVATE LIMITED
712	39448	TAURUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
713	39674	AHMEDABAD COLOR LAB PRIVATE LIMITED
714	39628	AMBI IMPEX PRIVATE LIMITED
715	39625	MEGHAVI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
716	39618	SUMATI E-EDUCATIONS PRIVATE LIMITED
717	39591	SWADESHI VIJAY CONSUMER SERVICES PVT LIMITED
718	39574	SAISHAKTI SURGICAL COMPANY PRIVATE LIMITED
719	39549	MAXIMA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
720	39452	SAVITA GOVIND RESORTS AND MOTELS PVT LIMITED
721	39400	SHREE GOGA VISION PRIVATE LIMITED
722	39531	ELLISE ALLOYS PRIVATE LIMITED
723	39403	SKYLINE GAS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
724	39528	INCATEL TELE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
725	39526	LEELA AVIATION PRIVATE LIMITED
726	39521	LOKMANYA EDUCATION ACADEMY PRIVATE LIMITED
727	39410	MATRUKRUPA HOTELS PRIVATE LIMITED

728	39645	e-telligence technologies private limited
729	39649	CLARITY SOFTWARE PRIVATE LIMITED
730	39786	A-MAC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
731	39744	NET WIZARD SOFT-TECH PRIVATE LIMITED
732	39690	DELHI UNANI PRIVATE LIMITED
733	39853	DOLPHIN INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
734	39804	SHANTI-NEKETAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
735	39940	MEMUNA MUSHROOMS PRIVATE LIMITED
736	39911	VISTA NETWORK PRIVATE LIMITED
737	39964	G AND M REINFORCE PLASTIC PRIVATE LIMITED
738	37667	VALSAD WOODEN PRIVATE LIMITED
739	37676	HERITAGE VARSODA RESORTS PRIVATE LIMITED
740	37721	VIRENDRA CARGO PRIVATE LIMITED
741	37747	HERIES CONTROLS PRIVATE LIMITED
742	37770	ADITYANAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
743	37771	BANESHWARI TYERS PRIVATE LIMITED
744	36439	SWAMI-SHRIJEE HEAVY EARTHMOVING SPARES PRIVATE LIMITED
745	36420	REVAPURI COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
746	36459	ZCON CHEMICALS PRIVATE LIMITED
747	36730	GEMINI AGE-PRINT PRIVATE LIMITED
748	20130	LAL SYNLAB PVT LTD
749	20134	VINOD-SHILP DEVELOPERS PVT LTD
750	20075	AMEE SEAL PVT LTD
751	20873	ANAND EQUIPMENTS PVT LTD
752	20678	JINOY GRANITES AND MARBLES PVT LTD
753	20781	SURAT POLYTEX OVERSEAS PVT LTD
754	20763	GOSWAMI GARMENTS PVT LTD
755	20482	RELIABLE PETROCHEM PVT LTD
756	15045	PATCONS PAPER TUBES AND CONS PVT. LTD.
757	15037	APPLE BRASS COMPANY PVT. LTD.
758	15039	PARTH COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
759	13651	JEEVANEY RESORTS PVT. LTD.
760	13033	GUJARAT POLYBAGS PVT. LTD.

761	13221	GUDIYA SYNTHETICS PVT. LTD.
762	13206	SOMANI TRANSPORT PRIVATE LIMITED
763	13087	OM POLY FIBERS PVT. LTD.
764	13080	ASTITVA PAPER CONE PVT. LTD.
765	14246	MITUL ESTATES DEVELOPMENT PVT LTD
766	14168	JARIYA TEXTILES PVT.LTD.
767	14115	GOPAL KRISHNA GYMKHANA PVT LTD
768	7843	SHRIMALI ROOFING TILES INDUSTRIES PVT LTD
769	15128	SHREE SOUNDHYA DYES AND CHEMICALS PVT.LTD.
770	16942	COMET HYDROCARBON PVT LTD
771	17071	CITIZEN BEARINGS PVT. LTD.
772	17976	SHREE NIWAS ORGANICS PVT LTD
773	17454	MEGHNA FINANCE AND INVESTMENTS PVT. LTD.
774	17411	JAGEX INTERMEDIATE PVT. LTD.
775	17431	MIDAS CHEM INNOVATIONS PVT.LTD.
776	17400	SHARDA NITRO CELLULOSE (VAPI) PVT. LTD.
777	17098	SATCOM PVT. LTD.
778	17748	HIMALI CHEMICALS PVT LTD
779	17994	DEBEELA FABRICS PVT LTD
780	17126	NAKASHA SOCIAL CLUB PVT.LTD.
781	17111	PAREKH CAPITAL SECURITIES PVT. LTD.
782	17175	INDO-GULF FURNITURES PVT. LTD.
783	16931	HIUNGAR AND AGRAWAL SERVICES PVT LTD
784	16196	SURAT FINLEASE PVT.LTD.
785	16409	OMINI INTERLINK PRIVATE LIMITED
786	18173	MEGA -CHIP CONSULTANTS PVT LTD
787	18071	DHAVAN HOTELS PVT LTD
788	18084	FINE HOUSING ART PRODUCTS PVT LTD
789	18123	SARIGAM CEMENT PVT LTD
790	18115	HIM SHREE CONSULTANTS PVT LTD
791	18107	OM FASHIONS PVT LTD
792	18213	HETAL ENGG. COMPANY PVT LTD
793	18276	BANAS PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE PVT LTD
794	18269	MIRANT EXIMP PVT LTD

795	18248	SAYANA POLLY GRAPHICS PVT LTD
796	14755	METADUR POLYMERS PVT.LTD.
797	14780	UMBHRAT INTERCHEM PVT.LTD.
798	15153	GURD PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
799	21177	AMBAJI GYMKHANA PVT LTD
800	20773	STAR REFRIGERATION PVT LTD
801	20563	SHREE MAHAVIR POLYSYNTH PVT LTD
802	18343	HAPPY SOCIAL CLUB PVT LTD
803	18003	RAJKRUPA PIPES AND TUBES PVT LTD
804	10822	ARIHANT SYNTHETICS PVT LTD
805	10821	DHARNIDHAR TEXTILES PVT LTD
806	10813	VENUS INTERMEDIATES PVT LTD
807	10739	ZODIAC CABLES PVT LTD
808	10745	GOODIDEAS ADVERTISING AND MARKETING PVT LTD
809	10730	NEW ERA FABRICATORS PVT LTD
810	10754	PURSHOTTAMDAS PROPERTIES PRIVATE LIMITED
811	10746	PURVIG MARKETING PVT LTD
812	10765	ANUBHAI ESTATES PRIVATE LIMITED
813	10719	FLO-TAK PUMPS PVT LTD
814	10718	ASCON INVESTMENTS PVT LTD
815	10694	AJAY MARKETING PVT LTD
816	12909	HAZIRA ANCIALLERY AREA DEVELOPERS PVT LTD
817	12898	ANGELIS PHARMACEUTICALS PVT LTD
818	12900	PRECISE CONNECTORS AND COMPONENTS PVT LTD
819	12895	JIRAM PLASTICS PVT LTD
820	9160	BONDWELL ABRESIVE PVT. LTD.
821	9158	SHREE RAMANANAD ALLOYS AND STEELS PVT. LTD.
822	9125	BHAGAWATI FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
823	9124	BHAGAWATI BUILDING MATERIALS PVT. LTD
824	9119	PANAMA MARKETING PVT. LTD.
825	9200	NEW PACK POLYMERS PRIVATE LIMITED
826	9234	R.K.POLY PLASTICS PVT. LTD.
827	9219	WAFI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
828	8994	AJANTA GYMKHANA PVT. LTD.

829	8985	VENICE TOUGHENED GLASS PVT LTD
830	9030	SHRINATH PLASTICS PVT. LTD.
831	9056	CETRON LEASING PVT. LTD.
832	9086	DHARMNATH BOLTS AND NUTS PVT. LTD.
833	9089	PANCHMAHALS ELECTRONICS PVT. LTD.
834	9095	REINFORCED AGROFLEX PVT. LTD.
835	21302	ASCENT MARKETING AND VENTURE PVT LTD
836	21622	IDEAL BUILDERS AND DEVELOPERS PVT.LTD.
837	21919	CHANKYA AGRO PVT LTD
838	21476	THAMES STEELS PVT.LTD.
839	10303	LABDHI GYMKHANA PVT LTD
840	10287	PARIVARTAN PUBLICATION PVT LTD
841	10254	BLUE STAR STEEL PVT LTD
842	10251	METANIL CHEMICALS PVT LTD
843	10245	EURO SYNTHETICS PVT LTD
844	10225	IMPERIAL GYMKHANA PVT LTD
845	10470	SHREE TEXTILE MACHINERY MFG. CO PVT LTD
846	16984	SIDDHARTH TEXTURISING PVT LTD
847	16022	RAJKOT FINANCE AND LEASING PVT. LTD.
848	16035	RAMGOPAL TEXTURISING PVT LTD.
849	10417	ROSHAN GYMKHANA PVT LTD
850	10315	BRIGHT IRON AND STEEL CO PVT LTD
851	10323	DAWN CONSTRUCTION PVT LTD
852	10463	ARIHANT CONTAINERS AND PACKAGINGS PVT LTD
853	10386	BONSAL FINANCE AND LEASING CO PVT LTD
854	10356	BHARUCH CITY CLUB PVT LTD
855	10454	NAV DURAGA GYMKHANA PVT LTD
856	10439	GLOBAL PAWAN SEA-FOODS PVT LTD
857	10824	ADINATH POLYMERS PVT LTD
858	10823	AANGI POLYTEX PVT LTD
859	10671	MAKHANDHOR FOODS PVT LTD
860	10611	BHAGYASHREE COTTON PRIVATE LIMITED
861	10623	SHREE YOGESHWAR SYNTHETICS (GUJARAT) PVT LTD
862	10655	BHUTORIA CEMENT INDUSTRIES PVT.LTD.

863	10542	CORONET PHARMA PVT LTD
864	10652	MICA MARKETING PVT LTD
865	10495	CHAITANYA FIN STOCK AND LEASING PVT LTD.
866	10482	BAHERANI ELECTRONICS PVT LTD
867	15902	RAJKOT VIVEK ENGINEERING PVT. LTD.
868	15894	ATUAL TILES AND MARBLES PVT. LTD.
869	15934	ROCKY GYMKHANA PRIVATE LIMITED
870	15960	RUSTAN PUMP PVT. LTD.
871	15826	DILIP PLASTICS PVT.LTD.
872	15993	ARJUN POLYPACK PVT. LTD.
873	14482	BALAJI FIBRES PVT LTD
874	14446	GREEN DOT LAMINATES PVT.LTD.
875	14447	SAHYOG APPLIANCES LEASING PVT.LTD.
876	15248	GLANZ IMPEX PVT.LTD.
877	14503	SIMPLEX GYMKHANA PVT.LTD.
878	14510	RUSHIKESH ENGINEERS PVT LTD
879	14551	ANGEL LEASE FINANCE PVT.LTD.
880	14439	LABHAM APARTMENT PRIVATE LIMITED
881	14631	SHASHANK ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
882	13104	CALIT YARN PVT. LTD.
883	13889	AMIPAT CANS PVT.LTD.
884	14001	KUMAR CROP HEALTH PRIVATE LIMITED
885	14371	SHIVAM CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
886	14378	MEDHA COMMUNICATIONS PVT.LTD.
887	15592	JAGRUTI GYMKHANA PRIVATE LIMITED
888	15589	GLOW-WHITE CERAMICS PVT LTD
889	15568	ROHINI CLUBS PVT.LTD.
890	15559	PRUTHAVI WEAVING MILLS PVT.LTD.
891	15553	BOSCHA LEATHER MANUFACTURING PVT.LTD.
892	15548	GUPTA NON-FERROUS METALS PVT.LTD.
893	15719	ZAVERI SAVINGS AND FINANCE PVT LTD
894	15716	JAY AMBE ICE PVT LTD
895	15715	DIVYA PRESERVOTECH PVT LTD
896	15738	BIMANI SYNTHETICS PVT LTD

897	15739	VIRAJ HOTELS PVT LTD
898	15783	KALINDI CAT CONSULTANTS PVT. LTD.
899	16495	MEHTA WOOD PVT. LTD.
900	16058	SHALIGRAM MINERALS AND CHEMICALS PVT.LTD.
901	16091	MUNNA OXYGENS PVT.LTD.
902	12701	VIHAR CONSTRUCTION PVT LTD
903	12246	GUNATIT GRANITES AND MARBLES PVT. LTD.
904	12245	DEVPARI HOTEL PVT. LTD.
905	17572	JAYRAJ SALES PVT LTD
906	17566	GREEN FIELD COSMETICS PVT LTD
907	21584	SWASTIK PRO-SALES PRIVATE LIMITED
908	21541	HINA FABRICS PVT.LTD.
909	21282	STAR INTERTRADE PVT LTD
910	21097	VITRAG SYNTHETICS PVT LTD.
911	20919	MIHIR PACKAGING PVT LTD
912	35395	ANTHURIUM AGROWEALTH PRIVATE LIMITED
913	23291	AMITY PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
914	23293	RAJFINA SERVICES PVT LTD
915	23139	GUJARAT PETRO-FUELS PVT LTD
916	23148	SABINA TRAVELS PVT LTD
917	23279	ANAND AGRO EXPORTS PVT LTD
918	23981	SHAILI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
919	23235	AMEE FOODS PVT LTD
920	23247	SURAJ FISCAL PVT LTD
921	23572	UDITA INVATRADE PVT LTD
922	23567	SOSIA SHIPBREAKERS PVT LTD
923	23134	PARIJAT SECURITIES PVT LTD
924	23052	ADITI OFFSET PVT LTD
925	23420	SWETA SILK MILLS PVT LTD
926	23912	ANODYNE PHARMACEUTICALS PVT LTD
927	13817	VAPI GYMKHANA PVT LTD
928	13928	BHARUCH LEASING COMPANY PRIVATE LIMITED
929	13918	AMIR GARIB GYMKHANA PVT.LTD.
930	13881	SUGUNA OILS PVT.LTD.

931	13496	R.R. MANEKLAL ORGANISER PVT. LTD.
932	13796	SURYA FRUITS AND SPICDS PROCESSING PVT LTD
933	13749	SURAT BUILDERS PVT LTD
934	14037	NIRAV GYMKHANA PVT.LTD.
935	13935	OTTARI MUSIC PVT. LTD.
936	14024	SOMANI MARBLE AND GRANITES PRIVATE LIMITED
937	13997	SARDAR VALLABHBHAI ENGINEERS PVT.LTD.
938	14634	VYAS FINSTOCK PRIVATE LIMITED
939	14675	SIGMA EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
940	15007	SIGMA FASTNERS PVT.LTD.
941	15005	DAS INTERMEDIATES PVT.LTD.
942	20557	NARAYANI PROJECTS PVT LTD
943	21064	PAVAN POWER SYSTEMS PVT LTD
944	20664	ANFA TEX MACHINE PVT LTD
945	22246	KRISHNA PETROLIUM PRODUCTS PVT LTD
946	22546	RADHA FASHIONS (INDIA) PVT LTD
947	22563	GOODWAY MARKETING PVT LTD
948	22564	ELPAON EQUIPMENTS PVT LTD
949	27686	MARUDHAR FASHIONS PVT LTD
950	27730	ANMOL OILS PVT LTD
951	26024	CREATIVE IMPORTS PVT LTD
952	27670	VIMLA SYNTHETICS PVT. LTD
953	27581	KAUSTUBH MARKETING PVT LTD
954	27554	SHREE ADITYA OILS PVT. LTD.
955	27523	GASCO LEASE AND FINANCE PRIVATE LIMITED
956	26954	VIKRAMSIN HARISHCHANDRASINH JHALA SALT WORKS PVT LTD
957	26610	KUSHAL DYEING AND PRINTING MILLS PRIVATE LTD
958	10049	SAPRAJAY ELECTRONICS PVT LTD.
959	15434	BLISS DYECHAM (INDIA) PVT.LTD.
960	15441	RALEX PIGDYE-CHEM PVT. LTD.
961	15515	HARSHVADAN ESTATE DEVELOPER PVT LTD.
962	15509	EMITY SHRINK-PLAST PVT.LTD.
963	15666	PARTH DEVELOPERS PVT LTD

964	15610	SOMAR COMMUNICATIONS PVT LTD
965	15342	SHRUHAD TEXTURISING PVT.LTD.
966	15343	INTERVEST BOILERS PVT.LTD.
967	15316	NAVPAD FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.
968	15307	HETAL OIL PRIVATE LIMITED
969	15288	NISSAM TRANSMISSION PVT.LTD.
970	15237	VINEET VELVET MILLS PVT.LTD.
971	14255	STALLION CONSTRUCTION PVT LTD
972	13149	LASI TEXTILES PVT LTD.
973	14251	ITAHAT METAL CAST PRIVATE LIMITED
974	13862	ALIVE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
975	15266	BHAGWATI SHEET METAL PRODUCTS BARODA PVT.LTD.
976	14196	KADHAM PETRO CHEMICALS PVT LTD
977	14199	SAYAJI FERTILIZERS AND CHEMICALS PVT LTD
978	15058	NACHIKET FINSTOCK CONSULTANCY PVT. LTD.
979	29978	AVASH CREDIT CAPITAL PRIVATE LIMITED
980	10174	SAIBABA PROPERTIES PVT LTD
981	10158	TAPTI CEMENT AGENCIES PVT LTD
982	10134	SHAKUN HI-TECH ELECTRONICS PVT LTD
983	10086	SIDHARTH STONE PVT LTD
984	27540	KANAIYA MARKETING PRIVATE LIMITED
985	27745	HARI OHM MARKETING PRIVATE LIMITED
986	27536	COMFORT MARKETING PRIVATE LIMITED
987	10164	BHANDRA ENGINEERING CONTRACT CO PVT LTD
988	18328	SUPER PRINTECH MACHINERY (I)PVT LTD
989	18322	BANSIDHAR TEXTURISERS PVT LTD
990	25952	SUNDERAM FARMS PVT LTD
991	12501	ANAND POLYTEX PVT LTD.
992	35151	RIVERDALE PHARMA PRIVATE LIMITED
993	35137	DHETARWAL TRANSPORT PRIVATE LIMITED
994	35131	NIKI POLYCHEM PRIVATE LIMITED
995	35073	TAKSHASHEELA RESIDENCY PRIVATE LIMITED
996	35068	DEVSON SILK MILLS PRIVATE LIMITED
997	35022	DIVYABHOM MINERALS PRIVATE LIMITED

998	35020	JUPITER FLAMENTS PRIVATE LIMITED
999	30291	SHEKTVIR FINANCE PRIVATE LIMITED
1000	30564	JINESHWAR LEASING AND FINANCE CO PVT LTD
1001	30630	LAWRELL COSMETICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1002	30841	RAJPUTANA FINSTOCK PRIVATE LIMITED
1003	30842	MAMTA FABRICS PRIVATE LIMITED
1004	35126	SPEEDBOND EXPRESS COURIER SERVICES PVT LIMITED
1005	35182	PRIYANKA FASHIONS PRIVATE LIMITED
1006	35176	NEPTUNE CYBERWORLD PRIVATE LIMITED
1007	35174	SANWARIA SILVER PRIVATE LIMITED
1008	35405	SHYAMSUNDER FINANCE PRIVATE LIMITED
1009	35400	DEVARSH MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
1010	35393	COROLLA AGROTECH PRIVATE LIMITED
1011	35389	HARIHAR COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1012	35380	GEETANJALI EDUCATION PRIVATE LIMITED
1013	35362	ADMIRE OVERSEAS PRIVATE LIMITED
1014	35358	CHITRAKUT COTTON PRIVATE LIMITED
1015	35334	RUDRA TRADELINK PRIVATE LIMITED
1016	35318	UNITOR SHIPS SERVICE PRIVATE LIMITED
1017	35296	VIJAY PUBLICATION PRIVATE LIMITED
1018	35216	TAPI CONSUMER STORE PRIVATE LIMITED
1019	35190	POONIUM MOTORCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1020	35189	ACHAL MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
1021	35186	ASHAPURA PORT AND MARINE PRIVATE LIMITED
1022	35467	PRIYANK NETWORK PRIVATE LIMITED
1023	35464	SPENTA EXPLORER PRIVATE LIMITED
1024	35462	ZENITH MOTELS PRIVATE LIMITED
1025	35447	TRIPAL S V BIO-TECH INDIA PVT LTD
1026	35452	GENIUS CAREER TURNING POINT PRIVATE LIMITED
1027	35483	HALWAD SALT TRANSPORT PRIVATE LIMITED
1028	35490	DHANGDHRA SALT WORKS PRIVATE LIMITED
1029	35491	PARMAR SALT PRIVATE LIMITED
1030	35976	PAR HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
1031	12695	KHYABAR HATCHERCS PVT LTD

1032	12607	MANEKLAL TEXTILES PROCESSORS PVT. LTD.
1033	12579	SHREEJI HOUSING AND FINANCE COMPANY PVT. LTD.
1034	12404	PARISHRAM INVESTMENT FINANCIAL LEGAL& TECH CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1035	12418	VIR CONSTRUCTION PVT LTD.
1036	12432	JANTA SYNTHETICS PVT LTD.
1037	12491	GOLD HILL GRANITE PVT LTD.
1038	12446	SURENDER BEARINGS CO. PVT LTD.
1039	12443	KAPALI PHARMACUTICALS PVT LTD.
1040	12290	GREENLINE TRAVELS PVT. LTD.
1041	12396	KABIR ALLUMINIUM EXTRUSION PVT LTD.
1042	13927	JANU IMPEX PVT.LTD.
1043	13926	BHAVTEX (INDIA) PVT.LTD.
1044	13906	NARESH HOUSING AND FINANCE PVT.LTD.
1045	13937	CHIRAG OIL MILL PVT.LTD.
1046	13871	MANORATH CARRIERS PVT.LTD.
1047	13876	KAKA SYNTHETICS PVT.LTD.
1048	13700	REEPAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
1049	13773	DHARA FORGINGS PVT LTD
1050	13234	DELUX FABRICS PVT. LTD.
1051	13236	NUTECH METAL POWDERS PVT. LTD.
1052	13387	MERA SAPNA CONSTRUCTION PVT LTD
1053	13461	AMBAJI TEXTFAB PVT. LTD.
1054	13434	UTTAM GYMKHANA PVT LTD
1055	13746	ASHPRA CHEMICALS PVT LTD
1056	13739	AKSHAN GREMS PVT LTD
1057	13673	LASER PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
1058	12383	ANUBHEV SYNTHETICS PVT LTD.
1059	12371	MRUDANG HOTELS PVT LTD.
1060	12344	VEJALPUR SPORTS CLUB PVT.LTD.
1061	12340	PANOLI TEX (INDIA) PVT. LTD.
1062	12336	HAZEL CRAFT INTERNATIONAL PVT. LTD.
1063	14693	SHREE SURGICON PRIVATE LIMITED
1064	14945	ANJALI SYNTHETICS PVT.LTD.

1065	14308	EXCELLENT INTER-LINK SERVICES PVT.LTD.
1066	14691	LOTUS SPINNERS PRIVATE LIMITED
1067	14680	GAJANAND POLYMERS PRIVATE LIMITED
1068	14722	ALPS AIRCON PVT.LTD.
1069	14465	ADWAIT BUILDERS PVT LTD
1070	14161	FLAMINGO TEXTILES PVT LTD
1071	15176	DUNHILL PLASTICS PVT.LTD.
1072	15121	KHARADIA TEXTILES PVT.LTD.
1073	15164	DHARESHWAR GRAY PAPER BOARD MILL PVT. LTD.
1074	15157	TULSI DYEING AND PRINTING MILLS PVT.LTD.
1075	15171	MEHTA POLYESTER PRIVATE LIMITED
1076	15160	GARUDESHWAR PACKAGING PVT.LTD.
1077	15188	INDREYA PAPER BOARD PVT.LTD.
1078	14370	PRIME SILICON VALLEY PVT.LTD.
1079	14354	VINSONS TEXTURISERS PVT.LTD.
1080	14331	WELCOME DYEING AND PRINTING MILLS PVT.LTD.
1081	14899	RAGHUVIR PAPER MILLS PVT.LTD.
1082	14896	GOLDEN MAIZE PVT.LTD.
1083	14863	DARBAR GYMKHANA PVT.LTD.
1084	14822	SAMDAR PUMPS PVT LTD
1085	14807	PAVITRA NATURAL MEDICINES PVT LTD
1086	14713	OASIS ELEVATORS PRIVATE LIMITED
1087	14962	PARAS TUBE SALES PVT.LTD.
1088	14580	UNIQUE FLEXIBLE PRINT PVT.LTD.
1089	13546	YOGITA FINANCE PVT LTD
1090	13487	SADGURU STELL PVT. LTD.
1091	13601	PARTH POLYESTER PVT. LTD.
1092	13586	KATAK EXPORTS PVT. LTD.
1093	13414	BONNY BRICKS COMPANY (INDIA) LTD
1094	13400	MAHALAXMI NAMAKKAL TRANSPORT PVT LTD
1095	13523	MASAM CHEMICALS PVT LTD
1096	13594	WINDSON WORLD TRADES AND TRAVELS PVT. LTD.
1097	16627	ROXY PLAST PVT. LTD.
1098	16135	DINESH SYNLAB PVT.LTD.

1099	16078	SATYAM GEMS PVT LTD
1100	16077	MAHESH FABRICS PVT.LTD.
1101	16148	GANPATI DOMESTIC APPLIANCES PVT.LTD.
1102	15944	SHANTINIKETAN HOTELS PVT. LTD.
1103	15804	KRUTI DYE-CHEM PVT. LTD.
1104	15784	GAYATRI FORGINGS PVT. LTD.
1105	15825	VISHWAS FABRICS PVT. LTD.
1106	16068	PINKA FINANCE PVT.LTD.
1107	15006	THARODWALA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1108	15842	KARMA AGRO INDUSTRIES PVT. LTD.
1109	15995	MINT-HOUSE FINANCE PVT. LTD.
1110	15692	MESSY FARGUSAN ENGINEERING AND CHEMICALS PVT LTD
1111	15648	LIBRA SUPERSTORES PVT LTD
1112	15649	PATEL SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
1113	15650	CHECHANI FOODS PVT LTD
1114	35342	NAV KAR CARBONS PRIVATE LIMITED
1115	35542	KAPIL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1116	35563	PREMIUM RISK SERVICES PRIVATE LIMITED
1117	35569	VARDHMAN MINERALS PRIVATE LIMITED
1118	35599	NISU DISTIBUTORS PRIVATE LIMITED
1119	35593	SHRI SURAT FRESH FRUITS COLD STORAGE PVT LTD
1120	35592	SHRI SAURASHTRA FRUITS & VEGETABLES STORAGE PVT LTD
1121	35503	DIAL A HELP AUTO CLUB PRIVATE LIMITED
1122	35674	ROYAL ORGANISERS PRIVATE LIMITED
1123	35634	SARAN MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
1124	35632	SHREE GURU KRUPA SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
1125	35623	SHIVGANGA FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1126	35622	NIDHI MUSHROOMS PRIVATE LIMITED
1127	35613	AKSHAT EXIM PRIVATE LIMITED
1128	35614	ATHEM TRADELINK PRIVATE LIMITED
1129	35617	GOODWILL ELASTOMERS PRIVATE LIMITED
1130	20426	RAJRATAN TEXTURISERS PVT LTD

1131	20332	GAGLANI YARNS PVT LTD
1132	23479	GALAXY SYNTHETICS PVT LTD
1133	23388	ISHAN LIME PVT LTD
1134	23599	SHUKLA FINANCE PVT LTD
1135	23562	SHRI RAM COLOUR-TECH COMPANY PVT LTD
1136	23560	BUTTERFLY SYN FAB PVT. LTD
1137	23828	ZAVER HOTELS PVT LTD
1138	23755	GIRDHARA DAIRY AND FOOD PVT. LTD
1139	23751	DELTA FINSTOCK PVT. LTD
1140	23629	VIXER FAB KNIT PVT. LTD
1141	32624	FURIOUS ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1142	24207	CHERRY PHARMALINKS PVT LTD
1143	24206	VASUDHARA FINVEST PVT LTD
1144	24198	MIRACLE REMEDIES PRIVATE LIMITED
1145	35514	SHAGOON FINSTOCK PRIVATE LIMITED
1146	9566	AIRCO ELECTRICALS PVT LTD
1147	9567	SOHAM DIAMOND PVT LTD
1148	9554	MARUTI PLY WOODS PVT LTD
1149	9520	OCEAN SALES AND SERVICES PVT LTD
1150	9519	OM GYMKHANA PVT.LTD.
1151	9518	PATEL AUTO FINANCE AND INVESTMENT PVT LTD
1152	9577	HIMANI CHEMICALS PVT LTD
1153	34343	PRATIK AIR TEXFAB YARN PRIVATE LIMITED
1154	34344	UTTKAL ALLUMINIUM AND CONDUCTOR PVT LIMITED
1155	34371	YOGI STATIONERS PRIVATE LIMITED
1156	34384	JAYANDRA GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1157	34388	SANABIL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1158	34465	SIDDHIVINAYAK HOSPITAL PRIVATE LIMITED
1159	34985	PARADISE CARD HOLDERS PRIVATE LIMITED
1160	34961	DOMADIA SALES AND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
1161	6533	VIJAY CONTAINERS PVT LTD
1162	14732	FRONTLINE PHOTO TECHNIC PVT.LTD.
1163	14740	PARTH FINLEASE CO. PVT.LTD.
1164	14754	THE EAGLES OF BHARAT AIRWAYS PRIVATE LIMITED

1165	14806	PANCHA COMPUTERS PVT LTD
1166	14803	RAJKUMAR HOTEL PRIVATE LIMITED
1167	14800	KADKOTT'S SPINNERS PVT.LTD.
1168	14799	SHAKAR ICE AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1169	14782	SAIDRA TEXTURISERS PRIVATE LIMITED
1170	16222	SALONEY DEVELOPERS PVT. LTD.
1171	16179	TAJ TEXTILES PVT.LTD.
1172	16184	TAH FOODS PVT.LTD.
1173	16197	KIM FLEXIBLES PVT.LTD.
1174	16160	ADINATH WEAVE PVT.LTD.
1175	16697	NIRAV TRANSPORT COMPANY PVT. LTD.
1176	16162	VIR VARDHMAN FEB PVT.LTD.
1177	16153	TIGER GYMKHANA PVT.LTD.
1178	16276	VIJAYANT GYMKHANA PVT. LTD.
1179	16250	CHINAR WOOD PRODUCTS PVT. LTD.
1180	16217	RECRIDON COLOURIS PVT. LTD.
1181	16221	PAKUSHI TEXTILES PVT. LTD.
1182	14768	SHACHI TEXTILE PVT. LTD.
1183	27184	SAATVIK INTECH PRIVATE LIMITED
1184	27653	SUBH YOG LEASING AND FINANCE PVT LTD
1185	2714	SCRAP PROCESSING AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
1186	2700	S AND J SHRAFFS AND FINANCIERS PVT LTD
1187	2691	JALARAM SAVINGS PVT LTD
1188	2642	URMILA SAVING PVT LTD
1189	1628	GUJARAT CARBONIC GAS INDUSTRIES PVT LTD
1190	1767	HARIKRUPA CHEMICALS WORKS PVT LTD
1191	6490	PRO-PLAST (INDIA) PVT LTD
1192	6427	SHAH LEASING AND ESTATES PVT LTD
1193	6433	ALKAPURI GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1194	6407	SOLLY GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1195	6328	SUVIDHA TRAVELS PVT LTD
1196	6105	LAGDI CHEMICALS PVT LTD
1197	7221	SEIKON SYNTHETICS PVT LTD
1198	7216	SHAH COMPUTER SERVICES PVT LTD

1199	7212	PRAVIN PRAKASH BUILDERS PVT LTD
1200	930	KRISHAN MODELS AND VISUAL AIDS PVT LTD
1201	2983	MEHTA AND SHAH SUGAR INDUSTRIES PVT LTD
1202	2951	VISEL MECHELEK PVT LTD
1203	3490	STAR DELTA ELECTRICALS GUJARAT PVT LTD
1204	3380	JOSHI CEMENTS AND TEXTILE INDUSTRIES PVT LTD
1205	3120	RELIEF GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1206	3155	MULTICAPS PVT LTD
1207	3028	MEDINO INSTRUMENT PVT LTD
1208	3213	COA SCHEM ORGANIC CHEMICALS PVT LTD
1209	25800	GROMOR WOOD PVT LTD
1210	25698	GALAV FINANCIAL AND INVESTMENT PVT LTD
1211	25735	KUVADA GRANITE MARBLE PVT LTD
1212	25613	MRUDULA INVESTMENT PVT LTD
1213	25615	RATANLAL INVESTMENTS PVT LTD.
1214	25424	ARSHAN TRADING AND INVESTMENT PVT LTD
1215	25346	SIDDHI COT-YARN PVT LTD
1216	25179	KOTHARI GASES PVT LTD
1217	25148	SAILON SYNTHETICS PVT LTD
1218	25258	REP-REB EARTH MOVERS PVT LTD
1219	25423	SRISL FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
1220	25437	RUCHISHA PETROCHEMICALS PVT LTD
1221	25684	ACHYUTA CONSULTANTS PVT LTD
1222	25646	SHRINATHJI MET-EQUIP PVT LTD
1223	25959	SAGARDHARA FARMS PVT LTD
1224	26143	SWARNADEEP CONSULTANCY PVT LTD
1225	26144	SUMO FINCAP PVT LTD
1226	26162	FARA ESTATE PVT LTD
1227	26085	PANCHMANI SECURITIES PVT LTD
1228	26112	BALTUR OVERSEAS (I) PVT LTD
1229	26398	NAVJYOT COURIER SERVICES PVT LTD
1230	26357	PANVEL RESORTS PVT LTD
1231	26456	KALPTARU SALT WORKS PVT LTD
1232	26425	ARIHANT SWITCHGEARS PRIVATE LIMITED

1233	26453	SAILEELA SECURITIES PVT LTD
1234	26333	SPACE SHARE BROKERS SERVICES PVT LTD
1235	26265	K.L.AIRWAYS PVT LTD
1236	26271	KARANI FOODS PVT LTD
1237	26276	LAXYA JYOTI LEASING PVT LTD
1238	26233	SHREE YAMUNA BUILDERS PVT LTD
1239	26236	RAGHUVeer OXYGENS PVT LTD
1240	33956	SEAPEN LABS PRIVATE LIMITED
1241	33795	SETU SYNERGIES PRIVATE LIMITED
1242	33899	AARYA SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
1243	33881	SINDHU EXIM PRIVATE LIMITED
1244	33791	GAURAV TRACTORS PRIVATE LIMITED
1245	33774	DIYA SHILP MANAGEMENT AND CONSULTANCY PVT LTD
1246	33886	ANJANISUTA AGROFOOD PRIVATE LIMITED
1247	33783	TRIDATA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1248	33944	UNJHA AGROFOOD PRIVATE LIMITED
1249	33916	ADINATH SWITCHGEARS PRIVATE LIMITED
1250	33938	HIMVATI AGRO PRIVATE LIMITED
1251	33924	AKASH REALITIES PRIVATE LIMITED
1252	33932	CRESCENT CAR CARE PRIVATE LIMITED
1253	33922	BRIHAN FASTNERS PRIVATE LIMITED
1254	33958	SUN-VIEW CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1255	30560	PURVI CONTAINERS PRIVATE LIMITED
1256	30251	PARTH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1257	30232	GADIYA LEASING COMPANY PRIVATE LIMITED
1258	24713	SPRINT PHARMACIDES PVT LTD
1259	24016	RAJSAHYOG MARKETING PVT.LTD.
1260	29863	MORAKHIA AND MEHTA EXIM PRIVATE LIMITED
1261	24102	JAYSON STEELS AND ALLOYS PVT LTD
1262	24185	SHEELA PRINTS PVT LTD
1263	24180	PAVAGADHI EXPORTS PVT LTD
1264	24366	VIRAT HOUSING AND FINACNCE PVT LTD
1265	34416	AUTOBAHN AUTOCRAFT PRIVATE LIMITED
1266	24361	WAKEFIELD FINANCIAL SERVICES PVT LTD

1267	24139	HI-TIME SECURITY AND INVESTMENT PVT LTD
1268	34395	CRESCENT ADVERTISING PRIVATE LIMITED
1269	34389	SUDARSHAN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1270	34272	AGRASEN HOTELS PRIVATE LIMITED
1271	34302	OLYMPIA MARKETING PRIVATE LIMITED
1272	24311	HEENA SILK MILLS PVT LTD
1273	34250	SHUBHAM PETRO PRIVATE LIMITED
1274	34312	KARAVALLI CLUBS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
1275	34001	SUROL STEEL PRIVATE LIMITED
1276	24796	TANUJ TEXTILES PVT LTD
1277	24790	ABJI STEELS PVT LTD
1278	34031	SUBHAM CLEANERS PRIVATE LIMITED
1279	34185	PRECIOUS SHIPPING PRIVATE LIMITED
1280	34230	UTTRANCHAL TOURISM PRIVATE LIMITED
1281	34218	ARPAN MERCANTILE SERVICES PRIVATE LIMITED
1282	24025	SHILP REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
1283	24167	BRAHMA AEROCHEM PVT LTD
1284	34179	SAPTESHWAR HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED
1285	34166	NAGMANI CONSUMER MARKETING PRIVATE LIMITED
1286	34168	SHUBHMANGAL EXPORT PRIVATE LIMITED
1287	34130	PRAJAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1288	34125	SARASWATI SAGAR FINVEST PRIVATE LIMITED
1289	34441	MICROSTAR SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1290	34601	BRIJ BHOOMI FINLEASE PRIVATE LIMITED
1291	34617	SUNRISE VACATION CLUB PRIVATE LIMITED
1292	34544	SWEETY SALT PRIVATE LIMITED
1293	34658	MAHALAXMI BOSE HI-TECH DRILLING PRIVATE LIMITED
1294	34456	JAY SHRIJI CRUSHER PRIVATE LIMITED
1295	34657	PARANTAP PHARMA PRIVATE LIMITED
1296	34645	SURYA APPAREL PRIVATE LIMITED
1297	34633	ADVANCE REMEDIES PRIVATE LIMITED
1298	34930	RASHI SOLVENTS PRIVATE LIMITED
1299	34921	SURAT MOTOR FINSTOCK PRIVATE LIMITED
1300	34872	CHICAGO TECHNICAL RESOURCES (INDIA) PVT LTD

1301	34880	SURAJ GRINDING PRIVATE LIMITED
1302	34849	SURAJ CITY ENTERTAINMENT COMPLEX PVT LIMITED
1303	34117	PAREKH POLY-ZIPPER BAGS PRIVATE LIMITED
1304	34073	DAVE CAR TRAVELS PRIVATE LIMITED
1305	5764	VENUS FASTNERS PRIVATE LIMITED
1306	5801	TRIVENI ELECTRONICS PVT LTD
1307	6432	GLYCO PHARMACEUTICALS PVT LTD
1308	5229	KREESHNA PHARMACEUTICALS PVT LTD
1309	5474	BARODA TECHNO-CHEM PVT LTD
1310	4787	IBI AGRO CHEMICALS PVT LTD
1311	4844	RITA CARBONATE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1312	4984	GALA CEMENT PVT LTD
1313	5144	ARIHANTH PIPES PVT LTD
1314	4162	INDIAN DIGITAL ELECTRONICS ASSOCIATES PVT LTD
1315	4251	AMBALIASAN PAPER MILLS PVT LTD
1316	5440	KALOL TRADE AND AGENCIES PRIVATE LIMITED
1317	4578	JAVEEKAY COTTON AND SILK MILLS PVT LTD
1318	4384	SHREE GPR CHEMA-PHA PVT LTD
1319	34566	PRINCE SALT PRIVATE LIMITED
1320	27481	SHREYSONA FINLEASE PVT. LTD.
1321	27460	NAMAN EXPORTS PVT LTD
1322	27443	KAVHILAROXOGEN PVT. LTD.
1323	5073	T R MEHTA SYNTHO PHARMA PVT LTD
1324	3348	DWARIKA FINANCE PVT LTD
1325	3460	HARILAL BHIKABHAI PVT LTD
1326	3286	AVTAR YACHTS PVT LTD
1327	2179	GUJARAT FABRICATION AND EQUIPMENT CO PVT LTD
1328	4133	MIRAAMBICA FABRICATORS PVT LTD
1329	4062	BHARAT AGRO IMPLEMENTS PVT LTD
1330	3984	GANDHINAGAR GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1331	3858	SAJJAN INTRAD PVT LTD
1332	9127	SPARK GYMKHANA PVT. LTD.
1333	9244	VIJAY CASTEEL PVT. LTD.
1334	9367	SKYBIRD ULTRAMARINE AND PIGMENTS PVT. LTD.

1335	9370	ALLIED EARTH MOVERS LIMITED
1336	9395	BOYCE PHARMA PVT. LTD.
1337	9108	SHIVAM SUNDAM PLASTIC INDUSTRIES PVT. LTD.
1338	9057	VIJU SYNTEX PVT. LTD.
1339	9059	NAMU SYNTEX PVT. LTD.
1340	9006	SANDIP OXYGEN PVT LTD
1341	8974	SINGAL TELEVISION PVT LTD
1342	7426	SAHYOG ORGANISERS AND BUILDERS PVT LIMITED
1343	7135	JAGDISH COLD STORAGE PVT LTD
1344	6798	EVERSHINE ENGINEERING PVT LTD
1345	3734	BR EARTH PRODUCTS PVT LTD
1346	27287	KEBIEM EXPORT PRIVATE LIMITED
1347	10077	MEHUL PHARMA PVT LTD
1348	10670	SHIVAM EQUIPMENTS PVT LTD
1349	9910	INDIAN SNACKS AND CEREALS CO. PVT LTD
1350	10242	GOKUL PLASTICS PVT LTD
1351	10274	KANDLA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1352	10265	SAJJAN SYNTHETICS PVT LTD
1353	10272	GENERAL CONTROLS PRIVATE LIMITED
1354	10112	BENIS SEAFOODS AND BY PRODUCTS PVT LTD
1355	8566	MORBI GYMKHANA PVT LTD
1356	8798	SATKAR GYMKHANA PVT. LTD.
1357	8998	SAVILEENE SYNTHETICS PVT LTD
1358	10517	RAJMANI ORGANO CHEMICALS PVT LTD
1359	9531	MEHER CONSTRUCTION PVT LTD
1360	10393	C.K. THAKORE AND SONS (MINERALS) PVT LTD
1361	10512	SHREE AMBICA FASTNERS PVT LTD
1362	10516	S.D.S.SHIPPING (GUJARAT) PVT LTD
1363	9891	AQUA SERVICES PVT LTD
1364	9806	ASHWIN STEEL CONTAINERS PRIVATE LIMITED
1365	9800	LUCRATIVE METAL COT PVT. LTD
1366	9598	ARROW PRINTING PVT LTD
1367	10040	GUJARAT EVIRO PROJECTS PVT LTD
1368	10008	RANJIT SYNTHETICS PVT LTD

1369	9977	DATHAWALA INVESTMENTS AND TRADING CO PVT LTD
1370	253	MANGALDAS GIRDHARDAS PAREKH PVT LTD
1371	54-139	YAMANeko SPECIALITY CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1372	54-158	SILVASSA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1373	24145	RAVIRAJ SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
1374	7516	PRABHAT GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1375	7701	KHARAGHODA MAGNERA WORKS PVT.LTD.
1376	7708	AJAY PETROLEUMS PVT LTD
1377	28530	SWISSKEM HEALTHACRE PVT LTD
1378	28563	HARIDHAM FINANCE AND INVESTMENT PVT LTD
1379	27150	SWASTIK FINLEASE PVT LTD
1380	27111	ICEBERG ZON FISCAL SERVICES PVT LTD
1381	27059	PRAMUKH OXYTECH PVT LTD
1382	27196	SHREE IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
1383	27160	MAHALI MARBLE PVT LTD
1384	27507	RAJ ENGINEERING PVT LTD
1385	27269	PALMON FISHRIES PVT. LTD.
1386	27212	GURUASHISH SHIP BREAKING PVT LTD
1387	27435	LAHER GARMENTS PVT LTD
1388	27628	PUSHKARAVAT FINLEASE PVT LTD
1389	28545	GOVIND SOFTECH PVT LTD
1390	28639	BABLU CARGO MOVERS PVT LTD
1391	28394	ANIKET MOTELS PVT LTD
1392	28361	ZENCOX CHEM PVT LTD
1393	28294	MANGALMURTI FINCAP PVT. LTD
1394	27771	SUBHLAXMI PLASTICS PVT LTD
1395	29761	PATEL ART JEWELLERS PRIVATE LIMITED
1396	29763	EUTHENICS LABS PRIVATE LIMITED
1397	29712	NIKHIL SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
1398	29723	YASH TECHNOCRAFTS PRIVATE LIMITED
1399	29724	POOJAN ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
1400	29733	KIRAN TEMPO PRIVATE LIMITED
1401	29664	SHRI SIDDHANATH FINANCE PRIVATE LIMITED
1402	29464	APNA TELEVISION AND COMMUNICATION PVT LIMITED

1403	29697	SHREE TULSI ALLUMILS PRIVATE LIMITED
1404	29807	COMMANDOR STONES PRIVATE LIMITED
1405	29949	ATLANTIC POULTRY FARM PRIVATE LIMITED
1406	29942	SHAINAZ POULTRY AND FOODS PRIVATE LIMITED
1407	9621	KEERAT CERAMICS PVT LTD
1408	9679	DAISY TOYS PVT LTD
1409	9673	SHIRAJ SYNTHETICS PVT LTD
1410	9989	SHRIJI SIZERS PVT LTD
1411	7103	AMBICAIRONANDRE-ROLLINGMILLS(GUJARAT)PVT.LTD
1412	7705	SOLAREX PHOTOVOLTAICS PVT LTD.
1413	6728	SURAJ DYES AND INTERMEDIATE PVT LTD
1414	6716	AMAR GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1415	6712	ARIEANA ELECTRONICS PVT LTD
1416	7604	SANTOSH GYMKHANA PVT.LTD.
1417	7092	PRATAP FERTICHEM PVT LTD
1418	7171	MORENDHA MARKETING PRIVATE LIMITED
1419	7118	GUJARAT MOTELS LTD
1420	7115	AARADHNA GYMKHANA PRIVATE LIMITED.
1421	7233	AJI LEATHER CLOTH MANUFACTURING PVT.LTD.
1422	7240	SAPNA DYEING AND PRINTING PVT LTD
1423	9975	SHRI VENKATESH ROTORS PVT LTD
1424	9974	JAYRAJ HOUSING AND FINANCE PVT LTD
1425	9945	PLACENTIA ELECTONICS PVT LTD
1426	9865	VAIBHAV PRAKASHAN PVT LTD
1427	9872	SHRINIDHI CORRUGATED STEEL PVT LTD
1428	9893	SEVEN STARS GYMKHANA PVT LTD
1429	9847	MODERN RESICAST PVT LTD
1430	9842	HONICEL PRODUCTS (INDIA)PVT. LTD
1431	9841	RYB PIGMENTS PVT LTD
1432	9796	BANAS TRADERS PVT LTD
1433	9779	STAR BOTTLING PVT LTD.
1434	9807	K.P.AND CO (DRUMS)PVT. LTD
1435	9737	RUBY LABORATORIES PVT LTD.
1436	9766	VASTU SANSKAR PVT LTD.

1437	6052	JAY FABRICHEM ENGINEERS PVT LTD
1438	5630	H RAMCHAND CEMENT PVT LTD
1439	6274	ARC LABORATORIES PVT LTD
1440	5637	ROYAL FERRO ALLOYS PVT LTD
1441	5694	ADARSH ALLOYS PVT LTD
1442	5547	SANT JALARAM PRINTING MILLS PVT LTD
1443	5781	PATSON FORGING PVT LTD
1444	5511	MONOLITH CONSTRUCTION PVT LTD
1445	5828	MADHUVAN BUILDERS PVT LTD
1446	5835	SHALTEES DAIRY BRODUCTS PVT LTD
1447	10865	JAY BHAVANI GYMKHANA PVT LTD
1448	7599	FRANCE AIR (AGENCY) PVT LTD
1449	7583	NEM METAL AND ALLOYS PVT LTD
1450	7570	KUMAR OIL INDUSTRIES PVT.LTD.
1451	7572	GUJARATKRUSHI CHEMICALS AND FERTILISERS PVT LTD
1452	7574	JAYHIND AGRICO (GUJARAT) PVT.LTD.
1453	7634	BALAJI METAL PRE-TREATMENT CHEMICALS PVT.LTD.
1454	7661	UNITED BOTTLERS PVT LTD
1455	7736	JAYAMBE GIMKHANA PVT.LTD.
1456	7734	RAJIV DECENT GYMKHANA PVT.LTD.
1457	7743	SHIV SHAKTI POLY SACKS PVT LTD
1458	7764	UNIVERSAL LEATHER INDUSTRIES PVT LTD
1459	10871	SHELJA PLASTO PVT LTD
1460	10875	NEAT PAPER TUBES PVT LTD
1461	10879	INTERACT SYSTEMS PVT LTD
1462	10889	BREAK THROUGH COMPUTERS PVT LTD
1463	10896	ORBIT INSTRUMENTS PVT LTD
1464	10904	DHARA WEAVERS PVT LTD
1465	10976	UNI TECH CONNECTORS INDIA PVT LTD
1466	7068	KACHCHH PRAKASHAN PVT.LTD.
1467	7063	BLUESKY ALLOYS PVT.LTD.
1468	7046	ECHKCER LABORATORIES PVT.LTD.
1469	7043	DHARMLOK BHOOMI VIKAS PVT LTD
1470	7022	SHRI JANKALYAN HATHSAR FACTORY PRIVATE LIMITED

1471	7031	SHREE RAM MINCHEM INDUSTRIES P LTD
1472	7905	SAURASHTRA GYMKHANA PVT LTD
1473	7970	AAKAR FURNITURE AND PRODUCTS PVT LTD
1474	7963	CHICHRA SYNTHETICS MILLS PVT LTD
1475	8037	MEGHA GYMKHANA PVT LTD
1476	10962	GUJARAT PROTECTIONS PVT LTD
1477	11046	JINENDRA MARKETING PRIVATE LIMITED
1478	11010	REGENCY CARRIERS PVT LTD
1479	11029	NAVSARI COMMERCIAL LEASING AND FINANCE PVT LTD
1480	11021	SATELLITE FARMINGS P LTD
1481	11017	PATEL BORE WEEL P LTD
1482	10829	SHREELAXMINARAYAN LAND DEVELOPERS & ORGANISERS PVT LTD
1483	10917	CHRISTOFFER EXPORTS PVT LTD
1484	10958	PRAGATI VYOPAR PVT LTD
1485	6795	FOTO FAST (RAJKOT) PVT LTD
1486	6883	HASMUKH C. PATEL MANAGEMENT EMPLOYEES WELFARE FOUNDATION PRIVATE LTD
1487	6903	SCHATZ CHEMICAL INDS. PVT LTD
1488	6534	SNP PRODUCTS (ALUM) PRIVATE LIMITED
1489	6603	PRAKASH RURAL INDL. ESTATE PVT LTD
1490	6656	SAURASHTRA BITUMEN CO PVT LTD
1491	28205	JUPITER ENERGY AND CRAFT CONSULTANTS PVT. LTD
1492	27791	TRAVEL MASTER BUREAU PVT LTD
1493	27805	SHAYONA STEEL PVT LTD
1494	27768	NILASHA FINVEST PVT LTD.
1495	27110	TRANSGRAND CANYON FISCAL PVT LTD
1496	32430	AGROHA INDUSTRIAL GASES PVT LTD
1497	32506	QUICK TRADELINKS PRIVATE LIMITED
1498	32749	RAVINA DYEING AND PRINTING PRIVATE LIMITED
1499	32404	ORBIT WORLDWIDE PRIVATE LIMITED
1500	32417	TRIDENT ENGINEERING AND MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LTD
1501	32445	MILAN COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1502	32436	PARAS STRIPS PRIVATE LIMITED

1503	32357	SHREYA MOTORS PRIVATE LIMITED
1504	32381	GUJARAT VEENER AND PLYWOOD PRIVATE LIMITED
1505	32335	MAURYA PEREOLEUM SERVICES PRIVATE LIMITED
1506	32499	MADHURAM SILK MILLS PRIVATE LIMITED
1507	32462	RENNOVATIVE SELLERS PRIVATE LIMITED
1508	32479	BANSIDHAR GINNING PRESSINGG AND OIL PVT LTD
1509	32284	NEERAJ REFOILS PRIVATE LIMITED
1510	32130	SWAMI FINLEASE PRIVATE LIMITED
1511	31659	CITY-LIFE INN PRIVATE LIMITED
1512	31414	MATANGI INSPAT PRIVATE LIMITED
1513	31739	RONAK IMPEX PRIVATE LIMITED
1514	31744	SHIVANI SALES PRIVATE LIMITED
1515	31867	BAHUBALI BUILDCON PRIVATE LIMITED
1516	31903	LEVERAGE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1517	31924	SAGAR ROAD CARRIER PRIVATE LIMITED
1518	31151	GAJJAR MOTORS (GUJARAT) PRIVATE LIMITED
1519	31209	RUSHIKESH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1520	31278	BARODA BEVERAGES COMPANY PRIVATE LIMITED
1521	31287	BIPIN MOTELS PRIVATE LIMITED
1522	30939	USHAJYOT FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1523	30964	DHAWAN DAIRIES AND FARMS LIMITED
1524	31071	PRARAMBH DEVELOPER AND CONSTRUCTION PVT LTD
1525	31095	SHIL-RAJ CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1526	31094	SHIL-RAJ ORGANICS PRIVATE LIMITED
1527	32024	AAKAR BUILDCON PRIVATE LIMITED
1528	32028	HARSIDDHI GRADING PRIVATE LIMITED
1529	32258	JAYSHREE RUSHABHDEV ESTATE PRIVATE LIMITED
1530	32314	SALAKA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1531	32463	SAKER AGE GRAPHICS PRIVATE LIMITED
1532	32470	JOYMAT MPTELS PRIVATE LIMITED
1533	32485	SAILANI CHEM-IMPEX PRIVATE LIMITED
1534	33781	CHAMPION TRADELINK SERVICES PRIVATE LIMITED
1535	33104	KEWAL CONSTRUCTION CONSULTANCY PROJECTS PRIVATE LIMITED

1536	33110	SUKAN COATING PAINTS PRIVATE LIMITED
1537	33124	DATAR LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1538	32774	POOJAKIRAN CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1539	33138	SALMA MARINE PRIVATE LIMITED
1540	32903	ESSANKAY ROADLINES PRIVATE LIMITED
1541	33039	NAROTAMDAS KANJIBHAI RATHOD SHIP BREAKING PRIVATE LIMITED
1542	33260	SHREE RAJESHWARI STEEL PRIVATE LIMITED
1543	33317	MANSI BEVERAGES PRIVATE LIMITED
1544	33326	GAURANG LIVESTOCK TRADING PRIVATE LIMITED
1545	33431	GUNJAN FINSTOCK PRIVATE LIMITED
1546	33456	SUASHA FINE CHEMICALS (EXPORT) PRIVATE LIMITED
1547	33627	GOPANI LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
1548	32661	JAYKIRAN BEARING PRIVATE LIMITED
1549	33185	DEVARSH POLYPLAST PRIVATE LIMITED
1550	32528	GHADIALI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1551	34529	M.V. COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
1552	30684	SHRI SATGURU PRINTS PRIVATE LIMITED
1553	30671	ARBUDA SEEDS PRIVATE LIMITED
1554	30653	ANMOL AMUSEMENT PARK PRIVATE LIMITED
1555	30553	ABC RUBBER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1556	30569	SANGHVI INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
1557	30618	MURLIDHAR CASTER EXPORTS PRIVATE LIMITED
1558	30718	KOSAMBA HOTELS PRIVATE LIMITED
1559	30802	ZEEL HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
1560	30822	FINE PUMP PRIVATE LIMITED
1561	34500	FAIRDEAL HEALTH CLUB PRIVATE LIMITED
1562	34462	NOSHEEL PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1563	34448	CHETAN SPINNERS PRIVATE LIMITED
1564	34417	RANNA SOFT EXPORTS PRIVATE LIMITED
1565	34427	UNIQUE OVERSEAS COLLECTION PRIVATE LIMITED
1566	34379	LIMORN AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
1567	34334	NIMBLE ANGLE MEDIA MARKETING AND ENTERTAINMENT PVT LTD
1568	34277	UMIYA DYECHEM PRIVATE LIMITED

1569	34287	MOTTO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1570	34313	DYNAMIC OFFSET PRIVATE LIMITED
1571	34322	DISHA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1572	30414	MANASI BUILD CON PRIVATE LIMITED
1573	30415	MANASI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1574	30436	HARIOM AGRONOMICS PRIVATE LIMITED
1575	30483	JAGMAN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1576	30500	SPAN SWAP TRADING PRIVATE LIMITED
1577	30395	GALAXY INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
1578	30411	MANASI REAL ASSETS PRIVATE LIMITED
1579	30412	MANASI REALITIES PRIVATE LIMITED
1580	30413	MANASI COMPLEX PRIVATE LIMITED
1581	30167	VRUDDHI FINCAP PRIVATE LIMITED
1582	30324	SUN-SHINE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1583	30004	KOHINOOR WAX PRIVATE LIMITED
1584	30019	SOHAM FINSTOCK PRIVATE LIMITED
1585	30030	AVANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1586	30115	ANNAPURNA POLYPACK PRIVATE LIMITED
1587	30160	ECOCHEM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1588	3540	LIFE-AID PHARMACEUTICALS PVT LTD
1589	3506	ROHIT REFRACTORIES PVT LTD
1590	3497	ASHISH PHARMACEUTICALS PVT LTD
1591	3496	SHREE D S TEXTILE PVT LTD
1592	3855	HASHIMO ELECTRONICS PVT LTD
1593	3861	PUJA CARRIERS PVT LTD
1594	3727	SHREE GAYATRI PAPER MILLS PVT LTD
1595	3927	SANJAY DYE STUFFS AND CHEMICALS PVT LTD
1596	3675	L N TEXTILES PVT LTD
1597	3656	VIJAPUR GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1598	3697	ASHIANA HOTEL PVT LTD
1599	4157	SKARU CORRUGATING PAPER INDUSTRIES PVT LTD
1600	4175	CLIMAX CHEMICAL INDUSTRIES PVT LTD
1601	4094	MOUDIAL TRADERS PVT LTD
1602	4050	PS INVESTMENTS APPRECIATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

1603	4030	AIRLIFT ENGINEERS PVT LTD
1604	4032	ADARSH COLD STORAGE PVT LTD
1605	4034	VIKAS DIE CASTINGS PVT LD
1606	4027	SAURASHTRA ROLLER METALS PRIVATE LIMITED
1607	4124	PARAMOUNT PAPER MILLS PVT LTD
1608	4132	SHILPA TEXTILES PVT LTD
1609	4135	B M PRECISION PRODUCTS PVT LTD
1610	4136	BISFAC PRIVATE LIMITED
1611	4145	TUSHAR PAPER MILLS PVT LTD
1612	4685	BHAGYA LAXMI PAPER MILLS PVT LTD
1613	4591	SPECIALITY OILS AND CHEMICALS PVT LTD
1614	4514	WINGS PETRO CHEMICALS PVT LTD
1615	4370	ILA CONSTRUCTION CO PVT LTD
1616	4422	SORATH GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1617	4446	GUJARAT DIE AND METAL TREATMENT PVT LTD
1618	4791	WISPMAC TEXTILE MACHINERY MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
1619	4938	SHAKTI GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1620	4949	RUBY STRAW PRODUCTS PVT LTD
1621	4469	SHAIRU CHEMICAL PVT LTD
1622	29889	JAI MADI KRUPA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1623	29879	FASCINATION BOUTIQUES PRIVATE LIMITED
1624	29838	CENTAUR REMEDIES PRIVATE LIMITED
1625	29851	RUTVI TRADING PRIVATE LIMITED
1626	29911	CHEVRON OIL TOOLS PRIVATE LIMITED
1627	29669	NEON PROMOTION PRIVATE LIMITED
1628	29624	YOGI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
1629	29590	MOUNTAIN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1630	29588	HIMSIKHA CEMENTS PRIVATE LIMITED
1631	29833	ANAND GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1632	34259	NAV KAR ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1633	33809	PADMAVATI TUBES PRIVATE LIMITED
1634	34232	SKYLAND PUMPS PRIVATE LIMITED
1635	39220	MILESTONE PAINTS AND VARNISHES PRIVATE LIMITED

1636	34678	HITEN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1637	36014	SHRI MANDAVARAJI CHEM PRIVATE LIMITED
1638	36811	SHASHANK CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1639	36727	PUROHIT INFOTECH PRIVATE LIMITED
1640	36633	MEGALITH EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
1641	36705	WOODPECKER FURNITURE AND INTERIORS INDIA PRIVATE LIMITED
1642	36722	SURUSHA IMPEX PRIVATE LIMITED
1643	36715	BHAVINI ORGANICS PRIVATE LIMITED
1644	36766	STELLAR COSMETICS AND PHARMA PRIVATE LIMITED
1645	36731	GAYATRI CLASSIS PRIVATE LIMITED
1646	36461	RIDDHIMA AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
1647	36463	PRACHI SALES AND SERVICES (GUJARAT) PVT LTD
1648	36500	PAPILLON COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
1649	36554	SVIPRA FOOD PRIVATE LIMITED
1650	36570	NEW CONCEPT INTRODUCER PRIVATE LIMITED
1651	36586	GUJARAT MICRO CIRCUIT INDIA PRIVATE LIMITED
1652	36620	PULHA INFOTECH PRIVATE LIMITED
1653	36174	WONDER PRINT PACK PRIVATE LIMITED
1654	36184	BANAS COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1655	36192	KARNAVATI MACHINERIES PRIVATE LIMITED
1656	36242	SUNCITY MARKETING PRIVATE LIMITED
1657	36288	SHREE SAI ASHISH COMPANY PRIVATE LIMITED
1658	36336	SHREE DIGVIJAY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1659	36394	ICON COMPUTEK PRIVATE LIMITED
1660	36412	BRIOSYS PRIVATE LIMITED
1661	36041	TEJAS PETROCHEM PRIVATE LIMITED
1662	36043	CREST INFOTECH PRIVATE LIMITED
1663	36095	NOBLE PETROCHEM PRIVATE LIMITED
1664	36094	SIDDHNATH PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
1665	36140	RONAK PHARMA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1666	36148	AMBICA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
1667	36166	AWADH ORGANICS PRIVATE LIMITED
1668	37436	SURAT POLYMERSE PRIVATE LIMITED

1669	37513	MILLENNIUM INFIN PRIVATE LIMITED
1670	37524	METICULOUS INFOTECH PRIVATE LIMITED
1671	37557	SHRI GAYATRI FINCAP PRIVATE LIMITED
1672	37615	OSIA COLOURS LIMITED
1673	36874	DAIRY DON (GUJARAT) PRIVATE LIMITED
1674	36934	TERAIYA INFO-TECH PRIVATE LIMITED
1675	36955	MAESTRO EPC PROJECTS PRIVATE LIMITED
1676	36962	UMIYA AGRO SEEDS AND OIL MILL PRIVATE LIMITED
1677	36984	PC-PATH INFOTECH PRIVATE LIMITED
1678	37001	DELTA SHEET SHAPE PRIVATE LIMITED
1679	37034	VISHAL CATFIN PRIVATE LIMITED
1680	37046	ENERGY CARE PRIVATE LIMITED
1681	37047	ARIHANT FIN. POWER PRIVATE LIMITED
1682	37077	NANDI GINNING PRESSING PRIVATE LIMITED
1683	37087	SHAHNAWAZ MULTIPLEX PRIVATE LIMITED
1684	37164	SHREE RANCHHOD METALS PRIVATE LIMITED
1685	37206	PIRAM ISLAND RESORT PRIVATE LIMITED
1686	37551	ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ALTERNATIVE COLLABORATE PRIVATE LIMITED
1687	37554	SHRI GAYATRI BROKERS PRIVATE LIMITED
1688	37517	GASAF MARKETING PRIVATE LIMITED
1689	37505	SHRI NARSHINGHA ROAD LINES PRIVATE LIMITED
1690	37303	OMKAR AAHAR PRIVATE LIMITED
1691	37298	RIDDHI FURNITURES PRIVATE LIMITED
1692	37282	OJAS RESORT PRIVATE LIMITED
1693	37281	SOMNATH WATERPARK PRIVATE LIMITED
1694	37261	JGK SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
1695	37378	DIXHA INFO-TECH PRIVATE LIMITED
1696	37783	ICON MEDIDISPOSIBLES PRIVATE LIMITED
1697	37791	MIGHTY EXPORTS PRIVATE LIMITED
1698	37851	HEMA BEVERAGES PRIVATE LIMITED
1699	37858	DESIGN INFOTECH PRIVATE LIMITED
1700	37869	FOCUS CYBERTECH PRIVATE LIMITED
1701	37892	ADDITION ADVERTISING PRIVATE LIMITED

1702	37907	JAYSHREE DWARKADHEESH DEVELOPERS PVT LTD
1703	37407	OASIS SYNERGY PRIVATE LIMITED
1704	37412	TIRUPATI SPICES PRIVATE LIMITED
1705	37231	SUNNYDEV SALT WORKS PRIVATE LIMITED
1706	37285	SHREE JANKI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1707	37290	VRAJVAMA FINANCIAL AND MARKETING PVT LIMITED
1708	37294	SYNEX ALLOYS PRIVATE LIMITED
1709	37337	RUBHAM PETROCHEM PRIVATE LIMITED
1710	37922	BENISON LABORATORIES PRIVATE LIMITED
1711	37665	ARASURI QUARRY WORKS PRIVATE LIMITED
1712	37644	INFOWAY SYSTEM SOLUTION PRIVATE LIMITED
1713	37631	AMBICA EARTHCON MACHINERY PRIVATE LIMITED
1714	37733	QUEEN INFOTECH PRIVATE LIMITED
1715	37713	NOVASOFT MICRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1716	37715	HRP EXPORTS PRIVATE LIMITED
1717	37828	GHANSHYAM MACHINERY PRIVATE LIMITED
1718	37773	GUJARAT VEGPRO PRIVATE LIMITED
1719	37774	VENUS CONVERSION SYSTEMS (AUTO) PRIVATE LTD
1720	37758	SANGHVI CYBER PRIVATE LIMITED
1721	37903	ICON COMPUSOFT PRIVATE LIMITED
1722	37870	SHREEJI BAPA MACHINERY (INDIA) PRIVATE LIMITED
1723	37861	SHRI YOGI ORGANISERS PRIVATE LIMITED
1724	37862	ASHISH ORGANISERS PRIVATE LIMITED
1725	34824	HARIDEEP MARKETING PRIVATE LIMITED
1726	34802	ANJARIA BUILDCON PRIVATE LIMITED
1727	34801	KARSAN BUILDCON PRIVATE LIMITED
1728	34747	PRAYAG EXPORTERS PRIVATE LIMITED
1729	34744	YOGI POLYWOOD PRIVATE LIMITED
1730	34741	PRAYAG GORWARDERS PRIVATE LIMITED
1731	34701	SAFE VALUE INVESTOCK PRIVATE LIMITED
1732	35353	PROGRESSIVE KAOLIN PRIVATE LIMITED
1733	35411	SANSKRUTI MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
1734	35275	SILVER CLUB MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
1735	35293	STYRO PLAST PRIVATE LIMITED

1736	35315	SAHJANAND GEMS AND JEWELLERY PRIVATE LIMITED
1737	35350	MAAN BEVERAGES AND FOODS PRIVATE LIMITED
1738	36025	MULTI-PRODUCT COLD STORAGES PRIVATE LIMITED
1739	34652	RUSHIK EXPORTS PRIVATE LIMITED
1740	34714	JALARAM PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1741	34724	HITEN ENGINEERINGS PRIVATE LIMITED
1742	34867	PRECIMET TRADING PRIVATE LIMITED
1743	34794	KRISHNA AUTOPARTS PRIVATE LIMITED
1744	34879	PRINCE POLY FAB PRIVATE LIMITED
1745	34929	AANIK HOUSING PRIVATE LIMITED
1746	34982	UMA OVERSEAS PRIVATE LIMITED
1747	35262	SHUNG COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
1748	35268	MAHI-PANAM KHANDSARI PRIVATE LIMITED
1749	35201	RUMZUM GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1750	35215	MAHESH FINCAP PRIVATE LIMITED
1751	35084	JOVAN BUILDERS PRIVATE LIMITED
1752	35076	R M PATEL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1753	35079	ARRIES CLICK BEVERAGES PRIVATE LIMITED
1754	35141	CHAITANYA CREATORS PRIVATE LIMIED
1755	35143	BHAVANJALI IMPEX PRIVATE LIMITED
1756	35170	REISUN TRAVELS PRIVATE LIMITED
1757	31743	PRAVEEN CARGO MOVERS PRIVATE LIMITED
1758	35866	NIRAV ALUMINIUM PRIVATE LIMITED
1759	31615	SHINING STAR FINVEST PRIVATE LIMITED
1760	35915	RASHMI STEEL PRIVATE LIMITED
1761	36030	TOP TASTE SPICES PRIVATE LIMITED
1762	35557	SHAKUNT HOTELS PRIVATE LIMITED
1763	35576	SANTOSH FINSTOCK PRIVATE LIMITED
1764	35532	SHAH BROTHERS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1765	35531	V K PATEL INFRASTRUCTURE AND PROJECTS PVT LTD
1766	35449	NAMI FINANCE PRIVATE LIMITED
1767	35597	SIDDHARTH RESINS PRIVATE LIMITED
1768	35643	BANDHEJ HOTEL PRIVATE LIMITED
1769	35732	PATEL COMPU-TECH PRIVATE LIMITED

1770	35740	RAJSHREE PROJECT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1771	35773	SHEETAL SCREENS PRIVATE LIMITED
1772	35667	ABHIRAM EXPORTS PRIVATE LIMITED
1773	35672	PATEL GRAVITY ENGINE (INDIA) PRIVATE LIMITED
1774	31264	MADHAV MATTRESS PRIVATE LIMITED
1775	34531	MOTION MOTORS PRIVATE LIMITED
1776	34534	RAMSHYAM SHOES PRIVATE LIMITED
1777	34540	NAIYA WATER PARK PRIVATE LIMITED
1778	34572	AKAR TRADELINK PRIVATE LIMITED
1779	34579	DRASHTI AGROTECH PRIVATE LIMITED
1780	41241	CHADRAVILAS MARKETING PRIVATE LIMITED
1781	41229	NATKHAT APPERALS PRIVATE LIMITED
1782	41214	BHANSHALI NETWORK PRIVATE LIMITED
1783	41213	BHOOMI SYNTHETIC PRIVATE LIMITED
1784	41189	DAREEYAE MARKETING PRIVATE LIMITED
1785	41172	EKTA NETLINK PRIVATE LIMITED
1786	41153	GANESH BROILER BREEDER PRIVATE LIMITED
1787	41131	RINSH GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1788	41130	QUINDIP EXIM PRIVATE LIMITED
1789	41129	ENDURE PHARMA PRIVATE LIMITED
1790	40756	ARDOUR MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
1791	40730	AAUCEE HERBAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1792	40874	AEAXI CRM CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1793	40348	HONEY MULTILINK AND TRADING PRIVATE LIMITED
1794	40346	BANZARA FUNWORLD PRIVATE LIMITED
1795	40303	RAJ HYDRAULICS PRIVATE LIMITED
1796	40313	SAMIYA PROCESSORS PRIVATE LIMITED
1797	40441	REXROTH PHARMACEUTICAL AND HYGIENE PVT LTD
1798	40438	RENAISSANCE PLACEMENT CONSULTANTS PVT LTD
1799	40286	RADHEN OIL PRIVATE LIMITED
1800	40273	APOLLO AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
1801	40243	SUN AUTOBAHN RESORTS PRIVATE LIMITED
1802	40222	PRIMAX IMPEX PRIVATE LIMITED
1803	40085	ACCENT AEROMATIC PRIVATE LIMITED

1804	40084	TIRUPATI AEROMATICS PRIVATE LIMITED
1805	40067	NEETA EXIM PRIVATE LIMITED
1806	40051	PRAGAM ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1807	40053	HARSHIDA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1808	40057	RISINGSUN HOME PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1809	40058	GTC TRADELINKS PRIVATE LIMITED
1810	40028	DHARTI LEATHER BONE AND CHEMICAL PVT LIMITED
1811	40029	MATRU SECURITY MANPOWER SERVICES PVT LIMITED
1812	40014	RIKHI POLYETHERS PRIVATE LIMITED
1813	40077	PRECISE TELEMEDICINE PRIVATE LIMITED
1814	40187	AMBER HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED
1815	40158	SURAT DIAMOND TOOLS PRIVATE LIMITED
1816	40128	SUDHIR AQUA FARM PRIVATE LIMITED
1817	40122	TRENDZ DESIGNES PRIVATE LIMITED
1818	40111	BIGBUILD NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
1819	39721	SEVENTH SENSE COMMUNICATOINS PRIVATE LIMITED
1820	39681	VIKSHAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1821	39806	JESNIL IMPEX PRIVATE LIMITED
1822	39775	AAVISHKAR EXIM PRIVATE LIMITED
1823	39784	PAVAN CONCEPTS PRIVATE LIMITED
1824	39706	PADMAVATI GRANITES PRIVATE LIMITED
1825	39683	HEEM ORGANICS PRIVATE LIMITED
1826	39673	RADHE COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1827	39664	NATRAJ NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED
1828	39663	JAISEANTO TEXTILES PRIVATE LIMITED
1829	39653	N.V.OVERSEAS PRIVATE LIMITED
1830	39654	ASHUTOSH HOTEL AND RESORT PRIVATE LIMITED
1831	39639	AKSHAR BREEDING AND HATCHERIES PVT LIMITED
1832	39996	PARTH AUTO ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
1833	39991	SUMANGALAM MARRIAGE HALL PRIVATE LIMITED
1834	39965	B-TECH INFONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1835	39938	MEGA BUCKS NETWORK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1836	39883	KULARIA POUCHES PRIVATE LIMITED
1837	39886	BHAGAT HERBAL PRIVATE LIMITED


1838	39893	SHRUSHTI ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
1839	39891	SHEMUSHI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1840	39894	TERRY HILLS RESORTS PRIVATE LIMITED
1841	39852	PIOUS REMEDIES PRIVATE LIMITED
1842	39851	KISAN HERBO-TECH PRIVATE LIMITED
1843	39854	RIDDHI SIDDHI EDUCASHION PRIVATE LIMITED
1844	39857	IMPERIAL TRADELINK PRIVATE LIMITED
1845	39842	DARSHNA MACHINERY PRIVATE LIMITED
1846	39257	SHIV SAKAR COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1847	39223	NETWORTH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1848	39073	GAMA SECURITIES PRIVATE LIMITED
1849	39064	SHRADHA CEMENT PRIVATE LIMITED
1850	39056	SPARSH SUPER STRUCTURE PRIVATE LIMITED
1851	39094	H.VRAJLAL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1852	39184	ACTIVE EDU AND AGRO BENEFITS PRIVATE LIMITED
1853	39289	AKSHAR MARKETING PRIVATE LIMITED
1854	39350	TAC GLOBAL NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED
1855	39303	SARSA PETROLEUMS PRIVATE LIMITED
1856	39301	MANEK HOTELS PRIVATE LIMITED
1857	39319	MATRU OFFSET PRIVATE LIMITED
1858	39318	MIRAMBICA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1859	39309	HARDIK EXIM PRIVATE LIMITED
1860	39420	JAY UMAJI CASTOR PRIVATE LIMITED
1861	39427	AL-AMAN PROJECTS PRIVATE LIMITED
1862	39430	LALAN LAND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1863	39435	SILICON MONITOR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1864	39388	RAJSI IMPEX PRIVATE LIMITED
1865	39399	ARIHANT TRADELINK PRIVATE LIMITED
1866	39586	AKSHAR COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1867	39566	JIMMY CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1868	39567	AMAN INFO MARKETING PRIVATE LIMITED
1869	39571	KESHAV GINNING AND PRESSING PRIVATE LIMITED
1870	39562	GURUNANAK ENGI-CHEM PRIVATE LIMITED
1871	39463	SHRIJI GINNING AND PRESSING PRIVATE LIMITED

1872	39456	MANISH HYDRO DRILLING PRIVATE LIMITED
1873	39415	BEAUTY ADVERTISING AGENCY PRIVATE LIMITED
1874	38500	WINSTAR PLASTIC MACHINERY PRIVATE LIMITED
1875	38444	NAIJAG IRON AND STEEL PRIVATE LIMITED
1876	38636	JAIVIMAL POLYYARN PRIVATE LIMITED
1877	38631	JALARAM TOURISM PRIVATE LIMITED
1878	38582	3A INFOTECH PRIVATE LIMITED
1879	38557	PRABNIT EXPORTS PRIVATE LIMITED
1880	38282	PRAGATI INTERACTIVE PRIVATE LIMITED
1881	38476	NARMADA SITES PRIVATE LIMITED
1882	38414	ALIMO COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1883	38288	TRIDENT EMERY WORKS PRIVATE LIMITED
1884	38287	SHREE SHIVSHAKTI FILMS PRIVATE LIMITED
1885	38226	SETH OVERSEAS PRIVATE LIMITED
1886	38126	ALWAYSFRESH COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1887	38175	SEVAPOOJA.COM PRIVATE LIMITED
1888	38508	EIZEN METTECH PRIVATE LIMITED
1889	38498	DEVRAJ HOLDING AND RESORT PRIVATE LIMITED
1890	38490	PEOPLES WELFARE CLUB PRIVATE LIMITED
1891	38755	SUJAY INFOTECH PRIVATE LIMITED
1892	38732	KIDUMS FOODS PRIVATE LIMITED
1893	38717	STARBUNCH COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1894	38765	RITURAJ PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1895	38763	PLATINUM SOFTWEL PRIVATE LIMITED
1896	38758	AADITYA MINES PRIVATE LIMITED
1897	38811	ZEST ACADEMY PRIVATE LIMITED
1898	38806	INTEGRA COMPUNET SERVICES PRIVATE LIMITED
1899	38706	SHREE UMIYA POLYPLAST PRIVATE LIMITED
1900	38858	VISHAKHA TRADELINK PRIVATE LIMITED
1901	38804	YES TELEMARKETING PRIVATE LIMITED
1902	38803	PCD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1903	38821	AL-KARIM EXIM PRIVATE LIMITED
1904	38813	SMITA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1905	38822	PERFECT MAINTAINCE SERVICES PRIVATE LIMITED

1906	38934	NISHANT STOCKBROKING PRIVATE LIMITED
1907	38918	SHUKAN HOTELS PRIVATE LIMITED
1908	38876	SHREE BALAJI INFOTECH PRIVATE LIMITED
1909	38824	HST IMPEX PRIVATE LIMITED
1910	38961	PROLINE NETWORKING SERVICES PRIVATE LIMITED
1911	38998	RITURAJ ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
1912	38996	SHREE ARTI STEEL PIPES PRIVATE LIMITED
1913	38975	MINNITECH AGENCIES AND SERVICES PVT LIMITED
1914	38967	SOMNATH IMPEX PRIVATE LIMITED
1915	38972	FABTECH VALVES AND CONTROLS PRIVATE LIMITED
1916	40508	ARASURI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1917	40519	NOOR PROCESSORS PRIVATE LIMITED
1918	40513	S.S.READYMADES PRIVATE LIMITED
1919	40473	KAARA MINERALS PRIVATE LIMITED
1920	40450	AMBIKA SALT WORKS PRIVATE LIMITED
1921	40451	RAJMOTI SALT SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
1922	40462	JANKI TEX-FAB EXPORT PRIVATE LIMITED
1923	40458	CARE GASFLAME MARKETING PRIVATE LIMITED
1924	40463	JAY HARSH EXPORTS PRIVATE LIMITED
1925	40460	RATNASUNI EXPORT PRIVATE LIMITED
1926	40666	SAMMARIDDHI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1927	40663	MANMANDIR EXIM PRIVATE LIMITED
1928	40637	ADITYA MULTITECH PRIVATE LIMITED
1929	40633	PROSPER MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
1930	40632	AFFORDABLE INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED
1931	40569	VEERRAJ MARKETING PRIVATE LIMITED
1932	40627	ABHISHEK MONEY CHANGERS PRIVATE LIMITED
1933	40529	PLUETON 4NET PRIVATE LIMITED
1934	40522	SHREE SHAKTI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
1935	31106	BELGRAVIA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1936	40726	MAXPAGE PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
1937	40719	SAIRAJ SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1938	40709	DMC MARKETING PRIVATE LIMITED
1939	40703	V.N.SANGHAVI JEWELERS PRIVATE LIMITED

1940	40702	FREEDOM TRADELINK PRIVATE LIMITED
1941	40700	SALUTARY HERBALS PRIVATE LIMITED
1942	40679	VARSHAYAN GREENWAY PRIVATE LIMITED
1943	40669	PRUDENTIAL NETWORK PRIVATE LIMITED
1944	40781	NIJANAND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1945	40786	FIRST FORTUNATE HOME APPLIANCES PVT LIMITED
1946	40822	KUTUMB INSURANCE & MARKETING SERVICES PVT LTD
1947	40831	NAFE PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED
1948	40869	LX-FACT MUTIMEDIA PRIVATE LIMITED
1949	40852	MORE MOVER SALES PRIVATE LIMITED
1950	40909	SONARIKA SALES PRIVATE LIMITED
1951	40932	LUSTER NETWORK PRIVATE LIMITED
1952	40914	NATIVE CODE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1953	40985	SIGNLAB DIGITAL MEDIA PRINTS PRIVATE LIMITED
1954	40981	MARUTI MUSHROOMS PRIVATE LIMITED
1955	40948	CREATIVE ORGANICS AND INORGANICS PVT LIMITED
1956	40939	RAJVEER FARMS PRIVATE LIMITED
1957	41116	JAY AMBE MARKETING PRIVATE LIMITED
1958	41108	MEGA NETLINK PRIVATE LIMITED
1959	41088	SHUBHSANKET ENERGISERS PRIVATE LIMITED
1960	41098	SANSUR TRADING PRIVATE LIMITED
1961	41087	LACONIC PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
1962	41083	MARWELL SPINNING PRIVATE LIMITED
1963	41078	A.D.GREEN CHANNEL PRIVATE LIMITED
1964	41073	PARADISE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
1965	41034	FORMULA ONE EXPORTS PRIVATE LIMITED
1966	41011	FINE DAIRY PRIVATE LIMITED
1967	41006	SHRI DHANLAXMI ON LINE SERVICES PVT LIMITED
1968	31886	TRUPTI BIOTECH PRIVATE LIMITED
1969	31842	PRIME BUILDCON PRIVATE LIMITED
1970	31866	APEX MARINE PRIVATE LIMITED
1971	31871	MARUTI COMMERCIAL COMPLEX PRIVATE LIMITED
1972	31899	SHRI YASH FOODS PRIVATE LIMITED
1973	31896	RATTAN FILAMENTS PRIVATE LIMITED

1974	30179	ISH RESIDENCY PRIVATE LIMITED
1975	30186	GURUDEV FINVEST PRIVATE LIMITED
1976	30214	NIRAL PETROCHEM PRIVATE LIMITED
1977	30209	KEYUR FINSTOCK PRIVATE LIMITED
1978	33613	MEGA FINSTOCK PRIVATE LIMITED
1979	33357	SARTHAK FINLEASE PRIVATE LIMITED
1980	33381	SAUBHAGYA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
1981	33408	SAVITA AUTO -PACK PRIVATE LIMITED
1982	33423	VRAJBHOOMI FINANCE PRIVATE LIMITED
1983	33445	NIGAR GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1984	33453	ADITYA CAPLEASE PRIVATE LIMITED
1985	33477	VINAY WOOD BOARDS PRIVATE LIMITED
1986	33474	MAITUNJAY ORGANIC PRIVATE LIMITED
1987	33492	GURUKRUPA AUTO LINKERS PRIVATE LIMITED
1988	33163	NARODA GYMKHANA PRIVATE LIMITED
1989	33173	YASHVI FINVEST PRIVATE LIMITED
1990	33136	RAJPIPLA PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
1991	33172	VIKAMSEY RESORT PRIVATE LIMITED
1992	37127	CHAITANYA AQUAGUARD PRIVATE LIMITED
1993	37094	CPS CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
1994	37414	MS PRINTORIUM PRIVATE LIMITED
1995	37399	MILLENIUM CONSUMER CARE PRIVATE LIMITED
1996	37398	BHARADIA TEA COMPANY PRIVATE LIMITED
1997	37247	NICE AGROTECH PRIVATE LIMITED
1998	37321	ZEN INFOTECH PRIVATE LIMITED
1999	37302	SHIV SHAKTI BUILDING MATERIALS PRIVATE LIMITED
2000	38203	A-ONE FINTRADE PRIVATE LIMITED


 (V.K. KHUBCHANDANI)
 REGISTRAR OF COMPANIES
 GUJARAT, DADRA & NAGAR HAVELI

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956 OF THE FOLLOWING COMPANIES

Ahmedabad the 1st January 2008.

No.ROC(GUJ)/JTA(MD)/SUO-MOTTO/560/2007

NOTICE IS HEREBY GIVEN SUO-MOTTO ACTION UNDER SECTION 560(5) OF THE COMPANIES ACT, 1956 THAT THE NAMES OF THE FOLLOWING COMPANIES HAVE BEEN THIS DAY BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER OF COMPANIES, AND THE SAID COMPANIES SHALL STAND DISSOLVED.

1.	23873	SHRIPA LABORATORIES PVT LTD
2.	23801	ABHINAV DYECHEM PVT LTD
3.	23991	SWARUPSAGAR TREE PLANTATION PVT LTD
4.	24266	OSCAR COMMUNICATIONS PVT LTD
5.	24395	JASHWANT PRATAPSINGH (EX-SERVICEMAN) SALT PVT LTD
6.	24708	TOP SECURITIES PVT LTD
7.	24662	A TO Z SERVICELAND PVT LTD
8.	24649	SASNEH GREETINGS PVT LTD
9.	24551	BHARAT BULK CARRIERS PVT LTD
10.	8221	C.MAHENDRA TEXTURISER PVT LTD
11.	24497	AMBER TELECOM PRIVATE LIMITED
12.	24416	SHRINATH ENGINEERING PVT LTD
13.	19515	ABHINAV GARMENTS PVT LTD
14.	19513	NEW AUTO ANCILIARY PVT LTD
15.	19502	SIRIN STEEL PVT LTD
16.	19176	ANKUR GARMENTS PRIVATE LIMITED
17.	19258	EXPAND POLYPLAST PVT LTD
18.	16486	REPUTATION FURNISHINGS PVT. LTD.
19.	16432	M.G. DALAL AGENCY PVT. LTD.

20.	16291	RAJMANI SILK MILLS PVT. LTD.
21.	16481	HARESH PRAKESH RICE MILLS PVT. LTD.
22.	16478	SHREE DYES AND CHEMICALS PVT. LTD.
23.	19546	TAURUS FISCAL SERVICES PRIVATE LIMITED
24.	19556	GUJARAT SPRINGS PVT LTD
25.	19516	RAGHUGUN FINANCE AND INVESTMENT PVT LTD
26.	23118	TAPTI CONSULTANCY PVT LTD
27.	19935	AALISHAN RESORTS PVT LTD
28.	19934	SARIGAM METALS PVT LTD
29.	19857	JEMSON CHEMICALS AND PLASTICS PVT LTD
30.	19823	SHYAM DEHYDRATES PVT LTD
31.	19811	KANA FINLEASE PVT LTD
32.	19713	SURABHI MARKETING PVT LTD
33.	19683	NATWARLAL AND COMPANY ENGINEERING PVT LTD
34.	19855	JAYMIT SYNTHETICS PVT LTD
35.	27100	GUJARAT POLYFAB PVT LTD
36.	26992	MAHATMA INVESTMENTS PVT LTD
37.	26956	KANAIYALAL VASHRAMBHAI TRIVED SALT WORKS PVT LTD.
38.	26881	ADINDEX COMMUNICATIONS PVT LTD
39.	26730	SITARAM CATTLEFEED PVT LTD
40.	26711	SHRUJAHNAVI (INDIA) FINANCNE LIMITED
41.	25066	KASTURIPARK PVT LTD
42.	24846	ANI RAJ BUILDERS PVT LTD
43.	24830	EVEREST MACHINERY PVT LTD
44.	26611	ANGEL HEALTH CARE PVT LTD
45.	26561	SAIMOL SILICONS PVT LTD
46.	26551	AMIT OXYCEN PVT LTD
47.	26512	PAWANPUTRA SALT AND CHEMICAL WORKS PVT. LTD.
48.	24833	SICCO VACCUM METALIZERS PVT LTD
49.	24754	SHALIN DECOGRILL PVT LTD
50.	25230	LAXMUL ESTATE AND ENGINEERS PVT LTD
51.	25176	BADRI FARMS PVT LTD
52.	25175	SHETRUNJAYA FARMS PVT LTD

53.	25170	GIRNAR FARMS PVT LTD
54.	25442	N.DAS FINANCIAL SERVICES PVT LTD
55.	25285	SUPHARMA SECURITIES PVT LTD
56.	25245	AMRUT STEELS PVT LTD
57.	25605	SUAVE FINANCIAL SERVICES PVT LTD.
58.	25546	ARPAN PRODUCTIONS PVT LTD
59.	25531	SEZAL-INN PRIVATE LIMITED
60.	16514	AHMEDABAD CITY COURIER PRIVATE LIMITED
61.	16552	BIKANER GOLDEN CARRIERS PVT. LTD.
62.	16315	ARTI GRANITE MARBLES PVT. LTD.
63.	16300	PALAK PLAST PVT. LTD.
64.	16689	RESILENE NEO CHEMICAL PVT. LTD.
65.	16630	RAJVI PRODUCTS PVT. LTD.
66.	26359	KINDURA INVESTMENTS PVT LTD
67.	26360	KALPANA INVESTMENTS PVT LTD
68.	26462	RICH MAKER FINLEASE PRIVATE LIMITED
69.	26446	RASHID IMPORTERS AND EXPORTERS PRIVATE LIMITED
70.	26445	NEELAM PLASTIC PVT LTD
71.	26444	AVANI FORMS PVT LTD
72.	26428	SAHYOG SAFE LOCKERS AND SERVICES PVT LTD
73.	26405	OPTIMAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD
74.	26391	SHREE ROKADIA SETH FINANCIAL & INVESTMENTS P. LTD
75.	26375	ADVANCE FORGE PVT LTD
76.	26362	CHAWLA FINVEST PVT LTD
77.	25734	RAJWADI GRANITE PVT LTD
78.	25954	PRABADDH FARMS PVT LTD
79.	25955	ALOK FARMS PVT LTD
80.	25956	AELAL FARMS PVT LTD
81.	25960	DEVANSHI FARMS PVT LTD
82.	26100	PADMASHRI PIGMENT PVT LTD
83.	26022	JET PACKAGING PVT LTD
84.	25730	SHILP SECURITIES AND HOLDINGS PVT LTD
85.	25692	PANAM AGRO OIL PVT LTD

86.	25652	NIRALI POLYMERS PVT LTD.
87.	25950	DEVDHARA FARMS PVT LTD
88.	25949	MUKESH FARMS PVT LTD
89.	25892	DHANANJAY ENTERPRISES PVT LTD
90.	25755	JANMEY CHEMICALS PVT LTD
91.	22933	MORLIWALA POLYMERS PVT LTD
92.	22630	ISHAN APARTMENTS PRIVATE LIMITED
93.	22584	AMAR TEXFAB PVT LTD
94.	22785	SONAL LAMINATE (INDIA) PVT. LTD
95.	22774	ISHWARYA APARTMENTS PRIVATE LIMITED
96.	22704	TOTAL MARKETING SOLUTIONS PVT LTD
97.	22801	SHRI PANCHDEEP PLANTATIONS AND FARMS PVT LTD
98.	22947	SHYAMAL BUILDERS PVT LTD
99.	22958	TILOK-VIJAY SYNTHETICS PVT. LTD
100.	22134	AMBIKA (GUJARAT) POLY TAPE PVT LTD
101.	22129	MEVEV OVERSEAS PVT LTD
102.	22099	SHORVIN MARKETING PVT LTD
103.	21905	AMIN CEMENT CO. PVT LTD
104.	22173	KARMYOGI PRINTS PVT LTD
105.	22156	FILATEX CHEMIE PVT LTD
106.	22144	CHANDNI APARTMENTS PVT LTD.
107.	22261	KANCHAN RESORTS PVT LTD
108.	22337	UTTAM INTERMEDIATES PVT LTD
109.	22574	ICEBERG MACHINES PVT LTD
110.	22572	CHEME RAND (INDIA) PVT LTD
111.	22468	RAJ AQUA FARM PVT. LTD
112.	22420	SUMO ELECTORNICS PVT. LTD
113.	29857	KANAN MARKETING PRIVATE LIMITED
114.	29909	ALISHA POLYPLAST PRIVATE LIMITED
115.	29948	KRISHNA GLAZE-FRITS PRIVATE LIMITED
116.	29841	BANAS OXYGEN PRIVATE LIMITED
117.	27458	HARSH STICHWELL PVT LTD
118.	27516	DHARATI FINSTOCK PVT. LTD

119.	27488	RIPE `SU POWER DRIVE PVT LTD
120.	27527	PUNIT INVESTMENTS PVT. LTD.
121.	27626	BHAVIK SECURITIES PVT LTD
122.	27532	VARSHA PROTEINS PVT. LTD
123.	27724	KALPKA PHARMACEUTICALS PVT LTD
124.	27674	GROWMORE MARKETING PVT LTD
125.	27727	PREMPUJA APPATMENTS PVT LTD
126.	29217	PANCHMAHAL GRANITES PVT LTD
127.	29374	PIONEER COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
128.	28105	CHUDASAMA CAPITAL MARKETS PVT. LTD
129.	27949	HASTAK CONSTRUCTION PVT. LTD
130.	27959	MAHIT FAB PVT LTD
131.	27980	PURVEENA INVESTMENTS AND HOLDINGS PVT. LTD
132.	28183	INDOPAN PACKAGINGS PVT. LTD.
133.	28082	CHUDASAMA STOCK BROKING PVT. LTD
134.	28065	RUSHABH HOLDINGS PRIVATE LIMITED
135.	28035	RUMI STEEL PVT LTD
136.	28020	SHETHWALA IMPEX PVT LTD
137.	29536	SHAKTI INFIN AND COURIERS PRIVATE LIMITED
138.	29533	KETAKI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
139.	29501	SILCOAT SAND PRIVATE LIMITED
140.	29508	UNITED SKILLS PRIVATE LIMITED
141.	29523	SARDAR INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
142.	29300	GHANSHYAM META TECH PRIVATE LIMITED
143.	29475	CHANDNI SALWAR KAMEEZ PRIVATE LIMITED
144.	28242	SHAKUN FINSTOCK PVT. LTD
145.	13815	ROHIT MARKET SERVICES PVT LTD
146.	13799	AMAR SPINNING MILLS PVT LTD
147.	13798	JAGDISH GINNING AND OIL MILLS PVT LTD
148.	14220	SWEETU LABEL-X PRIVATE LIMITED
149.	14195	RANGOLI HOLIDAY RESORTS PVT LTD
150.	13578	J.K. PATEL HOTEL AND MOTEL PVT. LTD.
151.	13489	SONI JEWELLERS PVT. LTD.
152.	13463	TAPTI MANAV SEVA PVT. LTD.

153.	13977	NOVUS PLASTICS PVT.LTD.
154.	14396	MAHESHWARI GARMENTS PVT.LTD.
155.	14375	VIDHYA MARKETING PVT.LTD.
156.	14158	SUREKHA FIBRES PVT.LTD.
157.	14012	PERFECT BEARINGS PRIVATE LIMITED
158.	14004	HARGOVINDDAS VITHALDAS GOSALIA (IMPEX) PVT.LTD.
159.	14005	VIHARDEEP ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
160.	15890	RACHIR CHEMICALS PVT. LTD.
161.	15886	VASUDEV METAL PRINTERS PVT. LTD.
162.	15814	CHAROTAR TEXTILES PVT. LTD.
163.	15535	JUGAL WEAVES PVT.LTD.
164.	15457	JODHANI FABRICS PVT.LTD.
165.	16146	SHRI NEEL KANTH MILLS PVT.LTD.
166.	16257	SKLIS ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
167.	15931	DHARTI METAL PVT. LTD.
168.	15928	NARMADA BRICKS PVT. LTD.
169.	15750	KANEESHA DESIGNERS PVT LTD
170.	16129	MUKTJIVAN TEX PVT.LTD.
171.	16095	CHAMPION PHOTO COLOR LAB PVT.LTD.
172.	16044	DELTA SYNTHETICS PVT. LTD.
173.	16032	CUTTAL MARINE PRODUCTS PVT. LTD.
174.	16142	ALLUM BEARINGS PVT.LTD.
175.	13224	PAGAN HOLDINGS PVT. LTD.
176.	13191	PAYAL CONSULTANTS PVT. LTD.
177.	13109	VISHESH POLYCHEM PVT. LTD.
178.	13188	SIBAGA STEEL PVT. LTD.
179.	13091	RONAK METAL PVT. LTD.
180.	14684	SARASWATI GYMKHANA PVT.LTD.
181.	14623	NARESH SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
182.	14931	RAJ RATAN RESORT PRIVATE LIMITED
183.	14709	TUF LONE TEXTILES PRIVATE LIMITED
184.	14450	JINOY EXPORTS (INDIA) PVT LTD
185.	14449	JINOY LAND DEVELOPERS PVT LTD

186.	14461	JAY DURGA AGRO EQUIPMENTS PVT LTD
187.	14504	KUBERNAGAR GYMKHANA PVT.LTD.
188.	14518	PRAKELAP POLYMERS PVT LTD
189.	21562	SIDDHI SYNCOTEX PVT.LTD.
190.	18815	RAJU TEXTILES EXPORTS PVT LTD
191.	15019	SLEN APPARELS PVT. LTD.
192.	15000	CANON DYESTUFF PVT.LTD.
193.	13527	PRINCE ORGANICS PVT LTD
194.	15267	WESTERN TECHNO PAP ENGINEERING PVT.LTD.
195.	11832	JAYKHODIAR FORGINGS PVT LTD
196.	11908	SHIV SHAKTI YARN INDUSTRIES PVT LTD
197.	12004	BHAGYALAXMI TRAVELS PVT LTD
198.	11928	SIMANDHAR PLASTICS PVT LTD
199.	11897	GIRIDHAR ENGINEERING PVT LTD
200.	10938	TEEJE INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
201.	10915	GOLDEN GYMKHANA PVT LTD
202.	11246	TURBO LEASING AND FINANCE PVT LTD.
203.	11547	ADVANCE WELDING SYSTEMS PVT LTD.
204.	11471	JIGRUSHI PLASTICS PVT LTD.
205.	11235	AMBALAL ESTATE PVT LTD.
206.	10986	MARVEL PARAMTERALS PVT LTD
207.	11337	SUPER DIAMOND PVT LTD
208.	6557	YOGESHWAR FINSTOCK PVT LTD
209.	11170	RAIN CEB PIPES PVT LTD
210.	11299	SUMER CHEMICALS PVT LTD.
211.	11276	FRIENDS GROUP OF OIL INDUSTRIES PVT LTD.
212.	11144	NARAYAN PETRO-CHEM PRODUCTS PVT LTD
213.	11025	KESARIA TEXTILE PRIVATE LIMITED
214.	12109	SHREE TULSHI SYNTEX PVT. LTD.
215.	12068	OMKAR METALS PVT LTD
216.	12175	WELL WISH POLYMERS PVT. LTD.
217.	12170	WALSON DIE AND TOOLS PVT. LTD.
218.	12347	LAXMI PLASTIC AND POLYESTER PVT. LTD.
219.	12317	SUPREME CHEMICALS PVT LTD.

220.	12287	TRUKO INVESTMENTS PVT. LTD.
221.	12270	KRANKUR EXPORTS PVT. LTD.
222.	12847	URJIT ENGINEERING WORKS PVT LTD
223.	12950	SONA DYE CHEM PVT LTD
224.	12913	VOGIFIA GEMS PVT LTD
225.	12887	VAGIFIA HEAT TRANS PVT LTD
226.	12876	MICRO PROFILE BLANKING PVT LTD
227.	12867	ADVANCE CENTURY EXPORTS PVT LTD
228.	12627	GENERAL CONTRACTS COMPANY PVT. LTD.
229.	12569	JANVI PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
230.	12546	GUJARAT PETROBOSS PVT LTD.
231.	17425	ARISE PHARMACEUTICALS PVT.LTD.
232.	17393	AMAR STONE WORKS PVT. LTD.
233.	17514	GALAXY EXPOSAL PVT.LTD.
234.	17999	SAISONS COSMO FOOD AND PLASTO PVT LTD
235.	17949	ASHINA FOODS INDUSTRIES PVT LTD
236.	17651	KARAM CONSTRUCTION PVT LTD
237.	17607	BELADEEP INVESTMENTS PVT LTD
238.	18825	DURA TAPE PVT LTD
239.	18166	UNIQUE ORHTO SYSTEMS PVT LTD
240.	18056	PAN CONTAINERS PVT LTD
241.	7854	DELITE BOTTLING PVT LTD
242.	7827	RAJSHRI GYMKHANA PVT LTD
243.	7735	JAGLOR GYMKHANA PVT.LTD.
244.	18227	GOKUL TRANSPORT PRIVATE LIMITED
245.	16795	DEVENDRA SUTINGS PVT.LTD.
246.	16983	ZAVERI SAFE DEPOSIT VAULTS AND LOCKERS PVT LTD
247.	18278	SHARP SECURITIES PVT LTD
248.	18263	PATNI-B-JAIN AND INVESTMENTS PVT LTD
249.	18136	HARRSH FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
250.	18135	NEO BIO COAL PVT LTD
251.	18456	DREAMLAND FOODS AND OIL INDUSTRIES PVT LTD
252.	18452	PRAJAPATI AGRO FOODS PVT LTD

253.	18366	FARAHANA IMPORT AND EXPORT PRIVATE LIMITED
254.	18266	RIDDHI ALLOYS PVT LTD
255.	18445	MERCHANT SALT PVT LTD
256.	18416	STAYEN SYNTHETICS PVT LTD
257.	18582	OUM PARK PVT LTD
258.	18531	HARSHA FINSTOCK PVT LTD
259.	17314	LINK STEEL PVT. LTD.
260.	18404	RISHI CORRUGATION PVT LTD
261.	18447	NARANG RESORT HEALTH AND RECREATION CLUB PVT LTD
262.	18669	FRONTLINE SMALL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
263.	18606	GIR FOOD PROCESSING PVT LTD
264.	18891	JAI GIRNAR WIRE PVT LTD
265.	18722	SHREYAS FISCAL AND LEASING PVT LTD
266.	18681	CRYSTAL SOCIAL CLUB PVT LTD
267.	21400	PRAKSHAL AGRICULTURE AND FISHERIES PVT LTD
268.	21401	TAILOR FISHERIES PRIVATE LIMITED
269.	21402	MANDVIWALA FISHERIES PVT LTD
270.	21461	TIBSHILON POLYTEX PVT.LTD.
271.	21510	URVIJ SYNTHETICS PVT.LTD.
272.	21005	MUKUND TEXTURISERS PVT LTD
273.	21409	KRISHNA FISHERIES PVT LTD
274.	21546	RAJ ORGANICS PVT.LTD.
275.	21260	SHAKUNTALA DYEING AND PRINTING MILLS PVT LTD
276.	21399	ANCHAL AGRICULTURE AND FISHRIES PVT LTD
277.	40382	REALVALUE INFO CONCEPTS PRIVATE LIMITED
278.	40333	SHREE N.N. FOODS PRIVATE LIMITED
279.	40699	EARN PLUS MARKETING PRIVATE LIMITED
280.	40642	BHERUNATH FOODS PRIVATE LIMITED
281.	40137	ETHER PHARMA ORGANIC (INDIA) PRIVATE LIMITED
282.	40000	V.B. APPLICATION SOFTWARE SERVICES P. LTD
283.	31717	HOTEL PUJANJALI PRIVATE LIMITED
284.	38971	ANANTA GYMKHANA PRIVATE LIMITED
285.	38056	VIKAS AUTO VISION (GUJARAT)PRIVATE LIMITED

286.	38048	GREAT LAND MOTEL PRIVATE LIMITED
287.	38281	gujarat4u.COM PRIVATE LIMITED
288.	38452	HILLS LABORATORIES PRIVATE LIMITED
289.	38411	MANGALAM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
290.	38400	SAVALIA PNEUMATICS PRIVATE LIMITED
291.	38355	RELIABLE GRAINS EXPORT PRIVATE LIMITED
292.	38362	DHANSHREE FINANCE AND INVESTMENT P. LTD
293.	38314	KRISHNA PROTEINS PRIVATE LIMITED
294.	38310	RAJKISHAN MULTIPLEX PRIVATE LIMITED
295.	38276	ADANCE MAC INFONET PRIVATE LIMITED
296.	38555	BIOVERGE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
297.	38550	APOLLO AGRICULTURE AND MINERALS P. LTD
298.	38668	DEUCE OVERSEAS PRIVATE LIMITED
299.	38585	VASU PUJYA SHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
300.	38493	PENINSULA TRADELINKS PRIVATE LIMITED
301.	38488	'N' OPTIONS PRIVATE LIMITED
302.	38690	ROHAN SALES PRIVATE LIMITED
303.	38502	LOGICMASTERS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
304.	38718	IDEAL FINMARK PRIVATE LIMITED
305.	38701	SHRI GANESH RESORTS PRIVATE LIMITED
306.	38891	AGILE SECURITIES PRIVATE LIMITED
307.	38915	SAINATH INTERMEDIATES DYES CHEMICALS PRIVATE LIMITED
308.	38936	JH INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
309.	38982	SHILPI PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
310.	38992	SHAKE AND DRY ORALS PRIVATE LIMITED
311.	38959	ATP SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
312.	38973	ATCO ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
313.	38950	SKYWIN MARKETING PRIVATE LIMITED
314.	38944	MEGHDHANUSH AQUA HYGIN PRIVATE LIMITED
315.	33495	ALISHAN CONSUMER MARKETING SERVICES P. LTD
316.	39095	ARROW TYRE SALES AND MARKETING PRIVATE LTD
317.	39078	HEMETEK INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
318.	39051	ISHAAN DOCTORS HOUSE PRIVATE LIMITED

319.	39190	TRIAS EXPORTS PRIVATE LIMITED
320.	39215	GUJARAT DREDGING PRIVATE LIMITED
321.	39196	LEONID-HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
322.	39222	MANIBHADRA UTENSILS PRIVATE LIMITED
323.	39224	G.G.WOOD (JAM) PRIVATE LIMITED
324.	39342	KAMRAN KAPADIA LAND DEVELOPERS PRIVATE LTD
325.	39337	TRANSKOOL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
326.	39334	STEEL BUILD (GUJ) PRIVATE LIMITED
327.	39324	PATTERNS AND CRAFTS (A'BAD) PRIVATE LIMITED
328.	39320	MY WEB CONCEPTS PRIVATE LIMITED
329.	39299	VARUDI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
330.	39237	E-TECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
331.	33977	SOMNATH STEEL TUBES PRIVATE LIMITED
332.	33985	HAMKUT STEEL PRIVATE LIMITED
333.	34155	RAJ GHARANA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LTD
334.	34194	JOHN CABOT CALLIBRATION EQUIPMENTS P. LTD
335.	34208	BHUMIPOOJA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
336.	34226	RAJ TECHNOCRATES PRIVATE LIMITED
337.	33872	ALPHA WEALTHCARE (GUJ)PRIVATE LIMITED
338.	33905	P.A.FOODS PRIVATE LIMITED
339.	33947	MUKUTESHWAR MARKETING PRIVATE LIMITED
340.	33708	SHREENATH CRGO MOVERS PRIVATE LIMITED
341.	33721	LION SECURITY AND MEN POWER SERVICES P. LTD
342.	33769	BHAVNATH COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
343.	33778	DEEPAK SAKHIDAS PATEL CHEMICALS PRIVATE LTD
344.	31592	SUJI OPHTHO TECH PRIVATE LIMITED
345.	38306	BONNY INFOTECH PRIVATE LIMITED
346.	33970	MANOBAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
347.	41275	ASHWAMEGH TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
348.	40334	KYRA ENERGY CONTROL TECHNOLOGIES PVT. LTD
349.	41286	BESTWAY NETLINK SERVICES PRIVATE LIMITED
350.	41280	SHREE GURJARI FOODS PRODUCTS PRIVATE LIMITED
351.	41276	KNITNET MARKETING PRIVATE LIMITED
352.	40370	SAHYOG MOVERS SERVICE PRIVATE LIMITED

353.	40366	VITAL WASTE DISPOSAL PROCESSORS PRIVATE LTD
354.	40344	SUN MENTHOL PRIVATE LIMITED
355.	39971	NIELMAG ELECTRIC COMPNAY PRIVATE LIMITED
356.	39656	M.S. PERFUMEX PRIVATE LIMITED
357.	42223	MARUDHAR FOILS PRIVATE LIMITED
358.	40771	PRESHA TRADELINK PRIVATE LIMITED
359.	40783	QUANTUM FORCES TRADELINK PRIVATE LIMITED
360.	39443	JAIMA INFOTECH PRIVATE LIMITED
361.	40829	KAMALNATH PRINTERS PRIVATE LIMITED
362.	40877	MISUJI RESORTS PRIVATE LIMITED
363.	40885	HARBINS TRADELINK PRIVATE LIMITED
364.	40992	TOPWAY FASHION PRIVATE LIMITED
365.	40958	RUTURAJ MOTORS PRIVATE LIMITED
366.	40004	KARNA DIGITAL PRIVATE LIMITED
367.	35118	SHREENATHJI DAIRY PROCESS PRIVATE LIMITED
368.	41004	ASHOKA FASHIONS PRIVATE LIMITED
369.	40052	AHINSA HOTELS PRIVATE LIMITED
370.	40036	MAARG MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
371.	40030	BARODA LATEX PRIVATE LIMITED
372.	19634	PREMLAXMI HOMES PVT LTD
373.	17337	VISHWARAJ PHARMACEUTICALS AGENCY PVT. LTD
374.	17327	PARTH DHIS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
375.	41162	NEW WAY FASHION PRIVATE LIMITED
376.	41247	GROWMORE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITE
377.	41141	PRAVIN KHANDSARI PRIVATE LIMITED
378.	41050	SHIVANGINI COMPUTERS PRIVATE LIMITED
379.	19561	SAYAN FANCY WEAVES PVT LTD
380.	19573	YASH KAMAL MACHINES PVT LTD
381.	19639	HESS FINANCE AND LEASING PVT LTD
382.	19419	JADE CHEM PVT LTD
383.	19494	GUJARAT COMPUJUSTICE RETRIEVAL SYSTEM PVT LTD
384.	19506	PAYONIDHI CATLE DAIRY FARM PVT LTD
385.	19529	PATEL PRESS PVT LTD
386.	17229	SAI VISION PVT. LTD.

387.	17123	VINAYAK SOLUBLE PVT. LTD
388.	17096	SHYAMAL POLY PACK AND PLASTIC PVT. LTD
389.	20077	SONA DYEING AND PRINTING MILLS PVT LTD.
390.	20045	ANKUSH GYMKHANA PVT LTD
391.	20035	CITY ADVERTISEMENT PVT LTD.
392.	19734	BOMBAY PROCESSORS PVT LTD
393.	19725	SHRI AVM COACH PVT LTD
394.	19720	SUGAM HOUSING AND LEASING FINANCE PVT LTD
395.	19702	SHIV SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
396.	19676	FILMEX PAINTS PVT LTD
397.	19893	VIRU MARINE SERVICES PVT LTD
398.	19976	RAJASAB GYMKHANA PVT LTD
399.	19990	SHEETAL EXIM PVT LTD
400.	19892	DELTA SILK MILLS PVT LTD
401.	19906	SHIVAM FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
402.	19917	SHRAVAN ELECTRONICS LTD
403.	19859	KANGRA VELLEY PLANTATION AND RESORTS PVT. LTD
404.	19865	GAHARWAR TEXTILE PVT LTD
405.	40559	AVM EDGEUCARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
406.	41387	AMSONIC MULTITECH PRIVATE LIMITED
407.	41339	EPS LOGISTICS PRIVATE LIMITED
408.	41296	FRONTIER NETWORK PRIVATE LIMITED
409.	41294	SKYTOUCH MARKETING PRIVATE LIMITED
410.	41292	DARSHAN MOTORS PRIVATE LIMITED
411.	41293	AVIVA NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
412.	40541	JAY POWER PROTECTIONS PRIVATE LIMITED
413.	40485	NAVDURGA WELFARE SERVICES PRIVATE LIMITED
414.	40448	SARAL JALSEVA COMPANY PRIVATE LIMITED
415.	40444	PADVI FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
416.	17687	VIGIL INVESTIGATION AND PROTETION PVT LTD
417.	36803	ADITYA PLASTOWARES PRIVATE LIMITED
418.	17292	MOTIVATION ENGINEERS PVT.LTD
419.	17291	SALIM SEA FOODS PRIVATE LIMITED

420.	18644	DOMINO MALINGANCY MANAGEMENT TECHNOLOGIES PVT LTD
421.	18651	DEEPA ELECTRO HYDRAULICS PVT LTD
422.	18696	DECENT KNITWEAR PVT LTD
423.	18592	DEESA FINSTOCK PVT LTD
424.	18578	SACHEE GRANITES PVT LTD
425.	18566	GODHRA GYMKHANA PVLTD LTD
426.	18505	ALLIED SYSTEMS PVT LTD
427.	18493	SHREE SHARACK CONSULTANTS PVT LTD
428.	40414	ALEX WOOD WORKING TOOLS PRIVATE LIMITED
429.	40407	MUKESH SINGHANIA MULTILINK AND MARKETING PRIVATE LIMITED
430.	40727	RICHIE'S CONTAINERS PRIVATE LIMITED
431.	40717	JITENDRA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
432.	40670	PREMRAJ TEXTILES PRIVATE LIMITED
433.	40753	BASIL IMMIGRATION SERVICES PRIVATE LIMITED
434.	40619	NIYATI CERAMICS PRIVATE LIMITED
435.	40736	NAVRATNA MILLENNIUM PROJECTS PRIVATE LIMITED
436.	24586	GUPTA AUTOMOBILE PVT LTD
437.	4834	NARAJI HOLDINGS PRIVATE LIMITED
438.	40079	HARISH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
439.	40072	BOOGY MARKETING PRIVATE LIMITED
440.	40117	TRIMURTI POLYMERS PRIVATE LIMITED
441.	40116	BHAGYALAKSHMI RUBBERS PRIVATE LIMITED
442.	40099	FATAAK FASHION PRIVATE LIMITED
443.	40076	SAFILO OPTICALS PRIVATE LIMITED
444.	40152	BOROLAB SCIENTIFIC GLASS PRIVATE LIMITED
445.	40132	UMIYA POLYMERS PRIVATE LIMITED
446.	40168	ETISHREE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
447.	40159	BHAKTI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
448.	36804	ADITYA PLASTOPACK PRIVATE LIMITED
449.	40211	MILKMEN DAIRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
450.	40202	APKA DYECHAM PRIVATE LIMITED
451.	40253	DATT KRUPA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
452.	41321	TIRTH IMMIGRATION SERVICES PRIVATE LIMITED

453.	41323	KALIND MULTILINK PRIVATE LIMITED
454.	41324	PELICAN NETWORK PRIVATE LIMITED
455.	41322	SHIV GOLD PRIVATE LIMITED
456.	40287	ASIA VISION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
457.	40235	ASHAPURA SALT WORKS PRIVATE LIMITED
458.	29737	BHAGYARAJ INFRASTRUCTURE AND PROJECTS P LTD
459.	29726	ASTRA FINLEASE PRIVATE LIMITED
460.	29772	ACME FLY ASH TECHNICS PRIVATE LIMITED
461.	28737	DHURJATI PACKAG MARK PVT LTD
462.	28558	VARDHMAN SHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
463.	28533	SEEMALINE LABORATORIES PVT LTD
464.	27124	SHREE NAMASTE TOUR SERVICES PVT LTD
465.	28985	COMPILER CHEMICALS PRIVATE LIMITED
466.	29103	PRAYOSHA ENGINEER AND BUILDERS PRIVATE LTD
467.	27402	SHANTIDOOT CEMENT AND CHEMICALS PVT LTD
468.	27376	AEROQUIP ENGINEERS PVT LTD
469.	27209	PURE PLAST (GUJARAT) PVT LTD
470.	27128	PRARTHANA HOUSING AND REAL ESTATE DEVELOPER PVT LTD
471.	29086	TIRUPATI SALTS PVT. LTD
472.	29045	CANOPY HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED
473.	29025	VASTRAPUR INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
474.	29498	STARVIEW HOLDINGS PRIVATE LIMITED
475.	28296	AMRELI LEASING AND FINANCE PVT LTD
476.	28209	GOKUL ALLOYS PVT LTD
477.	32035	SARSWATI SECURITY AND DETECTIVE SERVICES P. LTD
478.	32489	SANJOG PHARMA PRIVATE LIMITED
479.	32416	HARSIDDH PLAST PRIVATE LIMITED
480.	32457	SHREE PADMAVATI EDIBLE OIL MILL PRIVATE LIMITED
481.	28162	ATUL MILK CANS PVT LTD
482.	28161	PANCHAL METAL COATS PVT LTD
483.	26688	ADACHI AGROTECH PVT LTD
484.	26670	ESSEN MEDIA PVT LTD

485.	26930	DUSHYANT CONSTRUCTION PVT LTD
486.	26896	TEAM WORK MARKETING PVT LTD
487.	26876	SHYAM INTEGRATED FINANCE CO. PVT LTD
488.	24374	LANDMARK ORGANISERS PRIVATE LIMITED
489.	25618	ARBUDA INVESTMENT PVT LTD
490.	25617	TRILOK INVESTMENT AND SECURITIES PVT LTD
491.	25616	MANOJ INVESTMENT PVT LTD.
492.	18740	PURVI CARGO PVT LTD
493.	18755	SHREE PATEL PLANTATIONS PVT LTD
494.	31455	CHIDANAND AGRO-TECH PRIVATE LIMITED
495.	31451	CYCLONE MARKETING PRIVATE LIMITED
496.	31601	SAHYOG BEVERAGES PRIVATE LIMITED
497.	31605	ANKUR BOLLYWOOD NETWORK PRIVATE LIMITED
498.	31413	HUMA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
499.	31431	ADITYA-GURU REALOTRS PRIVATE LIMITED
500.	31384	SHIVANI FINSEC PRIVATE LIMITED
501.	31391	AMARYOG LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
502.	31991	CLASSIC FINSTOCK PRIVATE LIMITED
503.	31949	SURAM OVERSEAS PRIVATE LIMITED
504.	31937	DARVINKS PHARMACEUTICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
505.	31908	MODGULYA SURGI TECH PRIVATE LIMITED
506.	8787	SHAKTI HARD TEMP PVT. LTD.
507.	8613	AMAR PEN COMPANY PVT LTD
508.	8610	RIDDHI GYMKHANA PVT LTD
509.	8461	KHODAL POLYFIBRES PVT LTD
510.	8488	RANCO ELECTONICS PVT LTD
511.	8440	MARSHAL INDUSTRIAL SECURITY PVT LTD
512.	8412	RUSHABHA TEXTILES PVT. LTD
513.	8299	YOGI ESTATES PVT LTD
514.	8313	BHARAT CEMENT INDUSTRIES (GUJARAT) PVT LTD
515.	8326	BHAGYODAY OIL INDUSTRIES PVT LTD
516.	8352	DIP FOODS PVT LTD
517.	7312	ABABEEL STEEL RE ROLLING MILLS PVT LTD

518.	7310	MADHAVPURA MARKET TRANSPORT CO.PVT LTD
519.	7281	SULTAN FROZEN FOODS PVT LTD
520.	7242	AMARJYOT CERAMIC PVT LTD
521.	7299	GURU GOBINDSINGH STEEL INDUSTRIES PVT LTD
522.	7292	PAMREJ ENGINEERING PVT LTD
523.	8905	KRISHNA GYMKHANA PVT.LTD.
524.	8818	OSWAL LAMINATES PVT. LTD.
525.	8621	NU FARM CHEMICALS PVT LTD
526.	8668	PATIDHAR SOCIAL CLUB PVT LTD
527.	8781	A-ONE GYMKHANA PVT. LTD.
528.	8759	JOLLY FABS PVT. LTD.
529.	8704	SIDDHI GYMKHANA PVT LTD
530.	16859	KANCHAN YARNS PVT.LTD.
531.	16861	FRESH TAVERN FOODS PRIVATE LIMITED
532.	16868	MARUTI STATIONERS PVT LTD
533.	16784	MEADOWS RESORTS PVT.LTD.
534.	8735	AHMEDABAD POLYCLINIC PVT. LTD.
535.	8638	PINKI PLASTICS PVT LTD
536.	30363	VINAYAK TELECOM PRIVATE LIMITED
537.	30334	SAIKAM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
538.	30161	HIMANSHU CEMENT PRIVATE LIMITED
539.	30051	HADIYA STEELS PRIVATE LIMITED
540.	30048	BYTE MEDISYSTEMS PRIVATE LIMITED
541.	30040	SHREE PRITHVI FINANCE PRIVATE LIMITED
542.	30497	AAVAS MOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
543.	30489	KAVIKA YARNS PRIVATE LIMITED
544.	30457	AISHWRAYA FINCAP PRIVATE LIMITED
545.	30410	LEGA PARTHA LEASE FIN PRIVATE LIMITED
546.	30394	ASHRITA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
547.	30391	ABHIGAM PLANTATION PRIVATE LIMITED
548.	30386	PALAK TEA TRADERS PRIVATE LIMITED
549.	30526	JAGJEET FINSTOCK PRIVATE LIMITED
550.	30528	HARSHAD FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
551.	30503	SHANKAR ICECREAM MARKETING PRIVATE LIMITED

552.	30585	JINGO PLAST PRIVATE LIMITED
553.	30610	SUPREMO GYMKHANA PRIVATE LIMITED
554.	33211	MONALISA HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED
555.	33105	BHAGWATI SOLAR PRIVATE LIMITED
556.	33183	RIG PHARMACHEM PRIVATE LIMITED
557.	33208	HOTEL DEVARSHI PRIVATE LIMITED
558.	33099	SHRI SADGURU BUILD CIN PRIVATE LIMITED
559.	33089	SAIGIR RESORTS PRIVATE LIMITED
560.	40066	PLACEMENTPARK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
561.	33022	VARIYA FINLEASE PRIVATE LIMITED
562.	33019	SHREE KUDOS COMMUNICATION AND FILM PVT LTD
563.	33574	ADITYA REMEDIES PRIVATE LIMITED
564.	33293	UMIYA MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
565.	33245	GOPAL WELDING CABLES PRIVATE LIMITED
566.	33567	OLBY WATER AND FUNPARK PRIVATE LIMITED
567.	33590	RATANKAR FOOD PRIVATE LIMITED
568.	33518	SHRI DUDHGANGA DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
569.	31115	KARNAVATI AUTO RIXA FINLEASE INVESTMENT LIMITED
570.	31142	CHINI LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
571.	31146	SONI LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
572.	31288	DOS-MAX MARKETING PRIVATE LIMITED
573.	31250	SWIFT REPRO SERVICES PRIVATE LIMITED
574.	31243	SATYAM AUDIO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
575.	31781	JUPITER INCAP PRIVATE LIMITED
576.	31509	HARIOM FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
577.	31835	ANIKET FINSTOCK PRIVATE LIMITED
578.	31802	WATERKING (INDIA) PRIVATE LIMITED
579.	31836	HARSHAVARDHAN FINSTOCK PRIVATE LIMITED
580.	20306	AKSHAR PETROCHEMICALS PVT LTD
581.	20234	SAYAN POLYFAB PVT LTD
582.	20226	SAYAN TEXTURISERS PVT LTD
583.	20190	TRINETRA MARKETING AND TRADING COMPANY PVT LTD

584.	20144	ORBIT PROFEX IMPEX PVT LTD
585.	36338	PRITHVI THEATRES PRIVATE LIMITED
586.	29394	SHERWOOD FINANCE PRIVATE LIMITED
587.	29662	LOSANIA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
588.	29305	KORNISH HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
589.	4660	S M S CASTINGS PVT LTD
590.	4625	RAMKRISHNA BOARD MILLS (GUJARAT) PVT LTD
591.	38865	TITUS RUBBERS PRIVATE LIMITED
592.	29355	AGROHA CREDIT PVT LTD
593.	39075	WOTEC WATER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
594.	39608	GENIOUS INFOSOFT PRIVATE LIMITED
595.	54-119	ASHDDEEP INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
596.	36339	CHIRAG SHIP BREAKING COMPANY PRIVATE LIMITED
597.	40805	SPACE INTERTRADELINK PRIVATE LIMITED
598.	40479	SIDHHARK SOFTWARES PRIVATE LIMITED
599.	40430	SHIKHAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
600.	32959	SARJAN REALITIES PRIVATE LIMITED
601.	32851	TIM OVERSEAS PRIVATE LIMITED
602.	34015	TEXTILE TODAY PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
603.	34933	LEGACY RESORTS PRIVATE LIMITED
604.	9190	DHRUV BUILDERS PVT. LTD.
605.	9197	UNIVERSAL RESFARCHS PRIVATE LIMITED
606.	14154	CRYSTAL WEAVES PVT LTD
607.	41146	PANCHAMRUT NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
608.	5129	SHRI DWARKADHISH ICE AND COLD STORAGE PVT LTD
609.	5127	KAMAL BEVERAGES PVT LTD
610.	13904	WELCOME FOODS PVT.LTD.
611.	13975	PARCOS ELECTRO CHEM PVT.LTD.
612.	14333	SONAPAL FABRICS PVT.LTD.
613.	24752	DWIPAVATI FINVEST PVT LTD
614.	28455	SANKAGRI LABORATORIES PVT LTD
615.	28451	AMAZING FINANCE AND MARKETING PVT LTD


616.	36729	EARTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
617.	28945	NIKI IRRIGATION PRIVATE LIMITED
618.	28892	JAYNEEL PROPERTIES PRIVATE LIMITED
619.	28965	CANARA VEIGAS STEEL FABRICATORS PRIVATE LIMITED
620.	28542	OJHA THAKKER MEHTA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LTD
621.	28190	JOY DAIRY AND FARMS PVT. LTD
622.	17149	ARIHANT ORGANISERS PVT. LTD.
623.	18490	MINION COMPUTERS PVT LTD
624.	32713	PERFECT LUBRICANTS PRIVATE LIMITED
625.	31610	GOODEARTH SYNTHETICS LIMITED
626.	30176	KRUPA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
627.	28964	VIJETA MONEY SPINNERS PRIVATE LIMITED
628.	23186	RADICAL MARKETING AND FINANCE PVT LTD
629.	27172	KALPANA STEELCON PVT LTD
630.	32996	CHAUHAN BEVERAGES PRIVATE LIMITED
631.	32993	HOTEL BATUL PRIVATE LIMITED
632.	32981	MEGH FOODS PRIVATE LIMITED
633.	13223	KHODIAR DEHYDRATION PVT. LTD.
634.	32944	SHREE VIDYA BUILDING MATERIALS PRIVATE LIMITED
635.	28777	LOTUS COMMISSION AGENTS PRIVATE LIMITED
636.	28769	ELITE INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
637.	28738	DHARA GROWTHLAND PRIVATE LIMITED
638.	28722	ULTRA LAND SCAPES AND AQUATICS PVT LTD
639.	28719	FULLMARK COMPU SYSTEMS PVT LTD
640.	28711	BELA FINSTOCK PVT LTD
641.	28458	INDUS FURNISHERS PVT LTD
642.	28439	UJJWAL STEELTECH PVT. LTD.
643.	29803	SANTRAM FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
644.	17364	MASRANI TEXTILES PVT LTD.
645.	29289	VARAHI FINANCE PRIVATE LIMITED
646.	29160	LUNIK ENGINEERING PRIVATE LIMITED
647.	29575	FAST TRACK MAGNETICS PRIVATE LIMITED

648.	29577	DHARTI GRANITES PRIVATE LIMITED
649.	29377	LEICESTER HEALTH FIRST PRIVATE LIMITED
650.	29376	GORSIA SHIPPERS PRIVATE LIMITED
651.	29381	INERTIA LEASING AND FINANCE PVT LTD
652.	28529	CHIRAG FINVEST PVT LTD
653.	28523	RITU ACQUACULTURE PVT LTD
654.	29413	BIRVA FINCAP PRIVATE LIMITED
655.	41310	M-RICH MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
656.	41312	SHREE KARNI NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
657.	41307	HARVEST ENGINEERS PRIVATE LIMITED
658.	41254	MOOLYA NETWORK PRIVATE LIMITED
659.	40284	KUBER SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
660.	41316	SAFE LIFE NETWORK PRIVATE LIMITED
661.	41266	KIRTIRAJ FOODS PRIVATE LIMITED
662.	2660	PATAN PRAKASHAN LTD
663.	9662	BHUMICA ENGINEERING WORKS PVT LTD
664.	11076	ADINATH APARTMENTS PRIVATE LIMITED
665.	11169	VITHAL METALS PVT LTD
666.	11197	VANRAJ MARINE AND ENGINEERING COMPANY PVT. LTD.
667.	11296	MAHADEO MARKETING PVT LTD.
668.	11880	DELUXE BOARDS AND DOORS PVT LTD
669.	11884	SHREE RADHA MADHAV TEXTILES PVT LTD
670.	11976	IMMEGRATION AND ALLIED SERVICES PVT LTD
671.	12003	CHICK WAGGON PVT LTD
672.	12014	OMI ENGINEERING AND PLASTICS PVT LTD
673.	12121	SUNTA BEVERAGES PVT. LTD.
674.	12244	RAJ NON FERROUS PVT. LTD.
675.	12248	SHRI OM POLYESTERS PVT. LTD.
676.	12442	SHREE NATHJI LEASING PVT LTD.
677.	12462	SURYA COMPLEXES PRIVATE LIMITED
678.	12881	JERSEY AGPHARM PVT LTD
679.	12885	DELTA PHARMACEUTICALS PVT LTD
680.	12894	KRISHNA WOODCRAFT PVT.LTD.

681.	12933	SHREE GURUKRUPA DIAMONDS PVT LTD
682.	12973	YOGIKRUPA PLASTIC PROCESSING PVT. LTD.
683.	13010	KHODIAR PAPERS PVT. LTD.
684.	13030	RICO PLASTICS PVT. LTD.
685.	13062	BRINE MARINE MEAL PVT. LTD.
686.	13088	SAURASHTRA DIAGNOSITC AND RESEARCH CENTRE PVT. LTD
687.	13175	PARCHAND SYNTHETICS PVT. LTD.
688.	13179	H.N. FABRICATORS PVT. LTD.
689.	13647	SARVOTTAM FILAMENTS PVT. LTD.
690.	13711	SINGAL PARIVALAN PVT LTD
691.	14204	TIMEE ORGANICS PVT LTD
692.	14266	JALARAM DEVELOPERS PVT LTD
693.	14921	ADVANCE BIO CULTURE PVT.LTD.
694.	14937	BHAVINI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
695.	15168	SHRI NAVPAD MARKETING PVT.LTD.
696.	15675	PENTAGONA PLASTO PVT LTD
697.	16283	RIZE GYMKHANA PVT. LTD.
698.	16328	ASSOCIATED THERMOSET PVT. LTD.
699.	16336	EAGLE TEXTURISERS PVT. LTD.
700.	16366	NEW TIME AND SPACE TRANSPORT CO. PVT. LTD.
701.	16398	VAISHNAV MAHILA SAMAJ COLD STORAGE PVT. LTD.
702.	16412	PARTH IMPEX PVT. LTD.
703.	16452	PRANAV ROLLING MILLS PVT. LTD.
704.	16488	RAMA COLD RETREADERS PVT. LTD.
705.	16536	SURAT STEEL ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
706.	16595	SNAHM TEXTILES PVT. LTD.
707.	16703	DARSHAN INTERMEDIATES PVT. LTD.
708.	16890	SHIVAM ORGANISERS PVT LTD
709.	16905	DEGUSSA FABRI-DYE(INDIA) PVT LTD
710.	16908	SARVOTTAM CEMENT PVT LTD
711.	16938	NIKITA PRINTS PVT LTD
712.	16989	SOFTEX MINERALS PVT LTD
713.	17033	MOYANA ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED

714.	17059	KAILAMA METCAST PVT. LTD.
715.	17076	BHAGYANIDHI GYMKHANA PVT.LTD.
716.	17114	PRASTHAN REAL ESTATE PVT LTD
717.	17443	ALLA VISION PVT. LTD.
718.	17475	TARUN DYES PVT. LTD.
719.	17656	TEJAS EXIM PVT LTD
720.	18247	SAMATA GRANITE AND MARBLES PVT LTD
721.	18547	NATRAJ TEXPRO PVT LTD
722.	20157	VOLGA CON PVT LTD
723.	20165	VRUNDAVAN SIZEYARN PVT LTD
724.	20206	ASAV BENSOL SERVICES PVT LTD
725.	20208	WINDSON POLYTEX PVT LTD
726.	20239	ANAND BNUILDING MATERIALS PVT LTD
727.	20364	AMAR ENTERPRISES PVT LTD
728.	20416	QUICK COMMUNICATIONS PVT LTD
729.	20991	SHRI ELECTROTECH DEVICES PVT LTD
730.	21015	PRIME RESORTS PVT LTD
731.	21036	HERBOWCARE REMEDIES PVT LTD
732.	22018	SPINE LEASING AND FINANCE PVT LTD
733.	22585	MODI MEDICO CENTRE PVT LTD
734.	22590	ZEST OVERSEAS PVT LTD
735.	22632	DALI APPARELS PVT. LTD
736.	22979	FLORIDA PHARMA-CHEM PVT. LTD
737.	23233	GREEN WOOD ENERGY PVT LTD
738.	24371	SHIVAM COMMUNICATION PVT LTD
739.	24390	BRIGHT SECURITIES PVT LTD
740.	24588	WINDSOR BEARING PVT LTD
741.	24815	VIR GASES PVT LTD
742.	25392	PATEL FINTRADE PVT LTD
743.	25797	APSARA FINCAP PVT LTD
744.	25963	SUNDERDHARA FARMS PVT LTD
745.	25964	HARIDHARA FARMS PVT LTD
746.	25965	ALANKAR FAMRS PVT LTD
747.	25966	RAAG FARMS PVT LTD

748.	25967	SHIVAM FARMS PRIVATE LIMITED
749.	25968	ROOPALEE FARMS PVT LTD
750.	26511	VOONDER OXYGEN PVT LTD
751.	26524	SOBTCOM TECHNOLOGIES PVT LTD
752.	26776	ANUP EXIM PVT LTD
753.	26800	IMPAC CHEMICALS PVT LTD
754.	26803	SAVITA SECURITIES PVT LTD
755.	26811	H.P.SONS INVESTMENTS PVT LTD
756.	26844	JAYKEM INDUSTRIAL PVT LTD
757.	26906	VIPUL TEX-O-TWIST PVT LTD
758.	26943	VIJAYSHREE CEMENT CONCRIDE PVT LTD
759.	26955	NARENDRASINH DABUBHA VAGHELA SALT WORKS PVT LTD
760.	27766	MANJIRA FINVEST PRIVATE LTD.
761.	28235	RAGHUPATI FINSTOCK PVT. LTD
762.	28891	APURVA STHAPATYA PRIVATE LIMITED
763.	28972	RAJNANDAN GARMENTS PVT LTD
764.	29026	REALIBLE BREAK DOWN SERVICES PVT LTD
765.	29051	BHAGWATI DEHYDRATION PRIVATE LIMITED
766.	29092	VALLABH PACKAGING PVT. LTD
767.	30178	SAMUNDRAGUPT GRANITES AND MINERALS PVT LTD
768.	30192	OMEX FORGINGS PRIVATE LIMITED
769.	30886	SELMOR SALES PROMOTORS PRIVATE LIMITED
770.	31132	SACROSANCT LEASE AND FINSTOCK PVT. LTD


 (V.K. KHUBCHANDANI)
 REGISTRAR OF COMPANIES
 GUJARAT, DADRA & NAGAR HAVELI

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following companies :

Ahmedabad, the 31st January 2008

No.ROC/JTA(KH)/SES-05 925

NOTICE IS HEREBY GIVEN UNDER SECTION 560 (5) OF THE COMPANIES ACT, 1956 THAT THE NAMES OF THE FOLLOWING COMPANIES HAVE BEEN THIS DAY BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER OF COMPANIES, AND THE SAID COMPANIES SHALL STAND DISSOLVED.....

SR. NO.	REGISTRATION NUMBER OF THE COMPANY	NAME OF THE COMPANY
1	16471	SHUKAN SILK SAREES PRIVATE LIMITED
2	16746	SHRI INDTEX COMBARSTION PRIVATE LIMITED
3	16749	YAKSHRAJ GUNIPITAK EXPORTS PRIVATE LIMITED
4	16846	JAY MADHAV INVESTMENT PRIVATE LIMITED
5	16934	WONDER PACK (I) PRIVATE LIMITED
6	16957	DHARNENDRA LABORATORIES INDIA PRIVATE LIMITED
7	16995	SHREYA ORGANICS PRIVATE LIMITED
8	17117	GUJARAT CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
9	17134	SAPHIL MARKETING PRIVATE LIMITED
10	17214	DONA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
11	17274	SAVITA FIN STOCK PRIVATE LIMITED
12	17283	TULSICON LIMITED
13	17290	VALPLUS CHEMICALS LIMITED
14	17444	GUTBON AGRO INDUSTRIES LIMITED
15	17452	EVEREST FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
16	17499	TAYCOON CHEMICALS (I) PRIVATE LIMITED
17	17549	RAJBUNDI CEMENT LIMITED
18	17559	NUTAN ORGACHEM PRIVATE LIMITED
19	17588	SIDDHI SOLAR LIMITED
20	17862	HINDUSTAN CATACHEM LIMITED

21	17938	NEEL DEEP ENGINEERING PRIVATE LIMITED
22	18098	SIMANDHAR SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
23	18161	MADHU YASH DYEING LIMITED
24	18165	BALAJEE STATIONERY AND MACHINES PRIVATE LIMITED
25	18432	BUSY BEE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
26	18446	MANUBHAI SHAKERCHAND CONS. AND TRADING PRIVATE LIMITED
27	18588	PROFEN FILTERS PRIVATE LIMITED
28	18664	SANCRIT MARKETING PRIVATE LIMITED
29	18875	MINILISA AQUACULTURE PRIVATE LIMITED
30	18913	ROHRA TRADING PRIVATE LIMITED
31	18936	SANYO METER AND ELECT. LIMITED
32	18972	BRAHMANI OXYGEN PRIVATE LIMITED
33	19000	RADIX RUBBER HOSES LIMITED
34	19060	MRUDULA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
35	19066	JAYBHARAT ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
36	19083	AURIGA ENGINEERS LIMITED
37	19200	HAWA HYDRAULICS AND PNEUMATICS PRIVATE LIMITED
38	19236	COMPOS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
39	19237	BRIGHT ORGANISATIONS PRIVATE LIMITED
40	19390	DITI INVESTMENT AND FINANCE PRIVATE LIMITED
41	19400	MANMANDIR SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
42	19590	RANKARS BAY CHEMICALS PRIVATE LIMITED
43	19883	EFFECTIVE COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
44	19931	TELI SOAPS PRIVATE LIMITED
45	20106	HARIGANGA FINANCE AND ESTATE PRIVATE LIMITED
46	20167	SALASAR TEXTURISERS PRIVATE LIMITED
47	20187	NAV KAR POLYARNS PRIVATE LIMITED
48	20333	SILVERLINE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
49	20456	ROGER ELECTRIC (I) PRIVATE LIMITED
50	20979	BASUKI PRINTS PRIVATE LIMITED
51	20523	DOLF COMPOSITE PRIVATE LIMITED
52	20843	ANULOK GEMS PRIVATE LIMITED
53	20931	DEV MANGALA LEASING AND FINANCING PRIVATE LIMITED
54	20962	MEGHAVI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
55	40413	HETAL DOT COM PRIVATE LIMITED
56	10051	RINDANI HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
57	8486	USHA KIRAN POLYVINAYAK P.LTD
58	8060	RAJPLAST PRIVATE LIMITED
59	22047	SUDARSHAN CNC GUILLOTION PRIVATE LIMITED
60	38667	TEJ MANAGEMENT REALTY PRIVATE LIMITED
61	7244	BACK PARTRIDGE AGENCIES PRIVATE LIMITED
62	19795	AGRAWAL PETROLUBE PRIVATE LIMITED

63	10172	CEMIX CHEMICALS PRIVATE LIMITED
64	39117	RMB SOFTWARES PRIVATE LIMITED
65	16726	PAMPOSH STEELS PRIVATE LIMITED
66	1928	SONA SYNTHETIC PACKAGING (I) PRIVATE LIMITED
67	20195	DHRUV INSTRUMENTS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
68	24800	MOHINI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
69	39205	CYNETA NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED
70	40396	KAYDEE DURABLES PRIVATE LIMITED
71	37570	NUROTEL SOFTWARES LIMITED
72	15490	MAMODIYA PROCESORS PRIVATE LIMITED
73	11089	DEVROHI COMM. AND ELEC. PRIVATE LIMITED
74	11167	SAFARI TEXTURISING PRIVATE LIMITED
75	11265	PREMIUM POLYESTER PRIVATE LIMITED
76	11707	KETAL CHEM PRIVATE LIMITED
77	12091	ELM INVESTMENT PRIVATE LIMITED
78	12094	CADENCE INVESTMENT PRIVATE LIMITED
79	12097	BELREX INVESTMENT PRIVATE LIMITED
80	12136	DEER INVESTMENT PRIVATE LIMITED
81	12137	CHARIOT INVESTMENT PRIVATE LIMITED
82	12093	DHAGASH INVESTMENT PRIVATE LIMITED
83	12171	PUSHPAM POLYTEX PRIVATE LIMITED
84	13005	TRIMANS HYDRATOOLS PRIVATE LIMITED
85	13052	PRAGATI DIAMONDS PRIVATE LIMITED
86	13110	NILKIN INVESTMENT PRIVATE LIMITED
87	13811	SEJAL MARKETING PRIVATE LIMITED
88	13965	DELTA INSECTICIDES PRIVATE LIMITED
89	14526	NOVA HED BEL PRIVATE LIMITED
90	14569	VADSONS FASTNERS PRIVATE LIMITED
91	14953	HEMALI PLASTICS PRIVATE LIMITED
92	14963	DAIRY MAID PRODUCTS PRIVATE LIMITED
93	15014	GUJARAT COMMERCIAL GOODS CARRIERS PRIVATE LIMITED
94	15092	SHISHIR TRADERS PRIVATE LIMITED
95	15395	BRILLIANT CHEMICALS PRIVATE LIMITED
96	15745	ROOPKALA SAREES PRIVATE LIMITED
97	15285	TAURAS RUBBER LIMITED
98	15297	VICTOR RAYON PRIVATE LIMITED
99	15823	KULDEEP GEO. MINERALS PRIVATE LIMITED
100	15949	CHINAR ALLOYS PRIVATE LIMITED
101	41751	BALARK GRANITES PRIVATE LIMITED
102	41299	FAIZAN IMPEX PRIVATE LIMITED
103	41578	SHRI MANIBHADRAVEER HOSPITAL PRIVATE LIMITED
104	41677	D.S.P. INFOTECH PRIVATE LIMITED

105	42234	AARUSHI MEDICARE PRIVATE LIMITED
106	42637	MILI EXPORTERS PRIVATE LIMITED
107	42397	HARSHIL BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
108	42960	OPUS MARKETING PRIVATE LIMITED
109	43011	RAINBOW EDIBLES PRIVATE LIMITED
110	43285	NIMA CREATIONS PRIVATE LIMITED
111	43984	P P PRAJAPATI CONTROLS PRIVATE LIMITED
112	9742	NEBULA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
113	9850	AGROFLEX PRODUCTS PRIVATE LIMITED
114	10409	MANGAL SAGAR ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
115	7994	HARUNI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
116	8007	BHARATI CRIMPERS PRIVATE LIMITED
117	8171	SHREE PRAMUKHA SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
118	8345	N.G. FINANCER GENERAL PRIVATE LIMITED
119	8446	ALANKAR MARBLE TILES PRIVATE LIMITED
120	8456	SHIVAM TWISTERS PRIVATE LIMITED
121	8521	KOTHARI PAPERS PRIVATE LIMITED
122	8558	JAIPRAKASH SPORTS CLUB PRIVATE LIMITED
123	8636	TAURUS SCHEMATICS PRIVATE LIMITED
124	8708	YASH INDUSTRIES INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
125	8811	TRIOPACT PRIVATE LIMITED
126	9113	VIMAL PLASTIC (GUJARAT) PRIVATE LIMITED
127	9182	WARP N WEFT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
128	9195	ARTLINE INSTRUMENT PRIVATE LIMITED
129	9309	SYNPYROL INDIA PRIVATE LIMITED
130	9562	DABASH ORGANIC PRIVATE LIMITED
131	5645	HEROK CHEMICALS PRIVATE LIMITED
132	5641	SUZY DENTAL (I) PRIVATE LIMITED
133	5254	SYNTHETIC POLYCHEM PRIVATE LIMITED
134	3741	HARISH METIND PRIVATE LIMITED
135	3170	KWIZOL CHEM PRIVATE LIMITED
136	2819	HITVIC ENGINEERING AND MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
137	2696	SULLY CHEMICALS PRIVATE LIMITED
138	2599	KRISHNA AUTICHEM PRIVATE LIMITED
139	1249	UNIL PAPER PACK P. LIMITED
140	34429	ROSHANI COMPUTERS PRIVATE LIMITED
141	1985	H S. BROTHERS CRASIK PRINTERY PRIVATE LIMITED
142	2152	EAGLE BUSINESS MACHINES PRIVATE LIMITED
143	25847	PATEL FISCAL PRIVATE LIMITED
144	UT-75	PREMIER PLASTIC POLYESTER PRIVATE LIMITED
145	UT-117	SURUCHI PACKAGING PRIVATE LIMITED
146	UT-155	DEVNET INFOTECH PRIVATE LIMITED

147	250	NUBIAN YARN PRODUCTS PRIVATE LIMITED
148	619	HARSHAD TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED
149	32752	MANEKLAL MANSUKHBHAI MARKETING PRIVATE LIMITED
150	2341	HONEST PLASTICS PRIVATE LIMITED
151	7966	TUSHAR FIBRES P.LTD.
152	7940	CHAROTAR AGRO CHEM AND FERTILIZER PRIVATE LIMITED
153	7921	SAVIRA COTTON SAREES PRIVATE LIMITED
154	7992	GUJARAT CAPSULES LIMITED
155	7897	JAGADAMBA METAL AND ALLOYS PRIVATE LIMITED
156	17864	HYTAISUN INTERNATIONAL LIMITED
157	7761	VIRAL FOAM PRIVATE LIMITED
158	7007	ARJENI INVEST-CAST LIMITED
159	6886	AMAR CRIMPES PRIVATE LIMITED
160	6876	T.KHURANA BUILDERS PRIVATE LIMITED
161	6754	SHIRAG ORGANICS CHEM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
162	6620	SPAN TRADING AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
163	6463	SUBHSAR TRADING AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
164	6430	BADOPALIA TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED
165	5920	SHIV AGRO GRAMODHYOG INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
166	5907	SHREEJI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
167	5732	SAHYADRI ESTATE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
168	26020	CUBEX GEMS AND JEWELLERY LIMITED
169	26038	KAIRAVI FINIC PRIVATE LIMITED
170	26069	STAPATYA BUILDERS PRIVATE LIMITED
171	26136	AROMA PANTALIDH AND WATER RESOURCES LIMITED
172	26188	HAWA INTERNATIONAL LIMITED
173	26189	ELDIMA MARKETING PRIVATE LIMITED
174	26488	SURYAVANSH FOODS PRIVATE LIMITED
175	26554	J.B.M. FOOTS PRIVATE LIMITED
176	26621	VAIBHAV LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
177	26638	MADHU FINSTOCK PRIVATE LIMITED
178	26693	HARY HYGIENE AND HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
179	26941	COMPTTEL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
180	26958	SAROJ ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
181	27048	INDOCOATS INKS (I) PRIVATE LIMITED
182	26901	AGNEE SECURITIES LIMITED
183	27068	HIKKA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
184	27165	PARAS CARGO PRIVATE LIMITED
185	27180	INFINITE INFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTION LIMITED
186	27187	VIBHA FISCAL SERVICES PRIVATE LIMITED
187	27228	RA - VITT VINIMAY (I) LIMITED
188	27246	PERIDOT FINAREE PRIVATE LIMITED

189	27558	VIRAL METAL CAST LIMITED
190	27652	NICE HOTCOLD EQUIPMENTS LIMITED
191	27708	VEENA ENGINEERS (I) PRIVATE LIMITED
192	27808	H.SONS EXPORTS PRIVATE LIMITED
193	27941	KARNAVATI FISCAL PRIVATE LIMITED
194	27975	CENTRAL SHIPPING COMPANY PRIVATE LIMITED
195	21988	FIVE STAR CATERER PRIVATE LIMITED
196	28044	MANEKLAL MANSUKHBHAI ORGANISORS PRIVATE LIMITED
197	28045	MANEKLAL MANSUKHBHAI HOUSING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
198	28046	MANEKLAL MANSUKHBHAI CONS PRIVATE LIMITED
199	28118	VISHAL ROADLINES (GUJARAT) PRIVATE LIMITED
200	28143	SHREE SUKTAM FINSTOCK PRIVATE LIMITED
201	28160	MADHU LEAFINVEST LIMITED
202	28261	ACM FINSTOCK SERVICES PRIVATE LIMITED
203	28338	SARDAR CARBONATES LIMITED
204	28520	NILKA OILS PRIVATE LIMITED
205	28536	OMTEK ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
206	28684	NAVNIDHI REALTY PRIVATE LIMITED
207	28740	NISHKAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
208	28856	SRUSHTI PLANTATION AND LAND DEVELOPMENT LIMITED
209	28857	IDEAL DRUGS LIMITED
210	28898	MADHU TOWNSHIP LIMITED
211	29065	SAWAN VALVES PRIVATE LIMITED
212	29135	RUSHABH COTTON LIMITED
213	29314	SHIVSHAKTI MARINE PRIVATE LIMITED
214	29348	NAIDU MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
215	29505	UJJAWAL DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
216	29765	PROCESS AUTOMATION (GUJARAT) LIMITED
217	29890	VIVA FINSTOCK PRIVATE LIMITED
218	30015	SAISAN COROTECH PRIVATE LIMITED
219	30207	MAYFAIR ORGANISERS LIMITED
220	30229	YASH EXIM PRIVATE LIMITED
221	30255	KALPTARU FINSTOCK LIMITED
222	30316	PLUS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
223	30319	SOLANKI TRADING PRIVATE LIMITED
224	30320	VISHWASNIYA FINLEASE PRIVATE LIMITED
225	30321	VYAS IMPEX PRIVATE LIMITED
226	30452	HITESH AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
227	30612	LIFE LINE FURNITURE PRIVATE LIMITED
228	30654	OVERSEAS MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED
229	30679	VIJU ENGINEERING PRIVATE LIMITED
230	30708	GROVER ENGINEERS PRIVATE LIMITED

231	30748	FORTUNE POLY PLAST PRIVATE LIMITED
232	30920	AISHWARYA CARTOONS PRIVATE LIMITED
233	30936	RICH TRADELINK AND FINANCE PRIVATE LIMITED
234	17666	GAAY PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
235	20423	NATASHA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
236	26678	ENRICH CAPITALS PRIVATE LIMITED
237	23445	FLUENT SECURITIES LIMITED
238	13986	ARIHANT TWISTERS PRIVATE LIMITED
239	22792	NIRMAL GASES PRIVATE LIMITED
240	28200	AMAL APPLIANCES AND BEARINGS PRIVATE LIMITED
241	38381	AISHWARIYA HERBAL PRIVATE LIMITED
242	38358	SARVODAY SHIP BREAKING PRIVATE LIMITED
243	38448	SHIV PRIYA TRADE INVESTMENT PRIVATE LIMITED
244	38470	PRATHNA SHARES AND BROKERS PRIVATE LIMITED
245	39025	SUNRISE CYBERSOFT INDIA PRIVATE LIMITED
246	39036	RAVI TRADELINKS PRIVATE LIMITED
247	37964	ROSIJO INFOTECH PRIVATE LIMITED
248	37959	SHADDI INFODOTCOM PRIVATE LIMITED
249	37945	VIMAL DOT COM PRIVATE LIMITED
250	37893	BALAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
251	37535	MICKY INFOTECH LIMITED
252	37109	ICON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
253	37086	RADICAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
254	37008	METRO SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
255	36865	PRAKASH YARNS PRIVATE LIMITED
256	39390	SAVVY HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
257	39518	SAINATH MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
258	40026	TOTAL QUALITY BEVARAGES PRIVATE LIMITED
259	30967	MISHIBU BIO-TECH PRIVATE LIMITED
260	27026	PATPARTH SPINNERS PRIVATE LIMITED
261	4151	ZDVERCHAND MARKETING AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED
262	3824	PATELLS FIBREGLASS PRIVATE LIMITED
263	34147	NASSERVANJI PETROLEUM PRIVATE LIMITED
264	35807	YES INFOTECH PRIVATE LIMITED
265	32276	PRANAV DISTIBUTORS PRIVATE LIMITED
266	32323	YOGI BUILDWELL PRIVATE LIMITED
267	24360	SHREE SAHJANAND FINSTOCK PRIVATE LIMITED
268	24612	SUTARIA MARINE ENGINEERING AND SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
269	24603	KAMRON CAPFIN PRIVATE LIMITED
270	24581	K. BODIWALA PRIVATE LIMITED
271	24574	JINANG INVESTMENT AND HOLDING PRIVATE LIMITED

272	39144	BCJ EXIM PRIVATE LIMITED
273	24341	RAJENDRO PHARMACEUTICALS LIMITED
274	24971	SIGMATEC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
275	24967	NARMADA FINLEASE LIMITED
276	24962	SHREEJI SYSTEMS PRIVATE LIMITED
277	8579	BTX PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
278	24355	ESHA FINSTOCK PRIVATE LIMITED
279	8240	BAMA LEASING AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
280	24548	NAHAR INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
281	24394	RAJVI PLANTATION LIMITED
282	24363	SHREE HARIGITA TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
283	8035	NEW PANCHAL HOT PLATES PRIVATE LIMITED
284	31855	LAKESHORE PALACE LEISURE HOMES LIMITED
285	31325	RATNAKAR HOTELS PRIVATE LIMITED
286	31324	RATNAKAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
287	21252	PAVAN PUTRA TRANSLINE PRIVATE LIMITED
288	8743	KAMANI CASTING P.LTD.
289	31708	SUBH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
290	32123	NORTHWOOD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
291	21649	RATAN PROCESSORS PRIVATE LIMITED
292	19796	SWAMI PLASTO FLEX P.LTD.
293	33789	DEESHA DYSTUFF PRIVATE LIMITED
294	25948	SHEEL FARMS PRIVATE LIMITED
295	33548	AMBUJA CONTAINERS PRIVATE LIMITED
296	21256	PARASNATH PLANNING AND MULTI CONS. PRIVATE LIMITED
297	37401	SARYU DAIRY P.LTD.
298	35826	ZION LABORATORIES PRIVATE LIMITED
299	35519	HARHITE CHEM PRIVATE LIMITED
300	36694	ACCENT COMPUTERS PRIVATE LIMITED
301	35477	MANISHA SADBHAVNA FINCAP PRIVATE LIMITED
302	38829	MADHAV INFRASTRUCTURE PROJ (I) LTD
303	39782	BILESHWAR TEXTILES PRIVATE LIMITED
304	36600	DISTI CHEMI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
305	37983	NEEL INFOTECH PRIVATE LIMITED
306	37821	BRALCO SPECIALITY STEEL (I) PRIVATE LIMITED
307	37441	ROLEX METACRAFT LIMITED
308	37814	SETU CYBERTECH LIMITED
309	36638	ROYAL LAKE RESORT AND PARK PRIVATE LIMITED
310	36297	ALPHASOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
311	38243	GIGASOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
312	42142	PRASAD INFRASTRUCTURE LTD.
313	44237	SHREE BALAJI IMMIGRATION SERVICES PRIVATE LIMITED

314	41225	PLANET SEVEN AUTO TRADING CO. PRIVATE LIMITED
315	39028	SHRIJI BAPA BOATING AND AMUSEMENT PRIVATE LIMITED
316	39244	FINE LINE FABRICS PRIVATE LIMITED
317	39100	SACHIN BOARD MILLS PRIVATE LIMITED
318	38171	MICRO INFONET (BARODA) LIMITED
319	22369	VAGHESHWARI BUILDERS PRIVATE LIMITED
320	24573	DEVARSHI INVESTMENT PRIVATE LIMITED
321	14500	CHEAPEN SYNTEX PRIVATE LIMITED
322	15063	ALAP DECOLAM PRIVATE LIMITED
323	13298	BRIGHT NON FERROUS METAL PRIVATE LIMITED
324	7999	RACHNA ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
325	2070	SILICARB ABRASIVES PRIVATE LIMITED
326	6384	B.D. PATEL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
327	6908	AMAR STRUCTURES PRIVATE LIMITED
328	33850	ISHWAR OXIDES LIMITED
329	34847	SHYAM COMPUSOFT EDUCATION PRIVATE LIMITED
330	16411	MASMA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
331	32422	PREFER MARKETING PRIVATE LIMITED
332	34426	VARUN LEMINATIONS PRIVATE LIMITED
333	33808	GOKULESH AIR FREEZ AND MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
334	33786	MAHIMA QUARRY PRIVATE LIMITED
335	33727	MANISH BUILDING MATERIALS PRIVATE LIMITED
336	38532	LEXICON INFO-TECH PRIVATE LIMITED
337	23515	VALLABH FIN STOCK PRIVATE LIMITED
338	33463	CHARUBHA TRAILER TRANSPORT PRIVATE LIMITED
339	33379	ANKUR TECHNO TUBES LIMITED
340	33363	SHIVKRUTI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
341	33030	SHREE PANCHAM REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
342	33119	JYOTIBAL SECURITY PRIVATE LIMITED
343	41818	AASTHA SUPPER MARKETS PRIVATE LIMITED
344	33251	SATKAR CREATIVE ARTS PRIVATE LIMITED
345	32864	MANGAL DYESTUFF PRIVATE LIMITED
346	32764	SAVIK TRADELINK PRIVATE LIMITED
347	28712	MIRAL CARGO SHIPPING PRIVATE LIMITED
348	2103	LABELLA FINANCIERS PRIVATE LIMITED
349	15848	SUR-JYOT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
350	35347	ASK INFOTECH PRIVATE LIMITED
351	10197	DHARM INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
352	23320	BHAL BRIQUETES PRIVATE LIMITED
353	13837	SHREENATH COMPLEXES P.LTD
354	8327	MINDIP GRANITES AND MARBLES PRIVATE LIMITED

355	35016	ARPAN TRADELINK PRIVATE LIMITED
356	33949	PIONEER CHEMCAS CO
357	33961	PRAFULLA FASTENERS PVT. LIMITED
358	15813	OSHWAL FASHIONS PRIVATE LIMITED
359	5393	UDIT INVESTMENT P.LTD.
360	37283	TRIUMPH FINSEC (SURAT) PRIVATE LIMITED
361	36027	H.VRAJLAL IMPEX PRIVATE LIMITED
362	36675	MARCONS SHIPPING (GUJART) PRIVATE LIMITED
363	23387	PURE AIR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
364	36588	TAI FOODS PRIVATE LIMITED
365	37466	PRABHAT INFOSYS LIMITED
366	36089	LOK PRAHARI PRAKASHAN PRIVATE LIMITED
367	36197	AKSHAT HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
368	19838	HARIOM KNITTINGS AND TEX. PRIVATE LIMITED
369	11233	S.R. MANEKLAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
370	8848	AMISIONS BUILDERS PRIVATE LIMITED
371	35661	TANDON FASHIONS PRIVATE LIMITED
372	38216	GENIUS APPLIANCES PRIVATE LIMITED
373	38792	PACIFIC INSURANCE BORKERS PRIVATE LIMITED
374	38815	DSS SOFTECH (I) PRIVATE LIMITED
375	34809	LEXICON COMPSOFT PRIVATE LIMITED
376	38955	TURNKEY INTERIOR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
377	34962	ANNAPURNA PULSES PRIVATE LIMITED
378	21535	SOVEREIGN SCANNERS PRIVATE LIMITED
379	38964	SHIVAM TEXPRINTS PRIVATE LIMITED
380	13372	SCORPIO ARIES ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
381	13317	REDIX FIRE PRODUCTION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
382	4661	CLIMATE CONTROL ENG. PRIVATE LIMITED
383	38149	SDFC INFOTECH LIMITED
384	36409	SWADESHI CONSUMES AND SALTS PRIVATE LIMITED
385	32816	SAHAJANAND SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
386	36572	EVERGREEN REALTY PRIVATE LIMITED
387	7224	SWAMINARAYAN POLYSACK INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
388	11924	UNED CERAMICS PRIVATE LIMITED
389	25196	VIR INVESTMENT PRIVATE LIMITED
390	6366	MANNA MACHINERIES PRIVATE LIMITED
391	13985	ARIHANT TEXTURISING PRIVATE LIMITED
392	34501	MAA PERIPHERALS P.LTD
393	33859	OZA INTERDISCOUNT P.LTD
394	33757	CHIRAG COACHING ACADEMY PRIVATE LIMITED
395	32376	NITYA MERCANTILE PRIVATE LIMITED
396	32375	MADHUR EXIM PRIVATE LIMITED

397	32549	KRISHAN DYESTUFF PRIVATE LIMITED
398	12524	AMBICA MINERALS PRIVATE LIMITED
399	32547	VOGUE SHOES CREATION PRIVATE LIMITED
400	32234	SHYAMDAS SYTEX PRIVATE LIMITED
401	32213	INDIVAR TEXTILES PRIVATE LIMITED
402	31900	PANAMAX COMM. SYSTEMS PRIVATE LIMITED
403	31085	OPTION ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
404	33084	DHIRAJ FINSTOCK PRIVATE LIMITED
405	35798	INFRATECH ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
406	35523	DESAI PHARMACHEM PRIVATE LIMITED
407	34757	DANKE POWER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
408	34684	NAPS EDUCATIONAL ACADEMY PRIVATE LIMITED
409	7139	SARDAR IRON & STEEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
410	12333	SHIVANI MOTELS PRIVATE LIMITED
411	12532	SAHAS YARN CHEM PRIVATE LIMITED
412	11111	MADAN PUBLICATION PRIVATE LIMITED
413	11983	AKASH DARSHAN HOTELS PRIVATE LIMITED
414	11133	SHEETAL FIBRES PRIVATE LIMITED
415	11699	MICROMECH SURGICALS PRIVATE LIMITED
416	12872	MULLER DIAMONDS LIMITED
417	12341	VASUPUJYA BUILDERS PRIVATE LIMITED
418	12503	MINA LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
419	13460	PARIJAT BUILDERS PRIVATE LIMITED
420	14039	GAURAV MARKETING PRIVATE LIMITED
421	14228	LARC AMMUSEMENT PARK PRIVATE LIMITED
422	14364	SAPTARSHI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
423	1505	ALPHA DYNAMIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED
424	15072	HAWA INVESTMENT LIMITED
425	15294	CLASSIC RAYON PRIVATE LIMITED
426	15969	MARDIA EXPORTS LIMITED
427	87	BHIKHABHAI JIVABHAI & COMPANY PRIVATE LIMITED
428	4647	SAURASHTRA INOX TIPS PRIVATE LIMITED
429	5375	AHMEDABAD TETTARONICS PRIVATE LIMITED
430	6865	AMIN PRINT AND SLIT PRIVATE LIMITED
431	6959	KABRA PROCESSORS PRIVATE LIMITED
432	7328	RATNARAJ TEXTURISERS PRIVATE LIMITED
433	8019	MAHENDRA LAMINATION PRIVATE LIMITED
434	9670	CROMONEC ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
435	2537	LABELLA CONSTRUCTION CO. P. LTD
436	4534	GALAXY DEHYDRATES & EXPORTS INDS. P. LTD
437	7462	GUJARAT PHOTOCHEM PRIVATE LIMITED
438	33307	ZAVERCHAND CYBER INFOTECH PRIVATE LIMITED

439	5223	DIGISOFT (INDIA) PRIVATE LIMITED
440	10672	ABHANANDAN METAL BOX PRIVATE LIMITED
441	10167	SELMAR INVESTMENT AND FINANCE LIMITED
442	22211	THE MATANGI TRANSPORT COMPANY LIMITED
443	22259	SONA ROOPA PRIVATE LIMITED
444	22329	MONEY TREE PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
445	22520	ENERGING FINANCE AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
446	22525	ALLIED SECURITIES PRIVATE LIMITED
447	22888	PREM FLEXI PRINT PRIVATE LIMITED
448	22915	JASPER METALS LIMITED
449	22447	PUSHPAK STEEL CRAFT INDIA PRIVATE LIMITED
450	21324	RUCHA PROCESSORS PRIVATE LIMITED
451	21611	KESHAV FAB PRIVATE LIMITED
452	21625	SATYEN DYES PRIVATE LIMITED
453	21672	KAMDHENU FINANCE LIMITED
454	21696	WESTERN PALACE PRIVATE LIMITED
455	21861	UNICORN TECHNOCHEM (I) LIMITED
456	21866	PALMIRA INVESTMENT PRIVATE LIMITED
457	21868	HALO INVESTMENT PRIVATE LIMITED
458	21884	ADAL MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
459	21900	PRATIK POLYFAB PRIVATE LIMITED
460	21946	SURYA BEARINGS PRIVATE LIMITED
461	21978	SHREE LPG BOTTLING PRIVATE LIMITED
462	23007	PRIYANK IMPEX (I) PRIVATE LIMITED
463	23020	SHREE NITYANAND CHEM PRIVATE LIMITED
464	23026	RAHAT HOLIDAYS AND ESTATES PRIVATE LIMITED
465	23034	JSA ENGINEERS PRIVATE LIMITED
466	23093	VIRJA FINCAP PRIVATE LIMITED
467	23266	NARAYAN GASES PRIVATE LIMITED
468	23290	GOPAL KRISHNA FLOOR MILLS PRIVATE LIMITED
469	23491	CARMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
470	23534	SHREE MAHAKANT FINLEASE LIMITED
471	23535	MORGEN FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
472	23659	WHITELINE INSUPACK PRIVATE LIMITED
473	23781	SHETH INTEGRATED FINANCE PRIVATE LIMITED
474	23860	TIRUPATI AGRO CHEM PRIVATE LIMITED
475	23877	EMERGE SYSTEM SERVICES PRIVATE LIMITED
476	23924	RAJ CAPITAL INVESTMENT PRIVATE LIMITED
477	34576	ROMAR HOTELS PRIVATE LIMITED
478	34580	ASHWARATH EXPORTS PRIVATE LIMITED
479	12174	CRANK ENGINEER PRIVATE LIMITED
480	33867	SAKHWALA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

481	24257	ADITI ESTATE DEVELOPERS AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
482	34699	MIVIHIT MITRAJAYA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
483	34457	KARTIK MERCANTILE SERVICES PRIVATE LIMITED
484	34631	JAIHIND PERMACOAT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
485	25901	SOUTH WEST AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
486	24026	VOLVO MET CAST PRIVATE LIMITED
487	38497	SILVER SPRING BEVERAGES PRIVATE LIMITED
488	32137	GAJANAND FINCAP PRIVATE LIMITED
489	32093	SAMARPAN ESTATE PRIVATE LIMITED
490	31229	TROMAC ENGINEERING PRIVATE LIMITED
491	31240	PARIKH KEVALDAS HARJIVANDAS MERCANTILE PRIVATE LIMITED
492	31501	OMEGA FINCAP PRIVATE LIMITED
493	8416	MEDI TRANS LAB PRIVATE LIMITED
494	32297	JENISH SOFTWARE LIMITED
495	24231	SHARDA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
496	24187	GIM OXYGEN PRIVATE LIMITED
497	39510	HETCHEM ORGANICS PRIVATE LIMITED
498	24048	BIOVASCULAR DEVICES RESEARCH LIMITED
499	25621	GIRIJA SHANKAR FASHIONS PRIVATE LIMITED
500	25324	SHAKUNTALA TEXTILE PRIVATE LIMITED
501	25133	B.K. CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
502	25107	FORTUNE FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED
503	10067	KIRTI INTERNATIONAL FINANCE LIMITED
504	10263	MINAL PLASTICK POLYMERS PRIVATE LIMITED
505	10945	GUJARAT PRESS PRODUCTS PRIVATE LIMITED
506	6487	AMRAPALI CHEM PRIVATE LIMITED
507	11499	ALAP LEASING & FINANCE PRIVATE LIMITED
508	10556	KEDAR TEXTURIZERS PRIVATE LIMITED
509	10948	SABURI TEXTURISES PRIVATE LIMITED
510	11003	KANUNGO CASTINGS PRIVATE LIMITED
511	10786	MIHIR METALS LIMITED
512	7554	WALSYNTH PLASTIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
513	10414	SHREYAS ENGINEERS PRIVATE LIMITED
514	7938	GUJARAT PRINTED CARTOONS & LABELS P.LTD.
515	24236	HOPE FERTILITY CLINIC AND MEDICAL RESEARCH PRIVATE LIMITED
516	39525	STEM INDIA P.TD.
517	7794	MANAV GEET LAND AND ESTATE P.TD.
518	8119	BIRALAND DEVELOPMENT P.LTD.
519	18143	J.D. TRIVEDI MARBLE PRIVATE LIMITED
520	16053	XSIS CONTROLS PRIVATE LIMITED
521	40865	WISDOM BIO-TECH PRIVATE LIMITED
522	10862	SACHIN SIZERS PRIVATE LIMITED

523	6058	BHUMA ABHIYAN P.LTD.
524	33616	RAJKUMAR MARKETING PRIVATE LIMITED
525	34943	RAVI SILICHEM PRIVATE LIMITED
526	31977	NISHA METAL PRIVATE LIMITED
527	18955	SHIVAM EXIM PRIVATE LIMITED
528	10399	CALIFORNIA FRUIT JUICES PRIVATE LIMITED
529	8413	WIZARD ELECTRICALS AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
530	35373	NIKI CABLES PRIVATE LIMITED
531	24333	HARIA FINSTOCK PRIVATE LIMITED
532	32789	MARWADI INFOSYS PRIVATE LIMITED
533	19232	AKSHAR GRANITE PRIVATE LIMITED
534	33128	RAJASTHAN PROGRESSIVE KAOLIN PRIVATE LIMITED
535	31827	ASTRA OVERSEAS PRIVATE LIMITED
536	32977	KAILASHPATI TEXTURISING PRIVATE LIMITED
537	18649	SHUBHAM SUPER STORE PRIVATE LIMITED
538	40230	GEMS BOND JEWEL PRIVATE LIMITED
539	23075	SURYA EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
540	33839	REVENT SALES AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
541	32824	RAJ JANAK FINLEASE PRIVATE LIMITED
542	21868	NARITA SECURITIES PRIVATE LIMITED
543	38217	KUNTRY CARGO PRIVATE LIMITED
544	42631	GNN NURSES RECRUITMENT PRIVATE LIMITED
545	42137	UMME RAMMANA WOOD WONERS PRIVATE LIMITED
546	41215	RISHI BIOFARMS LIMITED
547	42516	KHODIYAR TRADELINK PRIVATE LIMITED
548	42168	GOLDCOIN FORGE PRIVATE LIMITED
549	41090	SHRI GANPATI TRADING PRIVATE LIMITED
550	43179	FRONT RUNNER SECURITY AND INVESTIGATION SERVICES PRIVATE LIMITED
551	44828	STORK NARINE PRIVATE LIMITED
552	42517	BHATRU BHAV EXPOLINK PRIVATE LIMITED
553	42502	AMBALCA IMPEX PRIVATE LIMITED
554	45112	CHETUSHA CARS PRIVATE LIMITED
555	42060	RAJKAMAL TRIMMS AND BRAIDS PRIVATE LIMITED
556	41976	EXTREME TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
557	42206	NUCELL MARKETING PRIVATE LIMITED
558	42630	GNN NURSES LEARING PRIVATE LIMITED

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Varsh Fin-Cap Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00276—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Varsh Fin-Cap Services Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Countrywide Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00262—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Countrywide Impex Services Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arcane Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00254—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Arcane Engineering Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalyani Advertising Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00178—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Kalyani Advertising Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Logistics Constructions Mumbai Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00172—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Logistics Constructions Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mounting Advertising Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00168—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Mounting Advertising Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tikku Management Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00162—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Tikku Management Services Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Spider Web Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00175—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Spider Web Solutions Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Allied Adjusters Insurance Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00718—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Allied Adjusters Insurance Services Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Munuji Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00794—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Munuji Foods Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kadam Holdings Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00798—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Kadam Holdings Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sant Savata Enterprises Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00803—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Sant Savata Enterprises Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Galaxy Sea and Air Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00809—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Galaxy Sea and Air Services Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hazard Safe Marketing Network Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00159—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Hazard Safe Marketing Network Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Buildmann Hitech Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00141—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Buildmann Hitech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Donum Dieu Engineers Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00146—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Donum Dieu Engineers Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ankur Bio Tech Research Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00155—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Ankur Bio Tech Research Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Smartsoft UK (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00304—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Smartsoft UK (India) Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishal Food Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00318—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Vishal Food Industries Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Omega Compusystems Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00328—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Omega Compusystems Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Skytime Media Entertainment Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00341—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Skytime Media Entertainment Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Separation Techniques and Consultants
(India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00102—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Separation Techniques and Consultants
(India) Private Limited unless cause is shown to the contrary,
will be struck off from the Register and the said Company
will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bill Get Computers Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00037—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Bill Get Computers Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Total Fina Elf Projects Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00032—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Total Fina Elf Projects Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Skylark Telesystem (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00487—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Skylark Telesystem (India) Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Brainer Market Trade Links Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00480—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Brainer Market Trade Links Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. D. S. Infrastructures Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00470—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. D. S. Infrastructures Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Friends Recovery Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00462—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Friends Recovery Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. G. B. Software Engineers Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00441—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. G. B. Software Engineers Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. G. T. L. Forwarders Private Limited.

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00386—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. G. T. L. Forwarders Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jain Sales and Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00375—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Jain Sales and Services Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. N-Ary Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00369—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. N-Ary Solutions Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Koosh Securities Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00361—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Koosh Securities Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Satellite Cargo Connexion Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00382—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Satellite Cargo Connexion Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Altima Prints Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00369—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Altima Prints Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Greenword Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00363—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Greenword Impex Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. P. G. B. Buildcon Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00335—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. P. G. B. Buildcon Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Avroa (India) Marine Systems Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00326—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Avroa (India) Marine Systems Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Intime Express Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00316—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Intime Express Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rohit Labs Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00300—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Rohit Labs Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dream Builders Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00291—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Dream Builders Infotech Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jemsun Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00269—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Jemsun Infotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Auroarc Info Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00246—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Auroarc Info Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. SBS Sugarfree Agency Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00231—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. SBS Sugarfree Agency Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. G. Systems Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00177—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. S. G. Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bombay Petroleum Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00161—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bombay Petroleum Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Om Sai Ganesh Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00156—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Om Sai Ganesh Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Oscar Online Technology Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00115—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Oscar Online Technology Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vibgyor Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00797—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vibgyor Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Avemaria Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00632—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Avemaria Infotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. B. R. Electrical and Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00625—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. B. R. Electrical and Engineering Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aayush Mangalam Services (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00617—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Aayush Mangalam Services (India) Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Niramay Drugs Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00610—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Niramay Drugs Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mycityad Dot Com Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00605—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Mycityad Dot Com Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vsorze Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00597—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Vsorze Solutions Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajen Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00593—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Rajen Chemicals Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Guru Hotels Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00585—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Sai Guru Hotels Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Seven C Customer Services India Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00578—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Seven C Customer Services India Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Zaxxon Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00572—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Zaxxon Marketing Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vaishno Agro Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00545—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Vaishno Agro Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tach Royal Health Care Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00540—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Tach Royal Health Care Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Noboru Infrastructure Development Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00522—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Noboru Infrastructure Development Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off from
the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Well Worth Medicines Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00479—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Well Worth Medicines Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vision Concepts Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00463—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vision Concepts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Revolutionary Services and Facilities Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00451—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Revolutionary Services and Facilities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Riyas Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00426—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Riyas Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. SAS Broking Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00417—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. SAS Broking Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagruti Food Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00408—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jagruti Food Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Small Nest Marketing Network Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00394—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Small Nest Marketing Network Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaybajrang Agro Processing Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00388—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Jaybajrang Agro Processing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Patil Impact Extrusion Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00737—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Patil Impact Extrusion Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tara Merchandise Private Limited

Mumbai 400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00045—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Tara Merchandise Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Career Development Academy (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00039—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Career Development Academy (India) Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off from
the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. eplanet Computer Education Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00024—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. eplanet Computer Education Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aarzu Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Aarzu Marketing Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Silvervally Information Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Silvervally Information Solutions Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Management and Financial Consultancy
Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00378—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Management and Financial Consultancy
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off from the Register and the said Company will
be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Shivtej Publication Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00385—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Shree Shivtej Publication Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Palakkad Power Generating Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00391—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Palakkad Power Generating Company Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off from
the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Indicom Personal Communications Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00404—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Indicom Personal Communications Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashirwad Housing Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00412—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Ashirwad Housing Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. D. C. Domainserve Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00224—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. D. C. Domainserve Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Master Links (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00236—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Master Links (India) Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. V. G. Elemech Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00283—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. V. G. Elemech Engineering Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saikrupa Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00311—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Saikrupa Textiles Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Himalaya Infrastructure Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00337—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Himalaya Infrastructure Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. WBCP Advisors Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00348—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. WBCP Advisors Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arcom Technologies Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00069—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Arcom Technologies Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shilpa Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00065—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Shilpa Infotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aaditya Cad-Work Station Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00060—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Aaditya Cad-Work Station Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alphashree Investment and Leasing Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00048—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of the M/s. Alphashree Investment and Leasing Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Business Bridges India Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00051—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Business Bridges India Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. NMR Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00054—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. NMR Impex Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaguar India Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00057—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Jaguar India Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pentagram Investments (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00152—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Pentagram Investments (India) Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. First Milestone Transports Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00177—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. First Milestone Transports Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shaneeshwar Chits Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00182—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Shaneeshwar Chits Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Microbase Computer Softwares and Equipments
(India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00192—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Microbase Computer Softwares and
Equipments (India) Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dynamic Engineering Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. 6097—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Dynamic Engineering Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Allay Pharma Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00704—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Allay Pharma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanam Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00089—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sanam Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Cloud Nine Clothing Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00079—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Cloud Nine Clothing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anandi Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00101—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Anandi Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vandana Matching Centre Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00107—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vandana Matching Centre Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saka Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00111—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Saka Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shah Accident Claim Consultants Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00116—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Shah Accident Claim Consultants Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Leo Homes Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00119—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Leo Homes Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Armors Developers Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00125—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Armors Developers Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jhavar Agrotech (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00132—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Jhavar Agrotech (India) Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Indi-Grow Horticulture (Mumbai) Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00077—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Indi-Grow Horticulture (Mumbai) Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Greenhills Agro Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00017—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Greenhills Agro Farm Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Just 4U Drinks (Bombay) Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00021—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Just 4U Drinks (Bombay) Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Medicon Biotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00031—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Medicon Biotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ishan Ice and Cold Storage Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00037—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Ishan Ice and Cold Storage Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Parryswift Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00042—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Parryswift Infotech Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Akanksha Technology Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00119—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Akanksha Technology Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alldaye Communications Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00546—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Alldaye Communications Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kam Immigration Consultancy India Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00569—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of the M/s. Kam Immigration Consultancy India Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganesh Kripa Properties Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00579—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Ganesh Kripa Properties Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Esses Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00588—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Esses Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Balaji Innovative Engineering Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00612—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Balaji Innovative Engineering Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Paragon Resorts Hotels and Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00619—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Paragon Resorts Hotels and Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maha Infotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00650—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Maha Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Options Software Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00663—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Options Software Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vima Constructions Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00678—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vima Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. KVN Software Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00692—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. KVN Software Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marquee Technologies Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00372—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Marquee Technologies Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Meldon Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00729—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Meldon Engineering Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Enron India Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00717—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Enron India Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fortius Technologies Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00708—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Fortius Technologies Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Classic Mek Fabricators Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00694—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Classic Mek Fabricators Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chai Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00669—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Chai Trading Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jupiter Nevesh Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00646—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Jupiter Nevesh Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Transindia Cargo Systems Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00638—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Transindia Cargo Systems Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. International Express Containers Lines
Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00388—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. International Express Containers Lines
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off from the Register and the said Company will
be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chanchaldas and Sons Estate Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00371—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Chanchaldas and Sons Estate Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Green Crop International Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00330—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Green Crop International Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Victor Foods India Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00357—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Victor Foods India Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hemant Coaching and Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00307—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Hemant Coaching and Services Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gladius Technosys Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00293—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Gladius Technosys Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. C. Ramon Associates Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00277—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. C. Ramon Associates Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nayna Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00266—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Nayna Marketing Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off from the
Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Krushna Pingaksha Marine Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00250—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Krushna Pingaksha Marine Services
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off from the Register and the said Company will
be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Om Sai Siddhant Marketing Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00235—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
the M/s. Om Sai Siddhant Marketing Company Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mumbai Broadcasting Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 24th October 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/
00126—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the
name of the M/s. Mumbai Broadcasting Company Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act 1956 and
of following Companies :—

Kolkata-700 020, the 28th January 2008

No. ROC/WB/IPC/560(SM)/07—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 under Suo Motu that the name of the following
Companies have this day been struck off from the Register
of the Registrar of Companies and is dissolved :—

Record CIN NO CO NAME

1	30860	A D R CHEMICAL LTD
2	27119	A J JUDAH PHARMACEUTICALS PVT LTD
3	24523	A K GHOSH PVT LTD
4	86884	A K POLYPRODUCTS PRIVATE LIMITED
5	32141	A R K INVESTMENTS LTD
6	63849	A SQUARE B ENGINEERING & MARKETING PVT. LTD.
7	51613	A.G. ENTERPRISES PVT.LTD.
8	45107	A.J.TRADING PVT LTD
9	60357	A.K. PAL CONSTRUCTION PVT. LTD.
10	30535	A.K.BAGCHI & CO PVT LTD
11	43999	A.R.ASSOCIATES PVT LTD
12	58184	A.T. CEMENT LIME PVT. LTD.
13	65048	AAHUTI IMPEX PVT.LTD.
14	62704	AAKRUTI PLASTICS PVT. LTD.
15	48065	AARBEE PLASTO PRODUCTS PVT. LTD.
16	29575	AARSREE PRAMOD PVT LTD
17	29972	AARTI APPARELS PVT LTD
18	77772	AATISH MARKETING PVT LTD
19	64588	AAWKINS NIRYAT PVT.LTD.
20	31402	AB TEETEX INDUSTRIES PVT LTD

-
- | | | |
|----|-------|-------------------------------------|
| 21 | 57888 | ABACUS MERCANTILES PVT.LTD. |
| 22 | 54291 | ABBE MARKETING CONSULTANCY PVT LTD. |
| 23 | 90144 | ABDIEL TRADING PRIVATE LIMITED |
| 24 | 77187 | ABG TRADING & INVESTMENT PVT LTD |
| 25 | 66112 | ABHILASA VANCOM PVT. LTD., |
| 26 | 49320 | ABHINAV PRINT SYSTEM PVT.LTD. |
| 27 | 62088 | ABHISHEK MULTIPROJECTS PVT. LTD. |
| 28 | 44835 | ABN DIAGNOSTIC LTD |
| 29 | 88694 | ABS BUILDERS PRIVATE LIMITED |
| 30 | 49257 | ACHI LEATHERS PVT.LTD. |
| 31 | 63978 | ACQRET FINANCIAL SERVICES PVT. LTD. |
| 32 | 33134 | ACUMEN ENGINEERING INDUSTRIES LTD |
| 33 | 74656 | ADD EXIM LTD. |
| 34 | 57151 | ADEXIM MARKETING PVT.LTD. |
| 35 | 37180 | ADGRO SHIPPING CONSULTANTS PVT LTD |
| 36 | 71565 | ADH IMPEX PVT.LTD. |
| 37 | 63740 | ADI-AVI SOFTWARE SERVICES PVT. LTD. |
| 38 | 63842 | ADIGUM PROJECTS PVT. LTD. |
| 39 | 80151 | ADITYA IMPEX PVT.LTD. |
| 40 | 79030 | ADITYA INN AND RESORTS PVT LTD |
| 41 | 27040 | ADITYA IRON & STEEL CO. PVT. LTD. |

42 30513	ADLIP SYNCHRONY PVT LTD
43 69210	AD-OVERSEAS GRAPHICS PVT.LTD.
44 50999	ADRI HOUSING FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD.
45 27620	ADVANCE CHIT FUND PVT LTD
46 57400	ADVANCED TECHNICAL SERVICES PVT.LTD.
47 83637	ADVERT MARKETING LIMITED
48 77841	AGARWAL CAPITALS PVT LTD
49 24925	AGENCIES & SALES PVT LTD
50 79373	AGM FINANCIAL & CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
51 84523	AGNES DECOR LIMITED
52 75430	AGORA EXPORTS PVT.LTD.
53 75694	AGR ROADWAYS PVT. LTD.
54 82972	AGRADE ENGINEERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
55 53951	AGRADOOT CREDIT & FINVEST LTD.
56 80033	AGRAJ STEELS PVT.LTD.
57 45102	AGROMITE BUILDING PRODUCTS PVT LTD
58 98493	AHIMSA MERCANTILE PRIVATE LIMITED
59 66114	AHINSHA DEALCOMM PVT. LTD.
60 52867	AHV PROPERTIES PVT. LTD.
61 53069	AIFA COAL PROCESSORS PVT. LTD.
62 55922	AIMS (EXPORTS) PVT. LTD.

-
- | | | |
|----|--------|--|
| 63 | 163715 | AIR BRAKE POLYMERS PVT. LTD. |
| 64 | 168399 | AIR FRIGHT COURIERS PVT. LTD. |
| 65 | 150790 | AIRVIEW SUDHIR RESORT PVT.LTD. |
| 66 | 163624 | AJANTA NIRYAT PVT. LTD. |
| 67 | 156455 | AJANTA TREXIM LTD. |
| 68 | 140576 | AJAY WOODCRAFTS PVT. LTD. |
| 69 | 183761 | AJEEVAN COMMERCIAL CO. LIMITED |
| 70 | 129573 | AJIT TEXTILE INDUSTRIES PVT LTD |
| 71 | 151511 | AKASH GEAR COUPLINGS PVT. LTD. |
| 72 | 163674 | AKHANDJYOTI VYAPAAR PVT. LTD. |
| 73 | 155923 | AKOK INDUSTRIAL COMPANY PVT. LTD. |
| 74 | 143961 | AKRITI CONSTRUCTION PVT LTD |
| 75 | 164496 | AKSHAY NIRYAT PVT.LTD. |
| 76 | 188680 | AKVK TRADING PRIVATE LIMITED |
| 77 | 127710 | ALAKH BEHARI STEEL ROLLING MILLS PVT LTD |
| 78 | 148814 | ALARA IMPEX AND HOLDINGS PVT. LTD. |
| 79 | 186072 | ALARIC DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 80 | 156184 | ALBATROSS EXPORTS PVT. LTD. |
| 81 | 143988 | ALBEN PHARMACEUTICAL PVT LTD |
| 82 | 127602 | ALEX ADVERTISING PVT LTD |
| 83 | 127643 | ALEX MILLER (COCHIN) PVT LTD |

84 52340	ALFA TRADE & COMMERCE PVT. LTD.
85 62152	ALICE ECONOMY LTD.
86 3204	ALIPURDAUR LOAN OFFICE LTD
87 30814	ALKA CONSULTANTS & SERVICES LTD
38 29240	ALL INDIA DIESEL ELECTRIC LOCO SPARES MANUFACTURERS ASSN.
89 29776	ALLIANCE CHIT & SAVINGS CO PVT LTD
90 57054	ALLIED FERTILIZERS PVT. LTD.
91 23457	ALLOY INDUSTRIES PVT LTD
92 63558	ALPHA CELLULOSE PVT. LTD.
93 83256	ALPHA TELIMEDI INTERNATIONAL LIMITED
94 33139	ALPINE DRUGS PVT LTD
95 49825	ALPINE RESORTS & HOTELS PVT LTD
96 53391	ALSA HOLDINGS PVT. LTD.
97 56092	ALTROW SAVINGS & INVESTMENT (INDIA) LTD.
98 62522	ALUTEC PVT. LTD.
99 27852	AMALGAMATEND BUILDERS PVT LTD
100 31412	AMARNATH FRUIT PRODUCTS PVT LTD
101 71611	AMAX BUILDERS & DEVELOPERS PVT. LTD.
102 83946	AMBA DAIRY LIMITED
103 71214	AMBOOTIA ORGANIC DAIRY FARMS LTD.
104 36214	AMEX ENGINEERS (CALCUTTA) PVT LTD
105 66411	AMIYA MERCHANT BANKERS LTD.

106	76448	AMRIT ALLOYS PVT LTD
107	27728	AMRIT PAPER MILLS PVT LTD
108	81242	ANAAM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
109	66636	ANAND AIRCON PVT. LTD.
110	47682	ANAND POTATO STORAGE PVT. LTD.
111	53394	ANAND SNACKS AND BISCUITS PVT. LTD.
112	27647	ANANDA SERVICE STATION PVT LTD
113	88788	ANANDAM SOFTWARE PRIVATE LIMITED
114	63623	ANANT DEALERS PVT. LTD.
115	34403	ANATELE INVESTMENTS & TRADING COMPANY LTD.
116	43557	ANATENNA ID-SYSTEM PVT LTD
117	73062	ANB MERCHANDISE PVT LTD
118	37479	ANCHOR HOTELS PVT LTD
119	49056	ANDEES INFOTECH SYSTEMS PVT. LTD.
120	4397	ANDIT CORPORATION LTD
121	25226	ANDUL FOUNDRY & ENGINEERING WORKS PVT LTD
122	78284	ANGAD VANIJYA PVT LTD
123	86846	ANGEL INDIA AGRO FARM LIMITED
124	33721	ANGUS JUTE INDUSTRIES LTD
125	50423	ANIL CONEQUIPMENT PVT LTD
126	54002	ANIL HOTEL RESORTS PVT LTD.

127	66009	ANIROX TECHNOLOGIES LTD.
128	72959	ANJANA LEASING LTD.
129	57591	ANKIT BUILDCON & FINVEST PVT.LTD.
130	58538	ANKUR LAND MULTI PROJECT LTD.
131	59659	ANMOL APPARELS PVT. LTD.
132	56349	ANMOL INVESTMENTS PVT. LTD.
133	30639	ANNAPURNA & CHAPALA BANK LTD
134	61012	ANNAPURNA RESORT PVT. LTD.
135	30629	ANUJ CHAMBERS SERVICES PVT LTD
136	63736	ANUMAN IMPORT EXPORT PVT.LTD.
137	33381	ANUPAM VEGETABLE OILS PVT LTD
138	30862	ANUSILAN FINANCE & INVESTMENT LTD
139	50155	APANJAN TRAVEL AND TOURS P LTD.
140	31143	APARNA EQUIPMENTS PVT LTD
141	53898	APC AUTO SPARES (INDIA) PVT. LTD.
142	62821	APEX COMMODITIES (INDIA) PVT. LTD.
143	37663	APEX CONSTRUCTORS PVT LTD
144	30543	APEX SEAFOOD PVT. LTD.
145	30871	APOLLO CONDUCTORS LTD
146	74213	APPLE CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
147	56490	APPOLO MARKETING & EXPORTS P LTD.

148	71908	APPU EXPORTS LTD.
149	66359	APPU LTD.
150	43087	APSA TOOL & DESIGN ENGINEERS PVT LTD
151	9363	APSARA CREATION PRIVATE LIMITED
152	80001	AQUARIUS LEASING & SERVICES LTD.
153	75861	AQUILA TRADING PVT LTD
154	56452	ARADHANA SALES & AGENCIES LTD
155	44082	ARBO CHEM PVT LTD
156	31362	ARCHITECTS COLLABORATED (INDIA) PVT LTD
157	63980	ARDIKEM MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD.
158	54970	ARIHANT CAPITAL MARKETS LTD
159	52602	ARIHANT GARMENTS SALES LTD.
160	64705	ARMILAN MERCANTILE PVT.LTD.
161	34869	ARNAB FINANCE AND INVESTMENT CO. PVT LTD
162	75487	ARNOLD SUPPLY PVT.LTD.
163	76449	AROMA EXPORTS PVT LTD
164	77985	ARPAN SUPPLIERS PVT LTD
165	68580	ARROWGOLD DISTRIBUTORS PVT.LTD.
166	67871	ARROWGOLD VINCOM PVT. LTD.
167	48330	ARTEG ENGINEERING COMPANY PVT. LTD.
168	61756	ARTHUR BLOOM DIAGNOSTICS (INDIA) PVT. LTD.
169	48970	ARTOO EXPORTS (INDIA) PVT. LTD.

170	62330	ARUDHYA VINIYOG & FINANCE (INDIA) LTD.
171	23323	ARUN CHEMICAL INDUSTRIES PVT LTD
172	31347	ARVIND MARKETING PVT LTD
173	65312	AS BUSINESS & TRADE PVT.LTD.
174	69573	ASANKUL COSMETICS PVT.LTD.
175	50720	ASCON EXPORTS PVT.LTD.
176	85876	ASHA PRAKASAN PRIVATE LIMITED
177	66211	ASHDIL DISTRIBUTORS PVT. LTD.
178	24636	ASHOK FABRICATING INDUSTRES PVT LTD
179	8490	ASIA MERCANTILE PROVIDENT INSURANCE CO
180	24682	ASIATIC MFG & TRADING CO PVT LTD
181	27759	ASKINS ENGINEERING PVT LTD
182	50962	ASM FOOD & FOREST PRODUCTS LTD
183	69737	ASPOTGREEN SALES PVT.LTD.
184	69570	ASPOTMOON TRADES PVT.LTD.
185	30425	ASSAM MACHINEFAB PVT LTD
186	21149	ASSOCIATED COMMERCE & INDUSTRIES INDIA PVT LTD
187	27469	ASSOCIATED ILLUMINATION EQUIPMENTS PVT LTD
188	45508	ASSOCIATED PRECISION ENGINEERING COMPANY PVT. LTD.
189	31028	ATA PVT LTD
190	47370	ATHENE EXPORTS PVT. LTD.

191	83074	ATITHI YATRI NIVAS PRIVATE LIMITED
192	29790	ATLANTIC GENERAL SAVINGS CHIT FUND & INVESTMENT CO PVT LTD
193	34428	ATNEELS CONSULTANTS PVT LTD
194	27439	ATWAL CONSTRUCTION PVT.LTD.
195	60865	AURELIAN FINANCE PVT. LTD.
196	72029	AURO EXPORT & IMPORT PVT. LTD.
197	69016	AURO FISCAL SERVICES PVT. LTD.
198	73903	AUROVIL MERCHANDISE PVT.LTD.
199	55542	AUSTER BATTERY PVT.LTD.
200	58229	AUTO POWER CONTROL EQUIPMENTS PVT. LTD.
201	29833	AUTO TYRES & ACCESSORIES CO (CAL) PVT LTD
202	34439	AUTOKRAFT ENGINEERING ENTERPRISES PVT.LTD.
203	24472	AUTOMOTIVE ENTERPRISE LTD
204	59419	AVALON WEPKO MARKETING PVT. LTD.
205	77712	AVANT-GARDE TECHNOCRATS PVT LTD
206	66208	AVARAN SUPPLIERS PVT. LTD.
207	44353	AVNET ENGINEERING (INDIA) LTD.
208	65280	AVON TRACON PVT.LTD.
209	68983	AWANT DEALER PVT. LTD.
210	33780	AZAMGARH HIRE PURCHASE FINANCE&TRADING CO LTD
211	30567	AZAMGARH SAVINGS & FINANCE INDIA LTD

212 64783	AZEL COMMERCIAL PVT.LTD.
213 59926	AZRAQ EXPORTS PVT. LTD.
214 63700	AZUKI ADVERTISING PVT. LTD.
215 63221	AZURE TECHCOM PVT.LTD.
216 57387	B & P PROPERTIES PVT. LTD.
217 18928	B B C PVT LTD
218 72361	B B SOFTWARE LTD.
219 45241	B E MIRROR PVT LTD
220 8897	B K DUTT & CO PVT LTD
221 19147	B M BROTHERS PVT LTD
222 49154	B.B. AGENCIES PVT.LTD.
223 62156	B.B.J. ENGINEERING PVT. LTD.
224 33004	B.BUILDERS & CONSTRUCTION COMPANY PVT.LTD.
225 20790	B.CHANDRA & CO PVT LTD
226 46285	B.D. CONTRACTORS ENTERPRISE PVT LTD
227 37844	B.F.RESEARCH AND DEVELOPEMENT PVT.LTD.
228 46830	B.G.COMMERCIAL PVT LTD.
229 38597	B.V.M.ORGANICS PVT.LTD.
230 54353	BABBU TRADE & INVESTMENTS PVT. LTD.
231 63399	BABHNAN AGRO PRODUCTS PVT. LTD.
232 37087	BABI DUTTA CONSTRUCTION PVT LTD
233 39355	BABULAL TARACHAND PVT LTD

234 19330	BACHHUKA SONS PVT LTD
235 29780	BAFNA INVESTMENTS PVT LTD
236 35382	BAGALA ENTERPRISES (B&R) PVT LTD
237 71923	BAGLA HOUSING PVT.LTD.
238 77947	BAGRI RESOURCES PVT LTD
239 74113	BAHAR DISTRIBUTORS PVT.LTD.
240 56644	BAID FINCON LTD.
241 32045	BAID TEXTILE INDUSTRIES LTD
242 81746	BAJAJ AQUA-TECH PRIVATE LIMITED
243 64362	BAKER HUGHES INDIA PVT.LTD.
244 25157	BAKHRAHAT BYABASAYE SAMITY
245 77216	BAKRESHWAR POWER GENERATION COMPANY LTD
246 77401	BALAJEE CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
247 75296	BALAJEE FLUOROTECH SEALS PVT.LTD.
248 65119	BALGOPAL MANAGEMENT PVT. LTD.
249 25992	BALKAN T&M BERS PVT LTD
250 75404	BALLMANN TRADING COMPANY PVT.LTD.
251 63403	BALRAMPUR AGRO PRODUCTS PVT. LTD.
252 56235	BAM TARA JANAKALYAN SAVINGS & INVESTMENT COMPANY LTD
253 65882	BAMA CONSULTANCY SERVICES PVT.LTD.
254 69574	BAMNI VYAPAAR PVT.LTD.

255	54115	BANBROS BUINESS & INVESTMENT COMPANY PVT LTD.
256	27113	BANDANA IMPRESSION PVT LTD
257	66110	BANDANA VANCOM PVT. LTD.
258	54256	BANDHPUR CHEMICALS PVT LTD.
259	25742	BANDIPUR KNITTERS SOCIETY PVT. LTD.
260	23991	BANERJEE & CHATTERJEE STEVEDORS PVT LTD
261	27876	BANERJEE FARM & PROCESSING PVT LTD
262	45093	BANGAJANANI INVESTMENT COMPANY PVT LTD
263	57549	BANGIYA STATIONERS PVT.LTD.
264	43839	BANIK FINANCE & INVESTMENT PVT LTD
265	33986	BANIK STEAM NAVIGATIMNS CO LTD
266	27535	BANSHAW CHEMICALS PVT LTD
267	58066	BANYAN ELECTRONICS PVT. LTD.
268	54440	BARASAT POULTRY & ALLIED FARMS PVT. LTD.
269	88081	BARTAMAN AGRO TECK (I) LIMITED
270	57421	BASIL BUILDER & DEVELOPER PVT.LTD.
271	46586	BASU MARKETING & MANUFACTURING COMPANY PT. LTD.
272	59851	BASUMATA SAVINGS & INVESTMENT COMPANY (INDIA) LTD.
273	11166	BATOKRISTO ROY CO PVT LTD
274	27621	BAY FISHING & PROCESSING PVT LTD
275	57494	BEACON DEVELOPER PVT. LTD.

276	60057	BEAUTY CHOICE HOUSE FINANCE & INVESTMENT (INDIA) LTD.
277	58507	BEAUTY INDIA CREDITS LIMITED
278	43916	BEEGEE WOOD CRAFTS UDYOG PVT LTD
279	48138	BEEKAY FERRO ALLOYS PVT LTD
280	64440	BELLONA TRADERS PVT.LTD.
281	55031	BENEFICIAL SAVING AND INVESTMENT (INDIA) LTD.
282	62866	BEN-FED BINIYOG & INVESTMENT COMPANY LTD.
283	54362	BENGAL ANTI BIOTICS PVT. LTD.
284	48026	BENGAL INDUSTRIAL LUBRICATING EQUIPMENTS PVT. LTD.
285	74798	BENGAL METAL FORM PVT.LTD.
286	34561	BENGAL MOLECUL R INDUSTRIES PVT LTD
287	15504	BENGAL NATIONAL COLLIERIES LTD,
288	62164	BENGAL PAPER TUBE & BOX MANUFACTURING COMPANY PVT. LTD.
289	26830	BENGAL SAFE & STEEL WORKS PVT LTD
290	30618	BENGAL SEVAK SAVINGS & CHIT FUND CO PVT LTD
291	88685	BENIN DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
292	56355	BENISON SAVINGS & INVESTMENT (INDIA) LTD.
293	54078	BESCO WHEELS LTD.
294	27740	BEST GRINDING WORKS PVT LTD
295	65122	BESTBITE MERCANTILES PVT. LTD.
296	54249	BESTO FISCAL LTD.

297	27570	BHABANI RUBBER PVT LTD
298	30433	BHAGAT PLASTICS PVT LTD
299	15290	BHAGAT PROPERTIES PVT LTD
300	65946	BHAGAT STOCK & SHARES PVT.LTD.
301	43805	BHAGIRATHI MINING TOOLS PVT LTD
302	21778	BHAGYA LAKSHMI RICE MILL & INDUSTRIES PVT LTD
303	78817	BHAGYA MERCHANTS PVT LTD
304	69972	BHAGYRAAJ VYAPAAR PVT.LTD.
305	68618	BHAIA FINVEST PVT.LTD.
306	77799	BHANDARI MOVERS & BUILDERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
307	8784	BHARAT LABORATORY & CHEMICAL WORKS LTD
308	54400	BHARTI JANTA SAVINGS & FINVEST COMPANY (INDIA) LTD.
309	79287	BHAT FINCON SERVICES PVT LTD
310	57089	BHATTACHERJEE DEVELOPER PVT.LTD.
311	80839	BHAWANI CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
312	51520	BHILLAI FINANCE PVT. LTD.
313	30589	BHOJANIA PVT LTD
314	57156	BHOL ENGINEERS & CONTRACTORS PVT.LTD.
315	62535	BHOMIYA VYAPAAR PVT. LTD.
316	70186	BHROSEMAND COMMODITIES PVT.LTD.
317	80538	BHUMIKA COMMERCIAL PVT.LTD.

318 55175	BIJAN AGRI PVT. LTD.
319 17840	BIJLI AGENTS LTD
320 61013	BIKAS INTERTRADE PVT. LTD.
321 63176	BILLY FINANCE PVT.LTD.
322 79537	BINAY FUSION SYSTEMS PVT LTD
323 54360	BINDU ANU SAVINGS LTD.
324 55770	BIRLA COTTON SPINNING AND WEAVING MILLS LTD.
325 33268	BISCAY EXPORTS LTD.
326 68006	BISCO FINANCIAL & INVESTMENT COMPANY PVT.LTD.
327 87484	BISCO TEXTILE PRIVATE LIMITED
328 31611	BISWA HOTELS PVT LTD
329 64551	BLACK OPAL PROPERTIES & EXPORTS PVT.LTD.
330 51862	BLOWCON INDIA PVT.LTD.
331 71767	BLUE BELL POLY PIPES PVT.LTD.
332 63679	BLUE HEAVEN IMPEX PVT. LTD.
333 42656	BLUE STAR CONSULTANTS PVT LTD
334 64777	BODKIN EXIM PVT.LTD.
335 70561	BOINCHEE MODERN RICE MILL PVT.LTD.
336 068153	BONANZA CERAMICS PVT. LTD.
337 66710	BONAZA BARTER PVT.LTD.
338 88631	BONEY CONFECTIONERY (INDIA) PRIVATE LIMITED

339 29698	BONUS FOOD PRODUCTS PVT LTD
340 29546	BOSCO MACHINES & TOOLS (INDIA) PVT LTD
341 63643	BOSS VIBRATORY COMPACTORS PVT. LTD.
342 54027	BOUNTY FINANCE AND HOUSING INDIA LTD.
343 87714	BOWBAZAR HOLDINGS PRIVATE LIMITED
344 79579	BRAHAMPUTRA FABRICATORS PVT LTD
345 58521	BRIGHT & BETTER INDUSTRIAL INVESTMENT LTD.
346 48086	BRIGHT COLOUR & COMBINATION PVT LTD
347 48145	BRIGHT ESTATES PVT LTD
348 57854	BRIGHT FUTURE TRADE CONFINANCIAL SERVICES LTD.
349 56505	BRIGHT LINE CREDIT & FINVEST INDIA LTD.
350 66195	BRIGHTMOON FABTRADE PVT. LTD.
351 66007	BRIJ IMPEX PVT.LTD.
352 55256	BRILLIANT CAREER HOUSING FINANCE & INVESTMENT LTD.
353 64341	BRILLIANT VINIMAY PVT. LTD.
354 63554	BROSIS COMMERCIAL PVT. LTD.
355 84412	BRYLON INDUSTRIAL TWINES PRIVATE LIMITED
356 49784	BSC LEASING & FINANCE COMPANY LTD
357 47269	BTTCO CREDIT & MERCANTILE PVT. LTD.
358 21031	BUILDERS & FURNISHERS PVT LTD
359 74078	BULBULITALA RICE MILL PVT.LTD.

360	58796	BUM PRODUCTIVE CONSULTANTS PVT. LTD.
361	53879	BUOYANT HOUSING FINANCE & INVESTMENT (INDIA) LTD.
362	75288	BURDWAN AUTO TERMINUS & RESORTS LTD.
363	28037	BUREAU FOR UTILISATION OF TECHNICAL RESOURCES PVT. LTD.
364	54607	BUSH ESSKAY TEA PVT. LTD.
365	33849	BUSY LAND DEVELOPMENT ORGANISATION LTD
366	74682	BUXA POWERPEC LTD.
367	48078	C B K PACKAGING INDUSTRIES PVT LTD
368	64014	C LAVRIE & COMPANY (SHIPPING) PVT. LTD.
369	86289	C S & ASIAN MARINE ENGINEERING LIMITED
370	62383	C.B. POLYMERS PVT. LTD.
371	59822	C.C. PROPERTIES PVT. LTD.
372	67392	C.D.INFOCOM PVT.LTD.
373	43890	C.L. MERCANTILES PVT LTD
374	46338	C.M. AGENCY PVT LTD
375	59976	C.P. RESOURCES PVT. LTD.
376	47869	C.T. ELECTRONICS PVT. LTD.
377	55676	CACICO CREDIT (INDIA) LTD.
378	56380	CAD-CAM DEVELOPERS PVT. LTD.
379	89611	CADISC BUSINESS LINK LIMITED
380	81881	CALCUTTA BISCUITS PRIVATE LIMITED
381	31072	CALCUTTA BOARD MILLS PVT LTD

382	31431	CALCUTTA COLOUR LABORATORY PVT LTD
383	25369	CALCUTTA COTTON ASSOCIATION
384	30742	CALCUTTA DEVELOPMENT HOUSE SERVICES PVT LTD
385	27307	CALCUTTA DOCK TEOCHEST HANDALING LABOUR BOARD LTD.
386	81285	CALCUTTA FIREWORKS ASSOCIATION
387	48107	CALCUTTA FOIL INDUSTRIES PVT LTD
388	29929	CALCUTTA GATE & ENGG CO PVT LTD
389	50882	CALCUTTA INFERTILITY CLINIC & IVF CENTRE PVT.LTD.
390	59318	CALCUTTA MOVER SERVICES PVT.LTD.
391	8623	CALCUTTA ORIENTAL PRESS LTD
392	27658	CALCUTTA PETRO-CHEM INDUSTRIES PVT LTD
393	27638	CALCUTTA PLASTICIZERS PVT LTD
394	69709	CALCUTTA POWER PROJECTS LTD.
395	27105	CALCUTTA PROCESS & PUBLICATION PVT LTD
396	73081	CALCUTTA PROFFESIONAL SERVICES PVT. LTD.
397	51641	CALCUTTA SPONGE LTD.
398	46584	CALCUTTA TRANSPORT COMPANY PVT LTD
399	30534	CALCUTTA TURBO GENERATOR & ERECTORS PVT.LTD.
400	57423	CAL-TECH MECHANICAL ENGINEERING COMPANY PVT.LTD.
401	57617	CAMAC SAFETY PRODUCTS PVT.LTD.
402	74834	CANLAY ENGINEERING PVT.LTD.

403	49007	CANNON CREDIT & CONSULTANCY PVT. LTD.
404	48079	CANTER AUTO WORKS PVT LTD
405	48066	CAPCO PLASTIC PVT. LTD.
406	58633	CAPMA CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
407	30663	CARAVAN SAVINGS & FINANCE PVT LTD
408	31511	CARGO CARRIERS PVT LTD
409	58348	CASCON DEVELOPERS AND PROMOTERS PVT.LTD.
410	54549	CASION HOUSING FINANCE (INDIA) LTD.
411	57688	CATALYTIC CHEMICALS PVT.LTD.
412	43969	CAXTON PRINTERS PVT LTD
413	73129	CCREEN FINANCIAL CONSULTANTS PVT LTD
414	57431	CENTRAL CREDIT & FINVEST (INDIA) LTD.
415	88455	CENTRE INDO TYRE & AUTOMOBILE PRIVATE LIMITED
416	79010	CENTURY DEVLOCON PVT LTD
417	86661	CENTURY MARINE VENTURE LIMITED
418	44306	CEW ENGINEERS PVT LTD
419	31484	CHAITAK RESHAMS (INDIA) PVT LTD
420	40715	CHAKORION ENGINEERS PVT. LTD.
421	39707	CHAKRABORTI (METAL) INDUSTRIES PVT LTD
422	75277	CHAKRABORTY CLEARING AGENTS PVT.LTD.
423	69888	CHAKSON MERCANTILES PVT.LTD.

424	29749	CHALIHA EXPORTS PVT LTD
425	29767	CHALIHA TEA & AGRO PRODUCTS PVT LTD
426	29851	CHANDAN MACHINE TOOLS PVT LTD
427	85789	CHANDNI BIDI WORKS PRIVATE LIMITED
428	63757	CHANDRA PRAWN TRADING PVT.LTD.
429	54845	CHANNEL ELEVEN ELECTRONICS LTD.
430	43572	CHARU EXPORTS PVT LTD
431	76602	CHARUKARU AD PVT LTD
432	34862	CHASARA ESTATE PVT LTD
433	80490	CHATTERJEE REALTY PVT.LTD.
434	85749	CHATURVEDA FOREST INDIA LIMITED
435	63641	CHAULHATI TEA ESTATE PVT. LTD.
436	82701	CHAYAN COMMODITIES PRIVATE LIMITED
437	39789	CHEMFIL INDIA PVT LTD
438	61823	CHEMRUB AGENCIES PVT. LTD.
439	65461	CHEQUERS HOLDINGS PVT.LTD.
440	70014	CHIK CONSULTANCY PVT.LTD.
441	63625	CHINTAMANI DEALCOMM PVT. LTD.
442	61186	CHITRA BYAPAR PVT. LTD.
443	57805	CHITRALEKHA ART PVT.LTD.
444	62997	CHOPRA HOMES PVT. LTD.

445	82580	CHOUDHARY LEASING PRIVATE LIMITED
446	47586	CHOUDHURY POLY GUARD UDYOG P. LTD.
447	85054	CHOWDHURY GROUP ENGINEERING CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
448	54266	CHOWDHURY HI-TECH COMPUTER SYSTEMS PVT LTD.
449	39291	CHROMEPLATE (INDIA)PVT LTD
450	57874	CIMA PVT. LTD.
451	51881	CIPA DRUGS PVT.LTD.
452	68106	CIPLOX SUPPLIER PVT.LTD.
453	74897	CITIGATE DEALER PVT.LTD.
454	89224	CITIZEN HOME CARE LIMITED
455	46756	CITRUS CHEMICALS PVT.LTD.
456	08137	CITY LAND DEVELOPMENT TRUST LTD
457	57450	CITYLINK BUILDER & DEVELOPERS PVT.LTD.
458	55804	CLAIRVOYANT SAVINGS & INVESTMENT LTD.
459	64347	CLAM COMMODITIES PVT. LTD,
460	70855	COLLOCATE VINIMAY PVT.LTD.
461	58653	COLRAIN EXPORTS LTD.
462	31246	COMBUST TECHNIK PVT. LTD.
463	88699	COMMAND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
464	88696	COMMAND RUBBER PRIVATE LIMITED
465	88700	COMMAND TRANSPORT & INVESTMENT PRIVATE LIMITED

466	29691	COMMERCIAL COMPUTERS (INDIA) LTD
467	29850	COMPACT CREDIT & CHIT FUND CO PVT LTD
468	82175	COMPU-QUEST SYSTEMS & SOFTWARES PRIVATE LIMITED
469	42942	COMPUTER & ALLIED PRODUCTS PVT LTD
470	60063	CONCEPT LEDERWAREN PVT. LTD.
471	59118	CONCH FINANCIAL & INVESTMENTS (INDIA) LTD.
472	33486	CONSTANT SAVINGS & INVESTMENT (INDIA LTD
473	54109	CONTAI TRADING CO. PVT LTD.
474	63904	CONTSHP VYAPAAR PVT. LTD.
475	64343	CONVERTEX DEALERS PVT. LTD.
476	62607	CORE VINIMAY PVT. LTD.
477	64290	CORNFLOWER DEALERS PVT. LTD.
478	43431	COROSYS THERMAL ENGINEERING PVT LTD
479	77011	CORPORATAE SHIPPING PVT LTD
480	69020	CORPORATE MANAGEMENT SERVICES & RESEARCH LTD.
481	29847	COSMO CHEM LABORATORIES INDIA PVT LTD
482	88755	COSMOPOLITAN COMPUTERS INFOTECH LIMITED
483	62174	COSMOPOLITE RUBBERS PVT. LTD.
484	71694	COUGAR MERCHANTS PVT.LTD..
485	71702	COUGAR TRADERS PVT.LTD.

486	56528	COVETABLE HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO LTD.
487	55664	COYAL SAVINGS & INVESTMENT (INDIA) LTD.
488	53251	CPS FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.
489	54253	CPV MULTIMEDIA LTD.
490	46951	CREATION MARKETING PVT LTD.
491	57758	CREATIVE INSURANCE SURVEY PVT. LTD.
492	91935	CRESCENT DOT COM PRIVATE LIMITED
493	57377	CRESCENT INDIA CONEX PVT.LTD.
494	55975	CRESCENT PAPER MILLS LTD.
495	81515	CRESCENT PLANTATION PRODUCTS PRIVATE LIMITED
496	81702	CROMAX LEASING & FINANCE PRIVATE LIMITED
497	67888	CRONIES COMMERCIAL PVT.LTD.
498	31525	CROP PROTECTANTS (INDIA) PVT LTD
499	29769	CROPAID (INDIA) PVT LTD
500	50805	CROWN POLYURETHANE PRODUCTS PVT.LTD.
501	62289	CRUCIAL FISCAL PVT. LTD.
502	56454	CRYSTAL SALES LTD.
503	45816	CRYSTAL TRADERS PVT LTD.
504	81701	CSSR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
505	89587	CYBER QUEST TECHNO SOLUTIONS LIMITED
506	75858	D P SYNTHETICS PRIVATE LIMITED

507	73579	D.G.A.CONSULTANTS PVT.LTD.
508	47863	D.K. STORES PVT. LTD.
509	255217	D.N. MEMORIAL CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
510	57226	D.P. INTERLOGIC SYSTEMS PVT.LTD.
511	54258	DABLANA INVESTMENTS & TRADERS LTD.
512	63845	DAGGER PROJECTS PVT. LTD.
513	65601	DAGGER-MASTER SALES PVT.LTD.
514	25545	DAIHAL TRANSPORT PVT LTD
515	87922	DAMODAR VALLEY AGRO TECH (INDIA) LIMITED
516	45520	DAROMA AEROSOLS PVT. LTD.
517	85421	DARPAN PLANTS & FOODS PRIVATE LIMITED
518	54624	DAS TEK PVT. LTD.
519	47070	DASSNAGAR STRUCTURALS PVT LTD.
520	62902	DATERS PHARMA PVT. LTD.
521	67975	DATT AIR EXPRESS LTD.
522	75542	DAULAT VINIMAY PVT LTD
523	73172	DAY NIGHT EXPRESS PVT. LTD.
524	27746	DAYARANI PLANTATION INDUSTRIES PVT LTD
525	27751	DE COKE & COAL PVT LTD
526	27135	DEBALI PICTURES PVT LTD
527	57486	DEBALINA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.

528	54403	DEBARATI APARTMENT PVT. LTD.
529	43807	DEBCARGO SERVICES PVT LTD
530	36336	DEBENDRA NATH COTTON MILLS LTD
531	77531	DEBI CONSULTANTS AND INVESTMENT PVT LTD
532	54007	DEBNABADAY GENERAL FINANCE LTD.
533	59462	DECADE CONSTRUCTION & INVESTMENT COMPANY PVT. LTD.
534	67182	DECOLIC SALES PVT.LTD.
535	57699	DECSEM SCREEN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
536	27655	DEE BEE EXHIBITORS PVT LTD
537	55181	DEEGEE AGRO & FRUITS PVT.LTD.
538	57627	DEEP SAGAR SAVINGS & INVESTMENT COMPANY LTD.
539	57084	DEEP TECH (INDIA) PVT.LTD.
540	46069	DEEPAK INDUSTRIAL EQUIPMENT MANUFACTURING & PROJECT SERVICES PVT LTD
541	49502	DEEPAK MERCHANTILE PVT.LTD.
542	56364	DEEPJYOTI MARKETING COMPANY PVT. LTD.
543	34434	DEEPSONS PROPERTIES & INVESTMENT PVT LTD
544	56353	DELTA TECHNICAL SERVICES PVT. LTD.
545	57499	DEO INVESTMENTS PVT.LTD.
546	68144	DESKAL PATRIKA PVT. LTD.
547	40607	DESONS PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
548	54728	DESTINY COMMERCIAL & TREXIM PVT. LTD.

549	80082	DEUTSCHE BABCOCK TEXTILE MACHINERY LTD
550	74247	DEVARUN SCIENTIFIC ELECTRICAL MANUFACTURING PVT.LTD.
551	64442	DEV DARU VINIMAY PVT.LTD.
552	68202	DEVIOR PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
553	54575	DEYA NEYA FINANCE & INVESTMENT COMPANY PVT. LTD.
554	90295	D-FENIL PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
555	81437	DGS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
556	39715	DH & S MULTICONSULT PVT LTD
557	57850	DHAN SAGAR SAVINGS & FINANCE LTD.
558	63335	DHANALAKSHMI DEALCOM PVT.LTD.
559	30510	DHANAWAT BROTHERS PVT LTD
560	74863	DHANDHAN TREXIM PVT.LTD.
561	65526	DHIRAJ TRADING COMPANY PVT.LTD.
562	69642	DIACH METALS & ALLOYS PVT.LTD.
563	55985	DIAL DATA SERVICES PVT.LTD.
564	52110	DIAMOND BOX & COMPANY PVT. LTD.
565	74075	DICE DECO PVT.LTD.
566	29733	DICHROMATES INDIA PVT LTD
567	67191	DIDWANIA FINANCE PVT.LTD.
568	57513	DIGANTA CLINIC & NURSING HOME PVT.LTD.
569	91489	DIGITAL DATA SERVICES PRIVATE LIMITED

570	85358	DIGITAL SOURCE PRIVATE LIMITED
571	82606	DIGNITY COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
572	83038	DIGNITY MARKETING PRIVATE LIMITED
573	51904	DIGVIJAY FINVEST PVT. LTD.
574	29899	DIJI ESTATES PVT LTD
575	45408	DIJIT CASSETTES PVT LTD
576	57041	DILIP INTERNATIONAL PVT.LTD.
577	7582	DILIP ROY (TRANSPORT) PVT LTD
578	79649	DIPLOK PROPERTIES PVT LTD
579	47153	DISPO PLAST PVT. LTD.
580	5467	DIVERSE TEX PVT.LTD.
581	63158	DKS CONSOLIDATED PROFESSIONAL SERVICES PVT.LTD.
582	33168	DOLDIN TRADE & INVESTMENT PVT.LTD.
583	5009	DOLEX SALES AGENCIES PVT.LTD.
584	29821	DOLL CHEM INDUSTRIES PVT LTD
585	64543	DOLPHIN DEALCOMM PVT.LTD.
586	89945	DOLPHIN RESEARCH FOUNDATION LIMITED
587	24055	DOOM DOOMA AUTOMOBILES PVT LTD
588	45339	DORWELL WOOD INDIA PVT LTD
589	76806	DOSAN ENTERPRISES PVT LTD
590	71236	DOVER MEDICAL CENTRE PVT.LTD.

591	54453	DOWELL SAVINGS & HOUSING INVESTMENT (INDIA) LTD.
592	44441	DOWN EAST TOWERS PVT LTD
593	54013	DPCSD CONSTRUCTION & LEASING CO. PVT LTD.
594	31332	DRUG CHAMBER PVT LTD
595	54070	DU INVESTMENTS LTD.
596	43100	DUA AIR CON PVT LTD
597	34877	DUFF ARYAN MINERALS PVT LTD
598	92840	DULAL VEG & FOOD COLD STORAGE CO. PRIVATE LIMITED
599	59816	DUNCANS SUGAR LTD.
600	33575	DUNHIL PROPERTIES & INVESTMENTS LTD.
601	51827	DURGAPUR PHARMACEUTICALS WORKS PVT.LTD.
602	33258	DURGESH FINANCIERS & INVESTORS LTD
603	65227	DURSFA REAL ESTATE DEVELOPMENT SERVICES PVT. LTD.
604	56441	DUTTA'S PLASTICS PVT.LTD.
605	66076	DWARIKAPURI EXIMPORT PVT.LTD.
606	81035	DWIJENDRA BIRI FACTORY PVT LTD
607	44139	DYNA AUTOMOBILES COMPANY PVT LTD
608	44260	DYNAMIC ELECTRO VISION PVT LTD
609	80050	DYNASTY INDUSTRIES LTD.
610	33523	DYTRON (INDIA) LTD

611	48050	EAGLE JUTE COMPANY PVT. LTD.
612		EAGLE PRINTERS & STATIONERS PVT LTD
613	69553	EAST COAST LPG BOTTLING PLANT PVT.LTD.
614	11477	EAST EKRA COLLIERY CO PVT LTD
615	64272	EAST INDIA CYLINDER PVT. LTD.
616	31430	EAST INDIA GEARS PVT LTD
617	85772	EAST WEST AIR CONDITIONING PRIVATE LIMITED
618	29957	EASTERN BETCO PVT LTD
619	27278	EASTERN BOILER MOUNTINGS PVT LTD
620	77228	EASTERN CALIBRATORS AND CONSULTANTS INDIA PVT LTD
621	31948	EASTERN COKE MANUFACTURING CO. PVT. LTD.
622	90611	EASTERN DYECHAM PRIVATE LIMITED
623	30642	EASTERN FINE-O-SYNTHETIC PVT LTD
624	27102	EASTERN GRAPHITE & MINERALS PVT LTD
625	71593	EASTERN INDIA TELELINK PVT.LTD.
626	78104	EASTERN NICHOLAI PVT LTD
627	53791	EASTERN PHYTO CHEMICALS MANUFACTURE & RESEARCH PVT.LTD.
628	81036	EASTERN REALTORS & CONSULTANTS PVT LTD
629	59797	EASTERN SCAN SYSTEM (INDIA) PVT. LTD.
630	25216	EASTERN STEEL AND ENGINEERING CORPN.PVT LTD
631	50885	EASTERN TOOLS MANUFACTURING PVT.LTD.

632	77090	EASTERN TRANSCOM PVT LTD
633	44074	EASTERN VIDEO PVT LTD
634	29878	ECLAT PRINTING PRESS PVT LTD
635	75252	ECLECTIC IMPEX (INDIA) PVT.LTD.
636	31559	ECONOMIC DATA CENTRE PVT LTD
637	29745	ECONOMIC METALS PVT LTD
638	65185	ECRIT SYSTEMS PVT. LTD.
639	43765	EDEN NURSING HOME PVT LTD
640	53510	EDUCATION EMPORIUM PVT. LTD.
641	37745	EFFECTIVE DATA CONTROL SERVICES PVT.LTD.
642	41686	EI ELEKTRONIKA PVT. LTD.
643	43125	EISKU AGRO INDUSTRIES PVT LTD
644	58706	EKABINGSHASTABDI ENTERPRISES PVT. LTD.
645	24959	ELECTRICAL INSULATING TUBES PVT LTD
646	31245	ELECTRO METAL (INDIA) PVT.LTD.
647	40584	ELECTROMECARR (INDIA) PVT. LTD.
648	37915	ELECTRONIC INDUSTRIES INDIA PVT LTD
649	78827	ELEGANT MERCHANTS PVT LTD
650	33314	ELEKTRO TECHNIKA (INDIA) PVT LTD
651	84809	ELITE TEA SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
652	33226	ELITE TRADERS & EXPORTERS PVT. LTD.

653 60060	ELLEN INVESTMENT COMPANY (INDIA) LTD.
654 70020	ELLORA DEALERS PVT.LTD.
655 27737	ELMA POWER ARCS PVT LTD
656 55711	EMDITEX EXIM PVT. LTD.
657 53543	EMECON CONSULTANTCY PVT. LTD.
658 70025	EMERELD VINIMAY PVT.LTD.
659 54164	EMG HOLDINGS LTD.
660 57892	EMPRO MERCHANTS PVT.LTD.
661 59961	EMT ENGINEERS PVT. LTD.
662 58192	EMTRI ENTERPRISES PVT. LTD.
663 33837	ENAMOUR INVESTMENTS LTD
664 32799	ENCORE EXPORT PVT LTD
665 62849	ENDEAVOUR AQUA LIFE PVT. LTD.
666 57864	ENDOW COTTEX PVT.LTD.
667 30429	ENES ENTERPRISES (ENGINEERING) PVT LTD
668 57774	ENMORE COMMODITIES PVT.LTD.
669 68353	ENRON TECHNOLOGIES PVT. LTD.
670 80947	ENVROMIN PROJECTS PVT LTD
671 88460	EPHARMA MARKETING PRIVATE LIMITED
672 62836	EQUINOX ENGINEERING PVT.LTD.
673 57532	ERECON HOUSING FINANCE COMPANY LTD.

674 30661	ERMOS INDIA PVT LTD
675 83880	ESARKAY NIRMAN PRIVATE LIMITED
676 30577	ESKAY (PARIVAR) PROPERTIES PVT LTD
677 57233	ESSARR HOUSING & FINANCE LTD.
678 50390	ESSEM FABRICATORS PVT LTD
679 29777	ETA CONSULTANTS PVT LTD
680 48871	ETHNARCH PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
581 61598	EUAM COMMERCIAL COMPANY PVT. LTD.
682 43971	EURO SERVICES & HOLDINGS PVT LTD
583 54720	EVEREST AGRO PVT.LTD.
684 56555	EVEREST INVESTMENT AND LEASING LTD.
685 45304	EVEREST LIAISON COMPANY PVT LTD
686 58524	EVEREST TRANSFORMERS PVT. LTD.
687 27632	EVERFRESH TEA CO PVT LTD
588 61300	EVERGREEN ISPAT PVT. LTD.
689 63416	EVERGREEN TIE-UP PVT. LTD.
690 36283	EVERLAST HOLDINGS LIMITED
691 63693	EVERWHERE EXPORTS PVT. LTD.
692 70022	EXCELLON COMMODITIES PVT.LTD.
693 43020	EXCEPTIONAL CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
694 82702	EXCLUSIVE MERCHANDISE PRIVATE LIMITED

695 29979	EXPRESS INVESTMENTS PVT LTD
696 55210	EXPRESS LEASE & FINANCE PVT. LTD.
697 55164	EXTOL CREDIT & HOUSING LTD.
698 85808	F H E AGRO RICE MILL PRIVATE LIMITED
699 29615	F.K.BUILDERS & CONSULTANTS PVT LTD
700 55686	FAIR RIGHT PROPERTIES PVT.LTD.
701 56368	FAIR VIEW HOUSING FINANCE & INVESTMENT COMPANY (INDIA) LTD.
702 81705	FARMSTAR (INDIA)PRIVATE LIMITED
703 57817	FAROS CREDIT & HIRE PURCHASE (INDIA) LTD.
704 88812	FASHIONADA EXPORTS PRIVATE LIMITED
705 60138	FAV CONSTRUCTION FINANCE INDIA LTD.
706 55163	FAVOUR FINVEST & COMPANY (INDIA) LTD.
707 57552	FAVOURABLE ENTERPRISES LTD.
708 50585	FDT TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD.
709 61386	FELEX ENGINEERING & TEXTILES PVT. LTD.
710 83512	FERRO PROJECTS LIMITED
711 56265	FESCO ENGINEERS PVT. LTD.
712 52969	FESTINO COAL & COKE PVT. LTD.
713 57873	FESTIVAL FINANCE INVESTMENT LTD.
714 54267	FICOL TRADING & INVESTMENT LTD.

715 63850	FIDUS PROJECTS PVT. LTD.
716 22325	FIGGIS PVT LTD
717 57360	FINE PRINT PVT.LTD.
718 68127	FIRST ROW DEALERS PVT.LTD.
719 37401	FIT PACK PLASTICS PVT LTD
720 29642	FITWELL FASTENERS (INDIA) PVT LTD
721 82537	FITWORTH IMPEX PRIVATE LIMITED
722 57440	FIZZA VINIYOG PVT. LTD.
723 67856	FONTANA AGENCIES PVT. LTD.
724 63583	FORSEELA SECURITIES LTD.
725 46900	FORTUNE PROMOTERS PVT LTD.
726 56584	FRESH 'N SOFT FOOD PRODUCTS P LTD.
727 31262	FRIENDS PRESS METAL PVT. LTD.
728 31049	FULL ROUND CO PVT LTD
729 67457	FULLBLOOM DISTRIBUTORS PVT. LTD.
730 67463	FULLBLOOM MARKETING PVT. LTD.
731 63049	FULPI PROPERTIES PVT. LTD.
732 59444	FURORE AUTO PVT. LTD.
733 60335	FUTURA CAPITAL MARKETING SERVICES LTD.
734 54448	FUTURE LIFE FINCO & INVESTMENT LTD
735 54366	FUTURE LIFE SAVINGS & FINVEST LTD

736	46952	FUTURISTIC BUSINESS PVT LTD.
737	86127	G S A DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
738	28505	G.D.C.CARRIERS PVT LTD
739	29424	G.D.M.CONTAINERS PVT LTD
740	55891	G.L. IMPEX PVT. LTD.
741	81461	G.M.BUILDING COMPLEX COMPANY LIMITED
742	29656	GADADHAR INVESTMENTS PVT LTD
743	60478	GAINWELL COMMERCIAL PVT. LTD.
744	36272	GAJANAND VYAPAR LTD
745	73338	GAM TRADEFIN PVT.LTD.
746	62990	GANAPATI MANAGEMENT AND CONSULTANCY SERVICES LTD.
747	80953	GANAPATI PRACHAR PVT LTD
748	84586	GANAPATI TEA CO. LIMITED
749	68421	GANDEVI TRADELINK PVT.LTD.
750	73057	GANDHI AND GANDHI ENTERPRISES PVT LTD
751	78248	GANESH DEALING PVT LTD
752	78814	GANESH DEALING PVT LTD
753	60757	GANGA FINESSE PVT. LTD.
754	61585	GANGADHARAM SALES PROMOTION PVT. LTD.
755	31239	GANPAT CHEMICALS INDUSTRIES PVT LTD
756	78772	GARDEN COMMODITIES PVT LTD

757	54474	GARNET FINANCE & INVESTMENT (INDIA) LTD.
758	60452	GATEWAY TWENTYONE SERVICES PVT. LTD.
759	66777	GATHERED MERCHANTS PVT.LTD.
760	54478	GATISHEEL COMMERCIAL & CREDIT PVT. LTD.
761	84458	GAURAV TRADERS PRIVATE LIMITED
762	21912	GAY GAY AUTOMOBILES CO PVT LTD
763	30641	GAZANUND BISSESSWARLALL & CO. PVT LTD
764	62571	GAZEL COMMERCIAL PVT. LTD.
765	56221	GBS CASSETTES & RECORDS COMPANY PVT. LTD.
766	33352	GEE DEE PACKING ENTERPRISES PVT LTD
767	46113	GEETA CREDIT & TRADERS PVT LTD.
768	75204	GEETA FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.
769	87519	GEETANJALI MANSIONS PRIVATE LIMITED
770	64936	GEETANJALI TOWNSHIP COMPLEX PVT. LTD.
771	48124	GELCOLD AIRCONDITIONING PVT LTD
772	63690	GEMINI HI-BRED SEEDS PVT. LTD.
773	88831	GENERAL DYNAMICS PRIVATE LIMITED
774	14182	GENERAL INSTRUMENT CO PVT LTD
775	30193	GENERAL SAVINGS & CHIT FUND PVT. LTD.
776	59895	GENESIS CONSULTING PVT. LTD.
777	54461	GENESIS TRADES & AGENCIES PVT. LTD.

778	48072	GENUINE HOLDINGS PVT. LTD.
779	21459	GHANASHYAMDAS JAIDAYAL PVT LTD
780	64658	GILTEDGE ADVERTISING & MARKETING PVT.LTD.
781	63366	GIMPEX TRADE PVT. LTD.
782	56456	GIRIJANANDA AGENCY SERVICES PVT TLD.
783	46856	GIRIRAJ SHELLAC INDUSTRIES PVT LTD.
784	68240	GLADIATOR GOODS PVT. LTD.
785	57384	GLADIATOR LEATHER COMPANY PVT.LTD
786	33973	GLAMOUR PICTURES PVT LTD
787	66775	GLIMPSE TRADERS PVT.LTD.
788	71310	GLITZ EXPORTS PVT.LTD.
789	68766	GLOBE TROTTERS PVT. LTD.
790	58839	GMI INVESTMENT PVT. LTD.
791	55507	GOD BLESS CREDIT & FINANCE COMPANY LTD.
792	52816	GODHULI FINANCE & HIRE PURCHASE COMPANY PVT. LTD.
793	71701	GODWAD MARKETING PVT.LTD.
794	56379	GOD-WIN FINVEST & CREDIT COMPANY (INDIA) LTD.
795	54222	GOKUL INVESTMENTS LTD.
796	27783	GOLAMBO EXPORTS PVT LTD
797	27301	GOLCHHA TEXTILES PVT LTD
798	63955	GOLD CREST MERCHANT PVT. LTD.

799 58517	GOLDEN BANYAN FINVEST (INDIA) LTD.
800 72494	GOLDSTAR EXPORTS PVT.LTD.
801 55091	GOLPARR COMPLEX PVT. LTD.
802 86583	GOMATI MARKETING PRIVATE LIMITED
803 76330	GOOD EARTH PROPERTIES PVT LTD
804 53545	GOOD FOOD MANUFACTURING PVT. LTD.
805 57668	GOODEARTH EXPORTS PVT.LTD.
806 47765	GOODFAITH INVESTMENTS PVT. LTD.
807 63954	GOODMAN CONTRA PVT. LTD.
808 78825	GOODROCK TRADING PVT LTD
809 32974	GOOMBIRA WAREHOUSE PVT LTD
810 67152	GOONJA DISTRIBUTORS PVT.LTD.
811 53957	GOPE PHARMACEUTICALS & CHEMICALS PVT. LTD.
812 70447	GOPOSONS SUPPLIERS PVT. LTD.
813 56389	GOSHALA FARMS PVT.LTD.
814 44459	GOUR PACKAGING INDUSTRIES PVT LTD
815 30553	GOURAB (INDIA) PVT LTD
816 68216	GOURANG CHEMICALS PVT. LTD.
817 56581	GOURLAND SAVINGS & CREDIT COMPANY INDIA LTD.
818 36287	GOVIND VANIJYA LTD
819 25697	GOYAL CHEMICALS PVT LTD

820	36240	GRACE (INDIA) LTD
821	31106	GRAMIN MUTUAL BENEFIT SOCIETY PVT. LTD.
822	54819	GRANARY HOUSING FINANCE & CONSTRUCTION (INDIA) LTD.
823	58004	GRAPCO BREWERIES LTD.
824	55658	GRAPCO FINANCIAL SERVICES LIMITED
825	67830	GRAPCO SPINNING & KNITTING LTD.
826	67812	GRAPCO TEX-STYLES LTD.
827	65414	GRAPHS TRADE PROMOTER LTD.
828	43256	GRASSROOTS ENGINEERING PVT LTD
829	53747	GREAT WEL FINANCE & HOUSING (INDIA) LTD.
830	56325	GREEN BANYAN FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LTD.
831	55104	GREEN CHIP SYSTEMS DEVELOPMENT PVT. LTD.
832	52606	GREEN CROSS TRAVELS PVT. LTD.
833	70859	GREEN HORN VANIJYA PVT.LTD.
834	70860	GREEN HORN VINCOM PVT.LTD.
835	84168	GREENAGE AGROTECH LIMITED
836	54908	GREENDAY FINANCE & CREDIT COMPANY LTD.
837	76264	GREENFIELDS HANVITA AGRO PVT LTD
838	82754	GREENTECH FINANCE LIMITED
839	77774	GRINDWELL MARKETING PVT LTD
840	77439	GRINDWELL TRADERS PVT LTD

841	58197	GROWMORE MERCHANTS PVT. LTD.
842	65444	GUANJ VYAPAAR PVT.LTD.
843	68096	GUJARAT NRE FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.
844	68094	GUJARAT NRE GASES PVT.LTD.
845	44478	GULMARG ELECTRONICS PVT LTD
846	43717	GUNJAN ENGINEERING WORKS PVT LTD
847	77601	GUPTA AUTO FINANCE PVT LTD
848	65221	GUPTA FERROUS & NON-FERROUS PVT.LTD.
849	17894	GUPTA'S TEA HOUSE LTD
850	80747	GURUJI AGENT PVT.LTD.
851	33424	H T PRODUCTS PVT LTD
852	59965	H. MANDAL (ARCHTTECTS) PVT. LTD.
853	43835	H.S. HOLDINGS PVT LTD
854	31437	HABLE CONSTRUCTION PVT. LTD.
855	54729	HADLEY HYDRAULICS PVT. LTD.
856	76566	HALDEN IMPEX PVT LTD
857	52970	HALDER GLASS & SILICATE PVT. LTD.
858	66025	HALDIA SHIPPING AGENCIES PVT. LTD.
859	48057	HALDIA SAVINGS COMPANY PVT. LTD.
860	75764	HALMAN DESIGN PVT LTD
861	50514	HAMOUS FISCAL SERVICES PVT LTD

862	72753	HAMPSHIRE CONSULTANCY PVT LTD
863	66197	HAPPING MARKETING PVT. LTD.
864	27317	HAPPY LAND FARM PVT LTD
865	49221	HAPPY MERCANTILE COMPANY PVT.LTD.
866	78255	HARALALKA BHOWNIPORE TEXTILE PVT LTD
867	36334	HARE KRISHNA INVESTMENT & INDUSTRIES LTD
868	78823	HARIOM TRADERS PVT LTD
869	57889	HARISTA MERCHANTS PVT.LTD.
870	75477	HARLEY ENVIROFLO ASIA PVT.LTD.
871	69973	HARTS SALES PVT.LTD.
872	43935	HAS TRANSPORT INDUSTRIES PVT LTD
873	76820	HATHIMALL NIRMAL KUMAR PVT LTD
874	87630	HATI CONSTRUCTION CO. PRIVATE LIMITED
875	29858	HAYGREEV CREDIT & CHIT FUND CO PVT LTD
876	31397	HEATWELL (INDIA) PVT LTD
877	30552	HEBZE ENGINEER PVT LTD
878	55813	HEILGER SHIPPING AGENCIES & SERVICES PVT. LTD.
879	54006	HELLO HOUSING FINANCE & INVESTMENT LTD.
880	54223	HEMA LEFIN LTD.
881	34495	HEMNAGAR ENGINEEING WORKS PVT LTD
882	57637	HERALD HOUSING PVT.LTD.

883	45853	HEXAGONAL PROJECT CONSULTANTS PVT LTD.
384	76451	HI TECH WIRES PVT LTD
885	67472	HIFILL VYAPAAR PVT. LTD.
886	80625	HIGHGROWTH COMMERCIAL PVT.LTD.
887	80569	HIGH-TECH FIRE AND SECURITY SYSTEM PVT.LTD.
888	31266	HIMALAYAN CANNING CO PVT LTD
889	16196	HIMATSINGKA MILLS LTD
890	63587	HI-MAX ENTERPRISES PVT.LTD.
891	29503	HIMDOOT SAVINGS PVT LTD
892	44375	HIMEL ICE PVT LTD
893	43152	HINTEX TEA PVT LTD
894	29364	HIRAN TOBACCO FACTORY PVT LTD
895	80503	HI-TECH INDUSTRIAL PLANTS PVT LTD
896	80536	HITESH GARMENTS & FABRICS PVT LTD
397	43895	HITRONIC DIGITAL CONTROLS PVT LTD
898	75253	HMP TRADING PVT.LTD.
899	30870	HOLY INDIAN NATURAL PRODUCTS LTD
900	68242	HOLY-FAITH DISTRIBUTORS PVT. LTD.
901	37640	HEMOCARE PRODUCTS PVT LTD
902	51531	HOMELY SAVINGS & INVESTMENT COMPANY PVT. LTD.
903	63073	HONTS DEVELOPERS PVT. LTD.

904	85625	HOOGLY CABLES PRIVATE LIMITED
905	86466	HOOGLY INDUSTRIAL PROJECTS LIMITED
906	31495	HOOGLY LIGHTERAGE CO PVT LTD
907	37816	HOOGLY STANDARD INDUSTRIES PVT LTD
908	56629	HOOGLY SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO P LTD.
909	84418	HOPE EDUCATION INSTITUTE PRIVATE LIMITED
910	66951	HORIZON CAPITAL MARKET LTD.
911	83151	HORT MERGENSER LIMITED
912	77532	HOTEL EPICURUS PVT LTD
913	27672	HOTEL NALANDA PVT LTD
914	36496	HOUSE OF EXPORTS LTD.
915	64454	HOWRAH ESTATES PVT. LTD.
916	84485	HOWRAH TOWERS PRIVATE LIMITED
917	63553	HYDEX COMMERCIAL PVT. LTD.
918	45949	HYDRAX MARKETING PVT LTD
919	36284	HYUNDAI FINANCIAL SERVICES LTD.
920	60224	I.C. CONSULTANTS PVT. LTD.
921	89910	IA POWER DEVELOPMENT (INDIA) LIMITED
922	57376	ICITI EXSER PVT.LTD.
923	54251	ILA HOLDINGS PVT LTD.
924	57837	ILLUSIONS EXPORTS PVT.LTD.

925 52957	IMAGE MAKER (TUFFEN) PVT. LTD.
926 48288	IMPERIAL FISCAL SERVICES PVT LTD
927 21029	IMPEX CALCUTTA PVT LTD
928 70923	IMPEX INDIA TRADING & MANUFACTURING PVT.LTD.
929 54846	INCOS COMPONENTS PVT LTD.
930 33751	INDEV DEVELOPMENT CO LTD
931 69648	INDIA CONCORD TRADING & FINANCE COMPANY PVT.LTD.
932 27029	INDIA CROSS MACHINES LTD.
933 29359	INDIAN CROP MANAGEMENT PVT LTD
934 30520	INDIAN FISHERIES PVT LTD
935 78829	INDIVAR COMMERCIAL PVT LTD
936 25800	INDO -BENGAL PLASTIC ASSOCIATION
937 81526	INDO BRITISH PROMEGA PRIVATE LIMITED
938 21161	INDO NEPAL CORPN PVT LTD
939 36529	INDRAMANI (INDIA) LTD
940 63339	INDRAPRASTHA ESTATES LTD.
941 48109	INDRAPURI LAND & HOUSING ESTATE PVT LTD
942 63041	INDROPA TRADERS PVT. LTD.
943 27454	INDU PLASTICS (SALES) PVT LTD
944 45701	INDU SILICA PRODUCTS PVT LTD.
945 83926	INDUSTRIAL CARBIDE & TOOLS PRIVATE LIMITED

946	66206	INDUSTRIAL COMPONENTS BKM PVT. LTD.
947	25712	INDUSTRIAL FUEL AND LUBRICANTS PVT.LTD.
948	29515	INDUSTRIAL INSTRUMENTS (CALCUTTA) PVT LTD
949	15841	INDUSTRIAL SERVICE & ENGINEERS PVT LTD
950	59718	INFINITI RESEARCH PVT. LTD.
951	91490	INFO IDEAS TECH PRIVATE LIMITED
952	91488	INFO WEB SOFTWARE PRIVATE LIMITED
953	91487	INFOCELL TECH PRIVATE LIMITED
954	21210	INKAYS AGENCIES PVT LTD
955	8634	INSURANCE OF INDIA LTD
956	59611	INTEGRATED LOGIC SYSTEMS PVT. LTD.
957	72027	INTER COMMERCE SERVICES PVT.LTD.
958	22910	INTERNATIONAL STEELS PVT LTD
959	38705	INTEROCEAN SHIPPING (CALCUTTA) PVT.LTD.
960	72203	INTEX INDIA CONSULTANTS PVT. LTD.
961	48150	INTIMATE SAVINGS & CREDIT PVT LTD
962	85233	INVINCIBLE ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
963	66031	IPCA COMMODITIES PVT.LTD.
964	43950	IPS PACKAGING PVT LTD
965	75066	IRIS MEDIA AND COMMUNICATION PVT. LTD.
966	75068	IRIS SURGICAL & PHARMACEUTICALS PVT. LTD.

967	54029	ISEPS GENERAL FINANCE & INVESMTMENT LTD.
968	34446	ISSAR POLY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
969	34680	ITC TEAS PVT LTD
970	56525	J J SPINNERS LTD.
971	30669	J S EXPORTS PVT LTD
972	62048	J. SENGUPTA & ASSOCIATES (CONTRACTORS) PVT. LTD.
973	45126	J.P.CHANDRANI PVT LTD
974	67507	JAGDAMBA PLANTATION PVT.LTD.
975	68215	JAHURA CONTRACTORS PVT. LTD.
976	73350	JAI MAATARA COLD STORAGE PVT.LTD.
977	56775	JAILALITA MERCANTILES PVT. LTD.
978	31013	JAIN & ASSOCIATES (INDIA)PVT LTD
979	43891	JAIN ART PRINTING PRESS PVT LTD
980	37595	JAIN FINANCE & LEASING CO LTD
981	2760	JAINTY (CENTRAL) COLLERY LTD
982	78105	JAIRAJ EMPORIUM PVT LTD
983	75284	JAISWAL ELECTRICALS PVT.LTD.
984	02160	JALPAIGURI LAXMI LOAN OFFICE LTD
985	58132	JAL-TARANGA SAVINGS & FINANCE PVT. LTD.
986	75092	JANGAN FINVEST (INDIA) LTD.
987	55650	JANRKSHA SAVINGS & INVESTMENT LTD.

988 33061	JANTEJ COMMERCIAL ENTERPRISES LTD
989 63677	JAPS IMPEX PVT. LTD.
990 33295	JATADHATRI CHEMICAL WORKS PVT LTD
991 21482	JATASHANKER & CO PVT LTD
992 33526	JATEX COMMERCIAL CO LTD
993 59937	JATIA LEASING PVT. LTD.
994 55932	JAWAN BIRI PVT. LTD.
995 53813	JAYANTI CHEMICALS & PIGMENTS PVT. LTD.
996 21483	JAYANTILAL & SONS PVT LTD
997 63731	JAYASWAL HOUSING DEVELOPMENT PVT.LTD.
998 68471	JAYMAN TRADE PVT.LTD.
999 31126	JAYSIL PVT LTD
1,000 47540	JEET PROCESS SUPPLY COMPANY P. LTD.
1,001 33378	JEEVAK PHARMACEUTICALS PVT LTD
1,002 66593	JET AGE COMMERCIAL COMPANY PVT.LTD.
1,003 90660	JET AIRBASE AND MAINTANANCE PRIVATE LIMITED
1,004 82524	JET GROWTH CAPITAL MARKETS LIMITED
1,005 69572	JETAIR MARBLE PVT.LTD.
1,006 69571	JETAIR SUPPLY PVT.LTD.
1,007 30313	JEWEL INVESTMENTS LTD

1,008 66529	JEWELROCK TIE-UP PVT.LTD.
1,009 18277	JHAJHARIA TRADING CO LTD
1,010 60126	JHANKAR SAVINGS & INVESTMENT (I) LTD.
1,011 57409	JHAWAR CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
1,012 68772	JHIK-JHIK VINIMOY PVT.LTD.
1,013 27675	JHUNJHUNU AGENTS PVT LTD
1,014 46517	JHUNJHUNWALA CREDITS PVT LTD
1,015 63585	JJARJEE ROADWAYS PVT.LTD.
1,016 75514	JINEN FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.
1,017 59721	JITENDRA MEMORIAL MEDICAL SERVICES PVT. LTD.
1,018 74166	JKB BUILDERS PVT.LTD.
1,019 71849	JKM BUILDERS PVT.LTD.
1,020 71850	JKM REAL ESTATE PVT.LTD.
1,021 77558	JMS CONSULTANTS PVT LTD
1,022 25674	JNANALOKE PVT LTD
1,023 29541	JOGAMAYA SAVING & INVESTMENT SCHEMES PVT LTD
1,024 54151	JOINTOP SAVINGS(INDIA) LTD.
1,025 31334	JONSON PRODUCTS PVT LTD
1,026 86084	JOY CITY HOTEL RESORTS PRIVATE LIMITED
1,027 50590	JOYGURU RICE MILL PVT. LTD.
1,028 77655	JOYLAND MERCHANTS PVT LTD

1,029	82658	JSB TRADING PRIVATE LIMITED
1,030	50062	JUBILEE DEVELOPERS PVT LTD
1,031	65613	JUHI FABTRADE PVT.LTD.
1,032	56303	JUHI SALES & SUPPLIERS PVT.LTD.
1,033	29966	JULLIE CHIT SAVING & FINANCE CO PVT LTD
1,034	22414	JUPITER UNION (INDIA) PVT LTD
1,035	82124	JUTE PRODUCTS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1,036	56900	JVINE IMPEX PVT.LTD.
1,037	30261	K L BAGRI (STEEL) LTD
1,038	75301	K M N TRADERS & EXPORTERS PVT.LTD.
1,039	48961	K.C. PAUL ELECTRONICS PVT. LTD.
1,040	81499	K.C.S COURIER SERVICE PRIVATE LIMITED
1,041	62384	K.J. FINVEST PVT. LTD.
1,042	58541	K.K. FINANCE PVT. LTD.
1,043	24954	K.K.ROY PVT LTD
1,044	53960	K.STEEL & COMPANY PVT. LTD.
1,045	30505	KABITA FINANCE & INVESTMENT CO LTD
1,046	74627	KADAM PLANTATION PVT.LTD.
1,047	71374	KADAMBARI FUNDS PVT.LTD.
1,048	57462	KAILASH FARMS PVT.LTD.
1,049	80844	KAIZAN MANAGEMENT SERVICES PVT LTD

1,050	82047	KAIZEN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1,051	63797	KAIZER ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD.
1,052	61387	KAKDWIP SAVINGS & INVESTMENT COMPANY LTD.
1,053	50481	KAKRANIA IMPEX PVT LTD
1,054	62386	KAKUSAI ELECTRONICS PVT. LTD.
1,055	79934	KALI HOUSE PVT.LTD.
1,056	47580	KALPANA COMBINES PVT LTD.
1,057	85999	KALYANESHWARI BAKERS PRIVATE LIMITED
1,058	65735	KALYANI DIGONASTIC CENTRE PVT.LTD.
1,059	55927	KALYANI PRESSINGS LTD.
1,060	78981	KALYANKARI MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
1,061	54148	KAMAL CONSTRUCTION & ENCLAVE PVT LTD.
1,062	74472	KAMALA BRAZINGS PVT. LTD.
1,063	66096	KAMRUP TIE-UP PVT. LTD.
1,064	30561	KANCHAN FINANCE DEVELOPMENT CO LTD
1,065	54371	KANCHAN KARISHMA CREDIT INDIA LTD.
1,066	66419	KANCHANJUNGA HI TECH PVT. LTD.
1,067	61035	KANCHRAPARA BENEFICIAL FINVEST (INDIA) PVT. LTD.
1,068	34803	KANDOI PROPERTIES PVT LTD
1,069	53931	KANHA TEA PACKAGING PVT. LTD.
1,070	33821	KANISK UDYOG VINIYOG LTD

1,071	80877	KANOCEAN EXPORT PVT.LTD.
1,072	37666	KANPUR CIGARETTES LTD.
1,073	4292	KARANPURA COLLIERIES LTD
1,074	60243	KARNIKA COMMERCIALS PVT.LTD.
1,075	81306	KARUNDIA TRANSPORT AGENCY PVT LTD
1,076	59754	KASPROB ENGINEERING PVT. LTD.
1,077	36676	KATHADIA TECHNO-ENGINEERING PVT LTD
1,078	71281	KATIA STEELS PRIVATE LIMITED.
1,079	50320	KAY ENTERPRISES PVT LTD
1,080	21356	KAYAR PVT LTD
1,081	80180	KAYCON ENGINEERING SERVICES PVT.LTD.
1,082	60092	KBS HOLD CON PVT LTD.
1,083	35304	KCBP CONSULTANTS PVT LTD
1,084	50765	KEATS TRADING PVT.LTD.
1,085	16533	KEDAR NATH MUKHERJEE & SONS PVT LTD
1,086	31232	KEDAR NATH TRADING & INVESTMENT CO P LTD
1,087	8739	KEDARNATH PARSOTAM DAS & CO PVT LTD
1,088	58300	KEDIA MERCHANTS PVT. LTD.
1,089	33254	KEDIA PRESS & PACKAGING INDUSTRIES PVT LTD
1,090	29153	KENAPO CRIMPERS PVT LTD
1,091	29751	KERALA PLASTICS PVT LTD
1,092	63654	KESHAV VINIMAY PVT. LTD.

1,093	25790	KEYEN CHEMICALS CO PVT LTD
1,094	36713	KEYNING CHROME & CHEMICALS PVT LTD
1,095	52835	KEYSTONE CONSTRUCTION PVT. LTD.
1,096	68673	KEYTOUCH ENGINEERING WORKS PVT.LTD.
1,097	65740	KHAITAN FISCAL SERVICES PVT.LTD.
1,098	56580	KHAITAN NILLIAMSON TEA LTD.
1,099	14518	KHAS SAMPORE COAL CO LTD
1,100	31341	KHEMKA TRADING ENTERPRISES PVT LTD
1,101	40065	KHEPA CASTING INDUSTRIES PVT LTD
1,102	77399	KHURSHID EXPORT PVT LTD
1,103	54030	KINETIC GENERAL FINANCE & INVESTMENT LTD.
1,104	63988	KINGSTON CONSULTANT AND INSURANCE SURVEYOR PVT. LTD.
1,105	74811	KIRAN DEALER PVT.LTD.
1,106	74868	KIRPAL SINGH & CO.(JUTE) PVT.LTD.
1,107	56224	KIRTI EXIM & SUPPLIERS PVT. LTD.
1,108	36364	KISALAYA GENERAL FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD
1,109	86987	KISSAN TILLERS AND TRACTORS LIMITED
1,110	43872	KISY CONSTRUCTION PVT LTD
1,111	76990	KKG SHARES & STOCK BROKERS PVT LTD
1,112	66865	KLAPP VYAPAAR PVT. LTD.
1,113	62141	KMS CONTAINERS PVT. LTD.

1,114	31283	KNOBS & KNOCKER (INDIA) PVT LTD
1,115	79965	KOHINOOR ENTERPRISES PVT LTD
1,116		KOHINOOR ENTERPRISES PVT.LTD.
1,117	69575	KOKAW VYAPAAR PVT.LTD.
1,118	79133	KONARK LODGE PVT.LTD.
1,119	69569	KONKAN VYAPAAR PVT.LTD.
1,120	43978	KOOL CAVE COMPNAY PVT LTD
1,121	71110	KOOL HERBS PVT.LTD.
1,122	55917	KOPACK INVESTMENT PVT. LTD.
1,123	43830	KORROS DATA (INDIA) PVT LTD
1,124	60635	KRAFMARK EXPORTS PVT. LTD.
1,125	80922	KRINS ELECTRONICS PVT.LTD.
1,126	61483	KRIPS CONFECTIONERIES PVT. LTD.
1,127	48004	KRISHNA DAIRY PVT LTD
1,128	65462	KRISHNA EQUITY FUND LTD.
1,129	79631	KRISPOS FOODS PVT LTD
1,130	55693	KRUPP STEELS PVT. LTD.
1,131	68626	KSHITIZ MARKETING PVT.LTD.
1,132	56005	KULIK SAVINGS & INVESTMENT COMPANY LTD.
1,133	21437	KUNDAN TEXTILES PVT LTD
1,134	79878	KUNDU FINANCE & INVESTMENT LTD

1,135	31529	L C LAW & CO PVT LTD
1,136	67452	L.A. FUNDS INVESTMENTS PVT. .LTD.
1,137	55852	L.N. BUILDERS PVT. LTD.
1,138	57510	L.N. HOUSING DEVELOPMENT PVT. LTD.
1,139	33503	LADHLI TEXTILES & INVESTMENTS CO LTD
1,140	79958	LADY RAJSHAKTI FARM HOUSE PVT LTD
1,141	31103	LAHA PAINTS PVT LTD
1,142	30390	LAKE AVENUE AGENCY LTD.
1,143	79912	LALITAMBA PROPERTIES PVT LTD
1,144	58555	LAND MARK SERVICES PVT. LTD.
1,145	23370	LAND RECLAMATION CORPN LTD
1,146	80615	LARI FINANCE & HOLDINGS PVT LTD
1,147	43450	LASALE (INDIA) PVT LTD
1,148	17900	LAURY & CO PVT LTD
1,149	41645	LAV-KUSH HOTEL PVT. LTD.
1,150	65848	LAV-KUSH VINIYOG PVT.LTD.
1,151	25287	LAW MURRAY & CO PVT LTD
1,152	59729	LAXMI ROADWAYS PVT. LTD.
1,153	73587	LD PROJECTS PVT.LTD.
1,154	56348	LEAL ENTERPRISES PVT. LTD.
1,155	71096	LEBEN PHARMACEUTICALS PVT.LTD.

1,156 31254	LEENA TRADING COMPANY PVT LTD
1,157 59913	LEGENDRY SAVINGS & INVESTMENT INDIA LTD.
1,158 27724	LEILA PLASTICS PVT LTD
1,159 48135	LEO FARMS PVT LTD
1,160 60853	LEOEM ELECTRICALS PVT. LTD.
1,161 78287	LEONARD TRADES PVT LTD
1,162 33366	LES LIFT PVT LTD
1,163 3637	LIBERSON ENGINEERS PVT. LTD.
1,164 66549	LIBERSON GOODS & SUPPLIERS PVT.LTD.
1,165 89687	LIETRA HYDRAULICS PRIVATE LIMITED
1,166 56315	LIFE BOAT FINANCE & INVESTMENT (INDIA) LTD.
1,167 56428	LIFE BOAT SAVINGS & INVESTMENT COMPANY LTD.
1,168 56429	LIFE GAIN FINANCE & INVESTMENT LTD.
1,169 56227	LIFE HAPPY FINANCE & INVESTMENT LTD.
1,170 54441	LIFE SUPPORT SAVINGS & FINVEST LTD.
1,171 53954	LIGHT SHIP SAVINGS FINANCE AND INVESTMENT LTD.
1,172 50603	LIGNA CHEM PVT. LTD.
1,173 64088	LINK-DEV-MARK PVT.LTD.
1,174 57079	LISKA COMMERCIAL COMPANY PVT.LTD.
1,175 61977	LITTLE ROYAL KIDSWEAR PVT. LTD.
1,176 66532	LIVE-IN-STYLE TRADERS PVT.LTD.

1,177 31358	LOHARIWALA DEVTA CONSTRUCTIONS PVT LTD
1,178 56480	LOKAMANYA HOUSING FINANCE & INVESTMENT LTD
1,179 77777	LOKARPAN COMMERCE PVT LTD
1,180 78791	LOKESH MERCANTILES PVT LTD
1,181 58809	LOKNATH AUTOFIN PVT. LTD.
1,182 64806	LONG RANGE EXPORTS PVT. LTD.
1,183 30675	LOTUS STEELMECH GENERAL INDUSTRIES LTD
1,184 54384	LOVE SEEK CREDIT & FINVEST COMPANY LTD.
1,185 36697	LOWER ASSAM TIMBER PVT LTD
1,186 68570	LUCAS ENGINEERING PVT.LT.D
1,187 57328	LUDWIG COMMERCIAL COMPANY PVT.LTD.
1,188 62397	LUMINELLE ADVERTISING PVT. LTD.
1,189 91950	LUMINOUS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
1,190 56789	LUNDIA PRODUCTS PVT. LTD.
1,191 57507	LYNX HOLDINGS PVT.LTD.
1,192 86833	M B PLANTATION PRIVATE LIMITED
1,193 63666	M C S OVERSEAS PVT LTD.
1,194 21458	M G BHAGAT & SONS PVT LTD
1,195 19863	M L CHATTERJEE ESTATE PVT LTD
1,196 50445	M P APARTMENT AND RESORT PVT LTD

1.197 43096	M P MARBLE PVT LTD
1,198 29750	M P PLASTICS PVT LTD
1,199 84833	M R MANAGEMENT & CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1,200 68228	M. S. TRANSPORT & CONSTRUCTION PVT. LTD.
1,201 50545	M. SEAL TRADING PVT. LTD.
1,202 43038	M.B.BUILDERS PVT LTD
1,203 52769	M.E.C. TEA CHEST PVT.LTD.
1,204 78399	M.L.MOITRA & BROS. PVT LTD
1,205 56888	M.M.D. ENGINEERS PVT. LTD.
1,206 83178	M.P.OVERSEAS PRIVATE LIMITED
1,207 52532	M.S. ROTO ENGRAVERS & IMPEX PVT. LTD.
1,208 77643	M.S.EXPORTS PVT LTD
1,209 55173	MA MANASHA MEDICAL CENTRE PVT. LTD.
1,210 63836	MAA NISTRANI COLD STROAGE PVT. LTD.
1,211 79643	MAA VAISHNO MERCANTILES PVT LTD
1,212 52201	MAA VUMI PROPERTIES PVT. LTD.
1.213 81160	MACKEIL KOPP AUTO EQUIPMENTS PVT LTD
1,214 75672	MACMET DALEEN TELEWARE LTD
1,215 59169	MADHU CREDIT & COMMERCIAL LTD.
1,216 65747	MADHUVAN MARKETING PVT.LTD.

1,217	78231	MADRID COMMERCE PVT LTD
1,218	69955	MAGLE COMMERCIAL PVT.LTD.
1,219	57139	MAGNUM CONCLAVE FINANCE & INVESTMENT LTD.
1,220	49164	MAHADEV CREDIT & ESTATES PVT.LTD.
1,221	59804	MAHALAYA INVESTMENT PLANTATION & HIRE PURCHASE LTD.
1,222	50195	MAHARAJA BRICKS P LTD.
1,223	51730	MAHASWETA TRADING & INVESTMENTS PVT.LTD.
1,224	46385	MAHESHWARI DISTRIBUTORS PVT LTD
1,225	48128	MAHMIYA FERRO ALLOYS PVT LTD
1,226	50482	MAJAGDAMBA DEVELOPERS PVT LTD
1,227	48184	MAKESWORTH FISCAL SERVICES PVT LTD
1,228	69547	MAKLAM VYAPAAR PVT.LTD.
1,229	43719	MALDA PACKAGING INDUSTRIES PVT.LTD
1,230	27757	MALL AGENCIES PVT LTD
1,231	66588	MALMAJRA FINANCE PVT.LTD.
1,232	40676	MALVIKA LAMINATORS PVT. LTD.
1,233	39433	MAMTA CONSTRUCTION PVT LTD
1,234	53741	MAN SAROVAR SAVINGS & FINVEST LTD.
1,235	89679	MANADA RICE MILL PRIVATE LIMITED
1,236	68755	MANAVATA DEALING PVT. LTD.
1,237	039674	MANBHUM ALLOYS & STEEL PVT LTD

1,238	25634	MANDARIA ENGINEERING WORKS PVT LTD
1,239	53260	MANGAL JYOTI FINVEST & CREDIT LTD.
1,240	98800	MANGALA GOURI SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
1,241	48451	MANGALDEEP PICTURES PVT. LTD.
1,242	75521	MANGALPUR STEEL PVT.LTD.
1,243	47632	MANISH FISCAL SERVICES P. LTD.
1,244	58319	MANISHA ERECTORS & CONTACTORS PVT. LTD.
1,245	31154	MANJUSHREE PVT LTD
1,246	77305	MANOJ KUMAR MANISH KUMAR SECURITIES PVT LTD
1,247	56958	MANSAMATA CINEMA HALL PVT.LTD.
1,248	47284	MAPLE SHOE INDUSTRIES PVT. LTD.
1,249	48116	MARAD AGENCIES & SERVICES PVT LTD
1,250	57651	MARCANDY AQUABASE LTD.
1,251	77795	MARDA EXPORTS PVT LTD
1,252	01469	MARGARET'S HOPE TEA CO LTD
1,253	45546	MARIAM RICE MILL PVT. LTD.
1,254	60308	MARIANNE & CO. (HOTELS & TRAVELS) PVT. LTD.
1,255	50132	MARIGOLD FINCO P LTD.
1,256	64643	MARINE HYDRAULICS SERVICES PVT.LTD.
1,257	81451	MARINE TRANSMISSIONS PRIVATE LIMITED
1,258	30213	MARSHAL ENGINEERS & CONSULTANTS LTD

1,259	89538	MARTIN BRIGHT STEEL INTERNATIONAL LIMITED
1,260	78859	MARTIN COMMERCIAL PVT LTD
1,261	30711	MARUTI HOTELS LTD
1,262	55331	MARVEL INDIA LTD.
1,263	60964	MARVELLOUS ENGINEERING COMPANY PVT. LTD.
1,264	60743	MARVELON FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD.
1,265	56187	MARYADA TREXIM PVT. LTD.
1,266	68884	MASCOT IOTA AQUA COMMERCIAL COMPANY PVT.LTD.
1,267	78575	MASH TRADING PVT LTD
1,268	84765	MASS TECHNICAL SERVICE PRIVATE LIMITED
1,269	90715	MASTER TRAX INDIA PRIVATE LIMITED
1,270	99217	MATANGI COMMODITIES PRIVATE LIMITED
1,271	52654	MATE AUTO HELP PVT. LTD.
1,272	80683	MATU NEWSPRINT LTD.
1,273	58838	MAX CEMENT PVT. LTD.
1,274	57518	MAXLUX LEAD LTD.
1,275	84869	MAXWORTH TRADERS PRIVATE LIMITED
1,276	88131	MAYA PACKAGING PRIVATE LIMITED
1,277	34973	MAYFAIR ENGINEERS AND FABRICATORS PVT LTD
1,278	64333	MAYFAIR TOURS & RESORTS PVT.LTD.
1,279	31060	MAYUR EXPORTS PVT LTD
1,280	36296	MAYURAKSHI SUGAR MILLS PVT LTD

1,281 60536	MBA BUSINESS CENTRE PVT. LTD.
1,282 57597	MDK FINVEST PVT.LTD.
1,283 85165	MECHEM EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
1,284 54014	MEDI TEST LABORATORY PVT LTD.
1,285 72142	MEDIATECH CREDIT & SERVICES PVT.LTD.
1,286 73324	MEDIC-EASE EQUIPMENTS PVT.LTD.
1,287 48149	MEENA POLY PIPES PVT LTD
1,288 55582	MEGA BUCKS INVESTMENTS COMPANY PVT. LTD.
1,289 77782	MEGATREND TECHNOLOGIES PVT LTD
1,290 78279	MEGHANA MERCHANTS PVT LTD
1,291 81043	MEGHDOOT INVESTMENT COMPANY (INDIA) PVT LTD
1,292 66170	MEGHNA TIE-UP PVT. LTD.
1,293 55924	MEGNI TECH ENGINEERS PVT. LTD.
1,294 57146	MELIORATE ECONOMIC INVESTMENT PVT.LTD.
1,295 49573	MEMARI DISTRIBUTORS PVT.LTD.
1,296 64640	MEMBERS MUTUAL GUARANTEE LTD.
1,297 31034	MENASIAN ELECTRONICS PVT LTD
1,298 77631	MERC ELECTRONICS PVT LTD
1,299 58658	MERLIN INTERNATIONAL PVT. LTD.
1,300 54752	METALMAN LEASING & INVESTMENT LTD.
1,301 58360	METLEX TRADERS PVT LTD.
1,302 8793	METROPOLITAN BANK LTD

1,303	79804	MICRO CYCLES PVT.LTD.
1,304	80336	MICRO DIMENSIONS PVT.LTD.
1,305	45697	MICRO REPROGRAPHICS PVT LTD.
1,306	61655	MICRO SOLUS COMPUTERS PVT. LTD.
1,307	57622	MICRO TREND PVT. LTD.
1,308	54314	MICRON FINVEST COMPANY LTD.
1,309	63249	MIDAS PLASTO-FIN PVT. LTD.
1,310	59871	MIDDLETON ESTATES PVT. LTD.
1,311	34433	MIEDER CONSULTANTS PVT LTD
1,312	29768	MIHIJAM MACHINE TOOLS (INDIA)PVT LTD
1,313	54922	MIKOLIN CHEMICALS INDIA PVT. LTD.
1,314	51071	MILAN ADVISORY SERVICES PVT.LTD.
1,315	31568	MILES LABORATORIES PVT LTD
1,316	76919	MILESTONE COMMOTRADE PVT LTD
1,317	73183	MILVIN CLEAN & CARE SYSTEM PVT. LTD.
1,318	88860	MINA ART PRIVATE LIMITED
1,319	83852	MINDEL AGENCY PRIVATE LIMITED
1,320	78469	MINERVA EMPORIUM PVT LTD
1,321	50053	MINERVA TECH NOCRAFTS PVT LTD
1,322	65876	MINE-TECH AGENCIES PVT.LTD.
1,323	64316	MINI JUTE PROCESS PVT.LTD.

1,324 29527	MINI PAPER CONSULTANTS PVT LTD
1,325 67491	MIRANTZ SYSTEMS ELECTRONICS PVT.LTD.
1,326 24837	MIRBAHAR BROTHERS PVT LTD
1,327 48266	MISTER APPARELS PVT LTD
1,328 55864	MITALI PROJECTS PVT LTD.
1,329 55537	MITRA MARKETING & CREDIT PVT. LTD.
1,330 29789	MITTAL LIGHTINGS PVT LTD
1,331 24680	MITTER MANUFACTURING CO PVT LTD
1,332 84290	MJ CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1,333 79337	MLS CLINIC CENTRE PVT LTD
1,334 58957	MM ENTGERPRISES AND INVESTMENT CONSULTANTS PVT. LTD.
1,335 8976	MODEL KNITTING INDUSTRIES LTD
1,336 57839	MODERN ASSURANCE FINVEST COMPANY (INDIA) LTD.
1,337 71460	MODERN PETRO DISTRIBUTORS PVT.LTD.
1,338 45507	MODERN RICE INDUSTRIES PVT. LTD.
1,339 80010	MODERN SALES PVT LTD
1,340 59788	MODERN SUPPORT SERVICES PVT. LTD.
1,341 27735	MODERN TOY INDUSTRIES PVT LTD
1,342 46895	MODULAR CONSTRUCTION & DEVELOPMENT PVT LTD.
1,343 31563	MOHINDRA BHOOI PVT LTD
1,344 62194	MOHIT & COMPANY PVT LTD.

1,345 59557	MOHIT AGARWAL & COMPANY (TEA) PVT. LTD.
1,346 44791	MOLISA & COMPANY PVT LTD
1,347 48082	MONACO TRAVELS PVT LTD
1,348 31228	MONA-LISA STEELS& FORGINGS (P) LTD
1,349 33316	MONDAL MANUFACTURING CO PVT LTD
1,350 71148	MONDAL RICE MILL PVT.LTD.
1,351 57656	MONER MOTO FINANCE & INVESTMENT COMPANY PVT.LTD.
1,352 48165	MONO POLYMER PVT LTD
1,353 57649	MONO RAMA FINCON & ALLIED SERVICES PVT.LTD.
1,354 77468	MONTEX CONSULTANTS PVT LTD
1,355 068245	MOOD SUPPLY & GOODS PVT. LTD.
1,356 57961	MOONLIGHT SAVINGS & INVESTMENT INDIA PVT. LTD.
1,357 64419	MOONSTAR DEALER & SUPPLIER PVT.LTD.
1,358 64255	MORGAN MANAGEMENT PVT. LTD.
1,359 87130	MORRIS COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
1,360 66000	MORTAR MERCHANTS PVT.LTD.
1,361 56718	MORVI MOTORS P.LTD.
1,362 52101	MOTHER LAND INVESTMENT COMPANY LTD.
1,363 27695	MOTHERLAND INVESTMENT PVT LTD
1,364 58164	MOUNT VIEW EXPORTS PVT. LTD.

1,365 37612	MOYNA SAVINGS AND INVESTMENT (INDIA) LTD
1,366 82321	MPK ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1,367 62901	MRC MODULAR MARKETING PVT. LTD.
1,368 73867	MRINAL ESTATES PVT.LTD.
1,369 43142	MSDG RUBBERS & RESINS PVT LTD
1,370 54401	MSTS INVESTMENT PVT. LTD.
1,371 27350	MUKHERJEE BROTHERS (EXPORT HOUSE) PVT LTD
1,372 59423	MUKHERJEE ENGINEERING WORKS PVT. LTD.
1,373 55815	MUKHERJEE SCHERIBER INSTRUMENTS PVT. LTD.
1,374 33218	MUKJE AND ASSOCIATES PVT LTD
1,375 77755	MUKTA AGENCIES PVT LTD
1,376 79886	MUKTA DEVELOPERS PVT LTD
1,377 63066	MUKUL MILLS PVT. LTD.
1,378 60846	MUKUND FINALEASE LTD.
1,379 44736	MULTIMAX EXIM PVT LTD
1,380 61047	MULTIMODAL CARGO SERVICES INDIA PVT. LTD.
1,381 64661	MULTIMODE AQUAFARM LTD.
1,382 53962	MULTIPLEX COMMERCIAL CREDIT & SAVINGS COMPANY LTD.
1,383 63591	MUNILAL RAMESHWAR PRASAD SECURITIES PVT.LTD.
1,384 78221	MURASON AGENCIES PVT LTD

1,385 87317	MUSTAD INDIA MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
1,386 24714	MUTUAL COMMERCIAL CORPN PVT LTD
1,387 14660	MUTUAL PROPERTIES PVT LTD
1,388 85962	MVK SECURITIES PRIVATE LIMITED
1,389 29788	N.N.P. TRADING & INVESTMENTS PVT. LTD.
1,390 56366	N.P.A DEVELOPER & HOUSING FINCO LTD.
1,391 49244	N.S. ELECTRO EQUIPMENT PVT. LTD.
1,392 58531	N.S. FINANCE COMPANY LTD.
1,393 27532	NABA BANGA KRISHI SANSTHA PVT LTD
1,394 54175	NABA DISHARI TECHNO PVT LTD.
1,395 53955	NABADAYA LEASING & FINVEST (INDIA) LTD.
1,396 59228	NABARAJ SAVINGS AND CREDIT (INDIA) LTD.
1,397 8165	NABASAKTI NEWS PAPERS CO PVT LTD
1,398 21618	NABASRI TRANSPORT SERVICE PVT LTD
1,399 08329	NADIA AGRICULTURAL & INDUSTRIAL CORPN LTD
1,400 76576	NAGARIK PUBLICATION PVT LTD
1,401 88554	NAGPURIA AGRO COMPANY LIMITED
1,402 88555	NAGPURIA PUBLICATION COMPANY LIMITED
1,403 87657	NAKA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1,404 34545	NAKUL HOLDINGS PVT LTD
1,405 43553	NALANDA PUBLICATIONS PVT LTD

1,406 70884	NAMAN CONSULTANTS PVT.LTD.
1,407 45455	NANDANI ELECTRONICS PVT LTD.
1,408 35885	NARE SUGAR MILL PVT LTD
1,409 85235	NARMADA COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1,410 9403	NARSINGDAS HIRALAL PVT LTD
1,411 57594	NARWADA PROPERTIES PVT.LTD.
1,412 73932	NATARAJ MARKETING SERVICES PVT.LTD.
1,413 66109	NATCO COMMODITIES PVT. LTD.
1,414 8216	NATIONAL CHEMICAL & SALT WORKS (INDIA)
1,415 27604	NATIONAL TRAVEL AGENCY (INDIA) PVT LTD
1,416 31513	NATIVE FOOD PRODUCTS PVT LTD
1,417 30256	NATRAJ PINCLIP UDYOG PVT LTD
1,418 61785	NAV DURGA SAVINGS & VINIYOG LTD.
1,419 68796	NAVDEEP COMMERCIAL PVT. LTD.
1,420 69485	NAVDEEPAK COMMERCE PVT.LTD.
1,421 55707	NAVINON AGENCIES PVT. LTD.
1,422 55838	NAVIPON DISTRIBUTORS PVT. LTD.
1,423 81572	NAWAL FORMS PRIVATE LIMITED
1,424 73299	NAYANSUKH VINIMAY PVT.LTD.
1,425 84022	NCBA FINANCIAL SERVICES LIMITED
1,426 65430	NEEL JHEEL CONSTRUCTION PVT. LTD.
1,427 82990	NEELAMBER ENGINEERS PRIVATE LIMITED

1,428	71814	NEELGIRI SERVICES PVT.LTD.
1,429	83587	NEHA VINIMAY PRIVATE LIMITED
1,430	50524	NELSON TRADE PVT LTD
1,431	29766	NEO COAT (INDIA) PVT LTD
1,432	79388	NEO CONSULTANTS & ENGINEERS PVT LTD
1,433	61501	NEO SHELCON LTD.
1,434	79336	NEOSA LEASING & FINANCE PVT LTD
1,435	79143	NEPTUNE TRADERS PVT LTD
1,436	21478	NETAJI MOTOR SERVICE PVT LTD
1,437	29774	NEW ERA STEELS PVT LTD
1,438	80225	NEW ERA TIE-UP PVT LTD
1,439	15754	NEW HALFTONE PVT LTD
1,440	75422	NEW INFORMATION TECHNOLOGIES (INDIA) PVT.LTD.
1,441	65347	NEW INVENTION LEASING COMPANY LTD.
1,442	54041	NEW MULTI BOND ELECTRONICS PVT LTD.
1,443	57460	NEW PRECEED INDIA HOUSING FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD.
1,444	86218	NEW STAR COMTECH LIMITED
1,445	30588	NEW STEEL & ENGINEERING CO PVT LTD
1,446	47726	NEWSMAN MEDIA & DOCUMENTATIONS PVT LTD
1,447	61089	NGM TEA & TEA SERVICES PVT. LTD.
1,448	78275	NICHOLSON MERCHANTS PVT LTD

1,449	64704	NIDHI INTRA PVT.LTD.
1,450	69719	NIGHTINGALE PHARMA PVT.LTD.
1,451	34447	NIGHTINGALE PVT LTD
1,452	44419	NIHARIKA CONSTRUCTIONS PVT LTD
1,453	78128	NIKITA MERCHANTS PVT LTD
1,454	30397	NILAMBU FOODS LIMITED.
1,455	59783	NILKANTH COMPLEX PVT. LTD.
1,456	55161	NILOYRAJ FARMING & TRADING INDIA LTD.
1,457	8340	NILURI PATRA COAL CO PVT LTD
1,458	70883	NIMBUS COMMODITIES PVT.LTD.
1,459	52483	NIPHA TRADES & AGENCIES PV.T LTD.
1,460	84866	NIRALA MEDIATORS PRIVATE LIMITED
1,461	65620	NIRIKSHA GEO SCIENCE LTD.
1,462	77462	NIRLON CONSULTANCY & SERVICES PVT LTD
1,463	57860	NIRMAAN COATINGS PVT.LTD.
1,464	82751	NIRUPAM MERCHANDISE PRIVATE LIMITED
1,465	39082	NITA OCEAN EXPLORERS PVT LTD
1,466	54081	NITYA SANCHAY FINANCE & INVESTMENT CO. LTD.
1,467	59111	NIWELL INDUSTRIAL CONSULTANTS PVT.LTD.
1,468	54242	NOOK INVESTMENT LTD.
1,469	31295	NOPANY & SONS PVT LTD

1,470	43954	NORTAUQ ELECTRONICS PVT LTD
1,471	59654	NORTH BANYAN FINANCE & INVESTMENT COMPANY PVT. LTD.
1,472	29785	NORTH BENGAL CREDIT & FINANCE CO PVT LTD
1,473	31309	NORTH BENGAL PHARMACEUTICALS ORGANISATION (1977) PVT LTD
1,474	88143	NORTH BENGAL POLYPLAST PRIVATE LIMITED
1,475	57603	NORTH EAST FINANCE & INVESTMENT COMPANY PVT.LTD.
1,476	45914	NORTH EAST POWER CONDUCTORS PVT LTD
1,477	36684	NORTHERN LEASING & INDUSTRIES LTD.
1,478	72001	NORTHLAND ENGINEERS & CONSULTANT PVT.LTD.
1,479	64198	NOTEDOME POLYMERS (INDIA) PVT. LTD.
1,480	65569	NOTEX VYAPAAR PVT.LTD.
1,481	29815	NOWSHER ALI KHAN PVT LTD
1,482	70708	NPS ROADWAYS PVT LTD
1,483	60527	NR SONS VINIYOG PVT. LTD.
1,484	55191	NTIC TOURS PVT. LTD.
1,485	81837	NU FISH FARMING COMPANY LIMITED
1,486	55211	NUCLEUS ENTERPRISE PVT. LTD.
1,487	74360	NUCLEUS VYAPAAR PVT. LTD.
1,488	59555	NUGEN SAVINGS & INVESTMENT COMPANY (INDIA) LTD.
1,489	28942	NU-LOOK BUILDERS PVT LTD

1,490	83083	NUTRITION AGRO TECH PRIVATE LIMITED
1,491	76917	NUTSHELL DISTRIBUTORS PVT LTD
1,492	37661	O T C PHARMACEUTICALS PRODUCTS MANUFACTURING CO.P LTD
1,493	56226	OBEDIENT FINANCIAL SERVICES (INDIA) LTD.
1,494	34868	OCEAN HUNTERS AGENCIES PVT LTD
1,495	30574	OCEAN MARITIMES CALCUTTA PVT LTD
1,496	72700	OCEANUS EXIM PVT LTD
1,497	29959	OFFALWAGEN (INDIA) PVT LTD
1 498	82868	OLIVER STEELS PRIVATE LIMITED
1,499	58520	OLYMPUS CREDIT & INVESTMENT (INDIA) LTD.
1,500	45149	OM SHREE SHREE KUL DEVTA CONSUMER PRODUCTS PVT LTD
1,501	83942	OM SHREEM FINANCE & TRADERS PRIVATE LIMITED
1,502	57538	OMEGA CHEMICALS PVT.LTD.
1,503	57537	OMEGA FOOD PROCESSING PVT. LTD.
1,504	57539	OMEGA LEATHERTEX PVT.LTD.
1,505	78347	OMEX TRADELINKS PVT LTD
1,506	79294	OMNIAM FINCON PVT LTD
1,507	50883	ONKARNATH OIL MILLS PVT.LTD.
1,508	55250	OPAL FINANCE & INVESTMENT LTD.
1,509	65377	OPS CONTRADE PVT.LTD.

1,510 85565	ORGA - CHEM AGRO RESEARCH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1,511 35496	ORGANON RESEARCH CENTRE
1,512 62555	ORIEFF IRON & STEEL PVT. LTD.
1,513 49465	ORISON PHARMACEUTICALS PVT.LTD.
1,514 65025	ORNER IMPEX PVT.LTD.
1,515 54301	OVERTOP FINANCE & INVESTMENT CO. LTD.
1,516 33340	OXFORD MOTORS PVT LTD
1,517 36534	P K B COMMERCIAL ENTERPRISES LTD
1,518 34498	P L JAISWAL & SONS PVT LTD
1,519 33092	P R DEVAND ASSOCIATES PVT LTD
1,520 77844	P.B. SOFTWARE & SERVICES PVT LTD
1,521 71427	P.N. APARTMENTS PVT. LTD.
1,522 47763	P.N. EXPORTS PVT. LTD.
1,523 46046	P.P. MARINE FOOD EXPORTS PVT LTD
1,524 57043	P.R. HOME CONSULTNCY PVT.LTD.
1,525 86028	P.S. CONTROL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
1,526 67065	P.T.INVESTMENT PVT.LTD.
1,527 66044	PAAS SALT PROCESSING PVT.LTD.
1,528 62172	PACIFIC FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
1,529 68557	PADMASREE CONSTRUCTION PVT.LTD.
1,530 53638	PADMAVATHY OVERSEAS LTD.

1,531	79877	PAGE INDIA LTD
1,532	37998	PALLI-MANGAL HOUSING FINANCE PVT LTD
1,533	45301	PALSONS MARKETING AGENCY PVT LTD
1,534		PAMED ENGINEERS PVT LTD
1,535	52061	PANACEA MEDICAL CENTRE PVT.LTD.
1,536	25416	PANCHET MINERALS & INDUSTRIES PVT LTD
1,537	64926	PANCHGANGA MERCANTILE PVT. LTD.
1,538	20314	PANDE BROTHERS PVT LTD
1,539	68370	PANDORA FOOD PVT. LTD.
1,540	50649	PANKAJ PRODUCTS PVT. LTD.
1,541	64244	PANORAMA DEALCOMM PVT. LTD.
1,542	33493	PAPCON PAPER MILLS PVT LTD
1,543	65589	PARAMITE MERCHANTS PVT.LTD.
1,544	62153	PARICHAY IMPEX PVT. LTD.
1,545	8183	PARKSIDE MOTORS PVT LTD
1,546	60552	PARTHA RAY CONSULTANTS PVT. LTD.
1,547	77609	PARUL COMMERCIAL PVT LTD
1,548	21073	PASARI BROTHERS PVT LTD
1,549	86670	PASHUPATI MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
1,550	33324	PASHUPATI ROADWAYS PVT LTD
1,551	56442	PASS FLAT INDIA PVT LTD.

1,552 37344	PASSIFLORA CONSTRUCTION PVT LTD
1,553 59252	PASUPATI ENGINEERS & TRADERS PVT. LTD.
1,554 66374	PATHAK PLASTIC PRODUCT LTD.
1,555 71632	PATLIPUTRA BUILDERS PVT.LTD.
1,556 72762	PATLIPUTRA DEVELOPERS PVT LTD
1,557 78350	PATLIPUTRA VINIMAY PVT LTD
1,558 56096	PATNA MEDICAL RESEARCH CENTRE
1,559 30497	PATULIA INDUSTRIAL ESTATE SOCIETY LTD
1,560 48029	PAUL & MUKHERJEE CHEMO PRODUCTS PVT. LTD.
1,561 663917	PAVAI TRADING COMPANY PVT. LTD.
1,562 29342	PAVLEDIS MANNA & SONS PVT LTD
1,563 49201	PAVLEDISH SHIPPING PVT.LTD.
1,564 43738	PAWANPUTRA CONSTRUCTION PVT LTD
1,565 84385	PAWANPUTRA FOOD PRIVATE LIMITED
1,566 56280	PAWMAN FINANCIAL & CONSULTANCY LTD.
1,567 77197	PAYAL AGENCIES PVT LTD
1,568 77196	PAYAL MULTI PROJECTS PVT LTD
1,569 33567	PAYAL SERVICES & TRADING CO LTD
1,570 79569	PC DATAMATICS PVT LTD
1,571 54271	PCI TECHNOLOGY PVT LTD.
1,572 50662	PDR PHARMACEUTICALS PVT.LTD.

1,573	55832	PEACELAND HOUSING FINANCE & DEVELOPMENT COMPANY LTD.
1,574	80902	PEACOCK TIE-UP PVT.LTD.
1,575	87131	PEARL TIE UP PRIVATE LIMITED
1,576	30542	PECCON BAU PVT LTD
1,577	63629	PEEKAY COVENTRY PROJECTS PVT. LTD.
1,578	30729	PEGET ENGINEERING PVT. LTD.
1,579	31441	PELICAN PAPER MILLS PVT LTD
1,580	85362	PENACIA PLANTATION LIMITED
1,581	83817	PENON PLANTATION LIMITED
1,582	30606	PEPCO STEEL INDUSTRIES PVT LTD
1,583	57660	PERENNIAL HOUSING FINANCE COMPANY LTD.
1,584	60445	PERFECT OIL & AGRO LTD.
1,585	86957	PERFECT PACK & TRADE PRIVATE LIMITED
1,586	33205	PERFECT TRADERS AND EXPORTERS LTD
1,587	87495	PERIHELION MARKETING LIMITED
1,588	70885	PERKIN COMMERCIAL PVT.LTD.
1,589	21518	PERSONNEL ADMINISTRATION PVT LTD
1,590	29322	PHENOL (INDIA) PVT LTD
1,591	87981	PICCADALI HOLDINGS PRIVATE LIMITED
1,592	56350	PICKUP MERCANTILES PVT. LTD.
1,593	57685	PICKUP MERCHANDISE PVT.LTD.

1,594	57296	PICKWICK FINANCE & INVESTMENT (INDIA) LTD.
1,595	54731	PIDI DEVELOPER & CONSULTANCY PVT. LTD.
1,596	46244	PIGEON ELECTRONICS PVT LTD
1,597	54252	PIMAND FINANCE SAVINGS & INVESTMENT CO. PVT LTD.
1,598	56478	PINK CIRCLE ESTATES P LTD.
1,599	47782	PINKS N BLUES APPARELS PVT. LTD.
1,600	30467	PIONEER CHAINS LTD
1,601	29762	PIONEER PAINT AID & LIGHT CHEMICALS PVT LTD
1,602	85715	PIONEER PETRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1,603	34334	PIONEER REFRACTORIES PVT LTD
1,604	71421	PITAMBARI FUNDS PVT. LTD.
1,605	61809	PITCO PROJECTS PVT.LTD.
1,606	33091	PITESBURG STEARLING FINANCE & TRADE PVT LTD
1,607	53998	PITRISAKTI SAVINGS & INVESTMENT LTD.
1,608	90232	PIUSH AGENCIES PRIVATE LIMITED
1,609	74862	PLATINUM INFOTECH PVT.LTD.
1,610	83903	PLAZA POINT PRIVATE LIMITED
1,611	88209	PMP AGENCIES PVT LTD
1,612	56608	PNEUMATIC POWER TOOLS & COMPANY LTD.
1,613	78493	PODDAR VINIMAY PVT LTD

1,614	76062	POLESTAR INFORMATION TECHNOLOGY PVT LTD
1,615	74361	POLO VANIJYA PVT. LTD.
1,616	29058	POLYFOOD PVT LTD
1,617	64797	POOJA PROFIN PVT.LTD.
1,618	78594	POOJIT MERCHANTS PVT LTD
1,619	76122	POONAM COLD STORAGE PVT.LTD.
1,620	36994	PORTICO BUSINESS PVT LTD
1,621	88693	POWER & SPARES PRIVATE LIMITED
1,622	71013	PRABHUDHAN COMMODITIES PVT.LTD.
1,623	71014	PRABHUDHAN MERCHANDISE PVT.LTD.
1,624	78243	PRADEEP INFIN PVT LTD
1,625	53498	PRAFULLA BASU & SONS CREDIT INVESTMENT PVT. LTD.
1,626	76704	PRAGATI NIKETAN PVT LTD
1,627	48177	PRAHLADRAI SATNARAIN & COMPANY PVT LTD
1,628	85163	PRAM RESORTS & SERVICES LIMITED
1,629	27709	PRAMIYA ENGINEERING PVT LTD
1,630	60795	PRAMUK TRADERS AND MANUFACTURERS PVT. LTD.
1,631	54226	PRANATI INDUSTRIES LTD.
1,632	56560	PRANTIK SECURED SAVINGS & INVESTMENT LTD.
1,633	55995	PRARIT INVESTMENTS PVT.LTD.
1,634	47134	PRASANTA KANAN HOUSING COMPANY PVT LTD.

1,635	77703	PRATIBHUTI FINANCIAL SERVICES PVT LTD
1,636	57511	PRATIDIN CREDIT PVT.LTD.
1,637	105	PRATYASHA CONSUMER PRODUCTS PRIVATE
1,638	56220	PRAYAG SALES AGENCY PVT. LTD
1,639	61246	PRAYOG ENGINEERING COMPANY PVT. LTD.
1,640	36301	PRB COMMERCIAL LTD
1,641	85355	PRECEDE PHARMA LIMITED
1,642	41733	PRECISION MECHANICAL WORKS PVT LTD
1,643	28889	PRECISION ROLLING MILLS LTD
1,644	58830	PREFTECH DEVELOPMENT PVT. LTD.
1,645	70914	PREMIER METALEX PVT.LTD.
1,646	21218	PREMIER MINING CORPN. PVT LTD
1,647	64037	PREMIER VETS AGRO PRODUCTS PVT. LTD.
1,648	43977	PREMIUM SMELTING & REFINING COMPNAY PVT LTD
1,649	68729	PREMNARAYAN MERCANTILE PVT. LTD.
1,650	59062	PRESCOBAR ENTERPRISES PVT. LTD.
1,651	23177	PRESS AGENTS PVT LTD
1,652	58333	PRESTIGIOUS HOUSING DEVELOPERS PVT. LTD.
1,653	81025	PRIME KNITTING PVT.LTD.
1,654	60005	PRINK FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD.
1,655	77277	PRIX ABASAN LTD

1,656	59978	PRIYADARSHINI EXIM PVT. LTD.
1,657	24317	PROCESS & PRINT PVT LTD
1,658	59500	PROCTON FINANCE & INVESTMENT PVT. LTD.
1,659	59759	PROGRAMMED GENERAL FINANCE & INVESTMENT COMPANY PVT. LTD.
1,660	56852	PROGRESS EXPORTS PVT. LTD.
1,661	30503	PROGRESSIVE ELECTRONAC PVT LTD
1,662	75955	PROGRESSIVE FISHING & EXPORTS PVT LTD 2
1,663	23845	PROGRESSIVE MANUFACTURERS PVT LTD
1,664	50931	PROGRESSIVE PHOTO SETTER PVT.LTD.
1,665	45291	PROGRESSIVE SALES PVT LTD
1,666	58505	PROJONI HOUSING & FINSCAL (INDIA) LTD.
1,667	27220	PROKASH BOARD MILLS PVT LTD
1,668	65460	PROMAX HOLDINGS PVT.LTD.
1,669	86459	PROSPERITY DEVELOPERS LIMITED
1,670	68757	PROTEX STATIONERY PVT. LTD.
1,671	57715	PRO-TOOLS PVT. LTD.
1,672	40309	PROVA MARKETING PVT LTD
1,673	50441	PROVIDENCE GENERAL FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LTD
1,674	83469	PRUDENTIAL AMC LIMITED
1,675	81301	PRUDENTIAL CAPITAL CORPORATION LIMITED
1,676	56529	PRUDENTIAL SAVINGS & INVESTMENTS LTD.

1,677	30850	PUBLISHERS GUILD PVT LTD
1,678	57639	PUNEET COMMERCIAL PVT.LTD.
1,679	64603	PUNKA INVESTMENT PVT.LTD.
1,680	61440	PURAN FLATS PVT. LTD.
1,681	31455	PURBACHAL ESTATE PVT LTD
1,682	83171	PURBHASHA MARKETING PRIVATE LIMITED
1,683	52083	PUREMIX EXTRUSION PVT.LTD.
1,684	68243	PUROTECH COMMODITIES PVT. LTD.
1,685	78855	PURVAJA COMMODITIES PVT LTD
1,686	20518	PURVAJYOTI INVESTMENT LTD.
1,687	71777	PUSHKAR NARAYAN SHREE KUMAR PVT.LTD.
1,688	47769	PUSHPANJALI FISCAL SERVICES PVT. LTD.
1,689	58552	PUSHPARAG SAVINGS & INVESTMENT COMPANY PVT. LTD.
1,690	88611	PY OVERSEAS PRIVATE LIMITED
1,691	31396	PYROMETAL INDUSTRIES PVT LTD
1,692	71637	QUALCOM SYSTEM & ENGINEERING COMPANY PVT.LTD.
1,693	75893	QUALITY CONSULTANCY PVT LTD
1,694	19169	QUARRIES & MINES PVT LTD
1,695	53894	QUEST NIRMAN HOUSING DEVELOPMENT AND FINANCE COMPANY LTD.
1,696	54548	QUITTANCE SAVINGS & INVESTMENT COMPANY (INDIA) LTD.
1,697	34627	R G ASSOCIATES PVT LTD

1,698 46626	R K REROLLING MILLS PVT.LTD.
1,699 88009	R N DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
1,700 64002	R. S. FINCON PVT. LTD.
1,701 57428	R.C.CON PVT.LTD.
1,702 40738	R.C.P. COLD STORAGE PVT. LTD.
1,703 56447	R.G. PAUL CONSTRUCTION PVT. LTD.
1,704 10742	R.K. CHATTERJEE & SONS PVT LTD
1,705 36395	R.N. BHATTACHARYA & ASSOCIATES PVT. LTD.
1,706 19029	R.N. SARAOGI & CO LTD
1,707 39871	R.N.EXPORTS PVT LTD
1,708 30516	R.N.PHARMACEUTICALS PVT LTD
1,709 21601	R.P. SEN PVT LTD
1,710 52031	R.R. FINVEST COMPANY LTD
1,711 27511	R.S. BEKEY LABORATORIES (INDIA) PVT.LTD.
1,712 29808	R.S.ROY ELECTRIC CO PVT LTD
1,713 64427	R.S.SEA FOODS PVT.LTD.
1,714 68652	RABIRUN VANIJYA PVT.LTD.
1,715 58685	RACE INVESTMENT & HOUSING FINANCE COMPANY LTD.
1,716 57436	RACHIT HOLDINGS PVT.LTD.
1,717 65966	RACHNA FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.
1,718 61297	RADHA KRISHAN FINANCE & INVESTMENT OF INDIA PVT. LTD.

1,719	21366	RADHA KRISHNA STORES PVT LTD
1,720	38996	RADHA NIKET APARTMENTS PVT LTD
1,721	56838	RADHA RAMAN FINANCE PVT.LTD.
1,722	50886	RADHAMADHAB BOARDS PVT.LTD.
1,723	66005	RADIANT CONSTRUCTION PVT.LTD.
1,724	65281	RADIANT TRACOM PVT.LTD.
1,725	24976	RAGHUNATH STATIONERY PVT LTD
1,726	18580	RAI SAHIB CHANDARMULL INDRA KUMAR PVT LTD
1,727	29961	RAIGANG CREDIT & INVESTMENT CO PVT LTD
1,728	3575	RAIKUL INDUSTRIAL BANK LTD
1,729	39315	RAILTON ELECTRONICS INDUSTRIES PVT LTD
1,730	40443	RAILTON INDUSTRIAL & SCIENTIFIC ELECTRONICS PVT. LTD.
1,731	74363	RAINBOW COMMOTRADE PVT.LTD.
1,732	28515	RAINBOW METAL PRODUCTS PVT LTD
1,733	89358	RAINBOW SAREES PRIVATE LIMITED
1,734	69576	RAINSKY TRAVEL PVT.LTD.
1,735	55514	RAJA PROMOTERS & INVESTORS PVT.LTD.
1,736	64164	RAJADHIRAJ DEALER PVT. LTD.
1,737	71026	RAJDEEP SALES PROMOTION PVT.LTD.
1,738	64607	RAJENDRA VINIYOG & HOLDING PVT.LTD.
1,739	71226	RAJESH STOCK HOLDING PVT,LTD.

1,740	77960	RAJGARIA CREDIT & FINVEST PVT LTD
1,741	71100	RAJI-GANGA EXPORTS PVT.LTD.
1,742	89588	RAJLAKSHMI REFRACTORIES & CERAMIC WORKS PRIVATE LIMITED
1,743	48212	RAJSEE SECURITY SYSTEMS PVT LTD
1,744	78129	RAJSHREE MERCHANTS PVT LTD
1,745	58366	RAJYACOSH TRADERS PVT. LTD.
1,746	72811	RAKESH ENTRTPRISES PVT LTD
1,747	82806	RAKESH PRINT PRIVATE LIMITED
1,748	54502	RAMA TRAFIN'S & CONSTRUCTION PVT. LTD.
1,749	86330	RAMESHWARA MERCHANTS PRIVATE LIMITED
1,750	53385	RAMESWARA APARTMENTS PVT. LTD.
1,751	48071	RAMIX CONSULTANTS PVT. LTD.
1,752	34747	RAMKANAI KRISHNA KANTA PAUL PVT LTD
1,753	85581	RAMKRISHNA CONTAINERS PRIVATE LIMITED
1,754	80182	RAMNIK HOLDINGS PVT.LTD.
1,755	37018	RANAGHAT TEXTILE MILLS PVT LTD
1,756	29891	RANJAN CHIT & SAVINGS CO PVT LTD
1,757	81077	RANJAN ELECTRONICS PVT LTD
1,758	22531	RANJAN PRESS PVT LTD
1,759	58779	RAS COMPUTER CONSULTANCY & SERVICES PVT. LTD.
1,760	29306	RASHMI PRINTING CO PVT LTD

1,761	26989	RASHMI TEXTILES PVT LTD
1,762	62236	RATNAKAR SALES PROMOTION PVT. LTD.
1,763	65236	RAVEENA KREATIONS PVT. LTD.
1,764	75523	RAY DYERS PVT LTD
1,765	84284	RAYMON TECH PRIVATE LIMITED
1,766	82181	RBG UDYOG PRIVATE LIMITED
1,767	60554	RCG LEASING & CREDIT LTD.
1,768	62428	RED OAK AUDIO VISUAL PVT. LTD.
1,769	79382	REDCLIFFE DEALCOM PVT LTD
1,770	57508	REDICE HOLDINGS PVT.LTD.
1,771	82696	REED & PIK EXPORTS LIMITED
1,772	33991	REFINE HOLDINGS LTD
1,773	31518	REFORM RUBBER ROLLER PVT LTD
1,774	36048	REGENAL SMALL SAVINGS & INVESTMENT LTD.
1,775	51848	REKORD ENGINEERING PVT.LTD.
1,776	59323	RELIABLE COMMERCIAL DEVELOPMENT PVT. LTD.
1,777	73615	RELIANCE AGRIFARM PVT.LTD.
1,778	33418	RELIANCE FIBRES LTD
1,779	78569	RENER SYSTEMS & ENGINEERING PVT LTD
1,780	54110	RE-OPERATE HOLDINGS & CREDIT INDIA LTD.
1,781	42922	REPLICA SERVICES PVT LTD

1,782	88655	RESEARCH PUBLISHING & PRINTING FOUNDATION PRIVATE LIMITED
1,783	55257	RESOLUTE FINANCE & INVESTMENT LTD.
1,784	53734	RFD DEVELOPERS LTD.
1,785	45086	RHD ASSOCIATES PVT LTD
1,786	81523	RICH CONDIMENTS CO. PRIVATE LIMITED
1,787	70906	RICOCHET SALES PVT.LTD.
1,788	43939	RIDHEE SIDHEE ELECTRONICS PVT LTD
1,789	52707	RIRCH INVESTMENTS AND HOLDINGS PVT. LTD.
1,790	33541	RISING CONSTRUCTION PVT LTD
1,791	37585	RITCO AGENCIES INDIA PVT LTD
1,792	30447	RITZ BUILDERS & DECORATORS PVT LTD
1,793	69077	RIVERGROVE MARKETING PVT. LTD.
1,794	81793	RJD CHAIN PRIVATE LIMITED
1,795	27296	ROAD MACHINES (INDIA) PVT LTD
1,796	33880	ROBERTS MCLEAN PHARMACEUTICALS LTD
1,797	57697	ROBSON SAVINGS & INVESTMENT COMPANY PVT.LTD.
1,798	45917	ROBUST INDIA FOODS PVT LTD
1,799	36544	ROCK COPCO LTD
1,800	30648	ROCKFORT INVESTMENTS PROPERTIES PVT LTD
1,801	65352	ROCK-PICK VINIMAY PVT.LTD.
1,802	45232	ROCKWELL EXPORTS PVT LTD

1,803	78228	RODRIFUES AGENCIES PVT LTD
1,804	59827	ROGERS HOLIDAY HOME & FISCAL SERVICES PVT. LTD.
1,805	59737	ROHAN MEDICAL SYSTEMS PVT. LTD.
1,806	58664	ROHTAK COMMERCE PVT. LTD.
1,807	24471	ROLA (INDIA) PVT LTD
1,808	37668	ROLAND BOARD & PAPER MILL PVT LTD
1,809	80181	RONYPET PROPERTIES PVT.LTD.
1,810	59215	ROOF AND SHELTER DEVELOPMENT PVT. LTD
1,811	55305	ROSARLAND INVESTMENT LIMITED.
1,812	51597	ROSE TEA EXPORTS PVT. LTD.
1,813	78851	ROSHNI COMMERCIAL PVT LTD
1,814	30498	ROSY FINANCE & AGRI-INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY LTD.
1,815	68662	ROTEX INTERTRADE PVT.LTD.
1,816	64764	ROY BROS (SHARE & SECURITIES) PVT LTD
1,817	41864	ROY PRADHAN ASSOCIATE PVT. LTD.
1,818	62746	ROYAL CONTINENTAL DAZ SHIPPING PVT. LTD.
1,819	24667	ROYLIT & CO. PVT LTD
1,820	54489	RRC FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
1,821	76668	RSA TRADERS PVT LTD
1,822	36678	RUBY EMPORMIUM PVT LTD

1,823	53886	RUNNER ELECTRONICS & ENGINEERING LTD.
1,824	24685	RUPA BHARATI FILMS PVT LTD
1,825	35610	RUPA CLINICAL PVT LTD
1,826	20700	RUPAYAN PRODUCTIONS PVT LTD
1,827	55255	S & A (INDIA) PVT LTD.
1,828	27314	S B RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
1,829	87617	S K MONDAL COMPANY ENGINEERS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
1,830	18221	S K RUNGTA PVT LTD
1,831	23825	S P CONSOLIDATED ENGG CO PVT LTD
1,832	54378	S. SEN CONSULTANTS PVT. LTD
1,833	57125	S.D. NIRMAN HOUSING DEVELOPMENT & FINANCE COMPANY LTD.
1,834	85417	S.D.MERCANTILES PRIVATE LIMITED
1,835	77195	S.F.ENGINEERS & ELECTRICALS COMPANY PVT LTD
1,836	60657	S.H. HOTEL & RESTAURANT PVT. LTD.
1,837	60849	S.K. LUMINIARE PVT. LTD.
1,838	29773	S.K.LUBRICANTS LTD
1,839	58954	S.P. CIRCULATION NETWORK PVT. LTD.
1,840	82130	S.P. TRADEFIN PRIVATE LIMITED
1,841	81812	S.P.PLASTICS PRIVATE LIMITED
1,842	54452	S.R. COMMERCIAL & HOLDINGS PVT. LTD.

1,843	79276	S.R.(CALCUTTA) TRADING & FINANCE PVT LTD
1,844	71012	SAANRAJ TIE-UP PVT.LTD.
1,845	53888	SABARPRIYA SAVINGS AND INVESTMENT LTD.
1,846	47630	SABITA WIRE INDUSTRIES P. LTD
1,847	77767	SADGUN MERCHANTS PVT LTD
1,848	77428	SADGUN TRADING PVT LTD
1,849	51478	SAFAL SAVINGS & CREDIT LTD.
1,850	77215	SAGARDIGHI POWER GENERATION COMPANY LTD
1,851	66181	SAGARIKA MERCHANDISE PVT. LTD.
1,852	33208	SAHA COTTAGE INDUSTRIES PVT LTD
1,853	29639	SAHANA PAPER MILLS LTD
1,854	86197	SAHU FINANCE COMPANY LIMITED
1,855	55272	SAHYOG COMMERCIAL & INVESTMENT COMPANY LTD.
1,856	58381	SAHYOGITA VYAPAAR PVT. LTD.
1,857	59748	SAI EXIM PVT. LTD.
1,858	29965	SAIGAL PLASTIC & RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
1,859	59841	SAILI GENERAL FINANCE & INVESTMENT (INDIA) LIMITED.
1,860	78276	SAIMONS TRADER PVT LTD
1,861	53682	SAIN FINVEST HIRE PURCHASE (INDIA) LTD.
1,862	55291	SAINTHIA COCONUT OIL PVT. LTD.
1,863	79511	SAIOM PROPERTIES PVT LTD

1,864	82292	SAIT INDIA PRIVATE LIMITED
1,865	82964	SAKURA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1,866	48043	SALABH TRADING PVT. LTD.
1,867	44845	SALASAR CONSTRUCTIONS PVT LTD
1,868	46398	SALIMPORE HOLDINGS PVT LTD
1,869	47375	SALT LAKE FOODS PVT. LTD.
1,870	33245	SAMACHAR PRESS LTD
1,871	48865	SAMARESH HIRE PURCHASE & CREDIT PVT. LTD.
1,872	89327	SAMILTON HERBS LIMITED
1,873	69027	SAMJHOTA MARKETING PVT. LTD.
1,874	89769	SAMPRIKTA MARKETING PRIVATE LIMITED
1,875	54359	SAMPRITI SURAKSHA FINANCE & CREDIT PVT. LTD.
1,876	58906	SAMRAGHNI AGRO CHEM TRADING PVT. LTD.
1,877	46461	SAMRAT HANDICRAFTS PVT LTD
1,878	69578	SAMUDRA TRAVELS PVT.LTD.
1,879	55434	SAMUSUKTI TRADING PVT. LTD.
1,880	58572	SAN FINANCE LTD.
1,881	60245	SANDIPANI VYAPAAR PVT. LTD.
1,882	27534	SANDPIPERS MARKETING PVT LTD
1,883	43444	SANGAM CONSTRUCTION CO PVT LTD
1,884	60151	SANGAMI FINANCE & INVESTMENT LTD.

1,885	82937	SANGUINE CREDIT & FINANCE CO . PRIVATE LIMITED
1,886	63645	SANJEEVANI MANAGEMENT PVT. LTD.
1,887	52011	SANJUKTA FINVEST PVT. LTD.
1,888	63457	SANKAR FOOTWEAR PVT.LTD.
1,889	27577	SANSKRITI SANGAM LTD
1,890	33188	SANTAHAR INVESTMENTS PVT LTD
1,891	53923	SANTI (K) FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD.
1,892	29955	SANTI CREDIT CO. & CHIT PVT LTD
1,893	078280	SANVIK COMMERCIAL PVT LTD
1,894	27782	SAPTAHA PUBLICATIONS PVT LTD
1,895	56242	SAPTARSHI PUBLICATIONS PVT.LTD.
1,896	84295	SARAF FERTILIZERS PRIVATE LIMITED
1,897	48863	SARAF NATURAL PRODUCTS & IMPEX PVT. LTD.
1,898	33970	SARBAPRIYA SAVINGS AND INDUSTRIAL INVESTMENT (INDIA) LTD
1,899	33112	SARBIK INVESTMENT PVT.LTD.
1,900	53680	SARBODHAN HOUSING COMPLEX PVT. LTD.
1,901	33510	SARBOLOK FINANCE & INVESTMENT CO LTD
1,902	89514	SARDA PETROLEUM PRIVATE LIMITED
1,903	47053	SARJHAH CONSTRUCTION & FINANCE COMPANY PVT LTD.
1,904	62213	SARKAR SUPARI TRADE PVT. LTD.

1,905	31335	SARKARS INDICA PVT LTD
1,906	31534	SARMA TIMBER PRODUCT (INDIA) PVT LTD
1,907	68694	SARSTA SALES PVT.LTD.
1,908	62891	SARVOTTAM EQUITY SERVICES PVT. LTD.
1,909	64536	SARVOTTAM FABTEX PVT.LTD.
1,910	50040	SARVOTTAM OILS PVT LTD
1,911	29857	SATYABHAMA CREDIT CHIT & INVESTMENT PVT LTD.
1,912	47480	SATYAM HOLDINGS PVT. LTD.
1,913	81683	SATYAM RICE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1,914	52560	SATYANARAYAN COMMERCIAL & AGENCY PVT. LTD.
1,915	58551	SAVERA HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMPANY LTD.
1,916	199358540	SAVION FINANCE & INVESTMENT (INDIA) LTD.
1,917	45055	SAW BLADE INDIA PVT LTD
1,918	67064	SAYAN TRAVEL SERVICES PVT.LTD.
1,919	78494	SCANDIA COMMERCIAL PVT LTD
1,920	78495	SCANDIA COMMODEAL PVT LTD
1,921	70113	SCHAUENBURG INDIA PVT. LTD.
1,922	32492	SCHNELLER MICRONIX PVT LTD
1,923	17147	SCIENTIFIC DYEING & CLEANING CO PVT LTD
1,924	70908	SCIFICET SALES PVT.LTD.
1,925	84171	SCUD ENGINEERS & DEVELOPERS LIMITED

1,926	63875	SEA FARMS PVT. LTD.
1,927	79848	SEA GIRT COMMERCIAL PVT.LTD
1,928	56420	SEALOG INDIA LTD.
1,929	48522	SEAPORT MARINE PVT LTD
1,930	77249	SEAROAD TRANSHIPPERS PVT LTD
1,931	82452	SEASTAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
1,932	62357	SEAWAVE CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
1,933	79753	SECFINA HOLDINGS & SECURITIES PVT LTD
1,934	62333	SEEMA PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
1,935	59176	SEKHABATI HOTELS PVT. LTD.
1,936	86831	SELECT FASHIONS PRIVATE LIMITED
1,937	68726	SELEQUITY COMMERCE PVT. LTD.
1,938	47783	SEMICIRCUIT PVT. LTD.
1,939	31236	SERAFOOD PRODUCTS P LTD
1,940	54144	SERFINE AGRICOLE INDIA PVT LTD.
1,941	43823	SETH CHEMICAL WORKS (DELHI) PVT LTD
1,942	31189	SETHI WRITING INSTRUMENTS PVT LTD
1,943	89066	SEVA KRISHI FARMS (INDIA) LIMITED
1,944	46556	SEVA MARKETING PVT LTD
1,945	52562	SHAH ENGINEER & ELECTRONICS PVT. LTD.
1,946	74669	SHAH NIDHI NIVESH PVT.LTD.

1,947	52559	SHAH TRADE & AGENCIES PVT. LTD.
1,948	63895	SHAIKH & PANDIT AGENCIES PVT.LTD.
1,949	55787	SHAKTI SURA COMPANY PVT. LTD.
1,950	64675	SHALINI FABTRADE PVT.LTD.
1,951	27631	SHAMBAZAR LANDS & ESTATES PVT LTD.
1,952	33305	SHANTA & SONS PVT LTD
1,953	88582	SHANTI HOTELS & TOURISM PRIVATE LIMITED
1,954	43974	SHARMA MINERALS JOYPORE PVT LTD
1,955	77853	SHARVIJ MANDAS CONSULTANTS PVT LTD
1,956	73683	SHASWAT VANIJYA PVT.LTD.
1,957	67866	SHEOMOGA MERCHANDISE PVT. LTD.
1,958	43071	SHIVA ERECTORS PVT LTD
1,959	65197	SHIVAM OVERSEAS PVT. LTD.
1,960	45244	SHIVARAM JUTE & FIBRE TRADING COMPANY PVT LTD
1,961	44805	SHOVA RANI DEB & SONS PVT LTD
1,962	59792	SHRADDHA COMMODITIES PVT. LTD.
1,963	61048	SHRADHA ELECTROPLAST PVT. LTD.
1,964	57522	SHRADHANJALI PICTURES LTD.
1,965	61498	SHREE CHAMUNDI PROPERTIES PVT. LTD.
1,966	48379	SHREE DURGA COMPLEX PVT. LTD.
1,967	81107	SHREE GANESH VYAPAAR PVT LTD

1,968 8673	SHREE KRISHNA INVESTMENT CO LTD
1,969 48378	SHREE LAXMI NARAYAN COMPLEX COMPANY PVT. LTD.
1,970 57934	SHREE NANA TRADING COMPANY PVT.LTD.
1,971 64435	SHREE NANESH EXIM PVT. LTD.
1,972 25466	SHREE NATRAJ FILMS PVT LTD
1,973 57568	SHREE NURSING MARKETING PVT.LTD.
1,974 48377	SHREE PARBATI DEVELOPMENT PVT. LTD.
1,975 79173	SHREE RADHA RANI MARBLE & GRANITE PVT LTD
1,976 84446	SHREE RAMDEOJI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1,977 53968	SHREE SANGEETA CONSTRUCTION PVT. LTD.
1,978 62065	SHREE SHYAM SAKAMBARI GRANITES PVT. LTD.
1,979 58295	SHREE SIDHI BINAYAK HOTELS PVT.LTD.
1,980 43466	SHREE SRINIWASA METALS PVT LTD
1,981 54423	SHREE VINAYAKA FINANCE & INVESTMENT PVT. LTD.
1,982 33739	SHREEKANT CHEMICAL INDUSTRIES LTD
1,983 63529	SHREYANSH TRADING PVT.LTD.
1,984 79577	SHRI GURU ENGINEERS AND CONSULTANTS PVT LTD
1,985 33656	SHRI NIWAS RICE & OIL INDUSTRIES LTD
1,986 63748	SHRI SHAYAM BABA PROMOTERS PVT. LTD.
1,987 29906	SHRI VRINDABAN PROPERTIES LTD
1,988 30539	SHROFF STEEL PVT LTD

1,989	59599	SHUBH MERCHANTS PVT. LTD.
1,990	39741	SHYAM MERCANTILE PVT LTD
1,991	45221	SHYAMJANANI ROLLING MILLS PVT LTD
1,992	38535	SHYAMPUR MANIKANCHAN FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD.
1,993	28522	SIBSONS INDIA MARKETING AGENCY PVT LTD
1,994	62385	SID VINIYOG PVT. LTD.
1,995	63615	SIDDHARTHA COMPUTERONICS & SOFTECH PVT. LTD.
1,996	68126	SIDHANT MANAGEMENT CONSULTANTS PVT.LTD.
1,997	57346	SIDHIDATA CONCLAVE PVT.LTD.
1,998	22883	SIGHT & SOUND PVT LTD
1,999	85780	SIGMA PUMP PRIVATE LIMITED
2,000	52671	SIGNAL WORDS & PICTURES PVT. LTD.
2,001	72615	SIKARIA BARTER PVT LTD
2,002	63547	SILVERLINE CERAMICS PVT.LTD.
2,003	59923	SINCERE MERCANTILES PVT. LTD.
2,004	71076	SINGH PRARMA DISTRIBUTORS PVT.LTD.
2,005	02680	SINGHBHUM CHROMITE CO LTD
2,006	86718	SINHA BROTHERS & CO PRIVATE LIMITED
2,007	33088	SIRCAR & MUKHERJEE PICTURES PVT LTD
2,008	56843	SIRCO INDIA SAVINGS & GENERAL FINANCE CO.PVT.LTD.
2,009	66431	SIRCOO ENGINEERS & FABRICATORS PVT. LTD.

2,010	58372	SIRPUR EXIM PVT. LTD.
2,011	56421	SIRSIL MARKETIERS PVT LTD.
2,012	27110	SISHUTIRTHA PVT LTD
2,013	46624	SISKON INDIA DEVELOPERS PVT.LTD.
2,014	55640	SITA CREDIT CONSULTANTS PVT. LTD.
2,015	77704	SITALA TALKIES PVT LTD
2,016	07612	SITARA-I-HIND PRESS PVT LTD
2,017	73047	SIYARAM SAREES LTD.
2,018	49136	SKAAP ENGINEERING PVT.LTD.
2,019	27256	SKARTON DISTRIBUTORS PVT LTD
2,020	38985	SKON GLASS PVT LTD
2,021	84478	SKYLINE FARMS & FOODS PRIVATE LIMITED
2,022	86364	SMART INTELLISYS LIMITED
2,023	73273	SMB PORTFOLIO PVT.LTD.
2,024	79743	SME PROJECTS PVT LTD
2,025	53157	SNEH NEER PVT. LTD.
2,026	59897	SNOWBALL COMMUNICATION SERVICES PVT. LTD.
2,027	48904	SNOWBALL MARKETING SERVICES PVT. LTD.
2,028	21669	SODEPUR ELECTRIC SUPPLY CO. LTD.
2,029	91505	SOFT CELL TECH PRIVATE LIMITED
2,030	50991	SOHAM CARGO MOVERS PVT.LTD.

2,031	71842	SOJOURN TRAVELS & TOURS PVT.LTD.
2,032	32423	SOLAR SCIENTIFIC GLASS INDUSTRIES PVT LTD
2,033	56577	SOLAR SYSTEM TRAVELS P LTD
2,034	41507	SOLIDBOND ADHESIVES PVT. LTD.
2,035	76189	SONATA AUDIOVISION PVT LTD
2,036	62985	SONE BHADRA AGRO PLANTATION PVT. LTD.
2,037	43844	SONEX SILK MILLS PVT.LTD
2,038	57013	SONJOG FINANCE AND INVESTMENT LTD.
2,039	37638	SONUM ELECTRONICS PVT LTD
2,040	58534	SOTHERN CONCLAVE PVT. LTD.
2,041	54814	SOUMYADEEP FINANCE & PROJECT LTD.
2,042	21783	SOUTH CALCUTTA DIAGNOSTIC CLINIC PVT LTD
2,043	04296	SOUTH KARANPURA COAL CO LTD
2,044	36493	SOUTH PACIFIC INDUSTRIES LTD
2,045	29457	SOUTHERN COLD STORAGE PVT LTD
2,046	57950	SPA EXPORTS PVT. LTD.
2,047	88782	SPA PACKAGING PRIVATE LIMITED
2,048	43833	SPAARAA DEVELOPERS PVT LTD
2,049	78597	SPANDAN MERCHANTS PVT LTD
2,050	78273	SPANDAN TRADES PVT LTD
2,051	99195	SPANDAN VINIMAY PRIVATE LIMITED

2,052	88959	SPARK MOVIES PRIVATE LIMITED
2,053	59463	SPARSH CONSTRUCTION & INVESTMENT COMPANY PVT. LTD.
2,054	80976	SPECIAL INSACO PVT.LTD.
2,055	55464	SPECIALITY COMMODITIES PVT. TLD.
2,056	60137	SPECSCAN INSTRUMENTS PVT. LTD.
2,057	85168	SPEED BIRD FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2,058	27182	SPEED CHEMICAL INDUSTRIES PVT LTD
2,059	81699	SPEEDEX MARKETING PRIVATE LIMITED
2,060	33914	SPEETRUM COLOURS (CALCUTTA)PVT LTD
2,061	67177	SPICA TRADE & SERVICES PVT.LTD.
2,062	25239	SPREDAROMA PVT LTD
2,063	80533	SPRING FIELD COMMERCE PVT LTD
2,064	62091	SPRING TOUCH COMMOTRADE PVT. LTD.
2,065	90500	SR SHOPPING PRIVATE LIMITED
2,066	57541	SREE ADWAITYA SPINNING MILLS PVT.LTD.
2,067	29920	SREE CHITS & TRADING CO PVT LTD
2,068	31016	SREE GOBINDA (ASSOCIATED) HOSIERY MILLS PVT LTD
2,069	25339	SREE JAGANNATH PICTURES PVT LTD
2,070	15487	SREE KRISHNA SHIVBHAGWAN CO. PVT LTD
2,071	31575	SREE MA MINERAL INDUSTRIES PVT LTD
2,072	73165	SREYANS ENGINEERS LTD.

2,073	31354	SRI DURGA PAPER PRODUCTS PVT LTD
2,074	75696	SRI GOKUL ECONOMIC SERVICES PVT. LTD.
2,075	54445	SRI KARNI ENGINEERING WORKS PVT. LTD.
2,076	43931	SRI KRISHNA APARTMENT PVT LTD
2,077	43157	SRI NIVASA LEASING & CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
2,078	30138	SRIMA CHIT AND INVESTMENT PVT LTD
2,079	85193	SRINARAYANI FERRO ALLOYS LIMITED
2,080	48045	SRINIDHI PHARMACY COMPANY PVT. LTD.
2,081	56354	SRISTI VANIJYA PVT. LTD.
2,082	51694	STAINLESS FISCAL SERVICES PVT.LTD.
2,083	77656	STALWART COMMERCE PVT LTD
2,084	48275	STAMFORD SHIP MANAGEMENT PVT LTD
2,085	27445	STANDARD ALUMINIO FERROUS INDUSTRIES PVT LTD
2,086	33356	STANDARD TIMBER PVT LTD
2,087	33635	STANLEY SCHAPPELL TRADE & FINANCE LTD
2,088	81625	STAR ELECTROPOWER EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
2,089	30595	STAR PHARMACEUTICALS PVT LTD
2,090	64969	STAR SEEDS FARMS PVT. LTD.
2,091	83616	STARLITE ADVISORS PRIVATE LIMITED
2,092	78277	STATUS MERCHANTS PVT LTD

2,093	54225	STAY-IN HOTEL & RESORTS PVT LTD.
2,094	75435	STEELAGE VANIJYA PVT.LTD.
2,095	41977	STEELMAN EQUIPMENTS PVT. LTD.
2,096	58388	STENCIL VYAPAAR PVT. LTD.
2,097	51110	STHABAR CONSTRUCTION PVT. LTD.
2,098	67952	STITCHERS POLYPACKS PVT.LTD.
2,099	27154	STOCKMAN HOTEL PVT LTD
2,100	62755	STOPLIK MERCHANDISE PVT. LTD.
2,101	65515	STRANGERS COMMUNICATION NETWORK PVT.LTD.
2,102	54408	SUB HIMALAYAN PLANTATIONS LTD.
2,103	70833	SUBAL EXPORT (INDIA) PVT.LTD.
2,104	43964	SUBANI EXPORTS PVT LTD
2,105	65464	SUBASISH SHIPPING AND SHIP BUILDING COMPANY LTD.
2,106	65198	SUBHAM OVERSEAS PVT. LTD.
2,107	55100	SUBHAMATI HOUSING FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD.
2,108	81892	SUBHANKAR TRADING PRIVATE LIMITED
2,109	27563	SUBHANNAYAN (ESTATE) PVT LTD
2,110	34678	SUBHAS ROY & CO (FOREX BROKERS) PVT. LTD.
2,111	80676	SUBHO CEMENT PVT.LTD.
2,112	67734	SUBHSHREE SALES PVT.LTD.
2,113	81817	SUBIR FOTOCOM PRIVATE LIMITED

2,114	41615	SUBURBAN CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD.
2,115	81148	SUDHERSHAN PLANTATION LIMITED
2,116	45305	SUDHIR LEASING AND HIRE PURCHASE PVT LTD
2,117	20660	SUGAR SUPPLIERS PVT LTD
2,118	81263	SUJATA TRACOM PRIVATE LIMITED
2,119	51426	SUKDEV BIRBHUM FOOD PRODUCTS PVT. LTD.
2,120	63867	SUKHAMOY PAUL SECURITIES PVT. LTD.
2,121	39004	SUKHANI-DUGAR CONSTRUCTIONS PVT LTD
2,122	59686	SULABH VINIMAY PVT. LTD.
2,123	87951	SUMANGAL SAREES PRIVATE LIMITED
2,124	54273	SUMATI SAVINGS & FINVEST CO. (INDIA) LTD.
2,125	73231	SUMERU FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD.
2,126	71916	SUMI AQUATIC (INDIA) PVT.LTD.
2,127	68218	SUN CAST INDIA PVT. LTD.
2,128	69566	SUN INSURANCE SURVEYORS PVT.LTD.
2,129	54539	SUNANDA ZINCOCHEM PVT. LTD.
2,130	53826	SUNAYANA ENCLAVES PVT. LTD.
2,131	31235	SUNDAR SYNTHETICS P LTD
2,132	78588	SUNDARAM MERCHANTS PVT LTD
2,133	59779	SUNDARBAN EXPORTERS INDIA LTD.
2,134	30509	SUNDER ELECTRIC MART PVT LTD

2,135	58368	SUNDERBAN MERCHANTS PVT. LTD
2,136	54617	SUN-GLOW WIRES & CABLES PVT. LTD.
2,137	59624	SUNIL BUILDERS PVT. LTD.
2,138	84421	SUNNYCON DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
2,139	48283	SUNRISE (STEEL) STRIPS PVT.LTD.
2,140		SUNRISE TRAVELS & CARGO PVT.LTD.
2,141	82545	SUNSTAR VINCOM PRIVATE LIMITED
2,142	50860	SUNTEX EXPO-IMPO PVT. LTD.
2,143	58891	SUNYET LEASING (INDIA) PVT. LTD.
2,144	66652	SUPAREX PORTFOLIO CONSULTANTS PVT. LTD.
2,145	31505	SUPER GREASE OIL CO PVT LTD
2,146	53198	SUPER PLAST INTERNATIONAL PVT.LTD.
2,147	80642	SUPERKING FINVEST PVT LTD
2,148	49497	SUPERSONIC ROADWAYS PVT.LTD.
2,149	17597	SUPRABHAT ENGINEERING CO LTD
2,150	53887	SUPRABHAT SAVINGS AND FISCAL LTD.
2,151	57625	SUPREME CASSETTES PVT.LTD.
2,152	33482	SUPREME PAINTS PVT LTD
2,153	48601	SUPURNA AGENCIES PVT. LTD.
2,154	81108	SUR JUTE TRADING COMPANY PVT LTD

2,155	51081	SURANA FINVEST COMPANY PVT.LTD.
2,156	64537	SURICHI FABTEX PVT.LTD.
2,157	81143	SURVI CONSULTANTS PVT LTD
2,158	75224	SURYA STORAGE PVT.LTD.
2,159	75226	SURYA TANKS PVT.LTD.
2,160	50793	SURYADITYA HEATING SYSTEMS PVT.LTD.
2,161	84677	SURZI EXPORT PRIVATE LIMITED
2,162	54262	SUSHRI INTRADE PVT LTD.
2,163	33766	SUTODYA INVESTMENTS&TRADING CO LTD
2,164	91793	SUVON BIOTECH PRIVATE LIMITED
2,165	36454	SUVRIN METAL INDUSTRIES LTD.
2,166	29886	SWADESHI CARD BOARD BOX MFG CO PVT LTD
2,167	08800	SWADESHI INDUSTRIES LTD
2,168	P56202	SWAMI VIVEKANANDA CULTURAL FOUNDATION
2,169	53267	SWANO CREDIT AMD FINVEST PVT.LTD.
2,170	48180	SWARAN MARKETING & MANUFACTURING COMPANY PVT LTD
2,171	53878	SWARNA SATHI DEVELOPERS & FINANCE COMPANY LTD.
2,172	57631	SWASTH FOODS LTD.
2,173	25703	SWASTIK PRINT CRAFT PVT LTD
2,174	76693	SWASTIKA SUPPLIERS PVT LTD
2,175	55738	SWEET LIFE HOUSING & FINANCE (INDIA) LTD.

51094	SWEETEST SAVINGS & INVESTMENT P LTD
2,177 51352	SWEETY VANIJYA VINIYOG PVT.LTD.
2,178 48160	SWETAMBER HOLDINGS PVT LTD
2,179 71993	SYMBIOSIS RESOURCES PVT. LTD.
2,180 57463	SYMPHONY ELECTRODES PVT.LTD.
2,181 63851	SYNAPSE INTERNATIONAL ADVERTISING & COMMUNICATION PVT. LTD.
2,182 53023	SYSTEMS SOLUTIONS PVT. LTD.
2,183 86180	T.M.SHAH PRIVATE LIMITED
2,184 53336	T.N. FASHIONS PVT. LTD.
2,185 54328	TAKA HASHI TEA PVT. LTD.
2,186 67523	TAKE COURAGE COMMERCE PVT.LTD.
2,187 61548	TALBOT HOUSING FINANCE & INVESTMENT (INDIA) LTD.
2,188 85652	TALIA DAIRY & AGRO PRIVATE LIMITED
2,189 115536	TAMLUK TRANSPORT & INDUSTRIES PVT LTD
2,190 43953	TAN MAN HEALTH CLUB PVT LTD
2,191 79882	TANA ELECTRIC PVT LTD
2,192 65962	TANFAC MERCHANTS PVT.LTD.
2,193 75656	TAPABAN DAIRY FARMING PVT LTD
2,194 64510	TARA MANAGEMENT SERVICES PVT.LTD.
2,195 51671	TARAI INVESTMENT & LEASING PVT. LTD.

2,196 85181	TARAMA DAIRY PRIVATE LIMITED
2,197 80909	TARANA TRADELINK PVT.LTD.
2,198 27644	TARMI MINERALS PVT LTD
2,199 30638	TASSE TEA CO PVT LTD
2,200 20910	TATAR TRANSPORT CO (INDIA) LTD
2,201 83225	TEAK TALK PLANTATION CO. LIMITED
2,202 56246	TEAKO PLANTATIONS LTD.
2,203 57859	TECENVIRO ENGINEERS PVT.LTD.
2,204 63141	TECHMA CONSTRUCTION PVT.LTD.
2,205 44853	TECHNO ECONOMIC AND MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
2,206 24985	TECHNO LABORATORIES INDIA PVT LTD
2,207 36568	TECNO CONVERTERS (INDIA) LTD
2,208 68637	TEKRIWALLA TRADING PVT.LTD.
2,209 66949	TELEMATICS BARTER PVT.LTD.
2,210 54573	TELLER CREDIT & FINANCE PVT. LTD.
2,211 75003	TEMEK COMMODITIES PVT.LTD.
2,212 30587	TEMPLE NURSING HOME PVT LTD
2,213 34567	TERENCE PVT LTD
2,214 33264	TERESA INVESTMENT & TRADING CO LTD
2,215 64503	TERRACON MERCANTILE PVT.LTD.
2,216 57237	TESSTA VALLEY AGRO-PRODUCTS PVT.LTD.

2,217 37475	TEXPACK INDIA PVT. LTD.
2,218 29570	THAKUR CHEMICALS PVT LTD
2,219 64259	THALIA TRADERS PVT. LTD.
2,220 30658	THAPAR CONSULTANTS & SERVICES LTD
2,221 78311	THEATRE INDIA LTD
2,222 64653	THEME PUBLICATIONS PVT.LTD.
2,223 77688	THREE CHEERS DEVELOPERS PVT LTD
2,224 4287	TIGER INTELLIGENCE & SECURITY AGENCY
2,225 75736	TIGER TRACOM PVT. LTD.
2,226 37637	TILAK CHAND LTD
2,227 49229	TILOK CONSTRUCTIONS COMPANY PVT. LTD.
2,228 30399	TIMES SECURITIES LTD.
2,229 54369	TIMEX LAND DEVELOPMENT & HOUSING FINANCE COMPANY LTD.
2,230 78574	TIRTHAPATI TRADING PVT LTD
2,231 52275	TIRUPATI BALAJI ROAD, CARRIERS PVT. LTD.
2,232 58536	TIRUPATI FIREX CHEMICALS PVT. LTD.
2,233 65130	TIRUPATI TEXKNIT PROCESSORS PVT. LTD.
2,234 63616	TITAGARH FARM TECHNOLOGIES LTD.
2,235 75442	TODAY,S FINANCE PVT.LTD.
2,236 33528	TOLLY ELECTRO ACTUATORS PVT LTD
2,237 33439	TOMP FOOD CANNING CO PVT LTD

2,238	64535	TONADO RESORTS & CLUBS LTD.
2,239	82045	TOP LIFTERS PRIVATE LIMITED
2,240	56675	TOP PRINT & PACK PVT.LTD.
2,241	55391	TOPAZ SHAVING PRODUCTS LTD.
2,242	73134	TORIT ENGINEERING PVT.LTD.
2,243	56069	TORNADO INVESTMENTS PVT. LTD.
2,244	78853	TORRENT COMMODITIES PVT LTD
2,245	75524	TOSHAMIYA COMMERCIAL ENCLAVE PVT LTD
2,246	84698	TOSHIBA KAMAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2,247	40739	TPS SYSTEMS PVT. LTD.
2,248	53478	TR TECHNO SERVICES (INDIA) PVT. LTD.
2,249	27839	TRACO SHOE PVT LTD
2,250	19885	TRAILAKHYA ENGG SHEET & METAL WORKS PVT LTD
2,251	86766	TRB TRANSPORT AGENCY PRIVATE LIMITED
2,252	67492	TREASURES LAND (EXPORTS) PVT.LTD.
2,253	54338	TREND INDIA MARKETING & PUBLICATION PVT. LTD.
2,254	60867	TRENDSETTER FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
2,255	56985	TRIDEV EXIM PVT.LTD.
2,256	80199	TRIGEM MERCHANTS PVT.LTD.
2,257	58669	TRIMLINE TREXIM PVT. LTD.
2,258	46601	TRINAYANEE PROPERTIES PVT.LTD.

2,259	89909	TRINAYANI MARKETING LIMITED
2,260	63656	TRINETRA GOODS & SERVICES PVT. LTD.
2,261	35707	TRINITRON INDIA PVT LTD
2,262	30592	TRINITY ORGANIC LTD
2,263	68697	TRIPITIK TRADE & COMMERCE PVT.LTD.
2,264	27545	TRIPURA GLASS WORKS PVT LTD
2,265	53971	TRI-RATNA HOUSING FINANCE & LAND DEVELOPMENT COMPANY LTD.
2,266	44230	TRISTAR CONSTRUCTIONS PVT LTD
2,267	57470	TRITECHNICA EQUIPMENTS PVT.LTD.
2,268	48067	TROPICAL HOUSING DEVELOPERS & BUILDERS PVT. LTD.
2,269	43160	TROYEE ASSOCIATES PVT LTD
2,270	64870	TRS CONSULTANTS (INDIA) PVT.LTD.
2,271	59376	TRUEMEN INFORMATICS & CONSULTANTS PVT. LTD.
2,272	3434	TUFANIALONGA TEA CO LTD
2,273	74022	TULIP MEDICS PVT.LTD.
2,274	55963	TUMBLEWEED EXPORTS PVT.LTD.
2,275	84489	TUSHAR COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
2,276	41824	TWENTY FIRST CENTURY ALLOYS PVT LTD
2,277	65468	TWENTY FIRST CENTURY CLINIC PVT.LTD.
2,278	43625	TWENTYFIRST CENTURY DEVELOPMENT FINANCE CO PVT LTD
2,279	60866	UBEROUS FINANCE PVT. LTD.

2,280	31018	UCHALAN CREDIT & INVESTMENT CO PVT LTD
2,281	36282	UDAYACHAL TRADING COMPANY LTD
2,282	29670	UDAYAN CREDIT & GENERAL INVESTMENT CO
2,283	63790	UDAYTECH (SOFTWARE) PVT. LTD.
2,284	58374	UJALA VYAPAAR PVT. LTD.
2,285	54510	ULEX TEXTILES INDIA LTD.
2,286	80620	ULTRA WINES PVT.LTD.
2,287	43728	UNIBOND SPECIALITY ADHESIVES PVT LTD
2,288	60455	UNICORN SYSTEM PVT. LTD.
2,289	85129	UNICORN TRAVEL SERVICES PRIVATE LIMITED
2,290	60467	UNICORN VYAPAAR LTD.
2,291	85653	UNIMAG MARKETING PRIVATE LIMITED
2,292	57804	UNION PETROCHEM PVT.LTD.
2,293	78262	UNIPRO INFOTECH PVT LTD
2,294	21391	UNIQUE CARD BOARD BOX MFG. CO PVT LTD
2,295	57779	UNIQUE STERILE PVT.LTD.
2,296	79916	UNISTAR STRAW BOARD MILLS PVT LTD
2,297	46280	UNITED CLINIC PVT LTD
2,298	40046	UNITED ROAD CARRIERS PVT LTD
2,299	33467	UNITED STAMPINGS PVT LTD
2,300	65593	UNITED TELECOM SYSTEMS PVT.LTD.

2,301	29772	UNITED TRANSFORMERS PVT LTD
2,302	42659	UNITY EXPORTS PVT LTD
2,303	57071	UNITY SAVINGS & INVESTMENTS (INDIA) LTD.
2,304	57614	UNIVER FINANCE & INVESTMENT COMPANY PVT.LTD.
2,305	76144	UNLIMITED TECHNOLOGY PVT LTD
2,306	10887	UPPER INDIA INVESTMENT CORPN PVT LTD
2,307	63774	UPTECH PROJECTS PVT. LTD.
2,308	29849	URETHANE SYNTHETIC RUBBER CHEMICAL WORKS INDIA PVT LTD
2,309	48663	URSINHA PHARMACEUTICALS PVT LTD
2,310	30148	URVASI CHIT & INVESTMENT CO PVT LTD.
2,311	76185	URVI NIRMAN PVT LTD
2,312	82018	USHA DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED
2,313	75007	UTAMSEL COMMERCE PVT.LTD.
2,314	75993	U-TECH AUTO SERVICES PVT LTD
2,315	56516	UTKAL CREDIT & COMMERCE P LTD.
2,316	48224	UTPAL SEAL PROPERTIES PVT LTD
2,317	62262	UTSAV COMPUTERS PVT. LTD.
2,318	48163	V I P LABORATORY (INDIA) PVT LTD
2,319	56600	V K A EXPORTS LTD.
2,320	48295	V R MERCANTILE PVT LTD
2,321	63067	V.C. PROJECTS CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.

2,322 29421	V.I.P. NURSING HOME PVT LTD
2,323 76301	VAISHNOV ENGINEERS PVT LTD
2,324 54317	VALIANT SAVINGS & INVESTMENT INDIA LTD.
2,325 87921	VALKA FINCON (I) LIMITED
2,326 33983	VALMET (INDIA) LTD.
2,327 33460	VARIEGATE PVT LTD
2,328 56376	VARNALI DYECHEM PVT.LTD.
2,329 62742	VASCO COMMODITIES PVT. LTD.
2,330 33820	VASUKI INVESTMENTS LTD
2,331 76691	VASUNDHRA MARKETING PVT LTD
2,332 36234	VASUNDRA COMMERCIAL LTD
2,333 72010	VCK LAND & PROPERTIES PVT.LTD.
2,334 53862	VENTUS FISCAL SERVICES PVT. LTD.
2,335 78581	VENUS DEALING PVT LTD
2,336 55940	VEROMATA SAVINGS & CREDIT COMPANY LTD.
2,337 56440	VERONICA CREDIT & INVESTMENT COMPANY (INDIA) LTD.
2,338 78891	VETMED LABORATORIES PVT LTD
2,339 65284	VIBES TRAVELS & TOURS PVT.LTD.
2,340 44916	VIBGYOR LEATHER FINISHES PVT.TD.
2,341 54024	VICTORIA SAVIKNGS AND FINANCE LTD.
2,342 65107	VIDHUR LEAFIN PVT.LTD.

2,343	44422	VIDULA POLYMERS PVT LTD
2,344	63240	VIJAY COKE INDUSTRIES PVT.LTD.
2,345	33566	VIKRAM MOLECULAR PRODUCTS PVT LTD
2,346	55019	VINDHVASINI SALES AGENCY PVT.LTD.
2,347	79920	VINDHYAVASINI COMMERCIAL PVT LTD
2,348	70890	VINIYOGA SALES PVT.LTD.
2,349	64374	VINLINE DEALERS PVT. LTD.
2,350	55242	VINSENT HOUSING FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD
2,351	63340	VINSON DEVELOPERS LTD.
2,352	53529	VIPUL FINANCE & PROPERTIES PVT. LTD.
2,353	52983	VIRAT GANGA MERCANTILES PVT.LTD.
2,354	72118	VIREN TEA COMPANY PVT.LTD.
2,355	67644	VIRGINIA SILK PVT. LTD.
2,356	54246	VIRVEENA INVESTMENTS LTD.
2,357	75289	VISHRAM INVESTMENTS PVT.LTD.
2,358	60247	VISHWABASU MERCANTILES PVT. LTD.
2,359	55925	VMS CONSULTANTS PVT. LTD.
2,360	69865	VOLUNTUR TRADING PVT.LTD.
2,361	48185	VOMEX FINANCE ENTERPRISES PVT LTD
2,362	57787	VRD SULFONATORS PVT.LTD.
2,363	54039	WAFER FOOD & ALLIED PRODUCTS PVT LTD.

2,364	50314	WALLEM TEA GARDENS PVT LTD
2,365	82265	WAMIKA EXPORTS PRIVATE LIMITED.
2,366	33499	WARIDHI (INDIA) LTD.
2,367	56277	WAVE MEDICARE PVT. LTD.
2,368	44325	WAVES EXPORT PVT LTD
2,369	00045	WEBEL ELECTRONICS COMMUNICATION SYSTEM
2,370	33463	WEBEL PRECISION INDUSTRIES LTD
2,371	52576	WECON FINANCE PVT. LTD.
2,372	58513	WELFARE INTERNATIONAL ECONOMY FINCO LTD.
2,373	64118	WELGUARD COMMODEAL PVT. LTD.
2,374	57596	WELL ECONOMICAL INVESTMENT LTD.
2,375	59621	WELLCARE COMPLEX & FINANCE LTD.
2,376	60275	WELMED COMMERCIAL PVT. LTD.
2,377	66017	WENDER VANIJYA PVT.LTD.
2,378	58090	WENS IMPEX PVT. LTD.
2,379	20595	WEST BENGAL COAL DISTRIBUTION CO PVT LTD
2,380	39370	WEST END ENGINEERING PVT LTD
2,381	24639	WHITE FOAM PVT LTD
2,382	54906	WHITE LABEL SAVINGS & INVESTMENT COMPANY (INDIA) LTD.
2,383	87537	WHITE PLY PRIVATE LIMITED
2,384	67697	WHOLESOME VYAPAAR PVT. LTD.

2,385	53344	WILD WOOD RETREAT PVT. LTD.
2,386	59750	WILLY FLAIR ECONOMY FINVEST PVT. LTD.
2,387	61178	WINCOM EXIM PVT. LTD.
2,388	38614	WINWOOD CONSTRUCTION PVT LTD
2,389	57642	WISDOM ECONOMY & FINANCE INDIA PVT.LTD.
2,390	27514	WOOMA CHARAN KURMOKAR PVT LTD
2,391	37432	WRAPPERS & PACKERS(INDIA)PVT LTD
2,392	38763	Y.E.(INDIA) PVT LTD
2,393	62732	YASHOMATA COMMOTRADE PVT.LTD.
2,394	50887	YASHVARDHAN FABRICS PVT.LTD.
2,395	76464	YOJNA ENGINEERS PVT LTD
2,396	68722	YONEX FOOD PRODUCTS PVT. LTD.
2,397	8892	YOUNG BENGAL STORES PVT LTD
2,398	57274	YOUNG GENERATION FINANCE & INVESTMENT LTD.
2,399	14675	YOUNGMAN'S (JEWELLERS) PVT LTD
2,400	57632	YOUR LIFE GENERAL FINANCE & INVESTMENT (INDIA) LTD.
2,401	80319	ZED CONSULTANCY (INDIA) PVT.LTD.
2,402	31287	ZEIGLER RUBBER WORKS PVT.LTD.
2,403	52442	ZENITH WOOD BOARDS PVT. LTD.
2,404	64122	ZERRY VYAPAAR PVT. LTD.
2,405	53087	ZOETROPE ENGINEERING CO.PVT LTD.

D. BANDYOPADHYAY
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Coimbatore – 641005, the 30-01-2008

No. ROC/CBE/560(5)/2007 - Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved:-

Sl.No	COMPANY NAME	REG.NO
195	G S RAJA TEXTILE PRIVATE LIMITED	U17111TZ1981PTC001020
196	SHREE MEENAKSHI HYDRO-EQUIPMENT PRIVATE LIMITED	U29199TZ1981PTC001038
197	MEERAJ CHIT FUND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65992TZ1981PTC001050
198	VELMUR PAPER MILLS PRIVATE LIMITED	U21012TZ1981PTC001067
199	VEERAKRISHNA KUMARI ESTATES PRIVATE LIMITED	U01132TZ1981PTC001069
200	SUNDEEP KNITWEAVERS PRIVATE LIMITED	U18101TZ1981PTC001072
201	FABCODE PRIVATE LIMITED	U17219TZ1981PTC001110
202	ESSENTIAL FLORAL OILS (MADRAS) PRIVATE LIMITED	U01112TZ1987PTC002000
203	AKSHAYA HOUSING INVESTMENT (INDIA) LIMITED	U65993TZ1987PLC002019
204	S.G.F.INVESTMENT CO PRIVATE LIMITED	U65993TZ1987PTC002021
205	OM SAKTHI FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED	U27101TZ1987PTC002027
206	BELKS STEEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U27109TZ1987PTC002035
207	GREENAWICH LEASING CO. PRIVATE LIMITED	U65910TZ1987PTC002038
208	GANESH RAJA LEASING PRIVATE LIMITED	U65910TZ1987PTC002041
209	UNCOMPROMISING QUALITY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201TZ1987PTC002043
210	SERAA'S PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED	U29297TZ1987PTC002059
211	BLUMONT CARTONS PRIVATE LIMITED	U21012TZ1987PTC002065
212	KEVEKE TEXTILES MILLS PRIVATE LIMITED	U17115TZ1987PTC002080
213	AMIRTHA JOTHI CLOTH WEAVING MILLS PRIVATE LIMITED	U17219TZ1987PTC002092
214	ANANDA JOTHI WEAVING MILLS PRIVATE LIMITED	U17219TZ1987PTC002093
215	RASI APPARELS PRIVATE LIMITED	U18101TZ1988PTC002109
216	QUEBEC TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17115TZ1988PTC002114
217	VIVIN FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65921TZ1988PTC002115
218	UDHAYAM ELECTRODES PRIVATE LIMITED	U31200TZ1988PTC002132
219	MARUTHI DRUGS PRIVATE LIMITED	U26916TZ1988PTC002137
220	ONN DOT EXPORTS PRIVATE LIMITED	U29199TZ1988PTC002144
221	ALLAMMA MACHINE WORKS PRIVATE LIMITED	U29199TZ1988PTC002145
222	K.G.A.C.CHIT FUNDS FINANCE PRIVATE LIMITED	U65921TZ1988PTC002152
223	GUHAN PRINTS PRIVATE LIMITED	U29294TZ1988PTC002156
224	PRIME RUBBER PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U02511TZ1988PTC002163
225	A TO Z FUNDS LIMITED	U65992TZ1988PLC002165
226	GURU CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED	U65992TZ1988PTC002166
227	NAN FINANCING PRIVATE LIMITED	U65921TZ1988PTC002170
228	SRI SAKTHY SQUARE TOOLS PRIVATE LIMITED	U27310TZ1988PTC002175
229	SRI RAMAJAYAM TRADE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65993TZ1988PTC002176

230	PARASAKTHI ELEKTRONIX PRIVATE LIMITED	U31909TZ1988PTC002184
231	ESS VIJEY METAL FINISHERS PRIVATE LIMITED	U29230TZ1988PTC002193
232	MITTSO SERVICES PRIVATE LIMITED	U52110TZ1988PTC002205
233	KONI LEASING AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED.	U65993TZ1988PTC002209
234	ULTRA WELD PRIVATE LIMITED.	U31103TZ1988PTC002214
235	K G A C LEASING PRIVATE LIMITED	U65910TZ1988PTC002222
236	ANCHAR APPARELS PRIVATE LIMITED	U18101TZ1988PTC002234
237	SUDERSAN ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U99999TZ1988PLC002253
238	SOFT BASE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200TZ1988PTC002258
239	LAVANYA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U31200TZ1988PTC002268
240	MAHARANI CHEMICALS AND DISTILLERIES PRIVATE LIMITED	U26916TZ1988PTC002272
241	VIGNESH METALS PRIVATE LIMITED	U29230TZ1991PTC003123
242	KONI COMPUTER FORMS PRIVATE LIMITED	U30007TZ1991PTC003127
243	SRINITHI SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED	U17111TZ1991PTC003135
244	WELLSPIN TEX PRIVATE LIMITED	U17115TZ1991PTC003144
245	REGO TEX PRIVATE LIMITED	U17115TZ1991PTC003151
246	SUMNI SPINNERS PRIVATE.LIMITED.	U17111TZ1991PTC003165
247	MANIMALAI KAMGGASABAI SPINNING MILLS PRIVATE. LIMITED.	U17111TZ1991PTC003166
248	JAYAVINAYAKAR AND MAHALAKSHMI MILLS PRIVATE. LIMITED.	U17115TZ1991PTC003170
249	SRI BANNARI AMMAN GARMENTS PRIVATE. LIMITED.	U18101TZ1991PTC003180
250	SUPREME FERTILIZERS AND PESTICIDES PRIVATE.LIMITED.	U26916TZ1991PTC003208
251	ERULAPPA SPINNERS PRIVATE. LIMITED.	U17111TZ1991PTC003209
252	RAJALAKSHMI FABRICS PRIVATE. LIMITED.	U17219TZ1991PTC003233
253	KARUMALAIAI ROTO SPINNERS LIMITED.	U17111TZ1991PLC003248
254	EM KAY PEE EXPORTS PRIVATE.LIMITED.	U27310TZ1991PTC003253
255	SHRI THAI SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED	U17111TZ1991PTC003261
256	SREE RAJAKONDALU CARDS PRIVATE LIMITED	U29199TZ1991PTC003270
257	KRISHNA RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101TZ1991PTC003281
258	KOCHI CHANNELS PRIVATE LIMITED	U72200TZ1991PTC003282
259	NATARAJA FABRICS PRIVATE LIMITED	U17219TZ1991PTC003286
260	SAHUNTALA TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17115TZ1991PTC003292
261	JHA TEXTILES AND APPARELS EXPORTERS PRIVATE LIMITED	U18101TZ1991PTC003299
262	PRANAVA SPINNERS PRIVATE LIMITED,	U17111TZ1991PTC003319
263	DESIGNS CORRUGATED PACKAGING PRIVATE LIMITED,	U02102TZ1991PTC003325
264	DEEBEE MACHINES PRIVATE LIMITED,	U29120TZ1991PTC003328
265	SHARP COMPUTER FORMS PRIVATE LIMITED,	U72200TZ1991PTC003334
266	AMRITHA FASHION GARMENTS PRIVATE LIMITED,	U18101TZ1991PTC003341
267	CANEY JUICES PRIVATE LIMITED,	U01134TZ1991PTC003342
268	VIKAAS SOAPS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED,	U24241TZ1991PTC003367
269	ZIGMA KNITTERS PRIVATE LIMITED,	U29262TZ1991PTC003372
270	GLOSSY TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17115TZ1991PTC003380
271	COIMBATORE VIJAY ENGINEERING PRIVATE LIMITED,	U14101TZ1991PTC003412
272	RISE SECURITIES AND SHARES PRIVATE LIMITED,	U67120TZ1991PTC003430
273	POINT TO POINT COURIERS PRIVATE LIMITED,	U06301TZ1991PTC003445
274	NAYAGARA EXPORTS PRIVATE LIMITED,	U05110TZ1991PTC003459
275	KOVAI SRI BALAJI REAL ESTATE PRIVATE LIMITED,	U70101TZ1991PTC003475
276	SRI BAGYA STEELS PRIVATE LIMITED,	U27101TZ1991PTC003480
277	J.R. MINERALS PRIVATE LIMITED	U15543TZ1991PTC003501
278	WESTERN GHAT RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101TZ1991PTC003502

279	MURUGAN STEELS PRIVATE LIMITED	U27109TZ1991PTC003503
280	JANANI ALLOY CASTINGS PRIVATE LIMITED	U27101TZ1991PTC003504
281	RAKSHA METALS AND METALLURGICALS PRIVATE LIMITED,	U29230TZ1991PTC003514
282	SREE ANJANEYA TRAILERS PRIVATE LIMITED	U99999TZ1991PLC003524
283	SUN INDUSTRIAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED,	U31103TZ1992PTC003614
284	ROYAL SHOES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U19201TZ1992PTC003627
285	KATHIRESA RAJA SOLVENTS PRIVATE LIMITED	U26916TZ1992PTC003632
286	SURIYA LAKSHMI TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17115TZ1992PTC003659
287	SRI JANAKIRAM CHIT PRIVATE LIMITED	U65992TZ1996PTC006915
288	BHAIRAVI FOODS AND BEVERAGES LIMITED	U01551TZ1996PLC006918
289	VIJIRAM FINANCE PRIVATE LIMITED	U65921TZ1996PTC006927
290	SREE RENG A ENDERLEIN TEX-STYLES MILL LIMITED	U17111TZ1996PLC006929
291	PHOENIX FIRMWARES AND APPLIANCES PRIVATE LIMITED	U03000TZ1996PTC006932
292	S.S.S. TRANSPORT PRIVATE LIMITED	U60210TZ1996PTC006933
293	TULIP TRADE OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U05150TZ1996PTC006942
294	BRINDHA INDUSTRIAL FILTERS PRIVATE LIMITED	U29197TZ1996PTC006943
295	ACETRON ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U03210TZ1996PTC006946
296	HOTEL RISHABAM PRIVATE LIMITED	U55101TZ1996PTC006953
297	APRA AGRI PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U00113TZ1996PTC006955
298	AMAR JUTE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U17119TZ1996PTC006972
299	KAUSALYA RAAM MACHINE WORK PRIVATE LIMITED	U02926TZ1996PTC006973
300	HI-TECH CUT FLOWER FARMS PRIVATE LIMITED	U00113TZ1996PTC006975
301	SHANMUGA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	U00113TZ1996PTC006976
302	KUMARAN AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	U00113TZ1996PTC006977
303	RAJPOORNAS CHITS PRIVATE LIMITED	U65992TZ1996PTC006981
304	CHERAN PAPER AND BOARDS PRIVATE LIMITED	U02101TZ1996PTC006994
305	SUTHARA CHIT FUND PRIVATE LIMITED	U65992TZ1996PTC006999
306	DIAMOND GOAT FARM INDIA PRIVATE LIMITED	U01212TZ1996PTC007000
307	TEAM KNIT PRIVATE LIMITED	U01730TZ1996PTC007004
308	SUPREME VIKAS CARDS PRIVATE LIMITED	U74994TZ1996PTC007005
309	NRS EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED	U05110TZ1996PTC007008
310	VASANTHA BAALAJI STEEL AND INGOT PRIVATE LIMITED	U27310TZ1996PTC007011
311	FRONTLINE BENEFIT FUND LIMITED	U65991TZ1996PLC007016
312	PUKAL FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U65910TZ1996PTC007020
313	NAMBIYUR SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED	U17111TZ1996PTC007023
314	WEWILL AUTOPIN PRIVATE LIMITED	U35999TZ1996PTC007034
315	BALAMURALI SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED	U17111TZ1996PTC007040
316	SRI MAYEE CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED	U65992TZ1996PTC007041
317	MODERN GOAT FARM PRIVATE LIMITED	U01212TZ1996PTC007042
318	SRI SABTHAGIRIVASAN REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70101TZ1996PTC007043
319	SRI SABTHAGIRIVASAN HIREPURCHASE AND LEASING PRIVATE LIMITED	U65921TZ1996PTC007044
320	LATHIKA HERBS PRIVATE LIMITED	U00113TZ1996PTC007047
321	COIMBATORE HITECH FOUNDRIES PRIVATE LIMITED	U02710TZ1996PTC007052
322	NEELAMALAI PESTICIDES AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24219TZ1996PTC007056
323	NEELAMALAI WAREHOUSE PRIVATE LIMITED	U06302TZ1996PTC007057
324	PARKAAVI CLOTH MILL PRIVATE LIMITED	U17111TZ1996PTC007058
325	SRI APPAYEE LEASE AND FINANCING PRIVATE LIMITED	U65910TZ1996PTC007065
326	V.G.P. PAPER MILLS PRIVATE LIMITED	U17111TZ1996PTC007070
327	VIVEGAM ANIMAL FARMS PRIVATE LIMITED	U00121TZ1996PTC007080

328	KUDUMBAM FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65921TZ1996PTC007082
329	DEVISHETTY THAALLAM COT SPIN PRIVATE LIMITED	U17111TZ1996PTC007084
330	P.K.K.FINANCE PRIVATE LIMITED	U65921TZ1996PTC007096
331	A.U.G. FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65999TZ1996PTC007101
332	SEARCH AND RESEARCH LABS PRIVATE LIMITED	U85195TZ1996PTC007104
333	ESSEN NUTRITION PRIVATE LIMITED	U01549TZ1996PTC007105
334	KARTHIKANATH CHITS PRIVATE LIMITED	U65992TZ1996PTC007106
335	ALAGAPPAN SIVAGAMI CHIT PRIVATE LIMITED	U65992TZ1996PTC007111
336	TELE TRENDS PRIVATE LIMITED	U03230TZ1996PTC007117
337	MASSHA SECURITIES LIMITED	U67120TZ1996PLC007124
338	SRI SIDDAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U00113TZ1996PTC007130
339	SAMSUN TEXTILES LIMITED	U17111TZ1996PLC007133
340	P.K.R IMPOEX PRIVATE LIMITED	U05131TZ1996PTC007135
341	KODAI GOLDEN PARK PRIVATE LIMITED	U01122TZ1999PTC008727
342	ANTIGUA CLOTHINGS PRIVATE LIMITED	U17219TZ1999PTC008735
343	B.S.R. FABBS PRIVATE LIMITED	U17219TZ1999PTC008739
344	EDDY MOTOR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U29120TZ1999PTC008750
345	SKMP PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U01409TZ1999PTC008754
346	VIJAYSAKTHI STEELS AND ALLOYS PRIVATE LIMITED	U02710TZ1996PTC007499
347	HOSUR POWER ELECTRICALS PRIVATE LIMITED	U03110TZ1996PTC007497
348	ASHVIKA COTTON MILLS PRIVATE LIMITED	U17111TZ1996PTC007492
349	ACHME PALMER COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U05121TZ1996PTC007484
350	RASI SURGICAL COTTON PRIVATE LIMITED	U17111TZ1996PTC007500
351	DIANI FASHIONS PRIVATE LIMITED	U18101TZ1996PTC007511
352	SARVODAYA SECURITY SERVICE PRIVATE LIMITED	U85320TZ1996PTC007518
353	TENX FLEXFAB PRIVATE LIMITED	U18101TZ1996PTC007519
354	ALLY TRADE FAIR AND EXPOSITIONS PRIVATE LIMITED	U07499TZ1996PTC007524
355	R.S.R.FARMS PRIVATE LIMITED	U00121TZ1996PTC007561
356	BUDBREAK TEA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U15491TZ1996PTC007565
357	YOKSHEMA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U06420TZ1996PTC007566
358	BHADRAVATHY CHITS PRIVATE LIMITED	U65992TZ1996PTC007568
359	GAJENDRA TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17111TZ1996PTC007541
360	YELLOW WINGS EXPORTS PRIVATE LIMITED	U05121TZ1996PTC007582
361	SRI SHARADA BHARATHI STEELS PRIVATE LIMITED	U02710TZ1996PTC007555
362	GOLDEN RENI EXPORT AND IMPORT COMPANY PRIVATE LIMITED	U05121TZ1996PTC007584
363	FRONTLINE HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101TZ1996PTC007585
364	DHANDAPANI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED	U65992TZ1996PTC007594
365	SRI MURUGAN POLY WORKS PRIVATE LIMITED	U02520TZ1996PTC007595
366	BHAVANI SEEDS AND AGRO PRODUCTS LIMITED	U00113TZ1990PLC007606
367	GOLD COUNTRY HITECH FARMS LIMITED	U00113TZ1996PLC007616
368	PALLIPALAYAM AGRO PRIVATE LIMITED	U00113TZ1996PTC007611
369	VELLIMALAI FARMS PRIVATE LIMITED	U00121TZ1996PTC007635
370	CASTLE CLUBS AND FARMS PRIVATE LIMITED	U55101TZ1996PTC007637
371	GANGA CAPS AND CLOSURES PRIVATE LIMITED	U02899TZ1997PTC007667
372	HANU DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201TZ1997PTC007698
373	LNM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED	U65992TZ1997PTC007699
374	VERTEBRA SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U07499TZ1997PTC007718
375	RAJAGANAPATHY SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED	U17111TZ1997PTC007704
376	BORDING BELLOWS INDIA PRIVATE LIMITED	U03699TZ1997PTC007726
377	COUNTY FARMS PRIVATE LIMITED	U00113TZ1997PTC007731

378	PAGO FIBRES PRIVATE LIMITED	
379	RENNI TRAVELS AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U02430TZ1997PTC007735
380	BENSON AND LINSON FOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63040TZ1997PTC007743
381	SHOBANAA GENNSET LIMITED	U01549TZ1997PTC007742
382	MAK -SENNAPPA FARMS PRIVATE LIMITED	U29119TZ1996PLC007488
383	GOOD RICH HILLS RESORTS AND CLUBS PRIVATE LIMITED	U00113TZ1996PTC007540
384	PRIME - SUN SERVICES PRIVATE LIMITED	U55101TZ1996PTC007506
385	GHANDHIJAYAM TEXTILES INDUSTRIES LIMITED	U93090TZ1996PTC007530
386	KAARTHIC FOUNDRY EQUIPMENT PRIVATE LIMITED	U17111TZ1996PLC007605
387	VMP TEX ENVIRO PRIVATE LIMITED	U29199TZ1997PTC007725
388	HEMIK ACCOMMODATION PRIVATE LIMITED	U90009TZ1997PTC007669
389	TENX HOLIDAY SERVICES PRIVATE LIMITED	U45201TZ1997PTC007656
390	KRISHNASUKKRA CHITS PRIVATE LIMITED	U74930TZ1997PTC007647
391	LOOM-ART APPARELS PRIVATE LIMITED	U65992TZ1997PTC007646
392	KONGU CHEMICALS PRIVATE. LIMITED.	U18101TZ1996PTC007496
393	EVEREST SPINNING MILLS PRIVATE. LIMITED.	U26916TZ1989PTC002438
394	KDS HEALTH HEALER PRIVATE. LIMITED.	U17111TZ1989PTC002442
395	SRI ARANGANATHAR SECURITIES PRIVATE LIMITED.	U24231TZ1989PTC002444
396	DOMI TUBES PRIVATE LIMITED.	U67210TZ1989PTC002453
397	RAGAM EXPORT PRIVATE. LIMITED.	U02511TZ1989PTC002464
398	S.V.G. MARKETING AGENCIES PRIVATE. LIMITED.	U18101TZ1989PTC002490
399	VG ENGINEERS AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	U52110TZ1989PTC002492
400	S.K.THI ALTECH PRIVATE. LIMITED.	U91200TZ1989PTC002493
401	DEV SANKARI SPINNING MILLS PRIVATE. LIMITED.	U72200TZ1989PTC002494
402	MELGAY FASHIONS EXPORTS PRIVATE LIMITED	U17111TZ1989PTC002522
403	SUN TE PRIVATE LIMITED	U05110TZ1989PTC002546
404	RAG PL TO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U01132TZ1989PTC002548
405	SHRIRAM POWER PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U31200TZ1989PTC002332
406	MURUGAN ENNERS PRIVATE LIMITED	U31200TZ1989PTC002337
407	SHAILASHREE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U17111TZ1983PTC001354
408	SEDBEL QUAR AND GRAPHITE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.	U31200TZ1989PTC002328
409	SRI LAKSHMI AG. PRODUCTS PRIVATE LIMITED.	U33302TZ1989PTC002346
410	KAUSI ENGINEER, PRIVATE LIMITED	U29214TZ1988PTC002317
411	RAMPRAKASH MILL, PRIVATE LIMITED	U29191TZ1983PTC001347
412	BODIPATTI RAJADUR, TRANSPORTS AND AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED	U17111TZ1983PTC001306
413	KAVERY FRUCTOSE PRIVATE LIMITED	U60210TZ1983PTC001315
414	A.P.K. TEXTILES PRIVATE LIMITED	U15322TZ1988PTC002281
415	SAROMA CASTEEL LIMITED	U17111TZ1983PTC001322
416	EIMARA ELECTRONICS PRIVATE	U27310TZ1983PLC001328
417	COROMANDAL WIRE SALES PRIVATE LIMITED	U31103TZ1988PTC002314
418	OOTY ROBROY TEA PRIVATE LIMITED	U31902TZ1988PTC002302
419	KOVAI CONSTRUCTIONS PRIVATE	U01132TZ1988PTC002286
420	JAGDEV PULPINGS PRIVATE LIMITED.	U45201TZ1988PTC002291
421	VICTORE ENGINEERING PRIVATE LIM.	U31902TZ1988PTC002315
422	KANDASAMY WEAVING FACTORY PRIVATE	U29191TZ1982PTC001227
423	R S D G REFRACTORIES PRIVATE LIMITED	U17111TZ1982PTC001242
424	THE KOVAIWSTEELS PRIVATE LIMITED	U27310TZ1982PTC001204
425	KAIRALI SURGI AIDS PRIVATE LIMITED	U27109TZ1982PTC001201
426	YESTEE GRANITE PRIVATE LIMITED.	U85110TZ1989PTC002331
		U14102TZ1989PTC002348

427	ANNADHANI CHIT FUND PRIVATE LIMITED	U65992TZ1989PTC002358
428	KINGSTONE GRANITES PRIVATE LIMITED	U14102TZ1989PTC002374
429	CAUVERY STARCH PRODUCTS EXPORTS PRIVATE LIMITED	U15321TZ1989PTC002394
430	JOWIRA EXPORTS PRIVATE LIMITED	U18101TZ1989PTC002397
431	M.P. MOTOR PUMPS PRIVATE LIMITED	U29120TZ1989PTC002398
432	PREM GRANITES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U14102TZ1989PTC002408
433	MARS AUTO COMPONENTS PRIVATE. LIMITED.	U50200TZ1989PTC002415
434	SRUSTI STRUCTURALS PRIVATE. LIMITED.	U28112TZ1989PTC002428
435	HOSUR PRECISION PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U29230TZ1988PTC002304
436	ISWARYA VALLI FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65921TZ1997PTC007727
437	JANAHA DREAM MAKERS HOUSING FINANCE LIMITED	U65922TZ1996PLC007602
438	VINICY FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U65921TZ1996PTC007634
439	SRI DHANSURYA FINANCE PRIVATE LIMITED	U65921TZ1997PTC007715
440	SRI VIJAYARAJA FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED	U65921TZ1997PTC007694
441	STAR AND JUPITER FINANCE AND INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED	U65921TZ1996PTC007546
442	ECLAST FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65921TZ1983PTC001304
443	MANICKAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED	U65992TZ1982PTC001223
444	AJS AUTO FINANCE PRIVATE LIMITED	U65921TZ1989PTC002321
445	BLUE MOUNTAIN PLANTATIONS PRIVATE LIMITED.	U02001TZ1989PTC002455
446	SUPER PLANTATIONS PRIVATE LIMITED.	U02001TZ1989PTC002454
447	KODAI FLOUR MILL PRIVATE LIMITED	U15311TZ1982PTC001237
448	SALEM VANNANAGAR DYEING COMMON EFFLUENT TREATMENT COMPANY LIMITED	U9009TZ1997PLC007760
449	TITANIC IMPEX PRIVATE LIMITED	U05110TZ1999PTC008646
450	TAMARAI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	U01300TZ1998PTC008668
451	PRIYA AND PRIYA CELL SERVICES PRIVATE LIMITED	U64201TZ1998PTC008680
452	ANVIN ROTOPLAST PRIVATE LIMITED	U29199TZ1999PTC008702
453	TARGET AGRO PROMOTERS PRIVATE LIMITED	U0146TZ1999PTC008709
454	POLLACHI DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED	U0146TZ1999PTC008710

P. RAJAGOPALAN
Registrar of Companies
Tamilnadu.

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Patna-800 001, the 30th January 2008

No. ROC/PAT/560(3)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that on the expiry of three months from the date hereof, the names of the following Companies, unless cause is shown to contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	2631	M/s Minar Constructions Private Limited
2.	9211	M/s Mishra Medicare Private Limited
3.	2153	M/s Chitragupta Films Private Limited
4.	9635	M/s Mythol Technology House Private Limited
5.	6127	M/s Indradhan Finance Co. Private Limited

1	2	3
6.	5188	M/s. Continental Organic Industries Limited
7.	5492	M/s. Askos Economy Development Limited

K. PRASAD
Registrar of Companies,
Bihar & Jharkhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Quicksoft Systems Private Limited

Ernakulam-682 021, the 29th January 2008

No. u/s. 560(3) MCA/ROC-Ernakulam/Sec. 560/2008/00004—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Quicksoft Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

AMEERUL MILLATH S M
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep